

फैमल करां अर वहीत अपनायत इखलास जाहर कीयो। तत्र खानाजाद कहीं ज हमारी वातो मैं अमीरल उमराव है। अब खानजहां बहादुर कुं हम वातो मैं डाले अर अमीरल उमराव मुदई होय तो खानजहां बहादुर सू क्या होयती, पर वां कहीं—मतालव होय मुं लिख दो मैं खानजहां बहादुर सुं कहंगा अमीरल उमराव मुदई होयगा जो कुवत रखो हो जू हम करैगे सुं होयगा तो वात मैं पड़ो नुं मतलव हजूर सू लिख्या आया था सो लिख दिया। या सिवाय ईजाफा माकूल होय श्री जी नै उज्जैण की सूवैदारी होय महाराजा नै गुजरात को सूवो होय नुं अब हामद खां खानजहां बहादुर नै मतलव दिखा सी जो कबूल करसी। तब खानाजाद लिखवत मैं रदबदल करसी जो पकी निसां कर देसी तो हजूर नै अरजदासत कर सुं। हजूर मैं श्री जी की खातर मुवारक मैं पसन्द आसी तो मुकदमां वांसू रजू करस्यां अर जो खानाजाद की ही खातर जमां न हुई तो वैसी ही अरजदासत कर सुं जी।

॥ श्री महाराजा जी सलामत। रायं घासीराम हीदायत केस खां वाका तीगार कुल को पेसदसती.....मोजपुर सरकार अरुवरावाद मैं ३,५५,००० दाम हं। सो आगै तो किसनसिध नरुका कैं ईजारै थो सौ वैकी कबूलीयत की नकल हजूर भेजी है। सो नजर मुवारक गुजारसी अब खानाजाद सी म्हाने<sup>१</sup> सरकार मैं ईजारे लियो है सो कसवा मजकूर मैं सरकार को अमल ही है। उमीदवार हु जु वैकी नीसां इनायत होय जी।

॥ श्री महाराजा जी सलामत। गाजी को थानो सरकार मैं ईजारे लियो है। ये गोबन्दराम सराफ पाणीपथयां की जामनी भागै है सुं उमैदवार हु जु गोबन्दराय की जामनी इनायत होय जी जुं पट्टो लिखायलां जी।

॥ श्री महाराजा जी सलामत। परवानो खानाजाद नवाजी को पांच सावान को लिखो मितो भादवा सुदी १० मैं इनायत हुवो। तमाम सरफराजी व खानाजाद नवाजी हुई जी तसलीमात वजाय लाय सीर चढ़ाय लिया जी। हुकम आयो जुं पूरा जात<sup>२</sup> की सनद अब तक तैयार कराय हजूर न भेजी सुं अब तैयार कर हजूर भेजजो। सुं श्री महाराजा जी सलामत। पुरा जात का परवाना दफतर सुं तयार कराया पण राजा सभा चंद अटकाया है कहे है तुम सांभर सुं थानो उठावोगे तब परवाना देगे सुं अब तो यांमूं सांभर का ईजारा की रदबदल डाली है जो या रदबदल ठहरो तो परवाना सीताव हजूर भेजु हूं जी।

॥ श्री महाराजा जी सलामत। राह खानाजाद नवाजी कैं हुंडी रगया दोय हजार की इनायत हुई थी सुं पहुंची। तमाम सरफराजी व खानाजादनवाजी हुई

1. तीन माह की जमा पर।

2. नगूनं बीरदरी।

# Vakil Reports Maharajgan

(1693-1712 A.D.)

G. D. Sharma



RĀDHĀ KRISHNA

1986

©

Dr. G.D. Sharma  
Baroda

The publication of this book was financially supported by the Indian Council of Historical Research, and the responsibility for the facts stated, opinions expressed or conclusions reached, is entirely that of the author and the Indian Council of Historical Research accepts no responsibility for them.

First Edition

1987

Published by  
Radha Krishna Prakashan Pvt. Ltd.,  
2/38, Ansari Road, Daryaganj,  
New Delhi-110002

Printed by  
Kaushik Printing Press,  
Subhash Park, Naveen Shahdara,  
Delhi-110032

## FOREWORD

The history of medieval India which has been made available to the students today is primarily based on the accounts of Court chroniclers or those available in the official records in Persian. The indigenous records in Rajasthani available in the Rajasthan State Archives have opened an additional vista of contemporary source material which is of first-hand nature.

Since the Rajput rulers were invariably posted far away from the Mughal Court or from their Watan, it was rather imperative on their part to have a Vakil (personal representative) posted at the Mughal Court to watch the developments and safeguard their interests. These Vakils, at times, developed such an intimacy with the high officials or even with the Emperor that at times their words carried weight and they could even make or mar the image of their masters.

The State archives has been publishing descriptive lists of such source material during the last one decade or so, so that researchers of medieval Indian history may make use of this hitherto little known material in their research work. This volume on Vakil Reports Maharajgan (1693—1712 A.D.) captured the imagination of Dr. Sharma as this contained documents which are simply fascinating both in term of their details and description. As the edited documents of the present volume would show, besides, giving a lot of political information on the kaldeidoscopic changes at the court, they provide useful details on the economic decadance, rampant corruption even in the higher echelon of the Mughal officials; and which infact had been eating up the vital sap of the empire in a rather unnoticed manner.

## ACKNOWLEDGEMENTS

The completion of the present volume of the Vakil Reports is a denouement of the encouragement and help I received from my teachers, friends and research organizations. It was during my tenure as a Research Assistant at the Jawaharlal Nehru University, New Delhi (Nov. 1970 to Nov. 1974) that my teacher Professor Satish Chandra drew attention to the Vakil Reports Maharajgan as an important indigenous source for Mughal history, particularly that of Rajasthan. His guidance and suggestions in course of editing this volume have been of immense value to me, for which I am indebted to him. I am also grateful to Professor S. Nurul Hasan and the late Professor S.C. Misra for providing me valuable suggestions for the editing of this volume.

My thanks are due to my colleague Dr. S. Hasan Mahmud and my friend Dr. Rafaqat Ali Khan of Jamia Millia Islamia, New Delhi for their suggestions in finalizing the text and the introduction. I must also thank my friend Dr. Dilbagh Singh of Jawaharlal Nehru University, New Delhi who worked hard in getting this book published in time.

I am grateful to Shri J.K. Jain, Director Rajasthan State Archives, Bikaner and his staff for providing me all possible facilities for publishing these reports in the present form. It is Mr. Jain's personal interest in promoting the research based on original archival material that has gone into the making of this volume. I am grateful to him for this as also for acceding to my request for a Foreword.

I take this opportunity to thank the authorities of the Indian Council of Historical Research, New Delhi for providing me financial assistance for this project and also for the publication of the present volume.

G. D. Sharma

26 February, 1986



## Introduction

The documents presented in this volume have been preserved and classified as *Vakil Reports Maharajgan* in the Archival collection of the Historical Records at the Rajasthan State Archives, Bikaner. They are in the form of *arzdasht* written in *hindvi* incorporating the Rajasthani and Persian dialects. These reports include the *arzdashts* addressed to the Maharajas of Amber by the vakils as well as the *diwans* of Amber and Jodhpur posted at the court of the Mughal emperors. It is noteworthy that during the reigns of Bahadur Shah and Jahandar Shah, both Maharaja Jai Singh and Ajit Singh had kept their *diwans* at the emperor's court. Besides the vakil, the *diwans* also sent their *arzdashts* to Maharaja Jai Singh informing him about the various developments at the court. As the matter contained in the *diwans'* *arzdashts* is either complimentary or provides additional information on the subjects recorded in the *arzdashts* of the vakils, they have also been incorporated in the present volume.

It was a common practice among the nobles and the princes to keep accredited representatives at the imperial court. The Mughal *umara* were obliged to serve in any part of the vast empire and were periodically transferred from one region to another, quite often, along with their *jagirs*. The practice of periodic transfers kept the *umara* away from the imperial court—the nerve centre of the empire where the scribe of destiny played with the fortune of the highest and the lowest of the officers, where the powerful ministers fell like autumn leaves and the adventurists made their fortunes. The *umara* had to depend upon the imperial court

for the grant of *mansab*, fixation of salary, assignment of *jagir*, postings and increment in *masab*, etc. The functional politics, rat race for power at the imperial court and, of course, the imperial orders had such an immense bearing on their career that it was only natural for them to keep a watchful eye on the developments at the court. For this purpose they appointed an official representative known as *vakil* at the court who was fully authorised to represent his patron at the court. The necessity of appointing the *vakil* by the Rajput Rajas was all the more important because they had not only to safeguard their interests like *mansabdars* but they had also to protect their privileges as *watandars*, a position so unique and distinctive that they became an object of envy among the *mansabdars* holding similar ranks.

In fact, the *vakil* served as a hot line link between the Rajput Raja and the Mughal Emperor or the court. Being the representative of his Raja he was directly responsible to him and therefore worked in consultation with him in all matters affecting his interests directly or indirectly. It was in the process of getting the Raja's advice on the matters relating to the court that he dispatched his detailed reports on the affairs of the Mughal court.

The *vakils* of the Rajput rulers were obliged to uphold the integrity and honour of their Rajas at Mughal court. They worked hard to maintain their high reputation at the court. However, while doing their best for their Rajas, they had also to humour the confidence of the Mughal Emperor. It was the latter part of their endeavour that required the *vakils* to keep cordial relations and seek the confidence of the influential *umara* of the Mughal court. The *vakils* of Rajput Rajas enjoyed high position at the Mughal court but they could be subjected to punishment if they made false representation or misguided the emperor.

The *arzdashts* included in this volume cover the period from A.D. 1692 to 1712, a phase which witnessed to the fast deterioration in the administration and finance, the sharpening of the inherent contradictions in the Mughal institutions and the multiplicity of interests which ultimately culminated



in the total disintegration of the Mughal empire. Unfortunately, the present collection does not contain *arzdashts* between May 1707 and February 1710 due to the war of succession among the sons of Aurangzeb and the conflict between Emperor Bahadur Shah and the Rajas of Amber and Jodhpur. It was only after Bahadur Shah had successfully eliminated his rivals and made a triumphant entry into the North that these Rajas appointed their vakils or *diwans* at the Mughal court, who started their regular correspondence with Maharaja Jai Singh of Amber. The details contained in the *arzdashts* presented here cover a wide spectrum of informations on the Mughal-Rajput relations, affairs pertaining to the military operations, the Jat affairs, Bahadur Shah's relations with the Sikhs, the court intrigues and politics, the *watan* rights and the *jagir* system, the *ijara* system, *mansabdari*, the working of *hundi*, etc. A few scholars working on Rajput history have utilized information available in these *arzdashts* in the recent years in a limited manner.<sup>1</sup> However, the information contained in these reports is so rich in its scope and covers such variety of subjects that its availability to researchers in printed form shall help in initiating fresh studies and examining problems which have hitherto remained unsolved.

The *arzdashts* (Nos. 1 to 12) belong to the last few years of Aurangzeb's reign and the accession of Prince Azam in Deccan (January 1692-April 1707). They contain valuable information on the position and role of Maharaja Bishan Singh and Jai Singh at the Mughal court during the reign of Aurangzeb. Maharaja Bishan Singh continued his efforts to secure the confidence of the Emperor and high rank and assignment in the Mughal empire, kept himself engaged

- 
1. See, Satish Chandra, *Parties and Politics at the Mughal Court*, (2nd ed., New Delhi, 1972), 291-98; V.S. Bhargava, *Life and Times of Sawai Jai Singh* (Delhi, 1974), 350; G.D. Sharma, *Rajput Polity* (New Delhi, 1977); V.S. Bhargava, *The Rise of the Kachhawas in Dhundhar* (Ajmer, 1979), 214.

mostly in the Jat affairs during his tenure as the Raja of Amber and a Mughal *mansabdar* except for the last years of his life when he was appointed with Prince Muazzam in *suba* Kabul (1698-99). The *arzdashts* (1 to 6) acquaint us with the activities and assessment of Maharaja Bishan Singh in respect to his achievements and failure against the Jats and the court politics. *Arzdasht* dated *Magha Vadi* 13, 1748 (January 6, 1692) informs that when Aurangzeb came to know about Maharaja Bishan Singh's initiative to rehabilitate the Jats in the Mathura region, he got so annoyed that he ordered a reduction of 500 *zat* (unconditional) and 500 *sawar* (conditional) from the Maharaja's *mansab* and also that of 65 *lakhs dams* of the *inam*.

Consequently the *parganas* of Toda Bhim and Chatsu were taken away from Maharaja Bishan Singh and assigned to other *mansabdars*. However, the vakil of the Maharaja succeeded in the restoration of former rank as well as the *inam* to the Maharaja. The Maharaja's success in capturing the fort of Baroda (Mewat) had helped him to re-establish his loyalty and devotion to the Emperor<sup>1</sup> and enabled him (Bishan Singh) to secure Bayana and the dispatch of the order of the assignment of the *parganas* of Hindaun, Toda Bhim, Udai, etc. to the Maharaja.<sup>2</sup> The details furnished in these reports reveal that although the vakil of Maharaja Bishan Singh visualized a great deal of opportunity for advancement and favour in terms of the bestowal of the *faujdari* of Mathura and Agra as well as good *jagirs* if Bishan Singh attended the Emperor in Deccan and met the Amirul Umara in order to clarify his position.<sup>3</sup>

The contents of these *arzdashts* also throw valuable light on the Mughal court politics as it developed during the last few years of Aurangzeb's reign and the policy adopted by

- 
1. *Arzdasht* dated Vaishakha Sudi 8, 1750 (May 3, 1693).
  2. *Arzdasht* dated Ashada Vadi 8, 1750 (June 16, 1693).
  3. *Arzdashts* dated Jyeshtha Vadi 5, 1753 (May 11, 1696) and Bhadrapada Sudi 6, 1753 (August 23, 1696).

Prince Azam and *wazir* Asad Khan just after the death of Aurangzeb. It is evident that due to the deterioration in the health of Aurangzeb, the attendants and petty officials such as Khwaja Mehran Khan, Hafiz Ambar and Masood Khan had acquired considerable influence in the affairs of the Empire.<sup>1</sup> It is said that Khwaja Ambar had a great say in the grant of *mansab* and *jagirs* as well as other favours to the nobles on behalf of the Emperor. The increasing influence of these officials had reduced the importance of the office of the *diwan* and *bakhshi*.<sup>2</sup> In this situation the vakil of Maharaja Jai Singh made efforts to establish cordial relations with Khwaja Ambar and others in order to get favour for his Maharaja from Aurangzeb.

The death of Aurangzeb on February 20, 1707 opened a new dimension at Mughal court and the Rajput rulers got an opportunity to get their long cherished desires fulfilled. The contending princes were eager to secure the Rajput support in the forthcoming struggle for succession. It was just after the death of Aurangzeb that the Amirul Umara Asad Khan helped in securing from Prince Muhammad Azam the title of Mirza Raja and the *mansab* of 7000/7000 to Maharaja Jai Singh. Maharaja Ajit Singh and his son, Abhai Singh were granted the *mansab* of 7000/7000 and 5000/5000 respectively.<sup>3</sup>

As mentioned above, we do not have the recording of the *arzdashis* after April 11, 1707 till March 26, 1710. The *arzdashis* recorded in this volume from March 27, 1710 till the defeat of Jahandar Shah (January 2, 1713) are more informative and throw fresh light on the Mughal-Rajput relations. The *arzdashis* reveal that both Maharaja Jai Singh and Maharaja Ajit Singh continued to plead their cases jointly through their high *diwans* and the vakils at the Mughal court. Both *wazir* Munim Khan and Mahabat Khan were fully aware of the fundamental differences in the positions of

1. *Arzdashis* dated Phalguna Vadi 9, 1761 (Feb. 7, 1705) and Shravana Vadi 5, 1762 (June 30, 1705).
2. *ibid.*
3. *Arzdashit* dated Vaishakha Sudi 10, 1764 (April 11, 1707).

the two Maharajas in their relations with the Mughal court based on the traditional relations and the geographical location of their respective states.<sup>1</sup> The Rathor *sardars* stationed at the court and Bhandari Khivsi made no secret of their feelings about their strength and the position of their Raja, Ajit Singh.<sup>2</sup>

An important aspect of the Mughal-Rajput relations which continued to cause concern at the Mughal court was the delay made by the Rajput Rajas to attend the Mughal court; the *arzdashts* throw valuable light on the factors responsible for this delay. The explanations extended by the vakil of Maharaja Jai Singh or the *diwans* of Maharaja Ajit Singh and Jai Singh regarding the delay or pre-condition of the attendance set by these Rajas were the withdrawal of the order of the appointment of Maharaja Jai Singh at Kabul<sup>3</sup> and assignment of the *jagirs* as well as their postings in the regions of their choice.<sup>4</sup> However, *wazir* Munim Khan and Mahabat Khan continued to impress upon the vakils for the urgency of their presence at the court promising to the fulfilment of their demands. The *arzdashts* contain in details the arguments and counter-arguments exchanged among the representatives of Rajput Rajas and the *wazirs* as well as the *diwans* of the Mughal court on the above subject.<sup>5</sup> The details furnished by an *arzdasht* reveal that Maharaja Jai Singh and Ajit Singh did not have full trust in Bahadur Shah. The Emperor himself tried to assure these Rajas through their representative at the court that they should not have any fear in presenting themselves at the court and if they

- 
1. *Arzdasht* dated Magha Vadi 8, 1767 (January 1, 1711).
  2. *Arzdasht* dated Phalguna Sudi 2, 1767 (February 2, 1711).
  3. *Arzdashts* dated Magha Sudi 7, 1767 (January 15, 1711) and Magha Sudi 11 (January 19, 1711).
  4. *Arzdasht* dated Phalguna Vadi 4, 1767 (January 27, 1711).
  5. e.g. *Arzdashts* dated Magha Sudi 7, 1767 (January 15, 1711) and Phalguna Sudi 2, 1767 (February 8, 1711).

do so they would be treated with all favours.<sup>1</sup> As it would be shown later, the Rajput Rajas could ignore the imperial demand of their presence at the court as they knew it well that the emperor would not be able to take any serious action against them as long as he was involved against Banda Bahadur.

The group affiliations and power politics also played a significant role in determining the relations between the Mughal Emperors and the Rajput rulers. The contents recorded in these *arzdashsts* make it clear that after Aurangzeb's death each powerful group at the court was eager to get prominence at the court by securing the support of the Rajput rulers promising in return the favour of the Emperor and fulfilment of their demand of *mansab*, *jagirs*, exemption from *Khurakh-i-dwwab* and *subedari* of Malwa for Jai Singh and Gujarat for Ajit Singh.<sup>2</sup>

The details recorded in the *arzdashsts* exhibit that during the *wizarat* of Khan-i-Khanan Munim Khan (1708 to Feb. 1711 A D.) the Rajput rulers kept their loyalty intact towards him and his son Mahabat Khan under the patronage of Prince Azimush Shan who was the nephew of Maharaja Jai Singh.<sup>3</sup> No doubt, the support of Prince Azimush Shan, Khan-i-Khanan Munim Khan and Mahabat Khan to the Rajput rulers had made their position strong at the court. However, it was made clear to the representatives of the Rajput rulers that unless they attended the Emperor in person nothing could be achieved for them.<sup>4</sup> The *vakils* and the *diwans* of the Rajput Rajas continued to assure the arrival of the Rajas at the court but the urgency of the political situa-

- 
1. *Arzdasht* dated Kartika Vadi 9, 1768 (October 24, 1711).
  2. e.g. *Arzdasht* dated Vaishakha Sudi 1, 1768 (April 7, 1711).
  3. *Arzdashts* dated Shravana Vadi 5, 1768 (June 24, 1711), Shravana Sudi 13, 1768 (July 16, 1711) and Bhadrapada Vadi 5, 1768 (July 23, 1711).
  4. *Arzdahst* dated Phalguna Sudi 12, 1767 (February 19, 1711).

tions had worried Khan-i-Khanan so much so that a fresh undertaking was secured from Bhandari Khivsi and Diwan Bhikharidas by Mahabat Khan about their arrival.<sup>1</sup>

The illness of Khan-i-Khanan provided an opportunity to Rustam Dil Khan to poison the ears of Emperor against the Rajas. Rustam Dil Khan who was in favour of taking stern action against the Rajput rulers got an order issued for the grant of Sambhar, Didwana and Meta in his name.<sup>2</sup> When Khan-i-Khanan and Mahabat Khan came to know about this they made their position clear to Diwan Bhikharidas and Bhandari Khivsi stating that as they (Khan-i-Khanan and Mahabat Khan due to former's illness) were unable to attend the Emperor Rustam Dil Khan got the said order of the Emperor issued and started preparation to march against the Rajput rulers along with Shah Nawaz Khan, the *faujdar* of Mewar. Rustam Dil Khan also issued a *farman* in the name of Rathor Durgadas granting him Idar as *jagir* and an amount of Rs. 50,000/- as an advance.<sup>3</sup> Apparently the group opposed to Munim Khan was trying to convince the Emperor to take serious action against the Rajput Rajas. However, such an extreme action was not possible in wake of the Sikh problem and on account of the influence of prince Azimush Shan.

The death of Khan-i-Khanan *wazir* Munim Khan on 18th June, 1711, infused new dimension at the Mughal court's politics which forced the Rajput Rajas to consider their group affiliations. It is known that the tussle for the office of the *wizarat* had started once again after the death of Munim Khan.<sup>4</sup> The *arzdast* of *Chaitra Vudi* 8, 1767 (March 1, 1711) confirms that Asad Khan had revived his claim for the *wizarat* with the support of three princes (excluding Azimush Shan). Azimush Shan supported Mahabat Khan for the office of *wizarat* and at one stage he even succeeded in getting the order issued in

---

1. *ibid.*

2. *Arzdast* dated Phalguna Sudi 5, 1767 (Feb. 11, 1711).

3. *Arzdast* dated Phalguna Sudi 12, 1767 (Feb. 19, 1711).

4. *Parties and Politics*, 53-54.

favour of Mahabat Khan. But the combined opposition of the three princes was so violent that the decision made in favour of Mahabat Khan had to be kept in abeyance. In fact, on the basis of understanding of the situation prevalent at the court vakil Jagjiwandas had predicted that Hidayatullah Khan would look after the affairs of the *wizarat*.

The *arzdashts*<sup>1</sup> mention that Hidayatullah Khan (Sadullah Khan), who was *diwan-i-tan-o-khalisa*, and was in-charge of the office of *wizarat*, had great deal of influence at the court, Citing the example of Mahabat Khan's act of betraying the Raja of Nahan, Hidayatullah Khan tried to convince the vakil of Jai Singh to get away with Mahabat Khan with whom the Rajput Rajas had a long association, Keeping in view the power and position enjoyed by Hidayatullah Khan and his keen interest in settling the affairs of the Rajput rulers at the court, the vakil of Amber, Jagjiwandas offered the suggestion to Maharaja Jai Singh that they (Jai Singh and Ajit Singh) should establish some understanding with Hidayatullah Khan without disturbing their realations with Mahabat Khan. The *arzdashts* make it clear that Maharaja Jai Singh did not endorse the suggestion of entering a secret pact with Hidayatullah Khan and continued depending upon Mahabat Khan under the patronage of prince Azimush Shan. However, Maharaja Jai Singh did not discourage his vakil to seek the help of Hidayatullah Khan in matters of securing *jagirs* and *ijaras* for himself and Ajit Singh, the ruler of Jodhpur.

The developments at the Mughal court during July 1711 were of great significance regarding Bahadur Shah's relation with Rajput Rajas. The vakil reports<sup>2</sup> make it clear that the three princes looked with apprehension the forthcoming visit

1. *Arzdashts* dated Vaishakha Sudi 1, 1768 (April 7, 1711), Vaishakha Sudi 11, 1768 (April 18, 1711), Shravana Vadi 5, 1768 (June 24, 1711) and Sharvana Sudi 13, 1768 (July 16, 1711).
2. *Arzdashts* dated Shravana Sudi 3, 1768 (July 7, 1711), and Bhadrapada Vadi 11, 1768 (July 29, 1711).

of the Rajput Rajas with a contingent of 3000 horsemen and convinced the Emperor of the inadvisability to their coming to the court.

The Emperor in the beginning of July (1711) asked the Rajas to proceed to reach Sadhaura directly without attending the court. This decision of the Emperor made Rajput Rajas comfortable particularly Ajit Singh who was not at all interested in attending the court. The arrival of the Maharajas and their attending the service at Sadhaura provided better footing for Raja's vakil to get pending matters cleared, such as issuing *sanads* for the *jugir* of *biradari*, future posting of the Rajput Rajas, etc.

By the beginning of August 1711 Bahadur Shah made it clear that he would not entertain any request of the Rajas for appointment in the Deccan or some other place until they reached Sadhaura and terminated the affairs of Banda Bahadur to the imperial satisfaction.<sup>1</sup> After the arrival of the Rajas at Sadhuara on October 7, 1711 the matter of their appointment was once again initiated at the court<sup>2</sup> There was a significant change in the attitude of Bahadur Shah towards the Rajput rulers. The *arzdasht*<sup>3</sup> makes it explicit that both the Rajas and the Emperor (he himself) had lack of trust in one another and therefore, Bahadur Shah assured the Rajas through Azimush Shah and Mababat Khan about his confidence in them. Secondly, Bahadur Shah on his own had no objection to the appointment of these Rajas to the *suba* of their choice. The question of their postings had become the vital issue due to the group politics at the court. Azimush Shan recommended that the *suba* of Barar be granted to Ajit Singh and one *suba* of the East to Jai Singh. It was on the question of assigning them *subedari* that the conflicting views between Azimush Shan and Zulfiqar Khan came to the surface.

- 
1. *Arzdasht* dated Bhadrapada Sudi 9, 1768 (August 11, 1711) and Bhadrapada Sudi 11, 1768 (August 13, 1711).
  2. *Arzdasht* dated Kartika Vadi 9, 1768 (Oct. 24, 1711).
  3. *ibid.*



The latter objected vehemently to the appointment of Ajit Singh as a *subedar* of Barar although he favoured the appointment of Jai Singh for this post. Amirul Umara offered a counter proposal recommending the appointment of Ajit Singh to the East and Jai Singh to Barar which was inspite of the vehement opposition of Azimush Shan was upheld by the Emperor. The exchange of hot words between the Emperor and the prince further spoiled the case of the Rajas.

However, irrespective of the heated atmosphere Bhandari Khivsi, the representative of Jodhpur was persistent in his demand of getting a region from amongst the regions of Gujarat, Malwa or Khandesh, Barar or Baba Pyara. Later, Bhandari Khivsi suggested one more option of Saurath to Shah Qudratullah and made explicit that Maharaja Ajit Singh would accept none except one of the above five places.<sup>1</sup> Bhandari Khivsi even shouldered the responsibility of representing Maharaja Jai Singh's case and submitted that Jai Singh be granted the *subedari* of Allahabad.<sup>2</sup> In order to settle the problem Bhandari Khivsi submitted their petition afresh before Prince Azimush Shan. The Prince entertained their request but declined to grant Nagaur to Indra Singh instead of Mahkham Singh on the ground that the Rajput nobles had no right to represent others. The prince also expressed his unwillingness to accede to the request of granting the title of Mirza Raja to Maharaja Jai Singh on the ground that first he should perform his duty to the State.

The Emperor ultimately accepted the requests of the Rajput Rajas, made through their representatives, of the grant of *faujadaris* of Saurath to Ajit Singh and that of Ahmedabad Khora, near Allahabad, to Jai Singh on October 30, 1711. The other demands such as *izafa*, *talab* of the *biradari*, etc. were kept in abeyance.<sup>3</sup> However, the question of their appoint-

- 
1. *Arzdasht* dated Kartika Vadi 14, 1768 (October 29, 1711).
  2. *ibid.* *Arzdasht* dated Kartika Sudi 1, 1768 (October 31, 1711).
  3. *ibid.*

ment was settled by the Emperor according to the proposal submitted by Bhandari Khivsi.

It is noteworthy that these appointments were far below the expectations of these Rajas particularly Jai Singh to which Jagjiwandas had already registered his reservations.<sup>1</sup> This was an important cause which led Maharaja Jai Singh to delay his march to Ahmedabad Khora.<sup>2</sup>

While the demands of Rajput Rajas awaited final sanction and they had not till then joined their duties as *faujdar* of Saurath and Ahmedabad Khora, the news of the death of Bahadur Shah (February 17, 1712) kept the matter unresolved as a result of a fresh struggle for succession amongst his four sons out of which Jahandar Shah emerged as victorious after killing his three brothers. The information furnished by the *arzdast* exhibits that the Rajput nobles stationed in the imperial camp at Lahore at the time of Bahadur Shah's death had opined in favour of Azimush Shan.<sup>3</sup> However, the death of Azimush Shan on March 8, 1712 had caused considerable financial inconvenience as the local *mahajans* refused to lend money on credit to Jagjiwandas on the ground that they were not sure whether the *puras* of Lahore would be kept with them under the new regime.<sup>4</sup> The Rajput officials Diwan Bhikharidas and Bhandari Khivsi had left imperial camp for their respective states leaving Jagjiwandas at Lahore.<sup>5</sup>

However, it was just after the defeat and death of Azimush Shan that the victorious prince Jahandar Shah showed his favour to Maharaja Jai Singh who was granted the title of Miza Raja and the *mansab* of 7000/7000 on March 15, 1712.<sup>6</sup> The new Emperor was so keen to win over Jai Singh

- 
1. *ibid.*
  2. *Arzdasht* dated Pausa Suci 10, 1768 (January 7, 1712).
  3. *Arzdasht* dated Phalguna Vadi 6, 1768 (February 17, 1712).
  4. *Arzdasht* dated Phalguna Sudi 11, 1768 (March 8, 1712).
  5. *Arzdasht* dated Chaitra Vadi 9, 1768 (March 20, 1712).
  6. *ibid.*

to his side that after accession Jahandar Shah reaffirmed the grant of the title and the *mansab* on March 20, 1712 and again on April 8, 1712.<sup>1</sup> Issuing *farman* thrice by Emperor Jahandar Shah on the request of the Amirul Umara as desired by wakil Jagjiwandas was very interesting particularly in the light of the fact that Maharaja Jai Singh was not in a hurry to join the bandwagon of Jahandar Shah ; he had not sent his *arzdasht* of congratulations and even letters to Sabha Chand or to Amirul Umara Zulfikar Khan till May 3, 1712. It was only in *arzdasht* of *Jyeshtha Vadi* 1, 1769 (May 10, 1712) that Jagjiwandas recorded the receipt of Maharaja Jai Singh's *arzdasht* and *nazr* to the Emperor and letter of congratulations to the Amirul Umara, Khan-i-Jahan Bahadur and Raja Sabha Chand.

From the *arzdasht* dated *Jyeshtha Vadi* 1, 1769 (May 10, 1712) it is clear that wakil Jagjiwandas wanted to secure as much favours as possible from Jahandar Shah as he found this situation of political uncertainty most favourable. He knew it well that Emperor Jahandar Shah would need the help of the Rajput rulers against the future conflict with Farrukh Siyar. However Rajput rulers viewed the situation differently. Both Jai Singh and Ajit Singh took considerable time to openly display their loyalty to Jahandar Shah. Maharaja Ajit Singh was more careful about the result of the forthcoming conflict for the kingship and he did not even send his wakil to the court till the arrival of Jahandar Shah at Shah-jahanabad. Shah Nainsukh, the *divan* of Maharaja Jai Singh, had even instructed Jagjiwandas that he should also get the *parwana* of *jagirs* issued for Maharaja Ajit Singh along with that of Maharaja Jai Singh.<sup>2</sup>

As it has been mentioned earlier that Jahandar Shah had issued a fresh *farman* to Maharaja Jai Singh affirming the *mansab* and title of the *Mirza Raja* after the defeat and murder of Rafiush Shan. The *parwana* regarding the assign-

- 
1. *Arzdasht* dated Chaitra Vadi 9, 1768 (March 20, 1712); Chaitra Sudi 13, 1769 (April 8, 1712).
  2. *Arzdasht* dated Chaitra Sudi 6, 1769 (April 1, 1712).

ment of *qadeem jagir* (traditionally held *watan*) was also signed by the Emperor, although these could be issued only after the payment of the *darbar kharch*.<sup>1</sup> Meanwhile, Emperor Jahandar Shah had instructed the newly appointed *daroga* of the *kotwal-kachadi diwani* to collect the money from those who got it from Prince Azimush Shan. Since both Diwan Bhikharidas and Bhandari Khivsi had received money amounting to Rs. 5,000 and 20,000 respectively from Azimush Shan, Jagjiwandas requested Maharaja Jai Singh to defray the amount received by the former.<sup>2</sup>

The *arzdashts* referred to the reminders sent by Jagjiwandas in this regard and their contents make it clear that the court was very particular about the payment of this amount. Of course, it was a general instruction aimed at collecting the money from those who had been obliged by Azimush Shan. However, the policy adopted by Jahandar Shah during the course of his conflict with his brothers continued till his accession at Shahjahanabad. He showed highly liberal attitude towards the Rajput rulers in spite of the fact that both Jai Singh and Ajit Singh maintained neutrality till Jahandar Shah declared his succession at Shahjahanabad. Both Maharaja Jai Singh and Ajit Singh did not even attend the court at the time of Jahandar Shah's coronation.<sup>3</sup> Moreover, there had been an increase in the activities of encroachments on the *jagirs* held by other *mansabdars*.<sup>4</sup> Thus the reservation of the Rajput Rajas to attend the court and their involvement in causing disturbances on the imperial *jagirs* might have touched the prerogative of the Emperor. Hence, immediately after his accession Jahandar Shah appointed Fakruddin Khan as *diwan* of Ajmer and *faujdar* of Sambhar dislodging Nusrat Yar Khan.<sup>5</sup>

---

1. *ibid.*

2. *Arzdasht* dated Chaitra Sudi 13, 1769 (April 8, 1712).

3. *Arzdasht* dated Ashadha Sudi 5, 1769 (June 28, 1712).

4. *ibid.*

5. *Arzdasht* dated Vaishakha Vadi 13, 1769 (April 22, 1712).

Further as per entries made in the *arzdasht* dated July 9, 1712<sup>1</sup> Raja Sabha Chand summoned the vakil of Amber, Jagjiwandas and charged that Maharaja Jai Singh had not yet removed his *thana* from Sambhar, and was not allowing the imperial *jagirdars* to secure their control over their *jagirs* situated in Mewat, Akbarabad and Ajmer. Explaining that Jai Singh was granted favour due to the old relationship with Amirul Umara Zulfiqar Khan, Sabha Chand warned the vakil of Amber that his Raja should not under-estimate the position of the Emperor and over-estimate his own by comparing himself with Ajit Singh as the latter had few political and topographical advantages whereas he had none. Sabha Chand also instructed Jagjiwandas to inform his Raja to obey the imperial orders and also to advise Ajit Singh to pursue the ways of a ruler and not that of a dacoit. Sabha Chand made his position clear that he could extend help to the Rajput Rajas only if they subject themselves to imperial orders. Further, it was made clear to the vakil that the *yaddashta* of *izafa* to Jai Singh and the *sanad* to Ajit Singh would be issued only after evacuating their possessions over Sambhar, Didwana, etc.<sup>2</sup> By then Mayaram, the vakil of the Maharana of Mewar had reached the court and had started negotiating for the grant of the *parganas* of Pur, Mandal, etc. through Sabha Chand.<sup>3</sup> It is noteworthy that the move of the Maharana was independent and was not in accordance with those of Maharaja Jai Singh and Ajit Singh. The attitude of Sabha Chand is an expression of Emperor Jahandar Shah's policy towards the Rajput rulers.

The report that all the Rajput rulers were going to meet at Pushkar to decide about the future course of action caused great concern at the court to the extent that Zulfiqar Khan himself enquired about it from the vakil of Jai Singh. Vakil Jagjiwandas took special care to remove this misunderstanding

- 
1. *Arzdasht* dated Shravana Vadi 2, 1769 (July 9, 1712).
  2. *ibid.*; also see, *Rajput Polity*.
  3. *Arzdasht* dated Shraavan Vadi 10, 1769 (July 17, 1712).

from the mind of the *wazir* and requested Maharaja Jai Singh to ask Shah Beg, who was staying at Amber to write to the court about the unfoundedness of this news.<sup>1</sup>

It is noteworthy that the news of the meeting of the Rajput rulers was not totally unfounded as it is well-known that Maharaja Ajit Singh had asked Jai Singh to reach Merta in order to attend the meeting at Pushkar. However, Jai Singh was reluctant to attend any such meeting as the situation at the court was still uncertain. The demand of evacuating of Sambhar and Dilwana was getting serious considerations at the court but, it seems, Ajit Singh was in no mood to evacuate his possessions over there. The favour granted to Jai Singh was apparently very tempting. However, the questions of assigning *jagirs* in the *watan* territories and appointing them at the *subedars* of Malwa and Gujarat were still unresolved. What appears from the report is that the Emperor and the *wazir* were ready to consider these demands of the Rajput Rajas if they attended the court at the earliest. Rajput rulers, on the other hand, insisted that their demand be fulfilled before they present themselves at the court.<sup>2</sup>

The growing differences between the groups led by *wazir* Zulfiqar Khan and Khan-i-Jahan Bahadur (Kokaltash) on the question of Hindaun made the matter more complicated.<sup>3</sup> The wakil of Jai Singh succeeded in seeking the favour of Amirul Umara Zulfiqar Khan and Queen Imtiaz Mahal on this issue. He also secretly met Azam Khan<sup>4</sup> who belonged to the group led by Kokaltash Khan-i-Jahan Bahadur.<sup>5</sup>

No doubt, each of the group wanted to oblige the Rajput Rajas by securing maximum favour for them in order to win-over their support. Even Azam Khan, who was deprived of the Emperor's favour on the question of Hindaun showed his will-

---

1. *ibid.*

2. *Arzdasht* dated Kartika Vadi 4, 1769 (October 7, 1712).

3. *Arzdasht* dated Kartika Sudi 13, 1769 (October 31, 1712).

4. *ibid.*

5. *Parties and Politics*, 69.

ingness to help the Rajas if they transferred their loyalty to his patron.<sup>1</sup> Interestingly enough Jai Singh had the support of Amirul Umara and Imtiaz Mahal on the question of Hindaun.

The information recorded in the *arzdashit*<sup>2</sup> reveal that both Zulfiqar Khan and Sabha Chand openly supported the cause of the Rajas and the way the Rajput *sardars* (representatives of the Rajput Rajas), Diwan Bhikharidas and Bhandari Raghunath, etc. were received by Sabha Chand goes a long way to prove it. However, it is to be kept in mind that the Rajput *sardars* had reached the court when the preparation of campaign against Farrukh Siyar was at its final stage. It was at this juncture that they were asked by Amirul Umara and Sabha Chand to present their demand with an assurance that the same would be granted. Meanwhile they were asked to proceed along with the Emperor towards Delhi. Regarding Amirul Umara's demand that the Rajput Rajas accompanying Prince Azzuddin in the forth-coming conflict with Farrukh Siyar, the Rajput *sardars* assured that the Rajas would accompany the prince if the orders granting *subedaris* of Malwa and Gujarat were issued in advance.<sup>3</sup> It seems, that the order issued for the grant of the *subedari* of Malwa to Jai Singh and of Gujarat to Maharaja Ajit Singh was a part of desperate efforts of the Amiral Umara to mobilise the military support against Farrukh Siyar. He asked the Rajas to send their contingents immediately to join Prince Azzuddin. The testimony of the *arzdashit*<sup>4</sup> makes it apparent that Jahandar Shah made all these concessions to Jai Singh and Ajit Singh considering the importance of their coopertion in the fight against Farrukh Siyar. Apparently the fulfilment of the demand of the Rajput Rajas was so tempting that Jagjiwandas advised Maharaja Jai Singh to join the Emperor directly.

- 
1. *Arzdashit* dated Kartika Vadi 11, 1769 (October 15, 1712).
  2. *Arzdashit* dated Kartika Sudi 7, 1769 (October 25, 1712) ; Kartika Sudi 13, 1769 (October 31, 1712) and Margashirsha Vadi 5, 1769 (November 7, 1712).
  3. *Arzdashit* dated Kartika Sudi 7, 1769 (October 25, 1712).
  4. *ibid.*

The *arzdashits* contain frequent references to the activities of Banda Bahadur (referred to as the Guru), the role of the Mughal commanders, the attitude of Bahadur Shah towards the Sikhs and his subsequent movements in the Punjab, and the effect of imperial movements in the Sikh affairs on Mughal Emperor's attitude towards Maharaja Jai Singh and Ajit Singh. Since the possibility of military action against these Rajas depended upon the nature and magnitude of the Sikh rebellion, Vakil Jagjiwandas, Diwan Bhikharidas and Bhandari Khivsi kept Maharaja Jai Singh fully informed about the developments regarding the Sikh affairs.

The contents given in the *arzdashits* make it clear that soon after the submission of Ajit Singh and Jai Singh to Emperor Bahadur Shah (at Deorai near Ajmer in June 1710), Wazir Munim Khan and his son Mahabat Khan, the third *Bakhshi* had started reminding the Rajput rulers repeatedly to appear at the court to finalize *mansab*, *jagirs* and the postings. Bahadur Shah had insisted upon their personal appearance along with their contingents not only because, he was suspicious about their intentions, but also because and it was perhaps more important for him, to employ their services to crush the Sikh rebellion.<sup>1</sup>

It is noteworthy that Bahadur Shah was still in process of consolidating his position, when he reached river Govindwala on June 25, 1710 to meet the threat caused by Banda Bahadur in the *suba* of Lahore.<sup>2</sup> Earlier in an open battle fought in the middle of June, the Mughal commander though defeated him but was unable to capture him. It was reported that his escape was possibly because of the sympathy for him amongst the local *zamindars*. Emperor Bahadur Shah made all efforts to capture the Guru. He sent *hasbul hukm* to the *zamindars* of hills to capture and deliver him to the Emperor if he was found in their territories.<sup>3</sup> Relying on the report received from the Rajas of hills that Banda Bahadur had found

1. *Arzdasht* dated Chaitra Sudi 1, 1767 (March 20, 1710).

2. *Arzdasht* dated Asadha Sudi 11, 1767 (June 26, 1710).

3. *Arzdasht* dated Magha Sudi 3, 1767 (January 10, 1711).



shelter in the territory of the Raja of Nahan, Bahadur Shah, issued an order to the Khan-i-Khanan to imprison the Raja of Nahan in order to force him to present the Guru to the Mughal court.<sup>1</sup> The Raja of Nahan pleaded ignorance about the whereabouts of the Guru in vain. He was imprisoned. The imprisonment of the Raja of Nahan worried his mother about his life and therefore she assured the Emperor to capture and present the Guru to him.<sup>2</sup>

The imprisonment of the Raja of Nahan and the promise made by his mother raised the hopes of capture of the Guru. Perhaps, this was the reason that the various rumours got credence at Badshah's court. An imperial messenger conveyed the report on January 21, 1711 at the court that the mother of the Raja of Nahan along with the Guru was camping at the distance of 12 *kos* from the Mughal camp and she had made a request that Mahabat Khan should reach there to receive the Guru.<sup>3</sup> The Emperor was jubilant enough to call Mahabat Khan and asked him to bring the Guru, confining him in the iron case made for this purpose, and the two ladies imprisoned with him in the chariot.<sup>4</sup> Such rumours were always followed with contradiction. The *arzdast* dated *Phalguna Vadi 13*, 1767 (February 4, 1711) informed Maharaja Jai Singh that Banda Bahadur would be captured within a couple of days. Another rumour spread at the court was that although the Guru was stying in the hills of Nahan where it was difficult to capture him due to heavy snowfall. The mother of the Raja of Nahan had assured the Emperor that her followers had surrounded the Guru and he would be captured. Meanwhile it was also stated that the Guru had with him an army of 80,000 *sawars* and footmen and was ready for a battle which discouraged the followers of the Raja of Nahan to approach the Guru. The *vakil* records another news that the Guru had escaped to

- 
1. *Arzdast* dated Magha Sudi 11, 1767 (January 19, 1711).
  2. *ibid.*
  3. *Arzdast* dated Phalguna Vadi 4, 1767 (January 27, 1711)
  4. *ibid.*

another place and that only his followers were staying there due to the snowfall. However, the followers of the Raja of Nahan failed to capture the Guru who escaped from his territory to Bhutenta after giving a fight to them. The Emperor after getting this information also moved his camp towards Bhutenta.<sup>1</sup> *Arzdasht* dated *Chaitra Sudi 5*, 1768 (March 13, 1711) mentions about a fresh attack of Banda Bahadur in the neighbourhood of Lahore. In an encounter with the Mughal army, Guru Banda Bahadur escaped successfully after giving a fight to the Mughal commanders Samad Khan and Wazir Khan in which one of them was killed. The revival of the fresh incursions by the Sikhs alarmed the Emperor who determined to crush the Sikh power with a heavy hand. In order to teach a lesson to the *zamindars* of that region, the Emperor issued an order to Mahabat Khan to put Bhavpati, the Raja of Nahan, in the cage of iron originally made for the Guru. Lather the Raja of Nahan was sent to Delhi where he was kept in Salimgadh.<sup>2</sup> Bahadar Shah also founded a *chhawani* (military camp) and named it Jahangirpur in order to have an effective check on the passages of valley so that the move of the Guru to enter the hills and the possibility of the help to him by the *zamindars* of hills could be checked. The attack of the Guru on Lahore was so strong that the city would have been sacked if it had not been guarded properly by Afghan Khan and his son, etc.<sup>3</sup> The *arzdasht* of May 28, 1711 informs that Hamid Khan Bahadur made an unsuccessful attempt to capture the Guru after crossing river Sutlaj. Bahadur Shah was very unhapy on his failure and he refused to give him audience until he brought Banda Bahadur as prisoner.<sup>4</sup> Later the armies commanded by Muhammad Amin Khan, Gaziuddin Khan and Hamid Khan marched against the Guru whose whereabouts were uncertain. It was reported that after an

- 
1. *Arzdasht* dated Phalguna Sudi 2, 1767 (Februry 8, 1711).
  2. *Arzdasht* dated Chaitra Sudi 9, 1768 (March 17, 1711) and Vaishakha Sudi 11, 1768 (April 18, 1711).
  3. *Arzdasht* dated Jyeshtha Vadi 5, 1768 (April 26, 1711).
  4. *Arzdasht* dated Asadha Vadi 8, 1768 (May 28, 1711).

encounter with the Mughal commanders he made his escape good.<sup>1</sup> It was stated that the Guru had gone towards Sadhaura.<sup>2</sup> The *arzdast* dated *Bhadrapada Vadi 9*, 1768 (July 27, 1711) records that Rustam Dil Khan was sent against the Guru along with 10,000 *sawars*. Amin Khan was also sent separately. The Mughal commanders sacked and ruined those villages and towns which were suspected to have extended help to the Guru. The Guru came out of the hills and marched towards Dabar but no encounter took place with either Gaziuddin Khan or Amin Khan. It was believed that Gaziuddin Khan had avoided the fight with Banda Bahadur. This annoyed the Emperor so much that he ordered the imprisonment of Gaziuddin Khan who was confined in the fort of Lahore. His wealth and estate were confiscated and his family was sent to Suhagpura.<sup>3</sup> Mention is also made that Muhammad Amin Khan remained in pursuit of the Guru who had gone towards Sadhaura.<sup>4</sup>

It is apparent that Banda Bahadur's increasing incursions in the region around Lahore and his reoccupation of Sadhaura had revived the urgency of the presence of the Rajput rulers at the court and their joining the imperial campaign against Banda Bahadur. As early as March 1711 Bhi-kharidas had brought to the notice of Maharaja Jai Singh the fact that the revival of the Sikh incursions had provided a good opportunity to the Rajput Rajas to display their mettle against the Sikhs and win over the confidence of the Emperor and gain his favour.<sup>5</sup> As stated above the Rajput rulers could no longer resist the pressure requiring their presence at the court particularly after the death of Munim Khan. Finding this

- 
1. *Arzdasht* dated *Shravana Vadi 5*, 1768 (June 24, 1711) and *Shravana Sudi 3*, 1768 (July 7, 1711).
  2. *Arzdasht* dated *Bhadrapada Vadi 5*, 1768 (July 23, 1711).
  3. *Arzdasht* dated *Bhadrapada Sudi 9*, 1768 (August 10, 1711).
  4. *ibid.*; *Arzdasht* dated *Bhadrapada Sudi 11*, 1768 (August 13, 1711).
  5. *Arzdasht* dated *Chaitra Sudi 15*, 1768 (March 23, 1711).

opportunity favourable they ultimately started to attend upon the Emperor. However, the development of July 1711 forbid their presence at the court and the Emperor allowed them to proceed directly to Sadhaura to meet the Sikh challenge posed to the Mughal authority.<sup>1</sup> The Rajput rulers reached Sadhaura on October 7, 1711 and thus joined the duty, although their demand was yet to be fulfilled.

The *arzdashts* contain the evidences to substantiate the argument that the Guru enjoyed the active support of the local Rajas (*zamindars*) and populace of the hilly regions of Punjab and therefore he could offer successful resistance in spite of the formidable pressure from the Mughal army. The Raiput rulers knowing well that the Emperor was pre-occupied with the Sikh problem delayed their presence at the Mughal court. They knew it well that as long as Bahadur Shah was engaged against the Guru, they were in a position to gain maximum favour from the Emperor.

#### Mansabdari and Khurak-i-Dawwab

The *arzdashts* furnish interesting information on the practice and methods of the collection of *dawwab*, a term used to signify the *khurak-i-dawwab*. It is known that under Akbar the *mansabadars* had an obligation to maintain and feed certain number of elephants, horses, camels and carts belonging to the Emperor's establishment. As per the rules of Emperor Akbar, established in 1575 A.D., the *mansabdars* were paid the allowance for these animals over and above their sanctioned personal salary. However, this practice was modified in the later years and it was made obligatory on the part of *mansabdars* to maintain certain number of Emperor's animals according to their ranks for which they were not paid any allowance. By the time of Shahjahan, it had become the practice to deduct the cost of *Khurak* or *rasad-i-khurak* from the *talab* (salary claim) of the *mansabdars*. It is said that during Aurangzeb's reign there was the practice of assigning the *jagirs* for the full salary and

1. e.g. *Arzdasht* dated Bhadrpada Vadi 11, 1768 (July 29, 1711).

then demanding the *khurak* in kind or cash, for which *sozavals* or imperial messengers used to be sent to exact it from the *jagirdars*.<sup>1</sup> However, taking into consideration the nobles' resentment, Aurangzeb in his 46th R.Y. consented to abolish the system in respect of the *khurak* for elephants. Under the changed practice, the charge of *khurak-i-dawwab* was to be converted into *dams*, and the *jagirs* of equivalent *jama* were to be taken away from the *jagirdars*, exempting them from the obligation of supplying provisions or paying in cash for the imperial animals. In the "next reign" the measures were extended to cover the whole of *khurak-i-dawwab* to the great relief to all the *mansabdars*.<sup>2</sup> During the *wizarat* of Munim Khan, an attempt was made to deduct the amount of the claim of *dawwab* from the total salary of a *mansabdar* and the balance was paid to him as *tankhwah*.<sup>3</sup>

It is in this light of above discussion that the data available in the *arzdashts* furnish valuable information which helps us in understanding the working of this institution during the last few years of Aurangzeb's reign and the reigns of Bahadur Shah and Jahandar Shah with particular reference to its effects on the Mughal economy and the nobility.

The *arzdasht* dated March 3, 1711 informs that as soon as Hidayatullah Khan, the *diwan-i-tan-o-khalisa* assumed the office of the *wizarat* an attempt was made to review the practice of *dawwab* in order to strengthen its management and collection. Hidayatullah Khan made it clear that there was no land available in *khalisa* nor there was any money left in the treasury and in such circumstances it was requested that the payment be made as it was done earlier.<sup>4</sup> He had issued order to the *mutsaddis* of the office of the *dawwab* to collect the amount of *dawwab* from the vakils of all the *umara*. Taking into consideration the firm determination of

---

1. M. Athar Ali, *The Mughal Nobility under Aurangzeb*, 51.

2. *ibid.*

3. *Parties and Politics*, 59.

4. *Arzdasht* dated Chaitra Vadi 11, 1767 (March 4, 1711).

Hidayatullah Khan to collect the *dawwab*, vakil Jagjiwandas requested Maharaja Jai Singh to send the order of payment to the *vohras* to deposit the amount of the *dawwab* every month at the state treasury.<sup>1</sup>

The vakil informed the Maharaja that the vakils of the *umara* were facing all sort of harassment due to delay in paying the amount of the *dawwab*.<sup>2</sup> When the matter was reported to Hidayatullah Khan, he ordered the *kotwal* to get the amount realized by force from the vakils. Accordingly the *kotwal* in the beginning instructed the vakils to station their camps behind the *chotra kotwali* and later on April 18, 1711 warned them to pay the dues of *dawwab* otherwise they would be imprisoned and humiliated.<sup>3</sup>

The action taken by the *diwan* compelled the nobles like Amirul Umara Asifuddaullah, Daud Khan, Rustam Dil Khan, Mahabat Khan and others to accept the obligation of payment of the *dawwab*. On behalf of Maharaja Ajit Singh, Bhandari Khivsi agreed to pay the dues. Regarding Maharaja Jai Singh the instructions were yet to be received from him, although the amount had been deducted from his *talab*.<sup>4</sup> *Arzdasht* dated, April 18, 1711 mentions that Mahabat Khan had agreed to pay the amount of *dawwab* provided the *jagir* of an equivalent amount was assigned to him. Other *umara* also endorsed his view. Maharaja Jai Singh had asked his *diwan* Bhikharidas to acquire the *jagir* in the *parganas* of Mauzabad and Bhatri whose *jama* was 34,60,000 *dams* since this amount was deducted from his salary. Diwan Bhikharidas apprehended that there was no *jagir* left under *khalisa* which could be granted against the claim of *dawwab*.

It seems that the leading nobles at the court had accepted in principle the payment of the *dawwab*, but the real problem was whether the amount of *dawwab* was to be deducted in advance, or the *jagirdars* were to pay the *dawwab*

---

1. *ibid.*

2. *Arzdasht* dated Vaishakha Sudi 1, 1768 (April 7, 1711).

3. *ibid.*

4. *ibid.*

after getting their *talab* cleared.

In fact the deduction of an amount of *dawwab* in advance had no meaning to the state finance as the *mansabdars'* *talab* could hardly be met by the *diwan's* office in view of the *jagirdari* crises. On the other hand, payment of *dawwab* in cash required the assignment of *jagir* to the *mansabdar*, which was equally impossible.

The details given in the *arzdashts* make it clear that the office of the *diwan* used to make deduction in the name of *dawwab* at the time of drawing up the salary claim of each *mansabdar*. Thus the explanation given by Mahabat Khan to the *daroga* of the office of *dawwab* that since the amount of *dawwab* had been deducted from the salary claim of the Rajput Rajas, they would pay the *dawwab* provided they were issued the *parwana* of *jagir*<sup>1</sup>, was similar to the principle to which the nobles had agreed upon. However, the order issued by the Emperor on the *tauji* of Muzaffar Jang left no alternative before the nobles but to pay the amount of *dawwab*.<sup>2</sup> It was decided that in case any noble refrained from paying the *dawwab* the office of the *mutalba tasurruf* would make a deduction of one-fourth (1/4th) of the *talab* of the *jagirdar* from the revenue of his *mahals*. As a result of this order of the Emperor, the *umara* did not insist upon their earlier demand and started paying the *dawwab*. Maharaja Jai Singh was also advised to pay the dues of *dawwab* through the *sahukars* who could pay the amount every month according to the number of the *barawurdi*.<sup>3</sup>

In a state of "*jagirdari* crises", the other obligations of *mansabdars* continued to attract the attention of the Mughal government.

It seems that the *mansabdar's* obligation to present horses for *dogh* and verification was observed during the time of Bahadur Shah with all strictness. Jagjiwandas in one of

1. *Arzdasht* dated Jyeshtha Vadi 5, 1768 (April 26, 1711) : also Asadha Vadi 8, 1768 (May 28, 1711).
2. *Arzdasht* dated Shrawana Vadi 5, 1768 (June 24, 1711).
3. *ibid.*

his *arzdashts* has stated that one-fourth of his (Jai Singh) *talab* had been kept in pending until the *daghnama* was submitted to the *diwan* office.<sup>1</sup> It appears that Maharaja Jai Singh was obliged to maintain a contingent during his posting as a *faujdar* of Ahmedabad Khora and for that he wanted some concession. However, when the request was made to prince Azimush Shan through his vakil Jagjiwandas, the Prince clearly said that there was no tradition of granting any exemption to Maharaja Jai Singh regarding the *dagh* of the *biradari* (*mansbadars* belonging to his clan) and thus they were to present their horses for *dagh*.<sup>2</sup> Apparently, while Maharaja Jai Singh had agreed to fulfil his own obligation of presenting his horses for *dagh*, he pleaded for exempting his *biradari* from this obligation. The office of the *diwan* could refuse to entertain the issue of the *daghnama* in normal circumstances but considering group politics, Maharaja Jai Singh was granted exemption for *dagh* to the horses of his *biradari* for a year<sup>3</sup>

There are frequent references in the *arzdashts* which throw light on the nature of *watan jagirs*, and the *ijara* practices.

205-202

Being the *watan* holder, the Rajput Rajas enjoyed a special position and consideration at the Mughal court. By now, it is clear that with the extension of recognition as a successor to the ancestor's *gaddi* by the Mughal Emperor, the right of the successor (Raja) over his ancestral dominion was recognized in principle. However, following the concept of "Paramountcy" it was the prerogative of the Mughal Emperor whether all the *parganas* belonging to the ancestral dominion be assigned to the Raja at the time of accession or only a part of it. Further, it is also clear that for the imperial purpose the *watan* territory was assigned against the claim

- 
1. *Arzdasht* dated Kartika Sudi 14, 1768 (November 13, 1711).
  2. *Arzdasht* dated Margashirsha Sudi 6, 1768 (December 4, 1711).
  3. *Arzdasht* dated Pausha Sudi 9, 1768 (January 6, 1712).



of salary (*talab*) of the Raja who was entitled for this after his enrolment in the Mughal service as a *mansabdar*.<sup>1</sup> The *arzdashts* strengthen this understanding on a more wider scale. In case of Amber, it is revealed that the extent of the claim of *watan jagir* was very limited as most of the *parganas* were treated as the imperial *jagir*. It appears that at the time of accession (2nd May, 1639), Maharaja Bishan Singh held *mahal* Amber along with the *parganas* of Chatsu and Toda Bhim. In 1691 A.D. Chatsu and Toda Bhim were resumed and were later on assigned to Kamaluddin Khan and Muhammad Ali Khan.<sup>2</sup> However, the Maharaja continued his efforts to acquire Chatsu, Toda Bhim and other *parganas* as a part of his *watan* territory. When the *dol*<sup>3</sup> of Maharaja Bishan Singh was presented before Emperor Aurangzeb, he issued the order to assign Hindoun, Bayana, Toda Bhim and Udai to the Maharaja.<sup>4</sup> On another occasion when the *vakil* of Amber was asked to justify Maharaja's claim over Chatsu he represented that the families of the clan (*ulus*) of the Maharaja were settled in the villages of *pargana* Chatsu and therefore if this *pargana* was granted, it would enable the Maharaja to recruit the additional footmen.<sup>5</sup> These instances if seen in the context of the claim of the Raja of Amber over his *watan jagir*, it would become obvious that even the *parganas* adjoining to Amber were not assigned at the time of his accession. An examination of the details given in the *arzdashts* regarding the *jagirs* assigned to the Kachhawah nobles (*biradari*) suggests that these assignments were made against the *talab* of their *mansab* and in the territories on which the ruler of Amber could have claimed their *watan*

- 
1. G.D. Sharma, *Rajput Polity*, (New Delhi, 1977) and Satish Chandra, General Presidential Address to the Rajasthan History Congress, Ajmer Session, 1976.
  2. *Arzdasht* dated Magha Vadi 13, 1748 (January 6, 1692).
  3. *Dol* or *Daul*—A statement of the particulars of the assessed revenue of various *parganas* of Amber.
  4. *Arzdasht* dated Asadha Vadi 8. 1750 (June 16, 1693).
  5. *Arzdasht* dated Magha Vadi 4, 1750 (January 5, 1694).

rights. The *arzdasht* explains that the claim for *mansab* and *jagir* made by the Amber nobles was routed through the Maharaja and therefore their request was enlisted in the *arzdasht* submitted by the vakil on behalf of his Raja to the Emperor. Any request submitted by a Amber noble directly to the Emperor for the grant of *mansab* and *jagir* was considered as a defiance by the Maharaja.

The *arzdashts* also throw sufficient light on the working of *ijara* system and its impact on the Mughal economy. It is well known that the acquisition of *jagirs* on *ijara* had helped Jai Singh to expand his *watan* or the territories of the Amber state. However, the practice of assigning *jagirs* on *ijara* was attributed to the weakening of central control over the administration and unstable political situation. Perhaps, Maharaja Jai Singh took the maximum advantage of the situation and got a number of *parganas* on *ijara* by offering a handsome amount to the high Mughal officials in the name of *muhamsezi*. The *arzdashts* confirm that a considerable part of the neighbouring *parganas* of Amber was held by Mughal *mansabdars* in *jagirs*, while his own *talab* either remained uncleared or met out by granting him *parganas* outside his *watan*.<sup>1</sup> Maharaja Jai Singh made a successful attempt to acquire *parganas* on *ijara* which were not granted to him as *watan jagir*. He gradually extended his *ijara* right on the *jagirs* such as Mauzabad, Malpura, Khohri, Toda Bhim, Bairath, Gazi-ka-Thana, Tonk, Jaitpur, Lalsot, Firozpur, Bahatri, Hindoun, Patodi, Maujpur, Udai and Bayana, which were attached to *sarkars* of Mathura, Shahjahanabad, Akbarabad and Ajmer.<sup>2</sup>

The *arzdashts* provide information on the situation which

---

1. e.g. *Arzdashts* dated Magha Sudi 3, 1767 (January 10, 1711); Phalguna Vadi 4, 1767 (January 27, 1711); Phalguna Sudi 2, 1767 (February 8, 1711); Ashwina Vadi 8, 1768 (September 24, 1711); Shravana Sudi 15, 1769 (August 5, 1712).

2. *ibid.*

the *mansabdars* were confronted with in their *jagirs* situated in the neighbourhood of Amber state. Many of these *parganas* were dominated by the *zamindars* who belonged to the Kachhawah ruling family or the Raja of Amber was in a better position to exercise his control over these areas. This special position of Maharaja Jai Singh made the imperial authority feel that the regular collection of the revenue and maintenance of peace and order was only possible if these *jagirs* were either granted in *ijara* or *jagir* to Maharaja Jai Singh. It is worth mentioning that Maharaja Jai Singh did not spare any Mughal *mansabdar* including those who were supporting his case at the Mughal court<sup>1</sup> if they impeded his ambition on the extension of his state through *jagir* or *ijara*.

The contents of *arzdashts* would suggest that the aggressive activities of the Rajput rulers had become more frequent and effective during the time of Jahandar Shah. The complaints lodged at the Mughal court and the instructions issued by Sabha Chand speak about the extent of involvement of the Rajput Rajas, particularly Maharaja Jai Singh, in the practice of unauthorized collections of the revenue in the *ijaras* held by the Mughal *mansabdars*.<sup>2</sup>

The *arzdashts* speak about the considerations which determined the amount on which *ijara* was to be acquired. It has been noted that the contender (*ijaradar*) used to keep in mind the *jama* and the "month scale" on which the *paragana* was assigned in *jagir*.<sup>3</sup> Mention is made that Maharaja Jai Singh had taken note of discrepancy on the scale of *jama* fixed to the grant of Merta to Ajit Singh and Bhahtri to himself on *ijara* and thus wrote to his vakil that Merta had been given to Maharaja Ajit Singh on an amount of 4½ months *jama* while Bhahtri was given to him at 6 monthly *jama*.

- 
1. e.g. *Arzdasht* dated Chaitra Sudi 8, 1767 (March 1, 1711) and Ashwina Vadi 14, 1768 (September 30, 1711).
  2. *Arzdashts* dated Pausha Vadi 1, 1768 (December 15, 1711); Asadha Sudi 5, 1769 (June 28, 1712); and Shravana Vadi 15, 1769 (August 5, 1712).
  3. *Arzdasht* dated Vaishakha Sudi 11, 1768 (April 18, 1711).

from the *ijaradar*. However, the practice of providing surety by the bankers for a year was quite common; although there are examples of extending surety for particular crop (*kharif*) only. The involvement of the *sahukar* or *mahajan* (banker) in this practice kept the banker in a state of great risk and therefore besides the original amount he used to charge interest and commission on the money he transmitted to the *jagirdar* on behalf of the *ijaradar*. Although it is difficult for us to determine the number of bankers involved in this practice during this period, the frequent references made about the *gumash-tas* suggest that a large number of them were employed by the bankers to operate their working of payment and collection of money both at the place of *ijara* land as well as at the Mughal court. It is noteworthy that due to the fall in the *hasil* of the *ijara* land to which the banker had furnished the surety, he was free to withdraw it for another crop and in this situation the *ijaradar* had no alternative but to furnish surety from another banker. The *arzdast* dated, *Ashwina Vadi 4, 1769* (September 8, 1712) suggests that one Govindram Sarraf, whose firm was known as Panipatia, had acquired high reputation and therefore the court insisted upon to avail the surety of that firm.

The bankers used to keep themselves away from the court politics. The process of getting the documents of *ijara* cleared from the court was the responsibility of the *ijaradar* or the *jagirdar*. Hence, the representative of the *ijaradar* had to work hard at the court to acquire the land on *ijara* and for that he had to satisfy both the high officers and *mutsaddis* by paying them money to their satisfaction. This, in fact, had widened the scope of bribery at the Mughal court.

The ever increasing ambition of the Rajput rulers to acquire high *mansabs*, remunerative *jagirs*, *ijaras*, and appointments as *subedars* or *fauj-dars* in the regions of their choice could only be achieved if they win over the support of the powerful officials (*mansabdars*) posted at the Mughal court. Joining a powerful group at the court was, undoubtedly, a powerful instrument to secure the favour. But in a situation which had created uncertainty in the position of the

## Introduction

high officers and lower strata of the officials working in the administration, it was the power of money which ultimately proved a more effective instrument.

The details given in the *arzdashts* make it explicit that offering of a present by a subordinate to the Emperor or to the high officials or even to the officers of equal rank had been considered a part of the court protocol.<sup>1</sup> This practice which was considered a court protocol opened a way to the bribery in a period of political crises following the death of Aurangzeb.

With regards to Rajput rulers, the contents furnished in the *arzdashts* demonstrate a trend of getting favour of the high officers of the court by offering them huge amount of money. The Rajput vakils were quite efficient in establishing their rapport with persons of power and influence at the court by keeping an eye on the functional and power politics going on over there. Thus we notice that just after the death of Aurangzeb the vakil of Maharaja Jai Singh had approached Amirul Umara Asad Khan and through him secured the title of Mirza Raja and the *mansab* of 7000/7000 for Maharaja Jai Singh after paying him Rupees 50,000 in cash along with 21 *mohars*. The vakil of Maharaja Ajit Singh had also paid rupees one *lakh* to the Amirul Umara for the title of the Maharaja and the *mansab* of 7000/7000 for Ajit Singh and the *mansab* of 5000/5000 for his son Abhai Singh.<sup>2</sup> For the later period, after the reoccupation of Amber and Jodhpur by Maharaja Jai Singh and Maharaja Ajit Singh respectively during the reigns of Bahadur Shah and Jahandar Shah the practice of paying money for getting the work done to the high officers of the court, had become quite common.

The *arzdasht* dated *Magha Sudi* 3, 1767 (January 10, 1711) records that vakil Jagjiwandas had agreed to pay Rupees 75,000 to Mahabat Khan (*mir-bakhshi*) and therefore he requested the Maharaja to send a *hundi* amounting to Rupees

- 
1. Cf. *Arzdasht* dated *Magha Vadi* 4, 1750 (January 5, 1694).
  2. *Arzdasht* dated *Vaishakha Sudi* 10, 1764 (April 11, 1707).

25,000— a payment to be made in advance, in order to get the signature of Mahabat Khan on the *yaddasht*. Gulabchand, the vakil of Maharaja Ajit Singh had already paid the money of *muhamasazi* to Rai Bhagwant, the Diwan of Mahabat Khan, for securing favour for his Maharaja. Jagjiwandas also informs the Maharaja that although Rupees 500 had been given to the official of Mahabat Khan through Rai Bhagwant, they were demanding more. Jagjiwandas has made it clear that although the signature of the Amirul Umara had been procured for issuing of the *sanads* for the Maharaja and the *tiradari* affecting the grant of *jagirs*, these would be issued only after the payment of *darbar kharch*.<sup>1</sup>

The details recorded in the *arzdashts* exhibit that the Rajput rulers were getting the favours from the powerful group at the Mughal court during the time of Bahadur Shah and Jahandar Shah. However, irrespective of their group alliances, they used to pay handsome amount to the *wazir*, *diwan*, *mir-bakhshi* and their personal *diwans* to secure the grant of their favourite *jagirs* and *parganas* on *ijara*. Even, one could notice the involvement of Lal Kunwar (Imtiaz Mahal) in getting the *faujdari* of Bayana transferred to Maharaja Jai Singh from Azam Khan on a token payment of Rs. 10,000. This was in addition to what was already paid to Sabha Chand for himself and for *wazir* Zulfiqar Khan in the name of *muhamasazi*.<sup>2</sup> The details would show that for seeking each favour a separate amount was paid and the fixation of amount depended on the importance of work. In his dealings of payment made in the name of *muhamasazi*, Maharaja Ajit Singh enjoyed better credibility than Maharaja Jai Singh.<sup>3</sup> The latter was always slow in clearing his dues and this slackness sometimes saved good amount to the treasury of Amber.

- 
1. *Arzdasht* dated Phalgun Sudi 2, 1767 (February 8, 1711).
  2. *Arzdashts* dated Shrawana Vadi 2, 1769 (July 9, 1712) and Ashwina Sudi 11, 1769 (October 2, 1712).
  3. *Arzdasht* dated Phalgun Sudi 4, 1767 (February 10, 1711).

However, it would be wrong to presume that the task of getting favour was over after the payment of *muhamasazi* was made. The more crucial phase was the implementation of the order issued by the *diwan* and *mir-bakhshl*. Thus the role of the *mutsaddis* working in the office of the *diwan* could hardly be under-estimated. *Arzdasht* dated *Chaitra Sudi 9, 1768* (March 17, 1711) records that Bhandari Khivsi had paid Rupees 100 as *nyota* (present) to Indra Mani, the *munshi* of Hakimul Mulk, the chief adviser of Prince Jahan Shah. Bhandari had advised Bhikharidas, the *diwan* of Amber to pay the same amount as present to Indra Mani. He also told that he (Bhikharidas) should pay Rupees 300 to the *peshkar* of the office of *diwan* so that the *sanaa'* affecting the grant of Bhahtri on *ijara* could be issued. Similarly the payment was to be made for the *darbar kharch* so that the *sanads* affecting the grant of *mansab*, *izafa* and *ijara* could be issued in time.<sup>1</sup>

Interestingly enough the importance of the payment made to the officials of the various offices of the Mughal court has been very well argued by *vakil Jagjiwandas*.<sup>2</sup> In relation to the payment made in favour of the *navisandas* (scribe) of the office of *waqai-navis*, he represented the case before the Maharaja arguing that their services to the Maharaja were very significant and if they were not paid their customary dues, the interest of the Maharaja would suffer. He emphasized that *navisandas* and *chobdars* of the court were paid the customary dues since the time of Maharaja Man Singh. Even during the early years of present reign they were paid regularly and if this was discontinued now, it would go against the interest of the state. *Jagjiwandas* further said that he could maintain his prestige before the *umara* of the court only if he paid some *inam* to the *chobdar*, *khidmatgar*, etc. of the court.<sup>3</sup>

These references suggest that the practice of paying

- 
1. *Arzdasht* dated Bhadrpada Vadi 5, 1768 (July 23, 1711).
  2. *Arzdasht* dated Bhadrpada Sudi 11, 1768 (August 13, 1711).
  3. *Ibid*.

money as *inam* to the officials (clerks)] was, of course, a recognized custom and possibly no new dimension was introduced except that the amount of money was increased. However, it was the payment made to the high officials which ultimately took the shape of bribery. It played a significant role in determining the policy and assignment of the lucrative *jagirs* and *ijaras* to the Rajput rulers. A period in which the Mughal state was facing a tremendous pressure on the *jagir* the Rajput rulers got assigned in their favour high *mansabs* and *jagirs* and also the *jagir* land on *ijara* which might have contributed greatly to the *jagirdari* and financial crises.

The involvement of the Rajput rulers in the Mughal military campaigns at the distant areas, postings of the Rajput *diwans* and *vakils* at the Mughal court, necessity of payment of money to Mughal officials to acquire favour, the practice of furnishing surety from the *mahajans* for acquiring *ijara*, etc., necessitated a system of money transmission, advancing credit on interest and its repayment on an organized pattern. The most favourable and accepted instrument used for the funding and transmission of money was *hundi*, the references to which are cited frequently in our *arzdashts*.

The *arzdashts*<sup>1</sup> contain details on the *hundis* issued to Aurangabad, Lahore and Shahjahanabad which furnish interesting information about the working of this system. The contents suggest that whenever the Amber rulers sent the money to their establishment at distant places they used to contact a local banker and after depositing the money at his firm the *hundi* was issued stating the amount of payment, name of the place where the payment was to be made along with the name of banker or *arhatia*. The information reveal that the Amber bankers either had their banches or *arhatias* or credit in the firm situated at Jahanabad, Lahore and

---

1. e.g. *Arzdashts* dated Vaishakha Sudi 10, 1764 (April 11, 1707), Vaishakha Vadi 13, 1769 (April 22, 1712); Vaishakha Sudi 8 (May 3, 1712); Jyeshtha Vadi 1 (May 10, 1712); Ashadha Sudi 5 (June 28, 1712). Bhadrpada Vadi 7 (August 12, 1712).



Aurangabad. In case of Lahore our data suggests that atleast three bankers of Amber namely Prohit Syamram, Dhansukh Gujarati, Khadagsen Hathisen, had either their *gumashtas* or *arhats* at the *sarraf* of Lahore. These *gumashtas* or firms were liable to encash the *hundis* issued by their bankers from Amber. Prohit Syamram has been mentioned as a banker who had his network of credit at Aurangabad, Lahore and Shahjahanabad.

It seems that the transaction of money in normal circumstances was carried out smoothly, but there arose problems whenever the bankers who had issued *hundis* terminated their transaction with the *sarrafs* from other cities. In such cases the *hundis* were not honoured by the *sarraf* and even they refused to purchase the same. However, in doubtful cases, the *sarraf* in whose name *hundi* was issued would make the payment only after getting the credibility confirmed from their representative working at the place from where *hundi* was issued. If the amount of *hundi* remained unpaid, the Rajput vakil used to request the Maharaja to get the *hundi* issued from another *sahukar* who had his credibility at the place where the *hundi* was to be encashed. The *arzdosht* dated *Paush Vadi 1, 1768* (December 15, 1711) records that the *hundawal* (commission) was charged at the rate of Rupees 13 *annas* 8 on every hundred over and above the interest of the original amount.

The delay caused due to the dishonouring of the *hundis* some times caused serious problems for the vakil of the Maharaja. In the absence of ready money he was unable to pay money to various officials who were responsible for issuing the *sanads* of the assignment of *jagirs*.

—G.D. SHARMA

॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री चरण कमलानु लसकर सू सदां सेवग आग्याकारी पं० मेघराज लिखाईत तसलीम बंदगी अवघारिजो जी । अठा का समाचार श्री महाराजाजी रा प्रताप करी भला छै । श्री महाराजा जी रा समाचार घड़ी घड़ी पल पल का सदा आरोग्य चाहीजै जी । अपरं च महाराज म्हांके धंगी छै, श्री परमेसर जी री जायगा छै श्री महाराज ने म्हांका सिर पर घणां सलामत राखै जी ।

महाराज सलामत । आगे तो तफसीलवार समाचार लिख चलाया छै बाद-शाहजी नै अजरईन का ये अरज हुई जु राजाजी जाटां नै आवादान कीया है अर भीरकलीच<sup>१</sup> गुरजवरदार<sup>२</sup> नै जाहर कीया जु ईन के आवादान करनै कूं हुकम नहीं है, जद राजाजी नै जाहर कीया जु ईनके आवादान करनै की अरजदासत करी हं । तिस उपर बादशाह जी नै फरमाया था तिसकी हकीकत लिख चलाई है । जिस पीछे नवाब बहरमंदखां<sup>३</sup> नै ईतखाव अरजदासत वामता लिख वाजवुल अरज बजनिदासत मुखारिक मै दीया । तमाम मतलब यकबयक मुताले खास मैलायै अर फरमाया जु ईन अरजदासती यह नहीं लिखा है जु मै जाटौ कूं आवादान कूं करहुं अर वगैर हुकम के आवाद कीये ईम पर वीदीत तैस कीया, अर मालूम होई गायसत खांजी<sup>४</sup> तौ जौ अरजदासत व खत लिखे थे सु तमाम अजसरतायासिकवे सू ही पुर लिखै थै । तावहदक किवले आलम जद तक चसमनुमाई न होयगी जद तक राजा नहीं समझनै का । अर तिस सिवाई अब अरजदासत आई थी सु बादशाह जी पास बजनिदासत गई है बाहर नहीं निकली तिस पर बादशाह जी नै

१. मीर कलीच—चीन कलीच घाँ—गार्जोउद्दीन फीरोज् जग का पुत्र जो आगे चलकर निरामुल मुहक के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

२. गुरजवरदार—सदेगशाहक ।

३. बहरामद घाँ—मीर-बघती ।

४. ममीर-उस ऊमरा गादस्ता घाँ

महाराजा जी को तोजीह<sup>1</sup> मगाई अर फरमाया देखो हमनै सरत ईसतीसाल जांटां मनसब दीया है यह खबर नही अर बदं न हुकुम खिलाफ मरजी का रवादार होई आबादान कीयै है तोजीह पर दसखत कीयै, पांच सदी जात वीलासरत व पाच से सवार सरती व पैसठ लाख दाम इनाम कम कीयां । अर ईकी कमी मै टोडा भीव का दाम ती कमालुदीखां नै देन का दसखत कीया । अर चटसूं पर महमत की खां नै दसखत कीया अर अब अरज्या पर दसखत कीया जु जी कोई चाहे जिसै दो । अर और महाल का तलबदार होई जिसै अर तित मै तलब भोकूफ राख आया अर दसखत कीया । जुकावुल सू व ईसलामावाद सू मुचलको भेजो है सु नजर-गुजरां नै अर वहरमंद खां सू फरमाया, राजा नै मुचलका जु दीया हे सु मालुम असा होई हजुर उसका मजमून फरामोस कीया । जद वहरामदखां दरवार कर निकला जद खानाजाद सू नवाब नै कहा जु यह राजाजी नै क्या कीया जु जाटौ कूं वगेर हुंकंम आबाद कीया, अर वाके दाखल हे जु राजाजी ही नै कहा जु हम अरजदासत करी हे तुंम वाकै दाखल करो । सु अरजदासत मै यह लिखा हे जु कसत घोड़ी व सलाह हवाले करनै का रखै है जो मिले है तो बिहतर, नही कतल करंगा, तिस पर बहोत तेस कीया जु अरजदासत व इस मजमून करी अर जाटौ कूं बगैर हुकम आबादान कीये । जद खानाजाद नै जाहर कीया जु राजाजी नै वाके दाखल कराया हे अर अे अरजदासत मतालिव की आई है । ईस मै भी महाराजा जी नै लिखा हे जु कसत मिलनै का रखै है सु अगलव हे जु राजाजी अजराह सलाह मुलकी अपनी काबू मै वाकी रहे मुकसदौ कूं लाये होहगे अर अरजदासत की होईगी माकनलवे मै तो अरजदासत आंवनै का हुकम नहीं । इस सबब राह मै देर हुई होईगी । अर नवाब कु मालुम होई जु राजाजी पचास लाख रुपइये घर के खरच कर इस सवा तीस लाख रुपइये के करजदार होई ईस जांफिसानी सुं वघर के मशाले सू ईसतीसाल जाटौ का कीया, आज उमेदवार नतीजे के थे । तिस पर बगेर जसबूत अंतराजी मै आये हे अर महाराजा जी कूं उमेद थी जु नवाब से मुसफक हमारे हजूर मै हे मतालिव<sup>2</sup> सरजांम होईगे सु बेतकसीर पाई अंतराजी मै आये है, उमेदवार है जु नवाब या ईरोप अरज करै ? जद नवाब ने कहा जु हम तो मतालिव सरजाम कुं ही इंतखाब अरजदासत का ले गये थे अर जु कुछ हम सूं जोरा हुवा सु कीया । अमां बादशाहजी वोहोत तेस में थे अब रात कुं खीलवत मै आवो इलतमास<sup>3</sup> लिख दो फेर अरज करूं । जद खानाजाद ईस ही मजमून ईलतमास लिख दी । जद नवाब कूं

1. तोजीह—महाराजा के पद एवं मंसब से संबंधित रजिस्टर ।

2. मतालिव—माँग ।

3. इलतमास—प्रार्थना अथवा प्रार्थनापत्र ।

खीलवत मैं बुलाया तब अजखुद तैस कर फरमाया पांच सदी जात पांच से सवार कम कीये है। अर पांच से सवार मसरत मरातव<sup>1</sup> सू जीयादे होई सु भी कम करो। पांच सदी जात पांचसे सवार बराबुरद<sup>2</sup> सो दु आसपीलो जद नवाव नै ईलतमास खानांजाद की अरज करी—जु वकील अरज करता है जु राजा वेतकसीर<sup>3</sup> है, अर वांके दाखल हे जु मैं दरगाह कूं मारूज कीया हे तुम भी वांके दाखल करो, सु अरजदासत भुसाफत राह कर नहीं पौहची है। राजा नै अगलव हे सुलाह मुलकी सू काबू मैं लाया होईगा अर अरजदासत की होईगी हुकम होई कतल करूं उमेदवार हूं जु वेतकसीर पाई एतराजी मैं न आवे, फरमाया खुब, पैसठ लाख दाम ईनाम<sup>4</sup> बहाल करो अर ईन पांचसे सवार की अेवज पेलीस लाख दाम ईनाम मैं ओर दो, जुमले अेक किरोर दाम ईनाम दीया।

सु महाराज सलामत। सवार<sup>5</sup> का दीवान मैं तो या कमी हुई थी अर रात की खीलवत मैं अेक करोर दाम लीये। नवाव वोहोत कुछ वादसाहजी नै कही अर महाराज सूं वहीत सरमिदा छै। फरमयानै लागे—हम जानते थे जु अेक दोई मतलब सरंजांम दैगे वादसाहजी भी सरे ईनायत होई इतखाव अरजदासत का अरज करने कूं हमे सौपा है यह न जानते थे जुगेव सूं यह नगमा भाइ पड़ेगा अर फरमाया, वहां वाके नवीसी सुं कुछ सलूक्या नहीं राखते है। सु महाराज सलामत। अठे या सूरत रूईदी हे। अर सेवग चाटसू का व टोडा का दांमां के वासतें लगाई है जु यांको कोई तलवदार नहीं कमालुदी खां के तलव नहीं जुंदीजे आखर पायवाकी<sup>6</sup> में राखीये तो राजा ही कूं दीजे सूं जो वन आवे है सूं पीछे सूं अरजदासत करूला। महाराज सलामत। दरवार का मामला बहीत नाजुक ईस तैस मे नवाव हरमदखां जी नै अरज कर करोर दाम लीये सु मुदारात कर नीजर रहे अर ईनकी मुदारात दोई चार सीवाई मालूम अर हमेस काम हे, पीछे मुं जु हकीकत होईगी सु लिखीयेगा जी।

महाराज सलामत। तिस पीछे सलावत खां कूं वादशाहजी नै ईरसाद फरमाया जु तुम राजाजी कूं लिखो गुरजवरदार साथ हसबुल हुकम सलावत खां

1. मरातब (मरातिब) = पदप्रतिष्ठा।

2. बराबुरदो = सामान्य सवार पद (एक अस्था)।

3. वेतकसीर = बैंगूनाह।

4. इनाम

5. सवार (सवारे) = प्रातःकाल।

6. पायवाकी = मृगज साम्राज्य का वह क्षेत्र जो जागीर के अन्तर्गत आता था किन्तु किसी मगबदार को न दिये जाने की स्थिति में कुछ समय के लिए राज्य के नियंत्रण में रख लिया जाता था।

जी नै अपनै अपनै दसखतौ लिख चलाया हे, सू गुरजबरदार जलद पौहचेगा । नवाब सायसतखां कूं भी हसबुल हुकम है, नवाब आकिलखां जी कूं हसबुल हुकम कामबकश की जागीर कुं खालसे करने का हे सू महाराजा जी कूं हसबुल हुकम पहुचेगा तिस पीछे नवाब सलाबत खांजी ने सेवग कूं खीलवत मै बुलाई कर कहा जु देखीयो यह कहां ही जाहर न होई अर तुम राजाजी कूं लिखो । अर खानांजादसूं पूछा जु बादसाहजी राजाजी कूं हजूर बुलानै की खाहस<sup>1</sup> राखै है राजाजी यहां के आवने पर रंजामंद है । जद खानाजाद ने कहा जु बादसाहजी जहा मेहरवानंगी फरमाई खीदमत फुरमावै तिस ही मै अपनी बिहबूद सआदत जानै हे, जद नवाब नै फरमाया जु बादसाहजी मेरे ताई फरमाया है हम रीयायत भी राजा सूं करैगे अर मथुरा की खीदमत व हीडोन बयाने की खीदमत राजा पर ही रखेगे । जु राजा आधी जमीयत कूं अपनै नायब साथ वहां रखे अर आधी जमीयत सूं हजूर आन पहुंचै, अर नवाब नै फरमाया जो तुम कंवर चिमनै के वास्तै मुकरर अरज पौहचाई है अर सर्ई मै है जो हजूर आवनै का जवाब मुझै लिखै अर कंवर चिमनै के वास्तै मुझै लिखै तो मै मनसब सूं सरफराज करवाई मथुरा की खीदमत नयाबत कंवर पर रखांवु । अर ओर मतलब जु लिखै सु संरजाम देवूं सु तुम भी ईस हकीकत कूं सीताब लिख चलाई जू सीताब पौहचे ।

महाराज सलामत । यहां की यह हकीकत है जु ईस मौहम का मामला बोहोत अबतर हुवो हे पातसाहजादा कामबकस बागी होई चींजी के किले कूं जाया चाहे था सु नवाब असदखांजी दसतगीर कीया चींजी का मामला बरहंम हुवा । आज आजमसाह सगर की गढ़ी कूं लगा था सु खोजा याकूत कूं भेजा जु सीताब चींजी पौहचावै । असदखां जी व कामबकस कूं हजूर बुलाया सु हजूर ले आवे । बादसाह जी कूं दखंन की मौहम मै हर चार तरफ सु फोजो की असी दरकार आन लगी हे अब हजूर मै आठ सात हजार सुवार मोजुद नही, सगर की मौहंम मै आजमसाह की जाईगा असा कोई नहीं जिसे भेजे । खानजहा बाहादर कु हजूर तलब कीया अर हीदुसतान की फौज मै महाराजा जी सारसा साहब तमब साहिव अलूस बुलायो चाहै छै ।

महाराज सलामत । खानांजाद कूं भी यहा फीतरद देख अरजदासत करनी जरूर है तीसू अरजदासत करी है जू इस अरजदासत मे जु हरफ खातर में पसंद आवे सूं हसबुल हुकम का जवाब मै लिखेला जी, जु खानांजाद कुं तो ईबतदाई काबुल के आवनै के सू यही आरजूई थी जु बह कौन साअत<sup>2</sup> होईगी जो मुझे ह हजूर आवनै का ईरसाद होईगा । अर खानांजाद कदम मुबारक देख अ सादत-

1. खाहस=स्वाहिया—इच्छा ।

2. साअत=घड़ी ।

बहरैन<sup>1</sup> हासिल करेगा अर ईन दिनी मै तो खानांजाद कुं यही आरजूई थी जु मै अज खुद अरजदासत करूं हजरत जिलसुवहानी<sup>2</sup> जाहर करामात है जु पेस अज अरजदासत खानाजाद के करनै सु खानाजाद की ऐन मुराद थी सु ईरसाद हुवा । अर खानांजाद नै जु तरुदुद कीया अर तह खरच आई चालीस लाख रुपइये का करजदार सीवाई अमवाल आवा व अजदा<sup>3</sup> के खाई हुवो अन गरजगो लोगो के लिए सुं जुहर चाहर तरफ सुं लिखा है । अर लिखी हे सु न तो खानांजाद का तरुदुद<sup>4</sup> जाहर हुवा न खानांजाद की परेसानी ही जाहर हुई अब खानाजाद कुं हजूर तलव का हुकम हुवो है तो उमेदवार हुं ति सवक तकदम देखूंगा अर जो खीदमत फरमाई येगी अर तरुदुद करंगा । तो नतीजा भी नेक पावूंगा जिस भांत पकां खानांजाद का तरुदुद पाई माल गया हे जो ईस भांत हजूर मै आई तरुदुद करुंगा तो उमेदवार हुं तरुदुद पाई माल जानै का नहीं, अर नतीजा नेक ही पावूंगा अर खानांजाद कुं ईरसाद हुवा जु वह भी खीदमत तुम पर ही बहाल रखे हे । आधी जमीयत ले हजुर आवे अर आधी जमीयत सुं ईस खीदमत पर अपना नायब छोडे हजरत कुं मालुम होई जु यहाँ की फौजदारी व राहदारी व थानैवंदी व तबी हम कहुरी कुं किस कदर जमीयत चाहीये । अर आधी जमीयत कुं हुकम हुवा हे हजुर लेआवसी खानांजाद कुं हजरत नै काम कुं हजुर तलव कीया हे तो काम ऊपर नजर कर चार हजार सवार सु तो कम न लावूं अर खानांजाद अब मथुरा की फौजदारी पर है तो यहां के थानैवंदी व राहदारी व तबी हम कहुरी की पर वारह हजार सवार मौजूद है । इस जमीयत पर नजर फुरमाई खानांजाद की परदाखत होई व तनखाह परगने चाटसू वगेर मुतसल महाल बतन के होई; अर कंवर कु मनसब मवाफक दसतूर व अठाईस मवईजा का मसरुत फौजदारी सु सरफराज होई व कवर छोटे कुं पीघोर की जीमीदारी व मनसब मवाफक दसतूर कीरतसंघ के सरफराज होई तो मुफसिद जाटो कुं नेसतनावूद कीये है । अर कर रजपुतौ कुं आवादान करे ।

सु महाराज सलामत । ऐक तो यह सलाह हे जी और दूसरी यह हे जु महाराज उस फौजदारी में बहोत तह खरच आया हे और अमीरुलउमराव सू सोहबत ना दुरसत है तो ई भांत लिख जे जु हजरत के अकवाल सू गनीमी<sup>5</sup> की

1. सादत बहरैन (सामादत-ए-बहरैन) = शुभकार्य ।
2. जिल्ल-ए-मुमहानी = ईश्वर का प्रतिबिम्ब—बादशाह के लिए प्रयुक्त ।
3. मौशाए अमवाल-ए-प्राबा व अजदाद = बाप-दादाओं की मित्कियत के प्रतिरिक्त ।
4. तरुदुद (तरदुद) = प्रयत्न भ्रमवा शक ।
5. गनीम = घरनी के घनिम शब्द से विकसित जिसका अर्थ लूटेरा या घाबेती होता है । यह शब्द मुगल समोर बर्ग व एवं जनसाधारण (उत्तर भारत) में मराठों के लिए प्रयुक्त होता था । इंग्लिश कम्पनी के दस्तावेजों में भी इस शब्द को प्रयुक्त किया गया है ।

तंबीह बवाकई करी अर चंदा ऐसा कुछ ईस जिले मै काम नहीं रहा तिस बंदे कु यह खीदमत फरमावेगे सू सरबराई करेगा । उमेदवार हूं जू तमाम जमीयत सू ही हजुर में खीदमत करु अर उमेदवार हूं जिस कदर जमीयत लावूं अर उस ही कदर खानांजाद कुं रीयायत होई अर सरती मनसब बहाल होई बीलासरत होई तनखाह चाट्सू वगैरह मैलातुं तो तो जमीयत मुतफरक न होई व कवरं मंनसब सु सरफराज होई जुं आवेर वगैरह जिले सु खबरदार होई ।

महाराज सलामत—यामै जु खातर मुबारिक में पसंद आवे सु अरजदासत करैला । फारसी अरजदासत सीताबी के सबब नहीं करी हे जु नवाब सलामत खां जी नै फरमाया जु जलद जोड़ी चले जु जलद समाचारों की अरजदासत करी हे अर घणी कांई अरज लिखां जोड़ी बोहोत मोडी आवे है सीताब भेज जे जुं मतलबो सु खबरदार होजे । मीती माह बदि १३, संवत् १७४८ ; मुकाम गलमला ।

॥ : ॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराजि श्री.....चरणकमलानु लसकर  
सुं सदा सेवग आग्याकारी खानांजाद बंदे पं० मेधराज लिखाईतं तसलीम बंदगी  
अवधारिजो जी । अठा का समाचार श्री महाराजाजी रा तेज प्रताप करी भला  
छै । श्री महाराजा जी रा सीख समाचार घड़ी घड़ी पल पल रा सदा आरोग्य  
चाहीजै जी ।

महाराज सलामती । महाराज म्हांके धंणी छै श्री परमेसर जी की जाईगा  
छै । श्री महाराजा जी नै श्री परमेसर जी खानांजाद गुलामां का सीर पर हजार  
साल सलामत राखे जी ।

महाराज सलामत । और समाचार दरवार का मुफसल<sup>१</sup> फारसी वं हीदवी  
अरजदासत मै आरजू करी हे । खानांजाद बंदो नलवाखां मै था जु अंजरई वकाये<sup>२</sup>  
खबर पीहची जु ठाकुर हरीसंध बरोदा किला फते कीया, वादसाह जी पास  
अरजी गई हजरत नै श्री महाराजा जी की व हरीसंध<sup>३</sup> के बंदवसत की खूब  
तारीफ करी; फरमाया पेसकार हम चु मे वायद सद रहमत<sup>४</sup> अर फरमाया यह  
राजाजी ही कै पेसकार नै व फोज नै काम कीया हे व ईलादीनदार की रामखानी  
कुं भी खीदमत थी उनहीं नै कु न लीया, सिपहदार खां सुं भी कुछ न हुवा अर  
पेसकार राजा के नै फते कीया । यार अली सुं फरमावनै लगे तै कहता था किला  
फते न कीया सुं हम फरमावते थे किला फते कीया सुं फते कीया अर हमें नालुम  
है जु धी सवार कलासरगरोह मुकसदा वूद हम चुनीये सकार व फौजे मुसतफिकल

1. मुफसल (मुफसल) = विस्तृत विवरण ।

2. अंजरई वकाये (अंजर-ए-वकाये) = वकाये के अनुसार ।

3. हरीसिंह घंगारोत ।

4. फेरार हम चु भी वायद सद रहमत = ऐसा पेशवार (हरीसिंह) सैब द्रो रहमतो वाला  
होना है ।



मे वापद क फते व कुनद ।<sup>1</sup> महाराज सलामत—ऐसा तरदुद बादसाहजी की खातर मै महाराजा जी का नकस हुवा सु महाराजा जी नै मुवारिक होह ।

महाराजि सलामत—हजारों हजार सुकर हे जु बादसाह जी की खातर मै महाराज को मुजरो ववाक ईनकस खातर हुवो बादसाह जी नै यह जानां जु जाटी कुं भी अगर बसाया होईगा तो भी बरामदकार सरकार के कुं कीया होईगा ।

महाराज सलामत—या खीदमत भी जु महाराजा जी नै सरफराज हुई छै सु महामिद खां की साथ तरदुद मरजी मुकदस मवाफक हुवो अर बादसाह जी की खातर मै नकस हुवो ई तरकीब कर हुई हे । अर जद बहरमद खां नै अरज करी जु किवले आलम रा जे बीस हजार सवार मौजूद दारद<sup>2</sup> बादसाह जी नै फरमाया है, पेसकार साहिब तदबीर असत क जमैदासते ।<sup>3</sup>

महाराज सलामत—महाराजा जी अब भी तरदुद सु व दीलवरी रजपूतां की सु व नवाब सायसत खां का ईखलास पर मुतवजह होईला तो तमाम मेवात का जिला ओर फोजदारी महाराज ही नै होईगी जी ओर घणी काई अरज लिखा खानाजाद नै तो वंदगी दुवाई दोलत सु काम छै ओर घणी काई अरज लिखु । मीती वैसाख सुद ८, संवत, १७५० ।

- 
1. वे सवार कित्ता नरगिरोह-ए-मुपिसदां दूद हम चुनी-ए-सरदार व फौज-ए-मुतवजिह भी वापद कि फतह व कुनद—सवारों के बिना सिन्हा फिदादियों का गट था । इनकी प्रशंसा नरवार और मुदत फौज के नामने उनको फतह होना ही था ।
  2. बीस हजार सवार धरने साद रखता है ।
  3. पेसकार साहिब-ए-तदबीर अस्त कि जमियत दाखे—पेसकार मायन-मयान धरित है, यद्यपि वह जमियत रखता है ।

॥ : ॥ श्री गोपाल जी सहाई छै जी  
महाराजाधिराज महाराजा श्री वीसनसंघ जी

॥ : ॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री श्री श्री श्री चरण कमलानु लसकर सूं सदा सेवग आग्याकारी खानाजाद पं० मेघराज लिखाईतं तसलीम बंदगी अवधारिजो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप करी भला छै श्री महाराजा जी रा सीख समाचार घड़ी घड़ी पल पल रा सदा आरोग्य चाहीजै जी । अपरंच महाराजि म्हां के धणी छै श्री परमेश्वर जी की जाईगा छै सेवग खानाजाद बंदा ई दरवार का छै । श्री महाराज नै श्री परमेश्वर जी खानाजादां का सिर ऊपर हजार साल सलामत राखे जी ।

अपरंच महाराज सलामत—परवानां सरफराजी का १६ रमजान का लिखा १५ सवाल नै खानाजाद कनै आया सरफराजी व सरबुलंदी हासिल हुई । श्री महाराजा जी नै खुसखबर सरफराज होनी खीदमत हीडोन बयाना बगेरे महाल की व बहाल होनी पांच सदी पांच से सवार दु असपा की खबर खानाजाद की अरजदासत सूं पीहची तिस पर अजरूईत कजुल व करम दरवाब खानाजाद निगारज फरमाया था जु दरवाब सरंजाम मतालिव तेरा मुजरा हुवा ईस सूं अजरूई महारवानगी खिल्लत खासा ईनायत फरमाया है व वादजर सीदन सनद व परवानां के ओर जो रीयायत मरकुज खातर हे सूं फरमावैगे ।

महाराज सलामत—सरफवरूद फरमावने परवाने के सुकर मराहम वजाइलाई तसलीमात अदाव अबुदीयत वजाई ईलाया । महाराज सलामत । खानाजाद नकसीर अकल कुं क्या जुरअत हे जु इसकी सई सूं काम होई यह श्री महाराजाजी का तेज प्रताप है अर खानाजादां कुं दुवाई दौलत वजाई नाव नांव हतलम कदूर दीडना ।

सु महाराजा सलामत—फौजदारी महालौ कि सनद तो अजुरुई ईहतीयातन फरद तफसील तफरीक महालौ<sup>1</sup> की फरमान मै व हसबुल हुकम बहरमद खां के लिखे मै डाल भेजी है सु हजुर पौहची होईगी व जागीर का परवानां पेश अजवरूद होनै परवानै हजुर के जद डोल<sup>2</sup> जागीर महाराजा जी का हजुर गया अर रदबदल दरमीयांन आई बादसाहजी नै फरमाया हीडौन, बयाना, दोडा, उदेही, सब दो; अर महाराजाजी का महाल वतन अेक आवेर है ईस सिवाई जिस महाल का जो तलवदार होई जिसै दो फेर खानाजाद नै नवाब सु कह डोल लिखवाया ईसकी हकीकत मुकसल आगे अरजदासत करी हे ति सूं मालूम फरमावै ला जी, सु डोल की भी नकल आगै हजुर के जगंजूर के भेजी है तिस मवाफिक जु हजरत जिल सुबहानी के खास दसखत होई आये थे तिस मवाफक परवानां जागीर का मुरतब कर हजुर भेजा हे सु महाराज हजुर पौहचेगा । अर अब हुकम आया है जु भुसावर जागीर मैलीजो सु ईसके खानांजाद तलास मे है हाल तक तो भुसावर के वासते अमीर खां के तजबीजीयौ की जागीर कुं हुकम हुवा है सु परवानगी नहीं लाये है याददासत भी तईयार नहीं कराई है अर खानांजाद तलास मे हे पीछे सु जु हकीकत होई सु आरुज करंगा जी ।

अपरंच महाराज सलामत । दरबार का समाचार मालुंम फरमावैला जी जु नवाब आकिलखां जी ने हसबुल हुकम महाराजाजी का खीदमत तफतीज हौन का मुकदमा मै गयो थो अर ऐक हरफ बोहोत नाजुक लिखो थों अर वहरमंदखां नै ताकीद व तकीयदमाम सुं फरमायो थो जुं कठे हि जाहर न होई, नवाब मुनसी नै ताकीद लिखीण मै करी थी जु कठे ही जाहर न होई सु महाराज की तरफ सुं मुनसी पावे भी छै अर उमेदवार महीना को कीयो छै ई वासते जु मुकदमौ नाजुक होई हे सु भी कहे हे अर यो मुकदमौ नवाब महाराजा जी नै भी न लिखो होई जो हजरत नवाबनै लिखो थो जु कधी अमीरुल उभरा मरजाई तो राजाजी कुं तुम अभी लिखियो मथुरा की भी फोजदारी तुम्हें अर आगरे की भी फोजदारी तुम्हें तुम खबरदार रहीयो; इसका जवाव नवाब नै लिखा है जु अभी राजाजी कुं यह लिखना मनासिब नहीं हे अगर खानांजाद की हयात वाकी है तो लिखुंगा, बादसाहजी नै वजनस खत पढ़ा । पढ़तवसु कर खत वहरमंद खां कु दीया ।

सु महाराज सलामत । कहाँई जाहर न हौ पावे या वात । अमीरुल अमरा का खत दर जवाव तकवीज खिदमत के हसबुल हुकम का आया तिसमै लिखा था वमूजव हुकम के मै जमीयत अपने फोजदारी मै भेजी व राजाजी कु खत सरगरम हौनै खीदमत अपने लिखा हे सु वमूजव हुकम के सरगरम खीदमत होईगा ।

1. तफसील तफरीक महाल—परगनों के अनुसार राजस्व का विवरण ।
2. डोल—मसबदार के पद, वेतन, जागीर का विवरण आदि का उल्लेख इस दस्तावेज में होता था ।

महाराज सलामत । महाराजि नै खानांजाद कुं लिखा था जु नवाव अमीरुल उमरा नै हमे खत भेजा से मालुम होता है जुयारे मुतवजह हे अर वजनस खत की नकल खानांजाद पास भेजी थी । सु महाराज सलामत । नवाव खूब भांत ईतहाद मोरुसी मु लिखा हे अर महाराज जी कुं कुंन लिखे अर अजराह मानवी वोहोत चाहें हे अर महाराजाजी कुं देखा चाहि हे सुं खानांजाद नै मरजी मुकदस<sup>1</sup> देख जु फरमाया मारा जरूर सुद कवाराजे व अमीरुल उमराई खत लातपेदा कुनम ईस पर ईलत मास गुजरान हुकम लीया ईस पर नवाव कुं भी वोहोत वोझ पड़ा है वकील ने भी नवाव कुं लिखा है अर अक हसबुल हुकम ईसतगासे के मुकदमै मै गया है जु राजाजी के मुकदमै मै वतेहकीक वेसवूत आयंदे ईस भात न लिखा की जो ईस मुकदमै की तफसील मुकसल आगै अरजदासत करी हे सो उस सु भी वोहोत दरखासत व मुलाहिजा मरजी मुकदस का हुआ है । अब महाराजाजी भी नवाव सुं मिल सिलसिले ईतहाद मोरुसी कुं मुतहरक करै तो विहतर व मनसब हे वडा अमीर है वादसाहजी कु वड़ीयास खातर है जो महाराजा जी नवाव कु मिल वई नापत ईलाही तरुदुद करै अर हकीकत खीसारत की व महाराज कंवार के मनसब कुं लिखावै ती सीताव सरंजाम मतलब हौहाते सु महाराजाजी सबसु विहतर सलाह मिलन की व ईरत वात करने की व हुजुर कुं लिखावनै की करैला ; फेर जु सलाह दोलत होई सु अजहमै विहतर मनसब ।

नवाव वहादुर खां जी<sup>2</sup> कुं दोई खत आये, अक तो आग्र आया सु ईस ही मतलब का जु वकील जाहर करे तिसमे तवजह करैगे अक और खत हाल आया हे सु नवाव कु पहले तो हुकम गया था जु जदतक साहजादे का महल आवे जद तक ओरंगाबाद मै रहै वादज आवनै के हजूर आवे, फेर हुकम हुवा जद सताम कहर पर नालेगढ़ पर जुतु पर आया जद नालेगढ़ जांसु हुकम तो वही हे अर संताम कु हुर टाला देसी । तारेगढ़ छावनी कुं गया लोग चिजीं से टुटे आये थे संता<sup>3</sup> तो फहता था चलो मारखड़े रहे फेर ओर सरदार थे उनै ने कहा अवा चंजी सुं भरे आये हे अर घोड़े टटु रहे हे चार महीनै आराम पकड़े फेर जहां कहोगे जहां दौड़ेंगे । संता नै<sup>3</sup> कहा न माना कमै असा नमछरा कहां पावुंगा मारखड़ा रहता हू फेर अकवाल वादसाही सुं पांच छै हजार सवार संता पास सु अठ गया ईस ही भांति अठे जाने लगे जद आप भी सितारे गढ़ की तरफ छावनी कुं गया ।

सु महाराज सलामत । देखीये खानजहां वहादुर हजुर आवे या परनाले पर

1. मरजी मुकदस (मरजी मुकदस) = पवित्र इच्छा = वादशाह की ।
2. वहादुर खां कोकालतन = प्रीरंगजेब के शासन के उत्तराद्धं में वादशाह का विश्वसनीय मंसबदार जो राजपूतों से सम्बन्धित नीति में परामर्शदाता के रूप में कार्य करता था ।
3. संताजी पोरपाडे ।

जाई ? रमजान की अरजदासत आई थी वकील कुं परवाना आया था जु अकलुज तक तो आवै है अर अरजादासत करैगे फेर जु हुकम होईगा सु बजाई लावैगे । सु महाराज सलामत । हजूर आवते है खानाजाद मुकई पद है अर नवाब जुमद तुलमुलक कु खत आया था सु ईनकी तो वाजी ही बरहम होई गई इन्हें अरज की कहां ताव ताकत रही है ईन पर जु इताव खिआयाव या सु आगे मुकसल लिख अरजदासत करी है अब ईय मुतलबखां<sup>1</sup> कु भेजा इन्हें सगर सगर ले जाई सु सगर कु गये अर कामबकस ता: १६ सवाल चौकी आन दाखल हुवे ता: २० सवाल पंजसवह कु मुलाजमत है बहरमद खां<sup>2</sup> पेसवाजाई महमद अजीम<sup>3</sup> पेसवा जाईव ता: १६ सवाल साहजादे जी की मां चौकी पर मिलने कु गई । ऐक खबर है ईनकी मुलाजमत न होई ईनकी कारसाजी भी साहजादे साहआलम नै की हे सु साह की मुलाजमत कर दोलतखां ने दाखल होई अर साह कहे सु कबूल करे फेर दरामद लैन के लसकर हुवे जु हकीकत होई है सु अरजदासत करुंगा जी ।

महाराज सलामत । वादशाहजी कु मुलतबखां कहते थे जु अरज हुई राजाओं की फौज हीडौन, वयानै एई व कमालुदी खां के लोग उठै और चकले<sup>4</sup> मथुरा के वकाये सु अरज हुई जु सायसतखां जी नै साहराह कुं थाने भेखे थे सु ऊनसु थानै न सवे<sup>5</sup> वे थानै ऊठे गये अब और थाने आवैगे, वादशाह सुन चुप होई रहे और जो खुफिये वकाये की रुअरज हुई है उसकी खजाने सहजुर भेजी है सु कार-परदा जान हजुर अरज करैगे जी । नोसेरी खां वहादुर खां जी का वेटा पहलै नवाब के आवनै के हजुर आया सु वोहोत बुरे अहवास सु आया मुखतीयार खां नै अरज करी जु खानजहांवहादुर का वेटा नोसेरी खां आया हे अरज करी हे मेरे पास कपड़ा नहीं है उमेदवार हुं जु दोई जोड़े सरकार सु पांबु मुलाजमत करुं । वादसाहजी नै फरमाया मारा चिअकता दे असतक माविद हम पदर ओ खुवाहदाद ।

महाराज सलामत । आज तक दरवार की ताजी एै खबर है पीछे सु जु रुईदाद हीई है सु आरजु करुंगा जी ओर जीयादे अर हदजर अत कुद नदीद आफ-ताव दोलत तांवां वदुर खसावाद । ता: २० हशर शवाला सं० ३७, मीती आसाद वदि = सं० १७५० ।

- 
1. मुत्तपद खां ।
  2. बहरमद खां ।
  3. मुहम्मद घमीन खां ।
  4. चकला = सरकार के नमबक्ष इकाई ।
  5. नियन्त्रण न दृष्टा ।

श्री रामजी

सिधः श्री महाराजाधिराज महाराजा साहिब जी सलामत । खत १ नवाब की मयुरा आय का आया था व खत १ वदी २ बुधवार घड़ी ६ रात गया सुं भेवे की रसीद का मि० माह वदी ३ ब्रह्मस्पतवार घड़ी ६ दिन चढ़ें खिलवत में दोनों खत गुजराने सु आप पढ़े कर वंदे सों पूछा कि चाटसू किसकी जागीर है । तब मैं अरज करी कि मुतफरकात<sup>१</sup> लोगों की जागीर है । फेर पूछा कुछ खालसा भी है तब अरज करी खालसा नहीं । फेर फरमाया कि राजा ने चाटसू के वासत लिखा है तब मैं अरज करी कि लोगों का कबीला अकसर चाटसू व चाटसू के गांवों में है सु जो चाटसू राजाजी की जागीर में दोई ती उलूस<sup>२</sup> के लोगो की खातर जमा होइ । तब सेखहिदायत यार ती पूछा कि चाटसू की हकीकत आगै लिखी थी या नहीं सु सेख की जु आगै समझाय छोड़ी थी कि यो अरज मत कीजो जो आगै लिखी थी सु सेख ने यो ही अरज करी कि मुझे याद नहीं । तब नवाब ने फरमाया कि जी आगै लिखी होई ती तकरार काहे की लिखी ये तब सेख ने कही कि जो चाटसू के राजाजी की होई तो उनके लोगो की खातर जमा होई । इसी बीच में मुकदरला खां<sup>३</sup> बोले कि आंवेर के राजा के चाटसू व धोसा व बसूवर मअजमां-वादा होई तब राजा की खातर जमां होई सु ई बलफैल<sup>४</sup> चाटसू ती उन्हें तरीक धर ही है ; तब फरमाया कि खूब, हम हजूर को लिखेंगे, तब मुझे पूछा कि

1. मुतफरकात=विषय ।
2. उलूस=बिरादरी के लोग ।
3. मुमुस्ता पं ।
4. बिलफेर=उत्पल ।

आंबैर सौ चाटसू केते कोस है ? तब मैं कहा कोस १२ है, सीव काकाड़ एक ही है । फेर फरमाया कि हम हजूर को लिखैंगे । तब मैं तसलीम करी, मुजे फरमाया कि हम राजा को मेवा क्या भेजै ? तब मैं अरज करी कि जु ईनायत होइगा सु राजाजी को तबुक्त<sup>१</sup> है । तब नासपाती बलखी १०० व अनार १०० व सेव १०० के पिटारे ४ सर व मुहुरबंदे के हवाले किए वखत लिखाय हवाले कीया । तब मैं अरज करी कि राजाजी ने मेवेदारों कौ सरोपाव १ व रुपये ५० भेजे है, तब नवाब नै फरमाया कि यह रसमीयात क्या है ? आगै तुम्हारै कहै लिया था अब न लँहगे । तब मैं फेर कही कि इहां क्या परवाह है निहायत स्य राजाजी की खातर दीस्त है । इसी बीच मैं सुकरुल्लाह खां व सेख नै कही कि राजा नवाब सो निसखत फरजंदी की राखै है बेदिल होईगा, तब फरमाया कि हवाले करौ जु वांट दे सु खानसामा के हवाले करे उनकु उसी वक्त दारोगा मुसरफ तहवीलदार कौ बाट दीए । फिर आप उठे सुकरुल्ला खां बाहर निकसै तब मैं सुकरुल्ला खां जी सौ महाराजा जी की द्वा कही, तई खां नै दोनौ हाथों सौं सलाम करी । फेर मैं कंही कि तुम जानते हौ जु आगै ही उन पर केती उसरत है, तिस पर यह खिदमत फरमाय है वे ता ही मसालह इहां को दरकार है तिस्ते तुम नवाब सौ कहि इनकी परदाखत<sup>२</sup> के वास्ते हजूर कौ लिखवावौ । तब खां नै कहा करार पकड़ा है हजूर कौ नवाब मुवाफिक तुम्हार कहे के खूब तरह लिखैंगे लिखना क्या कि हुकमी बादसाहजी इनके लिखने पर राजाजी सौं खूब रयायत करैंगे । तब मैं बहुत मनोहार करी । सुकरुल्लाह खां जी बहुत भला माना व कहा मेरी सलामी लिखौ व लिखौ कि हम भी सिताब तुमसो मिलैंगे । हमारा बहुत सौक है जु राजाजी कौ देखै सु सुकरुलाह खां जी खजाने के साथ आवैंगे सु अलबतह महाराजाजी इन सौ मुदारात<sup>३</sup> करैहींगे और नवाब ने अगली हकीकत हजूर कौ बहुत खूब तरह लिखी है और आज के खत में जु मतलब लिखा है सु भी सुबह परसौं तक हजूर कौ मवाफिक मतलब लिखवैंगे । नवाब बहुत मतवैज है और सेख की तारीफ कहांताई लिखियै ज्यौ समझाय कहीये है त्यौही नवाब की निसा करै है और सुकरुल्लाह खां जी भी तरुदिली सौ महाराजजी के मतलबौ कौ अपना ही मतलब जानते है जब मजकूर होय है तब बहुत खूब तरह अदा करते है और वंदा जु अपनी अरज करन का बयान लिखै तौ दाखल खुद नुमाई होता है । सु वंदौ कौ तो यह यह काम ही है कि जिसमें दौलतखांही सरकार की देखें सु काम करै

1. तब रंख = प्रशाद ।

2. परदाखत = प्रगति ।

3. मुदारात = खातिरदारी ।

ही और बंदे की जु परवाने २ इनाइत हुवे थे सु पहुँचे । बंदा सरीफराज होय मुवाफिक इरसाद आली के अमल किया । उमेदवार है जु परवाने सआदत निसाने सी सरबुलंद हुवा करै व उहां की हकीकत कलमी फरमाया कीजै तो नवाब पूछै तब निसा कीजै और खत शसकरुल्लाह जी को हसबल का लिख भेजना जु फलाने ने तुम्हारी तवजही का सुकर लिखा था । मिति माह वदी ४ संवत्, १७५० ।



गिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा गार्हिव जी सलामत । बंदी की कुरनिश वदगी बंदमृदोगी मालूमवाद । श्री महाराजा साहिब जी को तेज प्रताप दिन दिन अधिक होयुजी । अप्राच परवांना अनायत हुवा था सु पहुंचा । नवाब जी की खत थाम गुजराना व जवाब का पत हागल कर भेजा है व हकीकत मुनासब देखी सु जुवानी अरज करी व यह हकीकत भी मालूम करी जु महाराज नै सुवारी करी. पूछा कहां की ? तब अरज करी कि सोरी वगैरह परगनों की तरफ मुफसदों<sup>१</sup> ने कजरवी करी तिस्ते तंबीह करनै की सुवार हुवे । तब फरमाया खूब कीया व नवाब पूछते थे कि कुवर कहां तक पहुंचे है तब बंदे नै अरज करी जु इन दिनों मै बंदे को खबर नही आई आगै धोलपुर पहुंचे की खबर आई थी अव तौ दूरगय हीहिगे । सु बंद.परवर सलामत । महाराजाजी नै ताकीद फरमाई ही होइगी जु कूच दर कूच चले जाहि वरासात पहले पहुंचै सिताव तौ मुजरा वादशाह जी सौ होई व तरवक्की होई व सेख हिदायतूयार की सरोपाव की रु० १७५ विला कसूर का दीया है व काम खिदमत होई सु फरमाया करोगे । इस बात मै बंदे सर बुलन्द होते हैं । मिती जेठ वदी ५, संवत् १७५३ ।

1. मुफसदो (मुफसिदो) = फिसादियो ।

श्री रामजी

॥ साहिब फंज बखश श्री महाराजा जी सलामत ॥

॥ मिति भादों सुदी ६ आदितवार नवाब आकिल खां पूछते थे कि राजाजी का कूच कब होयगा । तब अरज करी कि हज़ूर का हुकम यी है कि जब इतकाद खां की जमैयत धानों सी खबरदार होय तब तुम अपनी जमीयत धानों सो बुलाय के वादशाहजादे की हज़ूर को चलीयाँ सु इतकाद खां का वेटा मथरा आया है सु राजाजी का असवाब कोट सों निकलता है सु अब कोट खाली कर उनके हवाले करेगे और जब उनके लोग सब धानों सी खबरदार होय रसीद देहगे तब राजाजी के लोग धानों सो उठ आवेगे और राजाजी का डेरा बाहर खड़ा हुवा है व देससों स्वार बरदारी मगाई है व किराए की मंगाई है और चलने ही के फिकर में है व बहुत मुतरदिद है कि हजार स्वार तो कंबर जी<sup>1</sup> के साथ हज़ूर गई है, व जमैयत साहस्तै सों शाह की रिकावजाया चाहिये जु खिदमत सरबराह कर सकीये । तब नवाब ने कहा कि विलफअल तां यही सलाह दीलत है कि कोट उनको घाली कर देह व आप आय बाहर डेर में रहे और जब उनके लोग आय थाने बगैरह जायगा हों सो खबरदार हा हि तब रसीद ले राजाजी उहां सो कूच करे जु वाकेनिवीस लिखे कि राजाजी ने कूच किया और जो वाकेनिवीस या इतकाद खां हज़ूर को लिखेगा कि मेरा वेटा व जमैयत मथुरा गई है सु राजाजी कोट घाली देते नाहीं मु जो यो अरज पहुंचेगी तो म व कहे, तब मैं कही कि राजा जी को वे सब महालों व धानों की रसीद देह तभी राजाजी उठ चलै । तब नवाब ने फेर कही कि यह तो यकीन है कि इतकाद सो यह खिदमत सरबराह होनी

1. जीमा साहीब—अबमिह

नाही, फिसाद होयहीगा लेकिन अब राजाजी के उहां होते फसाद होयगा तौ इतकादखां हजूर को लिखाय भेजैगा कि राजाजी नै मुफसदों को सनकार दीया तिस्तै फसाद हुवा सु दस तरह की अरज पहुंचनी भी खिलाफ मरजी होयगी और जौ राजाजी के चले पीछे राहो का मामिला और तरफ हुवा अरज पहुंचैगा तौ राजाजी का मुजरा होयगा तिस्ते अब तौ यही मसलहत है कि सीताव चलै । तब मै अरज करी कि जिस भांत हुकम होता है त्योही लिखौगा । तब फरमावने लागै कि यह बात राजाजी को खुश न आयैगी तिस्तै हमारी जुवानी मत लिखौ । तब मै फेर कही जि ज्यौ अपने दस्तगिरीफ्तों कौ<sup>1</sup> नसीहत किजै त्यौ नवाब साहिब मिहरवानी फरमावै है और उनकौ जु उम्मेदे है सु नवाब साहिब ही की मिहरवानी कदरदानीयौ पर है । तब फेर कहन लागे कि हम जानै है कि उनका मन चलनै को नाही तिस्तै उनकी अनसुहाती<sup>2</sup> बात हमन कहै सु तुम हरगिज हमारी तरफ सों मत लिखौ ।

सो श्री महाराज जी सलामत । जदि य नवाब नै मुझे मनै कीया कि हमारी तरफ सो मत लिखो तथापि बदां को लाजिम है जिस बात मै दौलतखांही देखै व दौलतखांही की बात सुने सो अरजदासत कीया चाहै जौ सरंजाम के या हजूर के सवाल जवाब के सबव तवफक कीजै तो इस फौजदारी की हद सो बाहर आय जहा खातर मुवारिक पर पसंद आवै वहीं मुकाम कीजै । परंतु अपनी फौजदारी की हद में रहना जु मालुम है आगे यह बात अरजदासत करतै मुलाहजा भी हुवा कि मवादा ना पसंद होय तो वंदे तखसीरवार हो हि सु ज्यौ खातर मुवारिक मै पसंद आवैगी सु अेन मसलहत होयगी सो ईयि जीराई पावैगी । ज्यादै अरज हद अदब नदीद । मिती भादौ सुदी ६, अैतवार रात, संवत् १७५३ ।

1. दस्तगिरीफ्तों कौ=पालकों को ।

2. अनसुहाती=बुरी लगने वाली ।

॥ : ॥ श्री गोपालजी सहाय

॥ श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा जैसंघजी

॥ : ॥ स्वसि श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलानुं  
खानांजाद खाक पाय पं० जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जाँ जी ।  
अठा का समाचार श्री महाराजाजी रा तेजप्रताप थे भला छै श्री महाराजाजी  
रा सीख समाचार सामता प्रसाद करावजो जी । श्री महाराजाजी माईत छै  
धणी छै श्री परमेमुर जी री जायगा छै म्हें श्री महाराजाजी रा खानांजाद वंदा  
छा जी श्री पातसाह जी श्री महाराजाजी थे महरवान छै । श्री महाराजाजी सुख  
पावजो जी पान गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जो जी ।

। अप्रंच खानांजाद वाजी रा परवानां आयां वोहत दीन हुवा सु वंदनवाजी रा  
परवानां सासता ईनायत फरमावजो जी । महाराज सलामत । जो खानांजादा  
रात दीन दरसन कीयो होय अर चरन सेवा की होय जे वंदा दरसनीक होय अर  
जो खानांजाद ने वरसाही याद न कीजै सो वंदा की भांत जीवता रहै । तीमुं  
वंदनवाजी कर खानांजाद परवरी रा परवानां पे दर पे ईनायत कीजो जी ।

। महाराजा सलामत । नोवत लेण को अब तांई श्री महाराजाजी भली भांत  
तलास न फुरमायो मु अजब वात है अर श्री महाराजाजी तो ऐक दोय  
चार जतन भी भला भलाकर भेजा पण केसोराय<sup>१</sup> का दीन तो पुरा हुवा अतो  
वडो तरदद कुंकर पस ले जाय सके । वेको वेटो<sup>२</sup> तो लड़को हे दरवार मे कोण  
पुछे अब भी श्री महाराजाजी मतलब सरंजाम रो तलास करण रो खानांजाद नै

1. केसोराय=मुगल दरवार में आश्वेर के राजा का वकील ।

2. पबिगतराय (केसोराय का पुत्र) को कुछ समय के लिये महाराजा जयसिंह ने मुगल  
दरवार में अपना वकील नियुक्त किया था ।

फुरमावे तो श्री महाराजाजी रा तेज प्रताप थे भला भला मुजरा कर वताउजी । अर गुलाम खांकवरदासता तो है ही पीण गुलामी की बंदगी वजायलाय जन्म सुफल करुं । श्री पातसाहजादा कामवगसजी<sup>1</sup> रोज मुजरो करुं हूं । श्री महाराजा जी रो खानांजाद जाण नवाजस फुरमावे है अर वकसयल मुलक<sup>2</sup> मीरजा सदरुदी म्हंमद खां जी सु व म्हरम खां जी भी ओरंगावाद मे सुफीलखानो ले हजुर आया है । सु खानांजाद आठ पहर हाजर रहे हे तीसु श्री महाराजा जी को मचकुर चले हे सु मीरजा सदरुदी म्हंमद खां जी वकसयल मुलक श्री महाराजा जी रो हजुर आपको खत भेजो है अर खानांजाद की भांत भांत नीसां वाजे मतालब उमदा अरज भली भांत कर सरंजाम देणो कबुल कीयो है ; जो अवार्<sup>3</sup> श्री महाराजा जी पचास हजार असवारां को मुकाबलो कीया वीराजमान हे ई स्मयामे तो जेयो तलास कीजे सो श्री महाराजाजी रा प्रताप थे सिध होय । सु हीसावी काम को सरंजाम होणो हीसावी ही हे । जद श्री जी की खातर मुवारक पे आवै तब ही तलास फुरमावेला जी । खानाजाद ने दरवार मे तो श्री जी को गुलाम जाण हर कोई म्हरवानगी करै है ।

। पातसाहजादा कामवकसजी श्री जी को खानांजाद जाण तीन सदी को मनसब करे था सु खानांजाद विचार कियो जु पातसाहजादा की चाकरी मे अटकाया छै सरकार का काम ने फुरसत पावनी मुसकल तीसू खानाजाद मनसब कबुल न कीयो अर मुजरो सलाम सहज मे करुं हुंजी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । खुसहालचंद मीरजा सदरुंदी महंमदखां जी के पेशसदत श्री महाराजा श्री हजूर अरजदासत करी है सु नजर गुजरसी जी अर वेको जवाब ईनायत होसी ।

। महाराजा सलामत । आज श्री पातसाहजी की हजूर खोजा को अधकार घणो है, दीवान तो महीना मै एक दोय ही करे हे अर रात दीन खोजा ही हजूर मे रहे है । सु आज अखतीयार खोजा महरम खां जी व हाफज अंबर व मसउद को है । सु यां कने खानाजाद हमेसा हाजर रहे है । ये बोहत मीहरवानगी करे हे, यां कहो है जु श्री जी थाने काम फरमावै तो थे कहो सु मतालब अरज कर सरंजाम कराईदा । अर दवाब<sup>4</sup> का काम मे किफायत कर देंगे ।

मीती फागुन बदि ७, संवत् १७६१ ।

- 
1. साहजादा कामबखश ।
  2. बखशी-उल-मुल्क ।
  3. अवार्—इस समय ।
  4. दाब—खूराक-ए-दववाब ।

॥ श्री गोपालजी सहाय छे

॥ श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री

॥ महाराजा जैसिध जी

॥ : ॥ स्वसि श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री चरण कमलानु खानाजाद खाक पाय पं० जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जी जी । अठा का समाचार श्री जी रा तेज प्रताप थे भला है । श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद करावजी जी । श्री महाराजा जी माईत है धणी है श्री परमेसुर जी री जायगा है म्ह श्री महाराजा जी रा खानाजाद वंश हां जी श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी थे म्हरवान है । श्री महाराजा जी सुख पाव जी जी पान गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमावजी जी ।

। अप्रंच खानाजाद नवाजी रो परवानां आयो बहोत दीन हुवा सु सरफराजी रा परवानां सासता प्रसाद करावजी जी ।

। महाराजा सलामत । मीरजा यार अली वेग जी श्री महाराजा जी हजुर आपको खत भेजो है सु तजर मुवारक गुजरसी जी । महाराजा सलामत । मीरजा यार अली वेग जी सदा सरकार कां कांमां ने मुनवजह रहे हे । अर श्री महाराजा जी श्री वैकुण्ठासी जी का मतालव भी सदा मीरजा जी ही अरज करता अर भव भी सरकार दोलतमदार का मतालव सदा मीरजा जी ही अरज करे हे । श्री महाराजा जी थे वोहत ईखलास राखे है तीसुं श्री महाराजा हजुर खत वरामद कार को समे देख खत लिखो हे सु खातर मुवारक मे पसंद आवे गु फुरमाजी जी ।

। महाराजा सलामत । यां दीनां मे महरम खां जी व हाफज अवर जी व मीयां मसउदये सब भूली हे अर पातिसाहजी री हजुर बोहत अरज मारु ज्मे

गुसताख हे अर सब उमरावां का मतालब अरज करे हे । अर जो ये अरज करे हे सु मंजुर होय है । अर खानांजाद हमेसयांकी हजुर रहे हे सु अकसर वकत सरकार को मजकुर चले हे तो कहे हे तुम कोई काम सरकार का ल्यावों जु सरंजाम कर दे । तीसुं श्री महाराजा जी री खातर मुबारक मे आवे तो जे उमंदा काम होय सु याने भी लिख भेज जो जी जु खानांजाद मतालब सरंजाम कर जन्म सुफल करे जी ।

। मीरजा सदरुदी खां वकसीयलमुलक<sup>1</sup> श्री महाराजा जी ने खत भेजो हे अर खुसालचंद ये सदसत अरजदासत श्री महाराजा जी हजुर भेजी हे सु नजर गुजरी होसी जी । अर जवाब ईनाइत कीयो होसी जीसु ये सारां का जवाब खानांजाद ने ही ईनायत होसी जी ।

। महाराजा सलामत । पातिसाह जी वागनगीरे<sup>2</sup> आया है गनीम ने चारु तरफ से मारगट मे दीया चीकलीच खां<sup>3</sup> व म्हमद अमीखां<sup>4</sup> रुकसत कीयो ज तंबीह करे सु तंबीह की अर हजरत भी अब आय पोहचा मोरचा लगाया ।

। अबार श्री म्हाराजा जी पचास हजार आदमी गनीम को मुकावलो करी वीराजे हे ई स्मया मे कांमा को तरदह न कीजे हे सु अजब हे । खानांजाद सुणी ज केसोराय व बेके बेटे श्री म्हाराजा जी सुं अरजदासत कर नागोर की मोहमसाजी मंगाय ली अर नौबत हुई लिखी तो उपर श्री महाराजाजी हुंडी भेजी सु तो रुपया घर मैं धरा अर नौबत की मोहमसाजी तो भली भांत करी न थी तीसुं वे सभे अरज करी थी सु जब ही जवाब हुवो थो, अर केसोराय सायद मंजूर हुवो लिखो सु असो झूठ लिखणो मनासव न थो सु ये लसकर का लोग हयाने ई बात की कोण सरम हे । टका मंगावासु काम थो सु मगाय घर मे धरवें का वाप का तो ये फेल था अर ईको वेटो तो लड़को हे दरवार में कोण पुछे ।

। चिमना साहवजी को ईजाफो बहादर साहजी का लिखा थे हुवो तीकी सनद अब ताई लिन्ही जाहीर ली न्ही ।

। सं० १७६१, फागुण वदि ६, भोमवार ।

1. वक्षी-उल-मूक मिर्जा सद्दीन म्हमद खां—प्रारम्भ में तृतीय एवं बाद में द्वितीय वक्षी के पद पर दक्षिण में कार्यरत । इसे 3000 जात एवं 1500 सवार का संसव प्राप्त था ।
2. वागिनगेरा : देखिए—सरवार, हिस्ट्री ऑफ़ श्रीरंगजंब, भाग 5, पृष्ठ 169
3. चीकलीच खां—चिनवि लिच खां (गाजिददीन फीरोज जंग व पृत्र), इस समय इसका संसव 5000 जात तथा 5000 सवार था ।

॥ : ॥ श्री गोपालजी सहाय छे

॥ श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा जी  
श्री महाराजा जैसिघ जी

॥ : ॥ स्वसि महाराजाधिराज श्री महाराजा जी श्री.....चरण कमलानु  
खानांजाद खाक पाय पं० राय जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधारजी  
जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप थे भला छै श्री महा-  
राजा जी का सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी  
माईत है, धणी है, श्री परमेसुरजीं री जायगा है, म्हे श्री महाराजा जी रा खानां-  
जाद वंदा हां । श्री पातिसाहजी श्री महाराजा जी थे महरवान है । श्री महाराजा  
जी सुख पावजी जी पान गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमावजौ जी ।

। अप्रंच श्री महाराजा जी रा परवानां ईनायत खानजाद नवाजी रा आया  
घणां दीन हुवा सु वंदनवाजी रा परवानां सासता ईनायत कीजौ जी ।

। श्री महाराजा सलामत—चार बरस हुवा खानांजाद सुं वकालात तगीर  
कर<sup>१</sup> गरजमंदा री अरज सुं केसोराय ने फुरमाई थी सु उस सुं ऐक काम न हुवा

1. महाराजा जयसिंह के गद्दी पर बैठने के बाद जगजीवनदास को वकील-पद से हटाकर  
कैसोदास को वकील-पद पर नियुक्त किया गया था, किन्तु कुछ समय बाद ही बादशाह ने  
उसे निष्कासित कर दिया जिससे लगभग चार वर्ष तक वकालत का कार्य उसके पुत्र,  
पक्षितराय, ने किया ।

यदि डॉ० बी० एस० भटनागर के विवरण को ठीक माना जाये तो यह मालूम पड़ता  
है कि 1692 ई० में मेघराय को वकील-पद से हटाकर पंचोली जगजीवनदास को वकील  
का पद दिया गया जो इस पद पर सवाई जयसिंह के 1700 ई० में गद्दी पर बैठते समय  
नायंत्रत रहा ।



नोबत की अरज करायई ही नही अर झूठ ही हजुर ने लिखो ज मे अरज करायई सु मंजुर हुई, खरची तो नगोरो भेज दुं—फेर अरज गई ता पर नामंजुर भई तब हु झूठ हजुर को लिखीज अरज मंजुर हुई है, खरची आवे तो नगारो भेजुं ती उपर श्री जी खरची नोबत की भेजी सु घर में थे लयां घर बैठ रहो फेर वाही पायते मर गयो । श्री जी आप संसार की भलाई मे हे तीससुं आप नवाजस कर उसके बेटे उपर ही वहाल राखी छहसात महीने ईसको भी हुवे ये ऐक काम ईस सुं भी सरंजाम न पाया सु साच्च है, या छोकरे कौ दरबार में कोन पुछे हे । सु खानांजाद कौ तो ईसकी हकीकत लिखणा सुं मतलब नहीं पण श्री महाराजा जी की सरकार का सब काम बंद पड़ा हे तीस की भी थोड़ी फीकर हे पण नोबत को तलास मुतलक श्री जी छोड़ बैठे हे अर श्री महाराजा के तलास मे तो कमी नही पे दर पे साहजादा के नीसांन<sup>1</sup> भेजे हे पण श्री महाराजा जाणै हे ई लड़का सु अठे तदबीर कुछ बणे नही, ईको कोण माने अतवार मुखन्माने तब और वात कोण माने । सु यो खानांजाद ने बडो दुख हे ज अब तांई नौबत न लीजे हे सु कोण तदबीर हे चार बरस तो ई लड़का के भरोसे रह सब काम बरहम कीयो अर कीजे हे अर नोबत कौ बरहम कीजे हे सु ई स्मया मे तो नोबत हर कही ने मीले है । रामसिंघ हाडो कोटा को घणी तीने नोबत मीली...को घणी तीने नोबत है । सु श्री महाराजा तो हींदुवा सुरज हौ । आवेर दरबार हे सु श्री महाराजा ने अब तांई नोबत न होय सु अजब हे । सु श्री महाराजा तो प्रभु हे परवाह नही अर हजुर मे बडा बडा ठाकुर हे बड़ा बड़ा मुतसदी हे सु वाने नीद भुख कौ कर आवे हे पण वे भी कांई करे वे उठा सु जतन तलास घणां ही कर भंजे हे पण अठे दरबार मे पेस लेजाणवाली कोई न होय तो वे ठाकुर भी हजुर का कांई करे । श्री महाराजा जी को लुण<sup>2</sup> खायो हे ती सुं खानांजाद की छाती जले हे काम बीगड़ता देख देख हर बार अरजदासत करुं हु । आगे भी श्री जी दरबार की खबरदारी फुरमावे तो भला हे पछे जो खातर मुबारक मे आवे सु सही ।

। केताक दीनां सु पातिसाहजी की हजुर में दीवान, बकसीयां को अखतयार कुछ नही । खोजां को अखतयार हे जो दरबार रोज कर बैठे तो दीवान, बकसी आवे सु तो दरबार करे नही । महीना मे पांच चार दरबार होय—दोय चार घड़ी बैठे ईतरा मे कही अरज की कोई करतो ही रहो । अर दरबार उठ खडो रहो अर खोजे तो खाबगाह<sup>3</sup> मे आठ पहर हाजर ही रहे तीसु खानांजाद अरज

1. निशान = वह पत्र जो शाहजादा अपने हस्ताक्षरों के साथ शाही मंसबदारों को भेजता था ।

2. लुण = नमक ।

3. खाबगाह = विश्रामगृह ।

राजा उदोतसिंघजी की तरफ सु कराईज । खानांजाद का मतालवा हाफज अंबर अरज करो करे अर वकील भी हाफज हे कहवाले होय तापर मंजुर फुरमाई सु मव मतलव राजा के हाफज जी ने सरंजाम कर दीया । अर खानांजाद रात दीन दामु ही लगी रहे हे वोहत महरवानगी राखै है । आठ पहर पातिसाहजी ने उठावे वंठावे है, सुवावे है, हाथ पाव घुवावे है । हजरत का तो पाव केती मुदत नु नहा सु उठा वंठी सूरह गये, चलन हलन सुं रह गये, सु श्री जी जाणै ही है । सु अब खोजां के बस है ईतनां में ही सत्र स्मझ जाणोजी । सु अब हाफज अंबर नें खिदमतगार खां को खीताव दीयो, दोढी को नाजर कीयो, नीपट महरवानी है । यां बरसां मे केतां ही ने ईजाफा मनसब नोवतां दीवाई । अवार रामनिघ हाडा ने पांच सदी को ईजाफो वांही दीवाये<sup>1</sup> अर राजा उदोतसिंह जी नु ईखलास राखै हे तीसु राव दलपत ने ईजाफा हजरत देता था सु बरहम कर दीयो अरज की सब बुंदेला का सरदार राजा उदोतसिंघ है सो तीन हजारी हे सो ही तीन हजारी यह हे अब ईजाफा ईसकौ दीजेगा तो राजा कौ भी देना जरूर होयगा या ईसको भी न दीजे । पातिसाहजी फुरमाई पहली राजा कौ दैगे ती उसको भी दैगे न्ही तो न दे । जुलफकारखां वागनगीरो फते कर आय राव दलपत का ईजाफा के वासते अरज की तब हुकम हुवो—कटारी दो, ईजाफा तो इनके ओड छे के राजा कौ दे तब ईसकौ दे तिस पर राव मनसब छोड़ वंठो, कटारी न ली । सु जुलफकार खां वोहतेरी वार अरज की पण मजुर न हुई । सु आज खोजा कौ असो काबु हे । सु वकालत तो श्री महाराज वेही का वेठा उपर राखणी खातर मे पसंद आई है तो वेही पर बहाल राखजे पण नोवत को काम वैसे ही तो जाण जे हे तो मुवारक हे । ओर भी महीना दोय चार देख लीजे अर नोवत तुरत ही लेणी हे तो खानांजाद ने एक नोवत के वासते ही फुरमाय देखजे, पहली हुंडी मांगु नहुं एक दोय खलीता कीमखाव का अर येक परवानो खानाजाद के नाव चुफया आवे अर सहजादा को निसान खिदमतगार खां के नाव आवे अर खिदमतगार खां के नाव न लिखे तो महरम खां के नाव आवे अर खरच साहुकारा की टीप आवे तो छाने छाने ही वकील ने खबर भी न होय, जद नगारो ले ही चुकौ तब खबर होय । सु ऐक छह सात महीनां खानांजाद को भी कीयो देख जे वकालत तो श्री जी की हे ही । खानाजाद न्मक पर वरदा हु । अर श्री जी के प्रताप से अर श्री जी के नांव से रोटी कपड़ो मील रहे हे । ये छाती जले हे ज खानांजाद दरवार मे वेठो अर यह सरबोपर काम नोवत कोसु पड़ रहो हे, सु अजब हे, कहे अर दरवार का लोग खानांजाद ने बेस उरके हे ज सायद श्री महा-

1. उमी ने दिलाया है ।

सु नजर मुबारक गुजरसी जी । मीरजा ने हुकम हुवो है, खत कै पाछे मोहर होय तो अरज कीया करी तीपर मीरजा जी खानांजाद सु कही श्री महाराजा को मेरी जुवानी लिखौ जद खत भेज्या करो तब खत की पुसत उपर मोहर कर लीफाफे उपर भी मोहर करा करै । सु श्री महाराजाजी की खातर मुबारक मे आये तो पांच सात बंद की पुसत उपर मोहर कर भेज जे सो स्मे देख सांते सौखत लिखा मीरजा नै गुजरानसी । अर कोरा बंदा उपर मोहर करणी खातर मे पसंद न आवे तो दस बीस लीफाफा उपर मोहर कर ईनायत फुरमाव जाँ जी । मीरजा का खत उपर लीफाफा तो खाहनाखाह कर देणो होरी जी ।

। मीरजा सदरुदी खां जी नै खत दीयो तब पढ करकही जो अबके ऐक बेर साहजादा बेदार बखत<sup>1</sup> कौ नीसांन आवे तो खाहमखाह हजरत नगारा ईनायत करेगे तीसु श्री जी तलास कर साहजादा जी कौ नीसांन ईनायत फुरमाव जाँ जी अर खानांजाद तो तलास नै लगौ ही है जी ।

। दरवार रा समाचार वाकारी फरदां<sup>2</sup> सुं मालुम होसी जी ।

। महाराजा सलामत । पातिसाहजी हुकम कीयो हे ज दोग हजार सुवार नकदी का चाकर राख गुजरात भेजाँ छ सदी सुंले दुखी सदी ताई अर तीमे सदरुदीखां हजार सुवार राख भेजे, चार से सुवार सफवीखां राख भेजे, ये ही तजवीज कर तसदीक दे अरज मुकरर मे नजर गुजरेला । सो रोज तजवीजी राख जे हे मु ईही बात उपर खानाजाद नजर करी । अर अरज पोहुची है जे गनीम गुजरात गयो ती पर चाटसु मअजाबाद कौ मनसुबो सरत नीगाहदासत ज्मयत कौ कीयो है जे अर अज्मेर का सुवा की पायबाकी लेणा उपर श्री महाराजाजी को हुकम आयो ज सरत नीगाहदासत ज्मयत के लीजो सु श्री महाराजा जी रा प्रताप थे पायबाकी सरत नीगाहदासत ज्मयत के ले सुं जी । यो काम अमीरल उमराव सुं लगायो है जी । दीन दस पांच मे यो मजकुर अमीरल उमराव सुं मुसकम होय चुकसी तब अरजदासत कर सू ।

। छोटा साहबजी<sup>3</sup> के वासते तोडो भीम कौ कै राजा रायसिंघ कौ वगेरह महाल मे सु ऐक महाल बतन तरीक लु हूं जी ।

। ओर जे मतलब लिख्या है सु हुकुम मवाफक सब मतलब ठीक करां हां जी ।

। सं० १७६३, संगसर सुदि ७, सुक्रवार

1. शाहजादा बेदार बखत—मुहम्मद ब्राजम का पुत्र ।

2. वाकारी फरदां—घटनाओ से सम्बन्धित पत्र जो महाराजा को अलग से भेजे जाते थे ।

3. विजयसिंह, महाराजा विशनसिंह का द्वितीय पुत्र ।

॥ श्री महाराजाधिराजा महाराजा

॥ श्री राजा जैसिघ जी

॥ : ॥ स्वसि श्री महाराजाधिराजा महाराजा श्री.....चरण कमलानु खानां-जाद खाक पाय पं० जगजीवन दास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जी जी । अठा का स्माचार श्री जी रा तेज प्रताप थे भला छै । श्री महाराजा जी रा सीख स्माचार सासता प्रसाद कराये जी जी । श्री महाराजा जी माईत है, धणी है, श्री परमेसुरजी री जायगा है । म्है श्री जी रा खानाजाद बंदा हां जी ।

। फागुण सुदि १ सुकरवार गजर वाजतां श्री पातिसाह जी कौ वाकौ हुवो तीपर वेगम, आज्मसाह ने बाद 55 पहर रात गयां खवर दौड़ाई तीपर अमीरल उमराव<sup>1</sup> नै चीकलीचखांने फुरमान आयो ज लसकर की खवरदारी राखजो हु भी आठ । तीपर सुद १ पहर दीन चढ़ता अमीरल उमराव व चीकलीचखां आतसखां नो खड़ो कर गुलाल वाड़ में जाय वेठा । वेगम की दीलासा की, हीदायत केसखां कांमबयस का वकील ने गुलालवाड़ में नजरबंद कर वेठाय राखी । सुद १ तीसरा पहर ने सुलतान नजर संदल का तखताताबुत के वासतै ले आयो सु वणाये हे वक-सीयां ने आज्मासाह<sup>2</sup> को हुकम आयी फौजबंदी तयार करो सु तुमार<sup>3</sup> तयार होय हे । आज रात ताई आज्मासाह भी आसी और स्माचार होसी सु पाछां सु अरजदासत कर सुं ।

। जीणदास साह कासीदां ने भी खरची दे न्ही यां दीनां ने चाहजे दीन्ये दीय

1. अमीर-उल कनरा, घसद र्चा को 1701 ई० मे इस पदवी से विभूषित किया गया था ।
2. शाहजादा आज्मशाह ने श्रीरंगजेब की मृत्योपरान्त दक्षिण में रहते हुए ही अपने को बाद-शाह घोषित कर दिया था ।
3. हकी ।

जोड़ी चलै सु खरची को हुकम आये खानांजाद ने खरची देन्ही तीसं इस्में खरची की मदत होय, नजर की हुंडी आई थी सु जीणदास आपकी दसतगरदां सवाल की मे भर ली ।

; खानांजाद की सरमश्री जी ने हे अब कुच दीन पाच सात मे होसी, सामान कुछ न्हौ तीसु स्व सरन श्री जी नै है । सं० १७६३, फागुण सुद १ शुक्र सांझ नै चलै ।

। अंक पली ठहराय भेजौ जी जीमै स्माचार लिखी करु स्माचार जाहर लिखणां मनासव न्हिं ।

॥ श्री गोपालजी सहाय छै जी

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी

॥ श्री मीरजा राजा जैसिध जी

॥ : ॥ स्वसि महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलानु खाना-जाद खाकपाय पं० जगजीवन दास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जी जी । अठा का स्माचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छै । श्री महाराजा जी रा सुख स्माचार तासता प्रसाद कराय जी जी । श्री महाराजा जी माईत है, धणी है, श्री परमेश्वरजी री जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी रा खानाजाद वंदा हां । श्री पातिसाहजी श्री महाराजा जी थे महरवान है । श्री महाराजा जी सुख पाव जी जी पान गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जी जी ।

। अप्रंच खानं नुसरत जंग आया सु खानाजाद यासुं मीलो सु स्माचार तो आगे अरजदासत कीया है । अब अमीरल उमराव व नुसरत जंग नै ईलतमास दी वीकी नकल भेजी है अर अमीरल उमराव ने पचास हजार रुपया देणा कर मीरजा राजा री खीताव व हफत हजारी जात हफत हजार सुवार<sup>१</sup> को मनसव लीयो सु मुवारक होय जी । ईकीस मीहर नजर खीताव की व मनसव की खाना-जाद की तरफ की मंजुर होय । अर मनसव व खीताव व नोवत की मुवारकवादी की तसलीमात हजारों बजाय आयो हुं जी । अब श्री जी भी घणां आणद उछाह कीजी जी । अब बतन का परगनां की अरजी हे सु भी दीन दीय मै अरज कराउ हुं जी । अब श्री जीं दरची की मदत कीजी जी । जीणदास साह सुं अठे दमड़ी की गरज सरे नही रोकड़ आये के संतोखराम ईने मातवर<sup>२</sup> हुंडी भेजे तव काम

१. मात हजार जात तना मात हजार सवार ।

२. मातवर (मातवर) = विभवनीय ।

करे । खानाजाद आपकी परेसानी की कहां ताई लिखे लसकर मे खानाजाद उप-  
रांत परेसान कोई न्होसी तीसुं अब खानाजाद की परतपाल श्री जी ने करणी है ।  
अब अमीरल उमराव ने आधा परधा तो दीजे आधा फेर दीजे ला अर सनद की  
तयारी ने परवानां खरच नै खरची भैज जौ जी ।

। जरूर की खबर मुबारकबादी की के वास्ते अरजदासत दौड़ाई है पाछां  
सुं अरजदासत तफसीलवार भेज सुं जी । सं० १७६४, बैसाख सुद १० ।

। नुसरत जंग<sup>1</sup> बेदारबखत<sup>2</sup> पासने रुकसत हुवो । अजीतसिघ महाराजा  
का वेटा<sup>3</sup> ने पंज हजारी जात पंज हजार सुवार कीयो थो, सु लाख रुपया अमीरल  
उमराव ने देणा कीया तब महाराजा को खीताब दीयो हफत हजारी जात हफत  
हजार सुवार कीयो ।<sup>4</sup>

लसकर में दूसेरो नाज है । फुरमान मीरजा राजा का खीताब कौ व हफत  
हजारी जात हफत हजार सुधार को महाराज ने हुवो है । सु बेदारबखत पास  
भेजो हे । आगे भी फुरमान यां पास ही भेजो हे ।

- 
1. नुसरत जंग—वजीर असद खाँ का पुत्र इतिकाद खाँ जिसे ज़रिफ़दार का बहादुर तथा नुसरत जंग का खिताब शीरंगजेब द्वारा प्रदान किया गया था । नुसरत जंग का खिताब जुल्फिकार खाँ को जिर्जा पर अधिकार (1797 ई०) के समय दिया गया था ।
  2. शाहजादा बेदार बख्त—श्रीरंगजेब के पुत्र शाहजादा घाजम का पुत्र ।
  3. कुंदर बख्तसिंह ।
  4. महाराजा अजीतसिंह को 7000 जात एवं 7000 सुवार का मसब तथा महाराजा का खिताब प्रदान किया । तुलनाय—घबदायत 6 सफ़र, 1119 हि० (मार्च 18, 1707) ।

॥ श्री परमेश्वर जी सत्य है

॥ : ॥.....॥ स्वरूप श्री लसकर विजैकट का तुं महाराजधिराज महाराजा जी श्री श्री श्री श्री श्री जैसिघ जी चरण कमलान पातसाहिलसकर श्री आग्याकारी सदा सेवग भां० खीवसी<sup>१</sup> लिखतुं सेवा मुजरो अवधार जो जी । अठा रा रामाचार श्री जी रे तेज परताप कर भला छै श्री महाराजा जी रा घड़ी घड़ी रा पल पल रा सदा आरोग चाहीजै जी । अप्रचि महाराजा बडा छै जी । श्री महाराजा साहिव छै जी । मोसु<sup>२</sup> सदा सु निजर महरवानगी फरमावे छै तिण थां वसेख<sup>३</sup> फुरमाव जो जी । श्री महाराजा जी रे डीलां<sup>४</sup> रा पान, कपूर, गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फुरमाव जो जी ।

। अप्रचि श्री जी सलामत । अठारी हकीकत री अरजदासतां आगे खीजमत मै मैली छै सो मालुम हुई होसी जी । श्री जी अठा री तरफ सु भांत भांत खातर खुसाली फुरमावै । श्री साहजादाजी रो कवल पांजो मै हीदवी, फारसी दोनु नीसाणा साह वेणीराम साथे हजुर मैलीया छै सो पहचसी जी । श्री महाराजा जी से हजुर पीण रा० लालसिघ गोपीनाथोत साथे हजुर मैलीया छै सो श्री महाराजाजी हमै दर कुच पधारसी अवे ढील मत जाणै, ईतरा दीन ढील हुई तीण सु सामो वात भडार मै छै दुजु आप काई मत बीचार । पातसाहजी मान सुध चाहै छै सो दोनु महाराज सामल थका पधार जो जी । हजुर पधारीया सारो काम श्री जी री मरजी माफक होसी । अप्रचि श्री जी सलामत । वेणीराम अठे सरकार

- 
1. भठारी खीवसी—मुगल दरवार में महाराजा अजीतसिंह का वकील ।
  2. मुग्धते ।
  3. विनोप ।
  4. सरदार ।



री चाकरी भली भांत करी छै । श्री महाराज रो खानाजाद छै ओर अठारी सारी तपसीलवार हकीकत वेणी राम जबानी सु मालुम करसी जी ।

। वाउड़ता परवानां सदा ईनाइत कराव जो जी । सांवत १७६७, चैत सुद १

। श्री जी सलामत । सरकार री तरफ सु असवार हजार चार सु कम मत लीराजो पेहलो मुकदमो छै । सो ईतरी जमीत जरूर लावण रो हुकम हुवै जी ।

॥ : ॥ श्री गोपालजी सहाय छै जी

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी.

श्री जैसिघ जी

॥ : ॥ सिध्द श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री.....चरण कमलानु. खानाजाद खाक पाय पंचोली जगजीवन दास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला है । श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, घणी है, श्री परमेसुर जी री जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी रा खानाजाद वंदा हां जी श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी सै महरवान है । श्री महाराजा जी सुख पाव जो जी पान गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फरमाव जो जी ।

। श्री महाराजाजी सलामत । हीदायतूला खां<sup>१</sup> मीती चेत्र वदि ११ आदीत-वार दीवानी कचैहड़ी मै आण वैठो कीफायत खां जी कै दसतुर मोहर दसखत कीया अर दवाव के वासतै अरजी करी थी ज् दोग लाख रुपीया को दरमाहो लागै हे मु आज ताई तो सरवराह<sup>२</sup> हुई, अवै खालसो न्ही, खजानो न्ही, सु खुलदमकां<sup>३</sup> कै अमल उमराव-व मनसवदार सरवराह करै था जी ही भात सरवरा करै । सु वै अरजी उपर साद मुवारक हुवो जु उमरांवा सु सरवराह करावो । सु वा अरजी भी चेत्र वदि १२ हीदायतूला खां जी कनै आई । सु यां

1. हिशमतुल्ला खां (मादुल्ला खां), दीवान-ए-तन तथा खालिसा ।
2. सरवराह=घसूल हुई ।
3. खुलदमकां (खुलदमकां)=स्वगंवामी—श्रीरंगजेव के सन्दर्भ में ।

आगै तो दवाब का मुतसदा सै ताकीद करी ही थी अर अरजी आयां वसेख ताकीद करी अर आपकी मोहर सै परवानगी दी जु उमरावां कनै सरबराह करावो सु दवाब का मुतसदां नकीब मोकल सारा वकीला नै खबर करी जु गुररा सफर नै सरबराही की चीठां होसी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । खानाजाद की हकीकत तो रोसन है जु अढ़ाई तीन बरस तो हैदराबाद की तरफ बंदगी करी अर दस महीना अबै बंदगी करतां हुवा सु खानाजाद का ही अया मांफी है जु न पावै है सु भांत भांत का तसदीया गुजरै है तांको बयान कठां ताई अरज लिखु इ भगती कोई अदना चाकर भी ई सरकार के न रही होसी ऐक ऐक दीन म्हाराजाजी का तेज परताप कर ही गुजरै है । अर अबै दवाब हुई है सु दवाब की मुतसदी जो कोई जी भात भला बुरां सरबराह करसी जीही भांत सरबराह करा सी ।

। तीसु श्री महाराजाजी सलामत । आगली अरजदासत नजर गुजरत सर्वां दवाब का दरमाहा की सरबराही कही बोहरा उपर लिखाय मोकली होसी जी अबै अरजदासत पोहचत सर्वां फेर बोहरा को लिखो आवै जी जु दवाब मै लागै सु माह दरमाहा दीयां जाय जो दवाब का दरमाहा आबा की ढील हुई तो खानाजाद उपर घणो तसदीयो होसी तीसु सीताब ईनायत फरमावजो जी ओर दीवान भीखारी दासजी<sup>1</sup> भी अरजदासत करी है तीसु सारी अरज पोहचसी जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । वादसाहजादा अजीमुसां जी को फारसी नीसान तो दीवान भीखारी दास जी अरजदासत की लार आगै मोकलो है अबै हीदवी नीसान खास दसखतां को व केसर को पंजो व कोल श्री महाराजाजी नै व अजीतसिघ जी नै ईनायत कीया व बोहोत दीलासा करी सु श्री महाराजाजी को नीसान व पंजो तो बेणी राम, साहनैणसुख को सालो तीकी साथ मोकलो हे सु नजर मुबारक मै गुजरसी अर भंडारी खीवसी महाराजाजी श्री अजीतसिघ जी का नाब को लालसिघ राठोड़ की साथ मोकलो है । सु श्री महाराजा जी सलामत । अबै पधारवा की घणी ताकीद फरमावजो जी ढील करणी सलाह दोलत न है तीसु सीताब पधार जो जी ।

। श्री महाराजाजी सलामत । महावत खां<sup>2</sup> जी अरज करी जु खानखाना<sup>3</sup> का वाका पाछै श्री राणाजी का व श्री महाराजा जी का व महाराज श्री अजीतसिघ जी का लोग उदास है यांकी दीलासा होय ती उपर हुकम हुवो थे दीलासा करो

- 
1. ग्राम्बेर का दीवान, जो कि इस समय वादशाह के दरवार में उपस्थित था ।
  2. महावत खां—वजीर अमीन खां का पुत्र जिसे तृतीय बखशी का पद प्राप्त था ।
  3. मूनिम खां, जिसे बहादुरशाह ने वादशाह बनने के पश्चात वजीर का पद, 8000/8000 मंसव तथा खान-ए-खाना की पदवी प्रदान की थी ।

अर सरपाव दो, मु नवाव वोहोत दीलासा करी अर साहो आपकी मोहर सै खलअतखाना का दारोगा नै पोहचायो है सु दीवान भीखारी दास जी व कान्हजी घाला नै व खीवसी नै व दोदराज मुनसी व गुलालचंद नै सरपाव होमी जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । दीवान भीखारी दास जी नै परवानो आयो तीमै औरंगाबाद का पुरा कै वासतै लिखो है जु खानखाना की मोहर से तो हस-बुल हुकम व अमीरुल उमराव को खत दाउद खां कै नाव भीजवाजो जु हवेली खाली करै व पुरा मै अमल दे सु वो परवानो दीवान जी खानाजाद नै दीयो तद अमीरुल उमराव नै ईलतमास दी अर परवानो पढ़ायो तद नवाव कहो महाराज को खत आयै लो ती मवाफक दाउद खां नै खत लीखदां ला । श्री महाराजा जी सलामत । अमीरुल उमराव नै पुरा कै वासतै खत ईनायत होय तीमै खानाजाद कै वासतै भी लीखां वै जु पंचोली सरकार का काम कै वासतै नवावसाहब की गीदमत मै हजर रहै है जी काम कै वासतै अरज करै तीमै खसमानो फरमाव जो जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । महावत खां वहादर नै जफरजंग को खीताव हुवो अर दोय हजार सुवार व तीस लाख दाम को ईजाफो हुवो, खानजमा खां<sup>1</sup> वहादर नै गालवजंग को खीताव दीयो अर हजारी जात डोढ़ हजार सुवार को ईजाफो ईनायत कीयो, तीकी मुवारक वादी को खत दोना भायां नै ईनायत फरावजे जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । महमद जमा व महमद अमां पातिसाही मनसब-दार है त्हां कचहड़ी का दरोगा उपर हुकम लाया जु परगना जलालपुर सरकार अलवर का चार गांव छीयालीस हजार दाम का म्हांकी जागीर मै है सु साह अमरपाल श्री महाराजा जी को चाकर है ती म्हांका गुमासता कनै सु चोथो हसो लीयाय लीयो है, अर आप लिख दीयो है, सु वैको लीखो काजी की मोहर सै व कानुगो भगवंत का दसखता सै दीखायो, अर कहो हासल लीयो है सु फेर दो अर आगा सै अमल दीरावो तद डोढ़ महीना को मुचलको लीख दीयो जु यांका गुमासता को राजीनामो मंगायदा । सु अवै अमरपाल नै हुकम जाय जु सितावी वाको राजीनामो मोकलै अर अमरपाल का लीखा की नकल हजुर मोकली है सु नजर गुजरसी जी ।

। श्री महाराजाजी सलामत । ठोड़ ठोड़ का हवालदारां नै हुकम जाय जु कही की जागीर मै दखल न करै अर ई भात का लिखा न कर दे अठै मुतसदां नै वे

लीखा बजनस दीखावै है ईमै सरकार की बदनामी है अर रुपिया अफुटा देणा पडै है जी तीसु ई काम की घणी ताकीद होय जी ।

श्री महाराजा जी सलांमत । हीदायतूला खां की अरजी की नकल हजुर मोकली है सु नजर मुबारक मै गुजरसी जी ।

तारीख उसपुर, चैत सुदी ८, सुकरवार दोय पहर आय पहुची, बद ३ ।

॥ श्री परमेश्वर जी सत्य है

॥ : ॥.....॥ स्वरूप श्री लसकर विजै कटकाइते महाराजाधिराज महाराजा श्री श्री श्री श्री श्री जैसिध जी चरण कमलान पातसाही लसकर था आग्यां-कारी भा० खीवसी लिखतु सेवा तसलीम अवधारजो जी । अठा रा समाचार श्री जी रे तेज परताप कर भला छै जी । श्री महाराजा जी रा घड़ी घड़ी रा पल पल रा स्वा आरोग चाहीजै जी ।

। अप्रचि श्री महाराजा जी वडा छै जी श्री महाराजा जी साहिव छै जी मोसु सदा म्हैरवानगी फुरमावै छै तीण थो वसेख फुरमाव जो जी । श्री महाराजा जी रा डीलां रा पान, कपुर, गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फुरमाव जो जी ।

। अप्रचि श्री जी सलामत । अठा री हकीकत री अरजदासत आगे खीजमत मै मेली छै सो मालुम हुई होसी जी । हमै श्री महाराजा जी पधारीया छै सो आप पधारण री ढील मत करै । सल्हा ठेहराय नै दरकूच पधारी जै ढील करण री सल्हा न छै । सो तो आगे सारी अरज लीखी छै वीजैसिधजी री तरफ री फीणी वातदीसा खातर मै न ल्यावै अठे श्री महाराज जी रो वडो वोहार<sup>1</sup> छै । अठे श्री जी सलामत । अठे ईसी खबर सुणी जै छै आप खांडेले, नराईणे असवार मेलीया छै बुलावण रै वासतै सो या काहु हकीकत छै । अठे नराईणा वाला दरवार मै अरज करै छै म्हारै असवार आया छै सो आप असवार मीलाया होइ तो मोंकुफ फुरमाव जो जी । ईण वात सु पातिसाहजी रा मान मै गीरां आवसी जीज नु जी कोई रजामंदी सु आवै सो तो भली वांत छै नै ताकीद कर बुलावण री सल्हा नही ।

---

1. ध्वजार ।

। अप्रचि श्री जी सलामत—असाह वद १२ रै दीन श्री महाराजा जी<sup>१</sup> रो प्रवाने मानै आयो छै तीण मै हुकम छै म्है तो नवीसराइ पधारीया छं हमै महाराज श्री जैसिघजी पधारै छै तरे दर कुच कीयां पधारं छा । पीण श्री राजा जी रे वीजैसिघजी री तरफ सु खातर नीसां न छै नै ऐक मालपुरा वावत कहै छै सो वीजैसिघजी री अरज तो आगे लीखी छै जो पातसाहजी री सीख सु के पातसाहजी री मरजी सु आया हुवै तो जी का अरज लीखां ना दांन थका उठ आया छै सो सवारे खवार होसी । जागीर तो खालसे होई चुकी । प्रवाना तयार हुवा छै; सो दीन दोई च्यार जै चालसी आप यांरी तरफ रो अवैसास कीसी मसलत उप्र वीचारै छै यारो वोहार काहु जमीत काहु जीण उपईतरी वीचारै जो दुजी वावत देखता तो ईतरी अरज कीउ लीखता; महै तो दोलत खवाह चाकर छं जीण वात मै सरकार रो फाइदो देख सां सोहीज अरज लीखसां । सो आप यांरी तरफ रो फोतीथार जीतरो अवैसास मत लावै उठे यांरी काई वावत न छै नै माल मुरा दीसा फुरमावै सो आप वीचार देखे । राजसिघ जी नै तीन च्यार बरस हुवा जागीर हुवां । सो खांगारोत ठाकुर मुल अमल न देवै । च्यार लाख रुपीया रो प्रगनो तीण रा तीस चालीस हजार रुपीया नीठ सेवा रै हाथ लागे सो ईण भांत सु कठा इकतांई आधो काढै छै जो आटे लुणा रो वोहार राखीयो होत तो राजसिघ जी न बोलता सो ये ठाकुर मुल नगीणे जद जागीर मै अमल तो कीयो चाहै आप न कर सके तरे दुआं कनै करावै; सो ईण वातरी फेर साहजादा जी सु अरज करनै सलुक करावां छा ईण वात दीसा श्री जी कुछ खातर मै राख नै ढील मत करै । अठा आगे ढील हुई तो दोनुं सरकार री घर्णा खरावी छै । ढील होण मे कांई खतसीर न रही छै । अवे सीरे चढ़ायां काम मै ढील कीजे । सो कीसे वास्ते म्हाने तो भरोसो थो, श्री महाराज जी पधारं पाछे आपरे काही ढील न हुसी सोविगर मतलब ढील कीजे छै पछे ही श्री जी फुरमावसी अरज न लिखी, जो म्होरो लिखो इतवार माने छै तो ढील मत करो ।

ज्यादा अरज काहु लीखु अठा री तरफ री भांत भांत खुमार्ना फुरमावै श्री जी वीचार सी वीजैसिघजी नै सरफराजी हुई तीण री काहु हकीकत गो गुमनम दील खां रा डोढ़ दोई लाख रुपीया करज रा छै मो उण अरज कर फरद गृज-रान नै तखसीर माफी रा दसकत कराय मेलीया नै सीरपाव री तो म्ह नै हकी-कात कीवी सो तोमाखाना नु तो नीमगीयो नीजर नावै पठै तो परमेसर आपे ईतरी ही दीलामा ईण आपरा रुपीया रै वागते कराई छै । दुहु पातसाहजी रो काई म्हैरवानगी न छै । नुमरतवार खां दीसा पीण माह नु अरज भर त्राय लीखु नु ईतरे नुसारतयार खां न दीवान रो लीखीयो नीजायो छै सो मानुस हूमी ।

ईण रो दीवान पं० दीपचंद्र अठे छै सो सारो ईखतयार ईण रो छै । ईण रा लीखीया माफक चाले छै । सो मै ईण ने बुलाय कहो श्री दोनु माहाराज हजुर पधारै छै थे पाछे फीसाद उठावो छो सो हमे पधारण में डील हुई तीण रो थाने ओनांभो छै । तद ईण कहो तुम कहो सो करां । तरे म्है कहो मालपुरा री वात मै मत आवो, जद ईण आपरा नावा रो खत भली भांत लीख दीयो छै तुम उस तरफ हरगीज मत जाव जो सो खत हजुर मेलीयो छै आप उणाने सीताव पहचतो कराजो यो खत पहतां सु आधो नाव सो ईण वातरी खुसाली फुरमाइ । कुच सीताव कराई जै । ज्यादा अरज काहु लिखु ।

बाहुइना प्रवाना सदा ईनाइत कराव जो जी । संवत १७६७ रा अषाढ़ वद १४ ।



क्रम संख्या १६

वकील रिपोर्ट संख्या १७

अपाढ़ सुदी ११, संवत् १७६७

॥ श्री परमेश्वरजी सत छै

॥ : ॥.....॥ स्वरूपि श्री लसकर विजैकटकाइते माहाराजाधिराज महाराजा श्री श्री श्री श्री श्री जैसिघजी चरण कमलान पातसाही लसकर था आग्याकारी सदा सेवग भा० खीवसी लिखतं सेवा मुजरो अवधार जो जी । अठा रा समाचार श्री जी रै तेज प्रताप कर भला छै जी श्री महाराज जी रा घड़ी घड़ी पल पल रा सदा आरोग्य चाहीजै जी ।

। अप्रचि श्री महाराजा जी वडा छै जी, श्री महाराजा जी साहिव छै जी, मोसु सदा म्हैरवानगी फुरमावै छै तीण था वसेख फुरमाव जो जी श्री महाराजाजी रा डीलां रा पान कपुर गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फुरमाव जो जी ।

। अप्रचि श्री जी सलामत । पेहला गुर<sup>१</sup> पकड़ीयां री खबर आई थी सो वा वात खीलाफ हुई । गरु, मेहमद अमी खां<sup>२</sup> रुसतम दील खाँ सु बेढ़कर सीर जोर थको नीसर गयो पछै आमै जावु<sup>३</sup> रो राजा आडो आयो सो उण सु पीण बेढ़ करी । राजा घायल हुवो नै आदमी घणा काम आया । हमै गुरु री खबर छै पाछो उतरीयो सो डावर आवसी फेर चोकस हुवा सु अरज लीख सुं जी मेहमद अमीखां रुसतम दील खां उठा सु पाछा फीरीया नदी रावी उप्र आया सुणी जै छै अठी सु पातसाहजी पीण आषाढ़ सुद १० नदी गोइदवाल पार हुवा छै सो देखी जै कीण तरफ जाइके, कठे छावणी करै, सो नीवड़ीयां सु अरज लीख सुं जी ।

1. गुरु वंदा बहादुर ।

2. मुहम्मद अमीन खाँ ।

3. भावू ।

। अप्रचि श्री जी सलामत । ओर समाचार तपसीलवार भाई रुघनाथ नै अंग्रफुली मे लीखीया छै सो मालुम करसी जी, उण माफक सल्हा बीचार नै पाछी हकीकत ईनाइत कराव जो जी । वाहुड़ता परवाना सदा ईनाइत करावजो जी । सं० १७६७ रा असाढ़ सुद ११, सुकर ।

॥ श्री रासजी

श्री महाराजाधिराज सलामति

॥ आगे अरज दासति मिती माह बदी ११ की भेजी है तिसौ सगली हकीकति अरज पहुचैली जी । श्री महाराजा जी सलामति—मिती माह बदी ५ सुक्रवार नवाब महावत खां जी, नवाब खानखानाजी के डेरे थे तब कान्हजी झाला<sup>१</sup> वा बंदा उहां गए तब नवाब खिलवती मै बुलाया तब कान्ही को सिरोपाव दीया बंदा नै खत श्री.....जी का वा प्रवांना आपने नाव का वा अरजदासति की नकल गुजरांनी तब नवाब जी खत पढ़या महावति खां जी के हाथ दीया । तब दोनौ नवाब आपस मै बतलाय । कान्हजी के आगे बंदै को फुरमाया जो अरज-दासति पातसाहजी को क्या कहि गुजरानै, तुम तो हमारा पातसाहजी के हजुरी वदनकस<sup>२</sup> किया, लोगौ तौ कावु पाय कुछ सौ कुछ अरज पहुंचाई, अब हमारा झूठ पेस नहीं जाता । रुसतम दिल खां चाहै है जो फेरोज खां को राजौ पर भेजा जावै अर अम सौ वह कब्रा है अर ईन दिनौ मौ फेरोज खां के सबव सौ गुरु कीराड़ी पहैली करी अर फते पाई सो पेस है सो जानता है सो ई अरज करै है—राजी हमको बड़ा दगा दीया, हमको ईनका या भरोसा न था । तब बंदै अरज करी जो राजा जैस्यंध जी तौ आए तब नवाब फुरमाया जो मेरा मामला तौ तुम्हारे कहने ही कहने मौ वरहम हुवा, राजा अजीतस्यंध आवने का नहीं अर तुम्हारा राजा भी अजीतस्यंध विना न आवै । नवाब खानखाना जी फुरमाया—जो राजा जैस्यंध जी के वाप दादेय राजा अजीतस्यंध जी के वाप दादे के साथ कब

1. मेवाड़ का वकील ।

2. वदनकस (वदनकश)=वृरी तसवीर ।

कब लागे लागे फिरे थे, अब जो राजा ईनके साथ आवैगा तो क्या बढ़ाई पावैगा। कान्हू जो झाला भांति भांति अरज पहुंचाई नवाव मानी नही। फेरि नवाव बंदे सो फुरमाया तुम हमसी रुखसति होय आपने राजा पै जाव आछा लागै सो करी, तुम्हारे तो अैसे दिन बुरे है जो राना अमरस्यंघ ईस वकत मै मरि गया, अब हिंदुसतान का कुछ मरम रह्या नहीं; तेरे तांई मै हाथ पकरि राख्या वा ज पातसाह यातराज होय तुझ पर कुछ और हेतराजी फुरमावै तो मेरे हाथ पकर राखने की त्यार है। तव नवाव महावत खां जी वा कान्हूजी झालै कही—जो ईन्हो तो लिखने मै कमी न करी अर राजा जैस्यंघ अलवत आवैगा। तव नवाव खानखाना गुसे होय महावत खां सो कह्या—तुम लरकै हो, तुम जानते नही पातसाहजी सितव ईन पर मुहम करैगा, भिखारी दास नै राखने मोक्या फायदा है, पातसाहजी को यातराजी मौ आय जायगा ईनको जाने दोह। तव महावत खां जी मेरे तांई पूछा—जो भंडारी दरवार कब तांई आवैगा? तव नवाव खानखाना महावत खां सो कहा जो भंडारी आनि क्या कहैगा? आज अैसा कौन है जो राजी की अरज करि सकै? तव नवाव महावत खां नवाव सौ अरज करी, भंडारी मुलाजमति करै तव तांई भिखारीदास को रुखसति न करै, तव नवाव गुनि चुप होय रह्या। घड़ी ऐक पीछे महावत खां जी को फुरमाया जो तुम भंडारी को बुलावो जो वै कहै सो सुनो अर सितव जुवाव दोह। घड़ी चारि तांई बंदा वा कान्हूजी घिलवति मौ बँठे रहे। नवाव ठंडे परे तव बंदै अरज करी, जो खत का गुदाव ईनायत होय, तव नवाव कह्या अब हमारे लिखने की कुछ रही नही। तव मैने अरज करी—जो राजा जैस्यंघजी तो सिवाई मरजी नवाव की और भांति करना नही। तव महावत खां जी कु फरमायो तुम लिखी दोह, हम ती अब न लिखैगे। तव महावत खां जी कही अब के ती खत लिखि दें, हमै भी जो लिखना है सो लिखी दयोगा। तव पहैर राति गया बंदा को वा कान्हूजी को विदा किया अर खत लिखी दीया।

श्री महाराजा सलामति। पातसाही का रंग अब और ही हो गया, ये दोनी नवाव बड़े सायक' थे सो इनकी भी तरह और ही होय गये, पातसाहजी की हजुरी झुठे पड़े। श्री महाराजा जी सलामति। मी० माह वदी ५ के दिन खीवसी भंडारी के जांड़ी बाई सो भंडारी नै मेरे ताइ कह्या जो महाराजा अजीतस्यंघ जी मेइतै आए दिन दस सां सांभरि आवैगा।

श्री महाराजा जी सलामति। जै महाराजा अजीतस्यंघजी सांभरि पधारै होय ती आप ताकीदि लिखीज्यो जो सितव पधारै अर जो महाराजा अजीतस्यंघजी का आवा की डील होय तो आप भली भांति खत मुवारक मौ विचार

करण होय सौ करैंगे जी । ईहां का रंग अबकी घड़ी तक तौ ऐही है जो बंदै अरज पट्टुं चाई है । अब भंडारी भी मुलाजमति करैगा सो जो हकीकति होयगी सो अरज लिखी पट्टुं चाउगा जी और जो महाराजा अजीतस्यंघ जी सांभरि पधारे तो आप सांभरि मती पधारेगे जी । श्री महाराजा जी सलामति । अब दो नवाबी को खत लिखी सो विचारी लिखी ज्यौ जी । मीती माह वदी ८, सोमवार, सं० १७६७ ।

॥ श्री राम जी

श्री महारांजाधिराज सलामती

मीती माह वदी ४ वीसपतीवार नवाव महावत खां जी राव भगवत को कान्हजी झाला कै डेरै बुलावणे को भेज्यां सो भगवत राव कान्हजी कै डेरै आवे अर पंदा को कहाय भेज्यां जोन वाव नै कहा है जो तुम कान्हजी कै ले चलो, तब वंदा भि साथी गयां सो कान्हजी वा कीसोरदास उकील को सीरोपाव दीयां अर वहीत दीलासां करी । तब कान्हजी मुझै कहां जो तुम नवाव सौ अरज करी राणा सगरामस्यंघ जी को खत लीखावौ । तब वंदै नवाव सै अरज करि । तब नवाव चास दसकता खत लिख्या तीहकी नकल हजुरि भेजी छै सौ नजरि गुजरैली जी ।

। श्री महाराजा जी सलामती । नवाव नै भंडारी कि हकीकती वंदा सौ पुछी जो भंडारी का क्या हाल है, तब वंदे तपसीलवार अरज करि तब गुलालचंद भी हजुरि बैठ था सो गुलालचंद को फुरमावां जो भंडारी को सीताव ले आवौ । तब गुलालचंद अरज करि, जो दीन व्यारी तथा पाच मै हजुरि आवैगां ।

श्री महाराजा जी सलामती । माफीक कहे कान्हजी कै नवाव अंदर चले तब वंदै अरज करि जो नवाव खानखाना जी कै डेरै कान्हजी को जीसौ हुकम होय सो ही ले चलै । तब नवाव फुरमायां जो तुम कान्हजी को वड़े नवाव कै ले चलो अर दीवानखाने बैठो नवाव पातसाहजी की हजुरि सौ आवैगे तब मै भी साथी आऊंगा ।

श्री महाराजा जी सलामती । अरज दासती करार मीती माह वदी ८ वार सोमवार मि० लिखी हजुरि भेजी पछै सो सारी हकीकती अरज पहुंची होसी जी । परवान फारसी वा हीदुई करार मीती पोस सुदी १५ का लिख्या ईनाइत हुवा था सो मि० माह वदी ८ सोमवार आय पहुंचा जी, माथे चढ़ाय लिये, खानजाद

सरफराज हुवां। अरजदासति साहिजादा ने वा खत दोन्यो नवावा ने वा खत हकीम सलेम ने उनायत हुवा था सो पहुचता जी। सो माफीक हुकम अरजदासती साहीजादा जी ने हकीम सलेम की मारफती गुजरानी जी। सो साहीजादे जी कान्हजी की वा कीसोरदास कि बहोत दीलासा करी वा खत दोन्यो नवावों का गुजरान्यां सो नवावों भी राणा संगरामस्यंध जी को खत लिखा कान्हजी वा कीसोरदास के हवाल कीया तीह की नकल हजुरि भेजी छै सो नजरी गुजरैली जी।

श्री महाराजा जी सलामती। जो जो काम वेई कान्हजी वा कीसोरदासजी वंदा सो कहे है जी ही जायगा जाव अर ईनकी बहोत दीलासा कराउ हुजी।

श्री महाराजा जी गलामती। वंदे तलास किया जो फुरमान वा नवाजसी राणाजी के ताई कढ़ाई। सो साहीजादेजी वा दोन्यां नवावों या फुरमाई जो पहैली अरजदासती वा पेसकस माफिक सदामंदी राणो जी पातीसाहजी ने भेजैलो तव फुरमान वा नवाजसी पातसाहो की होयलि। श्री महाराजाजी सलामती। आप राणा संगरामस्यंध जी ने ताकीद लिखी अर अरजदासती वा पेसकस माफिक सदामंदी सीताव भोजवाज्यी जी ज्यी असे वकत में ईनका काम करी लीजे जी अर राणाजी का परवाना कान्हजी के वा कीसोरदास उकील के नाव मगावैगे कयों जेवे वाकीफ हाल छै अर नवा आवैला तो कोई दीन वाकिफ होता लागै लां अर साहीजादो जी, वो दोन्यों नवाव कान्हजी वा किसोरदास सो निपट व्यार करै छै जी।

श्री महाराजा जी सलामती। परगना मोजावादी का ईजारा की स्यालु की तो कीसती संतोखराम गुमासतै प्रौहित स्यामरामजी की नीसा करि अर उन्हालु की कीसती के वासतै नटी गया, तव केसरीस्यंध जी का गुमासता वंदा पासो आया जो वे उन्हालु का जामीन<sup>1</sup> कोई होय नहीं। तव वंदे संतोखराम को बुलाय भेज्यां तव संतोखराम ने च्यारो कह्यो तव संतोखराम कही, ज्यो स्यालु मै हमारे रुपया ६५० आवे है हम जामीन किस भांति होई, रुपया हमारे हाथी आवै नही। श्री महाराजा जी सलामती संतोख राम जामीन उनालु को होव नहीं सो प्रौहित स्यामराम जी को लिखयो संतोख राम ने उनालु की जामनी के वासतै आवै तो जामीन होय जो नही त्र परगना मजकूर मै आमील साहीजादा रफील स्याह<sup>2</sup> का आवैला जी सो जवाब सीताव ईताइत होय जी, जी माफीक केसरी स्यंध जी का गुमासता की नीसा कीजे।

श्री जी महाराजा जी सलामती। भंडारी खीवसी मीती माह वदी ११ वार घीसपतीवार घड़ी च्यारी राती गया नवाब महावत खां जी की मुलाजमती करी।

1. जामीन = जामिन, जमानत।

2. साहजादा रफिउशान।

नवाब बगलगोरी करी बहोत म्हेरवानगी सां वंसया अर ठाकर लोणा को मुजर्रो ह्वो । नवाब बहोत म्हेरवान होय सीरोपाव दीयां फेरी पान दे अर वीदा कीया; अर फुरमाया जो कान्ही जी तुम नवाब खानखाना की मुलाजमती करो । तब भंडारी अरज करि जो १४ सनीसरवार का मुरत आछ्या है सो परसौ मुलाजमती करुंगा । तत्र महावत खां जी फुरमाया जो तुम हम सो तो आछे महुरत मै मीले अवै सवान खानखाना सो खानखा मीलो, बड़े नवाबकै बहोत ताकीद है । तब भंडारी अरज करी जो नव नवाब फुरमावै तब ही तयार हु । सो राती कै तांई महै लांगा सो च्यारी पहरै राती वा चार पहरै दीन मौ उघाड़ घड़ी ऐक कीया नही, तीस सो मुलाजमती नवाब की न हुई जी । मीती माह वदी १४ वार सनीसरवार नवाब खानखाना कै डेरै नवाब महावत खां जी जाय अर भंडारी को बुलाय मेज्यां तब भंडारी असवार होय नवाब खानखाना कै डेरै गया अर नवाब खानखाना की मुलाजमती करि, नजरी गुजरानी सो राखी । मुलाजमती करता ई नवाब खानखाना फुरमायां जो दोन्यो राजो हमारी बुरि फाकती करी । फरोज खा मेयाती तो रुसतम दील खां की अँसी रफावती करै अब तुम तो अँसे मौसर मै भी हम पासो आवे नही । तब भंडारी अरज करी जो महाराजा अजीतस्यंघ जी नै तीन महीना ताव<sup>१</sup> आई तीसो डील हुई अर अवै सीताव हजुरि पहुचैगे । तब नवाब फुरमाई जो कहा तक आवे होयगे ? तब भंडारी अरज करी जो पोहोकरजी<sup>२</sup> आये पहुचे होयगे, सो अवै सीताव हजुरी पहुचैगे । तब नवाब महावत खांजी नवाब सो अरज करी जो अवार तो भंडारी को रखसद होय काल्ही<sup>३</sup> जो कुछ फुरमावण हाँय सो फुरमावै । तब भंडारी को सीरोपाव दे नवाब वीदा कीया अर फुरमाया, जो कात्ही तुम साहीजादा अंजीमसान की मुलाजमति करी, अर अनार पातसाहजी कै वासतै वा साहीजादाजी कै वासतै ल्याया छो सो मगाय भेजो ज्यो, पातसाहजी के अनार गुजरानी तुम्हारे आये की अरज कीजै । मीती माह वदी ५५ वार दीतवार भंडारी जी नवाब महावत खां जी कै डैरे गया अर गुलाबराय खानसामा की मारफती अनार वा कपड़ो गुजराती जो उठा सो ल्याया था सो गुजरां न्यी जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । खत नवाब महावत खां जी को वा अरज-दासती महैमदयार खां की बंदा न सीपी थी सो हजुरी भेजी हँ सो नीजरी गुजरै लो जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । मीती माह वदि ८ सोमवार कै दीन वीजैस्यंघ

- 
1. दुयार ।
  2. पुरार जी ।
  3. मल ।



जी दयाराम दीवान<sup>1</sup> कै मीजमानी खावा जनाना सुधा पधार्या सो दयाराम नौ ईनाम हुई ।

खसजरी तास को  
सीरोपाव

गवयेक वकस्यी  
तन रुपया ५००० को

पहुची को जोड़ो  
१  
घोड़ो खासा  
१

अर दयाराम नीजरी करी हाथी १ वा घोड़ा दोय, महोर १०० SS, खंजर जड़ाऊ १, घुगघगी १, पहुची ऐक, बीजैस्यंघजी की नीजरां की, पावा कपड़ा का दाम तोरा २ मा० १८ नीजरी कीया जी अर जो जनानो आयो छो त्याकी पहैरावणी करी जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । बीरादरी का काम चलवा कै वास्तै बंदै रुपया ५००० टीप खानाजाद की महोर सौ राव भगवंत नै लीख दीई छै तीहकी नकल हजुरी भेजी छै सौ नजरी गुजरैला जी । बंदो उमेदवार छै जो पंजीराई ईनायत होय जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । नवाब महाबत खां जी नौ रुपया ७५००० को खत नवाब नै लीख दीयो छौं तीकी नकल आगै हजुरी भेजी छै सो नजरि गुजरी होयली जी । अर रुपया २५००० की हुंडी की नवाब की बंदा सौ बहोत ताकीद छै सो बंदौ उमेदवार छै जो या भी हुंडी सीताब ईनायत होय जी । ज्यौ नवाब यादीदास्ती परी महोर करै जी । अर अजीतस्यंघ जी की बीरादरी को काम चलयौ छै तीण तांई सरकार की भी बीरादरी को काम सरु होय जी । अर राय भगवंत भी पईसा लीया ही काम करैलो जी, गुलालचंद भी पईसा दे अर यादीदास्ती तयार कराई छै जी । अर दफत्र नवाब महाबत खां जी का तोस्यंदा का खरच कौ वास्तै रुपया ५०० राय भगवंत की मारफती भेज्या छै जी पणी वे बहोत मांगै छै जी पणी वेता तो हाल दीया छै जी, अर वै या कहै छै जो गुलालचंद दीया छै ती माफीक थे भी दयौह सो जो हुकम आवै ती माफक अमल करु जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । पातसाहजी का हसबल हुकम वा गुरजरबरदार पहाड़ों के राजों पौ गया जो तुम्हारी धरति मै जहा गरु होय जीहा सौ पकड़ी हजुरी भेजी ज्यौ । तब पहाड़ों के राजो की अरजदासती पातसाहजी नै आई अर नजरी गुजरी जो गरू हमारी धरती मै आया नही नाहणीही का राजा का पहाड़ मै छै । सो पातसाहजी खानखाना कौ फुरमाया जो तुम नाहणी का राजा को

1. महाराजा जयसिंह के छोटे भाई विजयसिंह का दीवान ।

बुलाय कैदी करो जो गुरू को पैदा करि देह । तव खानखाना नाहणी का राजा को बुलाया अर ताकीद करी तव नाहणी कै राजा अरज करी जो मेरी जाणी मै गुरू नहीं अर मेरा दीवान गुरू का सीख<sup>1</sup> है सो इसकी जाणी मै कहि होयगा, सो दीवान को औसा मार्या जो वसका जीवणा कठणी छै जी । अर दूसरे दिन पात-साहजी खानखाना को फुरमाया जो दीवान के मार्यो क्या होता है तुम राजा को कैदी करो वैह गुरू को पैदा करी देहगा तत्र मै मारी डालुगा अर ईसका मुलक खाक स्याह करुंगा । तव नवाव खानखाना ईसको बुलाय क्रैदी किया अर लोग ईसका सब भागी गया अर वै उसकी मा की अरजदासती आई छै जो मेरे बेटे को वेईजती मती करो मै गुरू का तलास मै हुं सो पैदाकरि भेजुगी । सो जो ठाहरै ली सै पाछा थे अरज लीखीलो जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । वंदा हमेसा भंडारि खीवसी की लार दरवारी जाय है अर जीहा वै सलाह करि छोड़ी जाय छै जब वहाकी जो हकीकती वै आय कहै छै ती माफीक अरज लीखै छा जी अर साहीजादा जी की मी मुलाजमती दीन येक तथा दोय मै करैला जी, म्हे<sup>2</sup> कै सबव ढील हुई छै जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । पंचोली जगजीवनदासजी नीपट परेसान छो सो अरज पहुचावा मै आवै नही जी, जै ईह वकत मै क्यौ खरची ईनायत होय तो सलाह दोलती छै व वाका की फरद हजुरी भेजी छै सो दरवार की हकीकती मालुम होयली जी । मीती माह सुदी ३, संवत १७६७ ।

---

1. सिख्य ।

2. बरमात ।

क्रम संख्या १६

वकील रिपोर्ट संख्या २२

माघ सुदी ७, संवत् १७६७

॥ श्री राम जी

जैस्यंघजी

॥ सिधि श्री सरववोपमा वीराजमान महाराजाधीरांज महाराजा जी श्री...  
जी देव चरण कमलान वंदा खानाजाद पीर गुलाम भीखारीदास कैनी पावा धोक  
अवधारि ज्यौ जी । अँठा का समाचार श्री महारांजाजी का तेज प्रताप थे भला छै  
जी श्री महाराजा जी का घड़ी घड़ी पल पल का सदा आरोग्य चाहिजे जी ।  
अप्रंची परगना मालपुरां वा सरवाड़ कै वासतै नीसाण पातसाहजादा अजीमसानजी  
का बाटत हकीम सलेम जी का श्री जी के नाव ईनायत हुवा छै वा महाराजा  
अजीतस्यंघ जी कै नाव ईनायत हुआ छै अर हकीम सलेमजी हसबल हुकम दोन्यौ  
राजा कै नाव भेज्या छै अर पातसाहजादै अजीमसानजी भंडारी सौ वा खानाजाद  
सौ रुबरुह ताकीद फुरमाई तीसौ खानाजाद अरज पहुंचावै छौ जो माफीक हुकम  
साहीजांदा जी कै मुतसदी हजुरी का नै हुकम होय ज्यौ माफीक हुकम अमल करै  
जी । अर राजा राजस्यंघ<sup>1</sup> जी का मुतसद्या को रांजीनामौ वंदा कनै आवै जी  
ज्यो साहीजादा जी की नीजरी गुजरानो जी । मीती माह सुदी ७, सं० १७६७ ।

1. राजा राजसिंह=रूपनगर (किशनगढ़) का शासक ।

श्री परमेश्वर जी सत्य छै

स्वरूपि श्री लसकर वीजैकट कातुं महाराजाधराज श्री श्री श्री श्री श्री जै-  
सिपजी चरणकमलान पातसाही लसकर था आग्याकारी भां० खीवसी लीखतुं सेवा  
मुजरो अवधारजो जी । अठारा समाचार श्री जी रे तेज परताप कर भला छै  
जी । श्री महाराजा जी रा घड़ी घड़ी रा पल पल रा सदा आरोग चाहीजै जी ।  
महाराजा जी बडा छै जी, महाराजा जी साहिव छै जी, मोसु सदा म्हैरवानगीं  
फुरमावे छ तीण था वसेख फुरमाव जो जी । श्री महाराज जी रा डीलां रा पांन  
कपुर गंगाजल आरोगणरा घणा जतन फुरमाव जो जी ।

अप्रचि श्री जी सलामत । नवाव खानखांना जी महावत खाँ जी सु मुजरो  
कीया री तो आगे अरज लीखी छै सो मालुम हुई होसी जी । तठा पछै माह  
मुद ५ रे दीन साहजादा श्री अजीमसं जी री मुलाजमत करी सो नवाव महावत  
खां जी साथे ले जाइ मुलाजमत कराई साहजादा जी तसबाख ने वीराजया था  
तठे जाई मुजरो कीयो, घणी दीलासा फुरमाई, नजीक आई उभो रहा नै दोनु  
अरजदासतां गुजराणी पछै अरज करी, दोनु राजां ने बंदगी फुरनस मालुम करी  
है, तरे साहजादे जी फुरमायो चांगेह तद अरज करी जहांपना का इकवाल म्हैर-  
वांनगी सु चांगे हे, पछै फुरमायो—आवण की क्या खबर हे ? तरे मे अरज करी—  
डील कोस वासते करेगे ईसी जनाव के चाकर हे । पछै महावत खां जी बोलीया—  
कीतनेक दीनां मे आवेगे ? तरे अरज करी—सीताव आवते हे पीण आगु जहांपन्हा  
से अरज करी हे तीसकी अरज हे । तरे साहजादे जी फुरमायो—कावल की खातर  
अरज करते हो, तरे अरज करी-जहांपन्हा सलामत, यही अरज हे । तद फुरमायो—  
कावल माफ करेगे । जद महावत खां जी बोलीया—कावल माफ करावां तो कीत-  
नेक दीनां मे हजुर आवें । जद अरज करी—पांच पांच, सात सात कोस री मंजल

करता सीताव आय पहचसी, तीण सु श्री जी रे खीजमत मे अरज लीखा छै । श्री जी अठा री तरफ सु भांत भांत खुसाली फुरमावे, कीणी वात दीसा खातर मे न लावै ने घणी मुसवखती सु वीराजीया रेहजो जी ओर कीणी रा लीखाया पढाया उपर नीजर मत राखे । सारो कांम हुकम माफक ठीक लगाई नै अरज लीखु छु । श्री महाराजा जी रा कांम मेने श्री महाराज रा कांम मे तफावत राखु तो मने श्री महाराज जीरी आण दे । ज्यादा अरज काऊ लीखु ओर वाजै हकीकत छै सो लीखण जु न छै । तीणरी पाछा सु अरज लीखु छु ।

वऊड़ता परवाना सदा ईनायत कराव जो जी । सांवत १७६७, रा माह सुद ७ रव ।

श्रीरामजी  
श्री महारांजाधीरांज सलामती

परवाना करार मीती माह वदी ५ वा वदी ६ का लीख्या ईनायत हुवा था सो मीती मांह सुदी ३ बीसपती (बुधवार) वार आप पहुता जी। खानाजाद सरफराज हुवा माथे चढाय लीया जी। हुकम हुवो जो भंडारी खीवसी हजुरी पहुतो होसी सो जो रदवलदल हुई होय सो अरज लीखज्यौ, अर बीरादरी का काम कै वासतै हुकम आयां सो भगवंत राय की भाती भाती नीसा करी काम चलायो छै जी अर दरवार खरच का पर्ईसा वेई भी उनही परी नाखी छै जो महारांजां अजीत स्वंध जी कै दीया छै ती माफीक म्हे भी नीसा करांलां। हुकम आया जो रूपया ७५०००) को तमसुख जीह व्यापारी नै नवाव लीखाय देह तीनै लीय दीज्यौ सो माफीक हुकम तमसुख तो लीख दीयो, तीकी नकल आगै हजुरी भेजी छी सो नजरी गुजरी होयली जी। अर नकद रु० २५०००) की नीपट ताकीद छै सो उमेदवार हु जो व्यापारया की तसलै करी अर हुड़ी सीताव ईनायत होय जी। हुकम आया जो भगवंत राय अरज राखौ छी जो चैनरांम भतीजा म्हांरां नै सरकार मै चाकर राखजे सो हकीकती अरज पहुची, ई वात को कई मुजायको छै म्हे भी पातसाहजी की हजुरी सीताव ही आवां छां सो भगवंत राय को भतीजो चाकर रांखणी सलाह दोलती छै जी सो चाकर राखी श्री जी परवानो ईनायत करै जी। ईनसे ती काम काज वहोत है जी। अर खत उमीरल उमराव को ईनायत हुवा थां सो पहुता जी सो खत पंचोली जगजीवनदास नै सोप्या है सो जवाव आवैलो सो हजुरी भेजोलो जी।

श्री महारांजा जी सलामती। महावत खां जी की हुड़ी रूपया २५०००) की ईनायत होय तीहीकी साथी भगवंत राय की हुड़ी ईनायत होय जी, ज्यौ काम बीरादरी को चलै जी। रूपया कै वासते काम बंद छै जी।

श्री महारांजा जी सलामती । हजुरी मै या ठाहरी छै जो जै हजुरी आवो तो काबील की मुहेम मोकुफ होय सो रदबदल दरम्यान छै सो जो ठीक पड़ैलो सो पाछा थे अरज लीखैलो जी ।

श्री महारांजा जी सलामती । परवानो फारसी करार ता २६ जीलहेद को लीखो ईनायत हुवो थो तारीख ७ जीलहेज आय पहुतो जी माथै चढ़ाय लीयो । खांनाजाद सरफरांज हुवो । हुकम आया जो हकीकती दरबार की तो जुदां बंद मै लीखबो करज्यो अर मुकदमा मालीत का जुदा बंद मै लीखबोकीज्यो सो माफीक हुकम बंदा अमल करैगां जी ।

श्री महारांजा जी सलामती । गरू पकड्या आवैगां अर सब नीजरीवानी सार गुजरांनैगां तो बंदा भी अरजदासती वैही थेली मै माफीक सलाह दोन्यो नवावा की अरजदासती लीखी गुजरानोगा जी । हुकम आया जो रूपया २५०००) की हुडी का जवाब हीदुई परवाना सो जाणोलां सो परवाना हीदुई बंदा पासी ईही मै आया नही सो अबै ईनायत होय जी माफीक नवाब सो रदबदल करू जी अर हुकम आया जो तुम्हांरै नाव परवाना फारसी सादर होयला अर नकल दस्तुर सावीक अरजदासती हीदुई करबो कीज्यौ सो माफीक हुकम अमल करूगा जी ।

मीती माह सुदी ११, संवत १७६७, मु० साढोरो ।

॥ श्री राम जी  
श्री महाराजाधीराज सलामती

अरजदासती करारि मीती माह सुदी ३ वार बुधवार की लीखी हजुरी भेजी छै तीसो सारी हकीकती अरज पहुची होयली जी । श्री महाराजाधीराज सलामती । आगै तो घायभाई रूपराम कै साथी वीजैस्यंघजी को महैल<sup>१</sup> सोलखणी जी हीडोणी गई थी अर अबै रा.ोड़ी रतलाम वालि की वेटी ओर भी हीडोणी को चलाई जी अर रुघनाथ स्यंघ चत्रभुजवत वागे० लार दीया<sup>२</sup> जो ईने भी ले जावो । तब राणी कही जो हु हीडोणी कोई जाउ नही न रतलाम जाई आवैरी जाउगी, महाराजा जी मुनै खावानै देहलां अर तीन दिन ताई मुखी रही अर बहोत हठ किया । सो जाणी ये तो वो है जो वैर रजपुत हीडोणी ले जाईलां अर जै कदाची आवैरी आवै तो श्री जी म्हैरवानगी फुरमावैला जी । श्री महाराजाजी सलामती । महीनो सवा हुवो सो म्हे राती दिन लागो रहै, घड़ी येक उघाड़ करै नही सो लट, बँल वा घोड़ा वा आदमी बहुत मुवा<sup>३</sup> सो अरज पहुचावा मै आवै नही जी अर नाज<sup>४</sup> की भी रसत पहुचै सो जुदी उरक सो नीरख की अरज पहुचैली जी ।

श्री महाराजा जी सलामति । गरु की खवरी लसकर मै यह है जो नाहणी का राजा की हद सो तो नीकसी अर नाहणी का रांजा परै और राजो की हद छै सो उठै गयो । अर नाहणी का राजा की मा उस रांजा की वहैण थी सो वा उन राजा कै गई अर उसको कहा—जो मेरा बेटा को पातसाहजी नो रोक्या

1. महैल—रानी तथा उसके माय की स्त्रियां एवं मेवक ।
2. माय किये ।
3. मर गये ।
4. घनाज ।



सो मुवाही छुटैगा सो मै तुम उपरी मरुगी । तब नाहणी का राजा का लोग वा उस राजा का लोगां मीली अर तलास कीया सो गरु येक खोहले मै पाया सो दोन्यौ राजा की फौज सौ उस खोहले मै लड़ाई होय है अर पीढी पीछे बरफ का डुंगर है सो माजी जावा नै जायगा<sup>1</sup> नहीं; अर पातसाही फौज बरफ कै सवव जाय सकै नही । सो दोन्यो रांजों सौ पातसाहजी की नीपट ताकीद छै । सो कोई तो कहै है जो पकड़या वा कोई कहै जो अबै पकड़ेगा । सो ठीक पड़ैलो सो पाछा थे अरज लीखो लो जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । आजी ईस पातसाही मै रुसतम दील का मामला बहोत तेजी है अर पातसाहजी नीपट म्हेरवान है अर ईसका सुभाव श्री महाराजाजी नै मालुम छै पांच हजार असवारां की फौज सौ सीहनंद की त्रफ नै जाय छै सो पण मे सुरजी करै सीताब<sup>2</sup> लसकर बारै नीकसो । सो श्री महाराजा जी सलामती । राजा राजस्यंघ रुपनगर वालै साहीजादा अजीमसानजी का दोय नीसाण—येक तो महाराजा अजीतस्यंघ जी कै नाव वा येक श्री जी कै नाव, वा दोय हसबल अमर हकीम सलेम जी की महोर सौ जो मालपुरा का गावां मै सौ खंगारवता की गढ़ी ढहाई, देवासर वाड़ का गावां मौ सो गोड़ा की गढ़ी ढहाय काढ़ी दे है सो ये करांवा छै जी । सो भंडारी जी सरवाड़ का गावां कै वासतै महाराजा अजीतस्यंघ जी नै अरजदासती करी छै तब राजस्यंघ जी दोन्यौ नीसाण वा हसबल अमर वा भंडारी जी की अरजदासती की नकल बंदा पासी भेजी जो ई माफीक थे भी महाराजाजी नै लीखी द्यूह सो बंदा की अरजदासती लीखाय वाका मुतसदी ले गया छै सो हकीकती अरज पहुचै जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । महैमदसाय व हाजरी जलेवु मुनसबदार पातसाही की, जागीर प्रगना मौजाबादी मै दाम येक लाख सात हजार पावै छै सो ईनकै वासतै आगै भी बंदै फुरमावै नवाब खानखाना वां महाबत खां जी के अरजदासती दोय च्यारी आगै करी छी सो जवाब ईनायत न हुवो । अबै नवाब खानखाना वा महाबत खां बंदा सौ फुरमावै है जो जागीर अबु महैमद कीलादार की ईजारै लीई छै ती माफीक ईनके पड़सौ की नीसा करो, अर जे ईनकी जागीर ईनका मुतसद्या नै सोपीछै तो राजीनामा मगावो ये पातसाही खास जलेव मै चाकर है, अर बार बार अरज पहुचावै है ।

श्री महाराजा जी सलामती । मुतसदी हजुरी कानै हुकम होय जो मुतसदी मजकुर कां नै जागीर मै अमल दीयो होय तो वाको राजीनामो लीखाय बंदा कनै भेजेज्यो, नवाब की नीजरी गुवरानो जी । अर जै सरर मै लीई होय तो पईसा

1. जगह ।

2. शीघ्र ।

यनायत होय जी, ईन कौ वासतै वंदा सौ वा पचोली जगजीवनदास नै नीपट फसावली छै जी अर साग होयला जी । नवाव खानखाना पचोली जगजीवनदास नै फुरमाई जो मै तुमको आगै फरमाया था सो तुम्हारे का जवाब आया ? तब जगजीवनदास अरज करी जो मेरै तो कुछ जवाब आया नहीं, तब फुरमाया जो तुम दोन्या मीली सीताव जवाव मगावो, सो अरज लीखी छै जी; सो जवाव सीताव ईनायत होय जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । नवाव खानजीहां बहादर मीती माह सुदी ६ नै बंगाला की सुवादारी हुई जी सौ जीही दीन कुच करी गया जी अर वंदा सौ फुरमावै थे जो राजाजी का ईन दीनो मै आवणा होता तो हमारा मीलणा होता सो हमारी दुवां लीखवो कीज्यो । अर वंदा रांजा राजस्यंघजी कै गया था अर रांजा राजस्यंघ जी या कहौ थे जो नाहणी का राजा की हद सौ गुरु बाहरी गयां अर नाहणी का रांजा की हद परै कोस ८०) पहाड़ मै है सो हाथी आवणा फठणी है अर पातसाही मै या खवरी है जो आंजी सवा मै पकड़या आवैगा सो आया अरज लिखौलो जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । नवाव खानखाना कै गुजरात सी जोड़ी कासीदा की आई तब नवाव कासीदा ने बुलाय पुछया जो राजा कहा है तब कासीदा अरज करी जो हम आवैरी होय आये सो राजाजी आवैरी सौ कुच कीया अर भांभरा कै मुतसली डेरा छै अर आवैरी मे होली खेलवा की तयारी कराई छे । तब नवाव कासीद महावत खां जी पासो भेज्या सो नवाव महावत खां जी सो भी कासीदा ईही भाती अरज करी । तब महावत खां जी पीर महैमद खजान्ची को वंदा पासो भेज्या जो या क्या खवरी है तब वंदा कै नाव परवानो फारसी ईनायत हुवा था सो वजनसी दीखाया जो हमारै तो या खवरी आई है जो महाराजा सीताव हजुरी आवै है अर कासीद खीलाफ अरज पहुंचावै छै । तब नवाव फुरमाये जो तुम राजाजी को फेरी नाकीद लीख द्योह सो माफीक हुकम नवाव कौ अरज पहुंचाई छै जो सो आवैरी जाणा मनासव नहीं जी फरद वाका की अरजदासती मै भेजी छै सो दरवार की हकीकती मालुम होयली जी । मीती माह सुदी ११, सं० १७६७ ।

॥ श्री परमेश्वरजी सत्य छं

॥ : ॥.....॥ सवारुप श्री लसकर विजैकट कानु महाराजाधिराज महाराजा जी श्री श्री श्री श्री श्री जैसिघ जी चरण कमलान पातिसाहि लसकर था आग्याकारी भां० खीवसी लिखतं सेवा मुजरो अवधार जो जी । अठा रा समाचार श्री जी रे तेज परताप कर भला छै जी । श्री महाराजा जी रा घड़ी घड़ी रा पल पल रा सदा आरोग चाहीजै जी ।

। अप्रचि श्री महाराजा जी बडा छै जी, साहिब छै जी, मोसु सदां म्हैरवानगी फुरमावै छै तीण था वसेख फुरमाव जो जी । श्री महाराजा जी रे डीलां रा पांन, कपुर, गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फुरामवजो जी ।

। अप्रचि श्री जी सलांमत—अठा री हकीकती अरजदासतां आगे खीजमत मै मैली छै सो मालुम हुई होसी जी । तठा पछै फेर तीन दीन म्है री झड़ी हुई तीण सु दरबार जाइ सकीयो नही नै माह सुद १२ रे दीन उबरेडो<sup>१</sup> हुवो तरे पातसाहजी रे ईद रो जलुस हुवो, ईग्यारस रे दीन तो म्है रै सबब जलुस न हुवो नै माह सुद १३ रे दीन ईदरी ममारखी<sup>२</sup> देण सारु दोनु नवाबां रे डेरे गया । पछै नवाब खानखानाजी फुरमायो आज तुम पातसाहजी की मुलाजमत करो जद म्हे मुलाजमत करी । पातसाह जी घणी महरवानगी फरमाई । मुलाजमत कर उभो थो तठा सु हुं कांम कर नजीक जठे हजारी दोढ़ हजारी उमराव उभा रहै तठै उभो राखीयो नै तुरत सीरपाव रो हुकांम कीयो । सीरपाव पहरण गयो तेरे पाछा सु हुकम आयो सीरपाव लाल खासा पेहरावो, जद हुकाम माफक

1. उघाड़ ।

2. मुवारक ।

भारी सीरपाव ईनाइत हुवो—सीरपाव १ राईया दोद राज नै ईनायत हुवो । पातसाहजी फरमायाँ राजा कै आवण की क्या ढील है तरे नवाव खानखाना जी अरज करी सीताव आवते है भंडारी कुं आगे इसीज खातर भेजीया है, ईहां हजरत से कीणी नै अरज करी है राजा नही आवेंगे जीससै अरज कराई है सीताव आवत है ।

। अप्रचि श्री जी सलामत—कावलरी मुहम मोकुफ रखाई छै पातसाहजादे अजीमसांजी, नवाव खानखाना जी, माहावात खां जी फरमाय चुका छै, कावल मोकुफ रखी । सो अवे पातसाहजादाजी री नीसांण नै दोनु नवावां रा खत पाछा सु मीलाउ कु । आप अछा री तरफ सु सारी वातां खुसाली फुरमावजो जी, हमे तलास कर दुसरी जायगा रो तजवीज कर लेवां छां जी ।

। अप्रचि अठे नवाव खानखाना जी ने श्री महाराज खत मेलीयो छै तीण मै लीखीयो छै म्हारै तो तयारी छै कुछ ढील नही पीण महाराज अजीतसिघजी के ढील है तीससे म्है वारी ढील बेठा हां, तीणसुं आपनै अरज लिखु छु ईण भांत आपनै लीखणो मनासव नही ईण वात सु ईतफाक मे कुछ तफावत नीजर पड़ै । श्री महाराजा जी ईतरो हीज लीगणो पहुचैसी—सीताव आवा छा, श्री महाराजा पीण दर कुच पधारै छै; हमे साजादाजी सु कोल पंज्यो पिण लिखाय वेगी मेलं छा जी ने श्री महाराजा जी सु पीण अरज लीखी जैसु वैगा पधारसी नै परमेसुर करै छै तो परवादिरी खीजमत लु छु जी ।

। बाहृदता परवानां सदा भया कराव जो जी । सं० १७६७, माह सुद १५, भोमदार ।

॥ श्रीरामजी

श्री महाराजाधिराज सलामती

अरज दासती करार मीती माह सुदी ११ सुकरवार की लीखी हजुरी भेंजी छै तीसौ सारी हकीकती अरज पहुंची होयली जी । श्री महाराजा जी सलामती । मीती माह सुदी १० वीसपतीवार नै सांझ ही सो मैह असो लागो जो डेरा सबे फाटी गयो अर आदमी वा घोड़ा, ऊट, बैल वागौ<sup>०</sup> जो आगीला म्हे सौ बच्या छा सो ईह मेह सो व्होत मुवा जी सौ क्यो अरज पहुंचावा मै आवै नही जी । चोदा पहैर ताई म्हे वरस्यौ—सनीसरवार कै ताई ऊघाड़ हुंवो, सुरज दीखाई दीई पणी म्हे लागो हि रहयो जी । श्री महाराजा जी सलामती । ईद की मुंबारकवाद कै वास्तै खवास खां ऊरफ मीयां मारुफ नवाब खांखांना कै डैरे आया थां अर बंदा वा भंडारी जी दीवान खानै बैठा था सौ खवास खां अंदर सौ नीकस्यां तब बंदा सौ मिल्यां बहोत म्हेरवानी का गीला कियां । अर भंडारी जी कै सुणता या कही जो तुम्हारै राजाको आपणे बाप दादा की रीत छोड़णी मुनासब नही थां अर जो कीया अर करो हो सो बुरा करौ हो । तब बंदे कही जो मै साहीब कै डेरै आऊगां, तब कही जो तुम्हारं मिलणा मुसकलि है ।

श्री महाराजा जी सलामती । मीती माह सुदी १४ सोमवार हरकारां पात-साहजी सौ अरज पहुंचाई जो नाहणी का राजा की मां गरु कों लिया आवै है, अर लसकर सौ कोस बारा परी डेरा कीया है । अर वा अरज करै है जो महाबत खां बकसी को हुकम होय जो अगाऊ आय गरु को लेजाय । तब चेलो को हुकम हुवां जो महाबत खां सो ताकीद करी चलावो अर गरु को लोह का पीजरां तयार खारदार कीया है, तीसमै बैठाय अर ले आवो । अर इसके साथ दोग्य लुगाई

1. बगैहरा—इत्यादि ।

पकड़ी गई है तीनों को रय में बैठाय ले आवो। तब तीसरै पहरी महावत खां जी दरबारी गया अर खानखाना भी दरबारी आये तब पातसाहजी फुरमाया जो तुम फोज ले जाय गरु को ले आवो। तब खानखाना अरज करि जो मेरे हरकारे आये है सो गरु पकड़या है सो नजदीक ल्यावे नही है। नजदीक आवैगा तब महावत यां जाय ले आवैगा। तब पातसाहजी फुरमाई जो तुम ओर हरकारे भेजो अर ताकीद करो जो सीताव ले आवै। श्री महाराजा जी सलामती। मीती फागण वदी १ पेसखानो पातसाही साढ़ोरां का ऊरा सो चाल्यो सो साढ़ोरा परै कोस येक जाय खड़ो हुवो जी।

श्री महाराजा जी सलामती। महाराजा अजीतस्यंध जी की विरादरी की सनदी दरबार खरच का नोस्यंदा वागौ० नै दे अर गुलाल चंद ऊकील तयार कराई थी सो वंदे आगे अरजदासती में अरज लीखी छी सो अरज पहुंची ही होयली जी। भंडारी जी आय नवाब अमीरल उमराव के दरबार खरच वा नोस्यंदो का खरच दे अर सनदी वीरादरी की मसली लगाई है। सो दीन पाच सात में सनदी तयार होयलि। श्री महाराजा जी सलामती। सरकार की वीरादरी की सनदी रुपया ७५००० को तससुख नवाब महावत खां जी लीखाय लीया, पाछे दसकत करी दीया; सो दफत्र का खरच वीनां सनदी चलै नहै अर नवाब या कहै है जो मेरे भी रुपया २५००० द्योह तब तसदी कोपरी मुहोर करो अर भगवतराय कहै है जो मेरी पाछीली वाकी वा हाल का रुपया द्योह तो हु सनदी चलाई। सो वहा कोई वहोरा जुड़े नहीं तीसयो सो ऊधारा ले अर काम चलाउ। सो हजुरि सो घरची ईनायत होय जी तो भंडारी वा गुलाल चंद की सलाह सो जो यादीयो होय सो तीनों वकस्यो<sup>१</sup> के दे अर सनदी तयार करा जे जी। तब<sup>२</sup> ऊनकी सनदी तयार होय ली अर सरकार की सनदी बंद रहैली जी। अर नवाब महावत यां जी रुपया २५००० की सनदी अवादाकी वंदा पासो लीखाय लीई छै सो हुंडी सीताव ईनायत होय जी।

श्री महाराजा जी सलामती। परगना मोजावादी के वासतै वंदे आगे तपसीलवार अरज लीखी छै सो अरज पहुंची होयली जी सो तीसका जवाब वंदा नै ईनायत हुवा आर्थ। साहीजादा रफील कदर का आमोल वोदा होय है जी। सो जे परगना मजकुर सरकार में ईजारी राखण होय तो मुतसदी हजुरी का नै हुकम होय जो प्रोहित स्यामराम की चीठी गुमासतां संतोखराम नै आवै ज्यों वाकी नीता करे जी। श्री महाराजा जी सलामती। महैमदसायव खास जलेब मनसबदार पातनाही की जागीर प्रगना मोजावादि में छै तीके वासतै वंदे आगे अरज लीखी

1. तीनों वकस्यों को।

2. नहीं छै।

छी सो अवै जै ऊसका जवाब ईनायत न होय लो तो नवाब खानखाना बंदा सौ फुर-  
माया है जो मै तुमकौ बैठाय रुपया की नीसा कराऊगा सो जगजीवन दास पचोली  
का लिख्या सौ सारी तपसीलवार अरज पहुची होयली जी । श्री महाराजा जी  
सलामती । ईद की नीजरी नवाब खानखाना वा महाबत खां जी की करी माफीक  
तपसील जैल :

नवाब खानखाना जी की

१)) ६)

नवाब महाबत खां जी की

१)) ६)

दरबार की हकीकती सारी पंचोली जगजीवनदास का लिख्या सौ अरज पहुंचैली  
जी । फरद वकाया की हजुरी भेजी छै तीसौ सारी हकीकती अरज पहुंचैली जी ।  
और श्री महाराजा जी सलामती । नाहणी का राजा की मां के वासतै गहोणो  
रुपया लाख को पातसाहजी अलाहीदो करायो छै सो ठीक पड़या सारी अरज  
लीखौ लो जी । मीती फागण वदी ४, सं० १७६७ ।

अर पातसाहजी जीठै पैसखान लाय खड़ो हुवौ छौ तीठौ मी० फागण वदी ३  
नै दाखील हुवा जी ।

॥ श्री राम जी

श्री महाराजाधिराज सलामती

मीती माह सुदी १२ नै पातसाहजी ईद करी सो मेह बहोत वरस्यो सो कोई उमराव नीजरी करण न आयां अर दूसरे दिन मेह रहयो<sup>१</sup> तब सब ऊमरांव नीजरी करण आये तब भंडारी खीवसी वा बंदा भी नवाब खानखाना की जा अ नजरी कीई तपसोल जैल—

भंटारी नजरी करी

बंदो नजरी करी

खानखाना की महावत खांजी की नवाब खानखाना की महावत खां जी की  
 २)) २)) १)) ६) १)) ६)

तब नवाब खानखाना बंदा सो फुरमाई जो तुम्हारा रांजा कदी आवैगे अर हमारे यत्नों का क्या जवाब आया? तब बंदे अरज करि जो अब तक क्यों जवाब आया नहीं है। तब नवाब हसी करि येनी फुरमाई जो तुम्हारें जवाब आवण नहीं, अर भंडारी सो फुरमाई जो तुम हमारें दीवानखाने बैठो अर आजी तुम पातसाहजी को मुलाजमती करो। तब भंडारी जी तो वहा ही बैठा अर बंदा डेरै आया। जी पड़ी चार दिन पाछीलो वाकी रह्या भंडारी पातसाही जी की मुलाजमती करि। पातसाहजी सीरोपाव बकस्यो। दूसरें दिन सीरोपाव पहेरी साहीजादा अजीम-सानजी के मुजरै गया तब साहीजादे जी भी सीरोपाव दीया जी।

श्री महाराजा जी सलामती। भंडारी जी बंदा सो कही जो तुम श्रीमहां-रांजाजी नै अरजदासती करो जो महारांजा जी बहोत खुस्याल रहे हु सारा काम

1. एक मयो।



भली भांती सरंजाम देस्यौ । तब बंदै कहि जो कावील<sup>1</sup> की मुहीम की मोकुफा खत के दसकत करावो अर साहीजांदाजी का वां नवाव खानखाना का कोल पंजा ल्यौह । तब जवाब दीयो जो कावील तो म्हे येक दीन मै मोकुफ करस्यां पणी काम घणा करणां छै सो वा मनसुवा को बंद कीया छै सो बंदा नै वचायां<sup>2</sup> सो मसोदा<sup>3</sup> सारी पातसाही का बंदवसत का कीया छै । तीममै महाराजा अजीतस्यंध जी नै तो गुजरात को सुवो वा श्री जी कै नाव मालवा का थाणा वांध्यारा का घटताई राहचलावणां सो अरज पहुता पाछै जो ठाहरै ली सौ अरज लीखी लो जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । भंडारी जी बंदा सो कही जो महाराजा जी नै या लीखणा मुनासिब नही थां जो या खानखाना को लीखै जो मै अजीत स्यंध जी कै वासतै वैठा हु । तब बंदे कही जो अँसा तो महरांजाजी कदे लीखै नही अर जै लीख्या होयगा तो ईस भाती लीख्या होयगा जो महाराजाजी अर म्हे साथी आवा छा अर जबसै तुम आये तब सौ नवाव खानखाना वा महावत खां नै खत कोई आया नही । तब कही जो मेरे ताई तहकीक खवरी पहुची है जो महाराजा जी ईस भाती ही लीख्या है; अर बंदा जब भंडारीजी सौ रदवदल करै छै जब भंडारी जी याही कहै छै जो थे नचीत<sup>4</sup> वैठा रहो हु थाका मुढा आगै दौड़ो सारां काम करी लेस्यौ अर थे लीखी सो माहारी अरजदासती परि मोकुफ राखी, हु भी अरज दासती करवो करु छु । तब बंदै कही जो हु भी चाकर छु अर मुनै भी हुकम आयो छै जो भंडारी जी का ईतफाक सौ काम कीज्यो सो मुनै भी जीठौ<sup>5</sup> थे जावो जीठै लार ले चाल्या करो । तब भंडारी जी कही जो जीठै जरुरी जाणलां जीठौ भै अर थे साथी चलालां अवार तो मुनै ही रदवदन करवा द्यौह ।

मीती फागण वदी १ बुधवार माफीक फुरमाये नवाव महावत खां जी कै रांव भगवंत भंडारी जी कै डेरै आयां अर पईसा लेणे के वामतै वहीत रदवदन करि । तब दोपहरां को भंडारी वा राय भगवंत असवार होय नवाव महावत खां जी कै डेरै गया, महावत खां जी वहीत दीलासा करी फुरमाया—त्रो तुम नाथ रुपये ल्याये हो सो हमको द्यौह हम तुम्हारे सब काम करोगे । तब भंडारी अरज करि जो मेरे पासी सौ नवाव टीप मड़ायले अर जो जो अरज करु मौ करी देह । तब नवाव जवाब न दीया, नास को भंडारी डेरै आया । श्री महाराजा जी गलामती ।

1. काविल ।

2. पड़वाया ।

3. मसविदा ।

4. निश्चित ।

5. जी टोड़—जिस जगह ।

नवाब खानखाना के भंडारी कमी जाय छै जो नवाब खानखाना जवाब साफ दे है जो राजा तुम्हारा आवैगे तो तुम्हारे सब काम होयगें नहीं त्र गरु का काम हुवां पाछै पातसाह अजमेरी जाते ही हैं ।

श्री महाराजा जी सलामती । मीती फागण वदी २ बीसपतीवार सवारा ही भंटारी असवारी की तयारी कराई तब बंदा भी तयार होय कहाय भेज्या जो मैं भी तयार हू हुम तुम साथी ही चलै तब भंडारी कहाय भेज्या जो आजी मुनै नवाब महावत खां जी सौ रदवदल करणी है तुम डेरे ही रहो । तब असवार होय हकीम सलेम के डेरै गया साहीजादाजी सौ मील्या, दो पहरा डेरै आयां, तब बंदे को बुलाय भेज्या अर कही जो अरजी मैं साहीजादाजी सौ मीली आया अर साहीजादेजी मेरी भाती भाती तसलै करी अर फुरमाया जो कावील की मुहम राजों सौ हम मोफुक राखी, अबे दोन्यौ राजां सीताब हजुरी आवै तब बंदै भंडारी सो कही जो कावील की मोफुक राखणै का नीसाण सीताब कराय लीजे तो भला है, या वड़ी सनधी है । तब भंडारी जवाब दीया जो मैं नीसाण की अरज करी आया हू सो साहीजादे जी फुरमाया है जो मैं-येकवार पातसाहजी सौ फेरी पकी नीसां करी ल्योह, तब नीसाण दोन्यों राजों को कराय दयोहगां, सो जो हकीकती होयलि सो पाछा थे अरज पहुचाई लो जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । भंडारी की तवीयत श्री महाराजाजी नै रोसन छै सो दवाब तो सो क्यो कहयो जाय नहीं अर कीसु के डेरै जुदा भी गया जाय नहीं, अर साथी ले जाणे की हकीकती मालुम तीसौ भंडारी कहै है सो अरज लीखी छु जी अर ये समाचार जै कोई और सुणैलो अर भंडारी के ताई लीखैलो तो भंडारी जी बंदा सौ वहीत बुरा मानैगा जी । सो खानाजाद उमेदवार है जो या हकीकती श्री महाराजा जी ही पढ़ी बंद अरज-दासती का फाडी डालै जी । श्री महाराजा जी सलामती । सारी पातसाही का तो रंग है मो श्री जी सौ मालुम है जी अर बंदै भी आगै ये दर पै अरज पहुचाई छै अर भंडारी जी येतो हमगीर बात करै है सो क्यो अरज पहुचावा मैं न आवै जी परमेगुरजी करै जो भंडारी का कह्या माफीक काम सब होय, बंदा भी ईही बात का उमेदवार है जी, ओर सारी हकीकती दरवार की रदवदल जो ठांहरै ली मो पाछा थे अरज लीखौलो जी । मीती फागुण वदी ४, संवत १७६७ ।

क्रम संख्या २६

वकील रिपोर्ट संख्या २७

फाल्गुन वदी १३, संवत् १७६७

॥ श्री रामजी

श्री महाराजाधिराज सलामती

अरज दासती करार मीती फागण वदी ४ सनीसरवार कि लिखी हजुरि भेजी छै तीसौ सारी हकीकती अरज पहुचि होसी जी । श्री महाराजा जी सलामती । मीती फागण वदि ५ दीतवार नै पातसाहजी जसन कीया जी । मीती फागण वदी ६ मंगलवार ने पातसाहजी को पैसम्बानों सहारणपुर बुड़िया करे चात्यो जी अर खवरि साहजीहानावाद की गरम है जी । श्री महाराजा जी सलामती । अमीर खां सौ खीजमति में की तगीर हुई अर उसकी जायगा स्याह नीवाज खां वकसी कर फोजदारी मुकरर हुई जी । श्री महाराजा जी सलामती । नवाव खानखांना के दिन तीन हुवा जो नाक के भीतरि गुमड़ी<sup>१</sup> हुई सो नाक सुजी गई जी सो दीन तीन हुवा सो दरवारि न जाय छै जी अर महावत खां जी कै खांसी हुई सो खासी का जोर सौ गल सुवे हुवे है जी सौ वैभि दरवार न करै छै जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । गुलालचंद सब दरवारी मै खरच दे अर सनधि विरादरी की सब तयार करावै है जी अर सरकार की सनधी विरादरी की तब तैयार होयगी जब रुपया २५००० नवाव महावत खां जी नै वा रुपया ५००० राय भगवंत नै दीजेला वा दरवार खरच की हुंडी आवैलि । सो वंदे आगै भी अरजदासती करी है सो हकीकती अरज पहुची होयलि जी । अर हुकम आयी जो परवानो हिंदुई ईनायत हुवो छै तीसै हुंडी की हकीकती जाणौला सो दोन्यों जोड़या नै परवानो हीदुई कोई पहुतो नहि जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । केसरिस्थंघ राठीड़ मोजावादी ईजारा कै वासतै पईसा कै गुमासता ऊनका ताकीद करै है अर स्याम राम प्रोहित को लीन्धो

1. फुन्सी ।

साह संतोख राम नै आयो जो स्यालु मै रूपिया २२०० म्हाकै हाथी आया छा सो थे ऊधालु की कीसती मौ दाम येक यानै द्यौह मती अर जामिनी आपणी भागी ली ज्यी । सो परगना मजकुर नै आमील साहिजादा रफीलस्याह का आवै है जो सो जै ईजारा सरकार मै राखणौ होय तो उनकी पहसा की नीसा कराजे जी अर ज इजारा न राखणा होय तो बंदा को हुकम आवै तो ऊनको जवाव साफ दीजे जी । मोती चैत वदी ५ नै रूपया ५०००) उनालु कि कीसती का लागैला जी अर यहां संतोपराम गुमासता प्रोहित स्यामराम का जवाव साफ दे है सो उमेदवार हु जो इस का जवाव सीताव इनायत होय जी । श्री महाराजा जी सलामती । पुरा साहजीहानावाद की कोतवाली कै वासतै बंदै आगै अरज लिखी छी सो वंदनिवाज-सी सो हजुरि मै मंजूर हुई थी अवै खांनाजाद उमेदवार है जो सनधि वहा की लाल वीहारि कै नाव ईनायत होय जी । लाल वीहारी साहजीहानावाद सौ खूब चाकिफ है जी अर आगै नवाव स्या (आ) सफदोला के दरवार की हकीकती सब दीली सी ये ही लीखै थे सो व्होत दीन सौ उमेदवार है जी अर जब सौ बंदा यहा आया है तवसौ बंदा की लार ही है जी । श्री महाराजा जी सलामती—मेह-ब्रादल वोट का सबव सौ खांनाजाद की देही<sup>१</sup> इन दिनों में व्होत जवुन होय गई है सो वोखद तो बंदे वंदा की व्होत खाई सो फायदा न हुवां । सो अवै वैद मिरगा वतावे है सो लसकर मै तो वैद नहितीस सौ खानाजाद उमेदवार है जो सरकार सौ ईनायत होय जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । गुरु कि खबरि पहैलि तो या थी जो गरु दीन दोय तीन मै पकड़या आवैगा सो अरजदासती मै आगै अरज लिखी छी ती सौ मालुम हुई होयलि जी । अर अवे या खबरी छै जो वरफ व्होत पड़ी, दरा बंद होय गये सो नाहणी का राजा की मा की अरजदासती पातसाहजी नै आई छी, तीमै लोखी थो जो गरु हमारे पहाड़ मै है अर हमारे लोगों घेरिया है, सो वरफ कै आगै दाव पकड़णै का लगता नहीं सो वरफ पगल्या<sup>२</sup> पकड़ि हजुरि ल्याउली । सो गुरु का आवण केतेक दीन बरी पड़या है । अर यह भी खबरि है जो ऊसपै<sup>३</sup> लोग, असवार, पयादा हजार आठ छै अर लड़ाई को तयार बैठा है सो नाहणी का राजा कुछ बल लगता नही । अर केतेक ईस भाती कहते है जो गरु तो निकसि गया अर केतेक लोग उसके वरफ के सबव सो रहे है । सो जो समाचार होयला सो पाछा धे अरज लिखीलो जी ।

श्री महाराजा जी सलामती—ईस पातसाही की हकीकती कुछ लिखी जाय नही घड़ी मै तो पातसाहीजी कहुठिन जावा को कुच फरमावै अर पेसखानो

1. देह—शरीर ।
2. रिफानने ।
3. उसके पास ।

कहुठिनै जाय । पहली तो खबरि छी जो लुधियाणा की त्रफकी खबरी थी जो वहाँ जाय गरु के सीखो को तबीह करे अर गरु के चक उठाय देह । अर अबै कुच सहारणपुर बुड़ी वाकी किया सो या खबरी है जो म्यान दवाव कि राहहोय साहजी-हानावादजाय को जाय तिसी पातसाहजी की हकीकती औ अरज पहुचावा मौ आवै नही जी ।

श्री महाराजा जी सलामती— वंदा तो वहां भंडारी कै साथी जो दरवार मै दरबदल होय है सो करै ही है जी । अर जी महाराजा जी अजीतस्यंघ जी की त्रफ सौ भंडारी जी की लार<sup>1</sup> बड़ा बड़ा ठाकर लोग आयै है सो जै सरकार की त्रफ सौ कोई बड़ा ठाकर लोग वा मुतसदी येक आवै तो सलाह दोलत है जी ज्यो बेभि दरवार में दरबदल करी अरज लिखवौ करैजी । श्री महाराजा या वात खत्री मुवारक मै न ल आवैगे जो बंदा आजुरदा होय या अरज लिखी है, सालाह दौलती है जो बंदा की अरज मुजर होय जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । हुकम आया जो वीध्याधर माफीक लिखे नायव आपणै कै जाहरी करी, जो बीजैस्यंघजी का लोग जो आगै पुरा वाणारस<sup>2</sup> वा बंकुटपुर कामैथे सौ सनधी पहुचा भी हांसील मास ६ को अगाऊ मुतसरफ हुवे अर पथर वागौ० मसालो हवैलि को बेची दीयो । तीस वासतै तीन हसवल हुकम वा खत लीखे नवाव खानखानां के येक फोजदार वणारस के को वा दीवान ईलाहाबाद के को वा दीवान पटणे के लीखाय भेजीयो, सो वंदा नवाव सौ अरज करि अर हसवल हुकम तथां खत नवाव के माफीक हुकम हासील करी भेजो ला जी ।

श्री महाराजा जी सलामती—घासीराम दीवान पीराननाथ का बेटा को वाग वा जमी कदीम सौ कसवां आवैरि मे है अर अबै आवैरि वा वामण जोरावरी धरती वा कुवां दबावे है सो वां वाग वा जमी खानाजाद को दिइ है । सो खानाजाद चाहै है जो वहां वाग करै तीसौ बंदा कि या अरज है जो परवानो येक दिवान रामचंद्र वा चुहड़स्यंघ रांजावत कै नाव ईनायत होय जो माफीक सदांमदि कै वामण अमल करै जी ।

श्री महाराजा जी सलामती—मीती फागण वदी ८ वार बुधवार नै पातसाहजी को कुच हुवो सो घड़ी पाच राती गया डेरा दाखील हुआ जी । मीती फागण वदी ११ बीसपतीवार पेसखानो पातसाही चाल्यौ सौ कोस अढ़ाई जरिवी सहारणपुर कै मुतसलि जाय खड़ो हुवो छै ।

जी श्री महाराजा जी सलामति । नान्दुराम भाणीजो खानाजाद को है अर हजुरि चाकरि करे है सो उनने जागीर असी पाई तीहमै ईक माहो पैदा<sup>3</sup> न हुवो

1. साथ ।
2. बनारस ।
3. एक माह की अनुमानित आय ।

तोसो बंदा ऊमेदवार है सो मुतसदि हजुरि का नै हुकम होय तो माफीक पंचा के उनको भी जागीर देह जी जो खात्र जमा सो हजुरि मौ चाकरी करवो करै जी । श्री महाराजा जी सलामती—पातसाहजी फुरमाई जो सहारणपुर सी पेसखानां मुक मलसपुर मै चलावो, वहा हम सिकार खेलैगे ओर दरवार की हकीकती पंचोली जगजीवनराम का लीख्यो सो वां वाका की फरद सो अरज पहुंचैली जी । मीती फागण वदि १३, दीतवार, संवत्ते १७६७ ।

श्री राम जी

श्री महाराजाधीराज सलामती ।

अरजदासती करार मीती फागुण बदि १३ दीतवार की लीखी हजुरी भेजी छै तीसौ सारी हकीकती अरज पहुची होयली जी । मीती फागुण बदी १४ सोमवार साहीजादै जीहादार स्याह बहादर पातसाहजी सौ अरज करि जो कसवा ईदरी कै पासी नाहर मेरां करोलां नै रोक्या है सो हुकम होय तो नाहर की सीकार खेली आई । तब पातसाहजी रूखसद कीया सो हैलवा लसकर समेती साहीजादै जी कुच करी गया जी । अर लसकर मै यह खबरी है जो कोकलतास खा<sup>१</sup> की जागीर पाणीपथ मै है अर वहा उनके घर है सो उहा उनके मीजमानी खाणै जाहीगे ।

श्री महाराजा जी सलामती । मीती फागुण बदी १४ नै पातसाहजी को कुच हुवो बुडीया कै डैरे कोस दोय पेसखानो खडो हुवो छै तीठै दाखील हुवा जी । अर नवाब खानखाना कै नाक मै आजार ज्यादां सो नाक मै राधी पड़ै छै अर जोक तो लगाई थी पणी फुरसती न हुई फेर भी ओरू जोक लगां है तीह वासतै नवाब खानखाना वा महाबत खां जी का मुकाम कीया जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । बीजैस्यंघ जी चुरामणी जाट को नवाब खानखाना कै अधिकार देखी अर डेरै बुलाया अर घोड़ा सीरोपाव उनको दीयां अर चुरामणी सौ कही जो तुम नवाब सौ अरज करि हमकों मथुरा की फोजदारी दीलावों तब चुरामणी कीसन स्यंघ नरूका का मीलांब्रा बेई अरज करी, तब कही

---

1. कोकलतास खां—बादशाह बहादुरशाह के पुत्र जहाँदार शाह का विश्वसनीय परामर्श-दाता, जिसे 2500/2250 का मंसब प्राप्त था तथा बहादुरशाह ने कोकलतास की पदवी प्रदान की थी ।

जो तुम हम पासो ले आवो। तब दुसरै दीन चुरांमणी कीसन स्यंघ को ले गयां अर साह बलु न परवानो लीख दीयो जो तुम बनाऊड़ सौ मुजायम मती हों म्हे यासौ भीठे समझी त्हेस्यां। अर खोहरी रूसतम दील खा साहीजादा रफील स्यांह की जागीर मै थी सो ईजारै लीई रूपया...अर आधा बट बीजै स्यंघ जी को दीया अर आधा रूसतम दील आपणै राखी सो उठा की फोजदारी आधी तो बलु न हुई जी अर आधी परी रूसतम दील आपणा आदमी बीदा कीया जी। अर आगरे की गीरद<sup>1</sup> वा ईका परगनां सब चुरांमणी जाट ईजारै लीयां अर चुरांमणी जाट वा कीसन स्यंघ की यारवरी है जो मुथरा के आसपास की गढी ढाहणै को बीदा ही ही, सो सीरोपाव अलाहीदा हुवा छै सो जब पावैला तब अरज लीखोलो जी।

श्री महारांजा जी सलामती। जाट का मामला नवाब खानखाना की मार-फती असा बधी गया है जो अरज पहुचावा मै आवै नही जी।

श्री महारांजा जी सलामती। गरू की लसकर मै या खबरी होय रही है जो नहाणी का रांजा का लोगा सी लड़ाई करी नीकसी गया जी सो यह खबरी वहीत गरम है जी अर कहै है जो भुटंतर के पहाड़ो मै गयां अर पातसाहजी ईस ही बफ झुकलाय झुकलाय टेरा करै है। कोस आठ दस नाहणी का रांजा का पहाड़ रहे है।

श्री महारांजा जी सलामती। फागण बदी ११ मंगलवार साहीजादो अजीम गान जी माफीक हुकूम पातसाहजी कै नवाब खानखाना के डेरै आये थे तब चलती बर हाथी वा घोड़ा नो वा जो बाहर नीजरी कीया सो रखाया नही, कही जो हमारै ही है, हम तो तुमको देखणै को आयै थे। अर तीसरै पहेरे नवाब दरवार कीया तब भंडारी वा खानाजाद जाय खैरायत कै वासतै रूपया गुजरान्या सो रखाया जी।

मती फाग सुदी २, सं० १७६७।

१. गीरद—घासपात।



श्री राम जी

श्री महाराजाधीरांज सलामती ।

आगै तो भंडारी वा सारा राठोड़ यो कहै थां जो म्हे आपणे बल सो गुजरात को सुबो अजीत स्यंघ जी नै वा उजेणी को सुबो महाराजा जी नै लेस्यां । सो सब राठोड़ वा भंडारी येकठा होय बंदा को बुलाय कहि जो थे भी जोनकी बात करो, तब बंदे जवाब दीयां जो मेरा अर तुम्हारा कहैणा येक ही है । अर मै तो तुम्हारे साथी जाता ही हूं तुम कहो हो होसो मै ही कहयां फेरी जोनकी बात तो कुछ आधा नीसरया नही अर मनसुबा भी कुछ पेसी गया नही । साहीजादै जी भी ईनको मनै कीयां अर यह फुरमाई जो हम नीसाण तुमको करि देते है तुम खात्री जमा सो हजुरी आवो अर खानखांना वा महाबत खां भी हमारे नीसाण माफीक तुमको लीखी देहगे । तब भंडारी तो अधीका बोलणा छोड़ दीयां पणी रांठोडा कै यह बात होय हैं जो ई पातसाह पै तो ग्हे कोई मारया जावा नही, म्हे पातसाही देखलीई, अजीत स्यंघ जी हजुरी कोई आवै नही, साहीजादे जै कोई म्हा परी वीदा होसी तो उसको हम फोडी लेस्यां<sup>1</sup> अर जै फोज आसी तो फोज कै म्हे सारै नही, जो आसी जीहनै मारी लेस्यां । तदी बंदै ठाकर लोगा सौ कही जो हमारे राजा का क्या हाल होयगा ? तब सब राठोड़ो कहां जो अजीत स्यंघजी आय अर महारांजा जैस्यंघजी को ले जाहीगे अर जै फोज पातसाही हम परी जाईगी तो दोन्याँ राजा येकठे होय नारनोल कनै ही मारी लेहगे अर जै पातसाहजी चलाई आवैगे तो हम देस उजाड़ी देहगे अर बीखो करैगे अर बीस बीस तीस तीस कोस परी कही मारैगे सो पातसाह जी तो हमसो उलझे रहैगे, अर दीखणी तो पातसाह सै गई है तब सब मुलक का बंदबसत उठी जाईगां अर खजानां कहाका वैठे वैठे

1. अपनी तरफ मिला लेगे ।

चाहिये तब पातसाही का बल बरस च्यारी पाच मै तुटी जाईगां, तब ईनका मारणा क्या है ? हमारै तो रांजा उदैस्यंघ ही सो चाकरी करणै लागे है, हम तो सदा भोमे ही रहे अर राजा अजीतस्यंघ जी ओतार उपज्या है सोहमै तो परवाह चाकरी की नही । अर भंडारी जी या कहै है जो महाराजा आये । नवाब महावत खां भंडारी सो ताकीद वोहत करी जो राजा कहा तक आये है । तब भंडारी जी अरज करी जो मेइता सो तीन मजल मरे कासीद छोड़ी आये है । सो यह बंदा को बड़ा अचीरज है जो मेइता सो महाराजा अजीतस्यंघजी तीन मजल उरै आये है अर अब तक सभरी<sup>1</sup> के डेरै आये होयगे । अर हजुरि सौ कुछ खबरी बंदा को लीखी आई नही, खानाजाद उमेदवार है जो महारांजा अजीतस्यंघजी की खबरी हर जोड़ी मै ईनायत होवो करै जी ।

श्री महारांजा जी सलामती । खानाजाद को लाजम है जो पातसाही का रंग देखे सो तपसीलवार अरज पहुचाई चाहीये जी । पातसी मै फोजबंदी होय है । मोहोबतस्यंघ राठोड़ को पातसाहजी पंच सदी ईजाफा दीयां अर जवाहर जुदा कीया है अर मीरजा रूसतम की फोज मै नाव लीख्या है । अर मीरजा रूसतम, राव सकतस्यंघ मनोहरपुर वाला नै कही अर वै गाम दीया था जो तुम पातसाहजी को अरजी गुजरां तो मै तुमको अपनी फोज दाखील कराय ल्यीहगां । तब रांघ सकतस्यंघ जवात्र दीयां तो मै जुन मनसबदार हुं मुझ मै येती कुवती नही जो मै तुम्हारी फोज दाखील हुं अर मै हमेसां अजमेरी ही की राह चलावणै कै तालकै रहै आया हुं । तब रूसतम दील खां कहाय भेज्यां जो मै तुमको ख्वाना-खवाह मै अपनी फोज दाखील कराउगां । तब राव जी कहाय भेज्यां जो पचास हजार रूपयां तो मदती खरच को दीवावो अर आछ्या ईजफा पाऊ तो मै तुम्हारा फोज दाखील हुं । अर पातसाहजी का चलवा की कुछ गम पडै नही, जो अरज पहुचाई जाय, कहै कुछ करै कुछ है जी ।

श्री महारांजा जी सलामती । उमीरल उमराव नै खत आगै ईनायत हुवा था सो पंचोली जगजीवनदास की मारफती गुजरान्यौ जी । सो जवाव आया सो हजुरी भज्या है अर नवाब नै जो जगजीवनदास नै जुवानी फुरमाया तीस की हकीफती पंचोली जगजीवनदास की अरजदासती सो अरज पहुचैगी जी । अर नवाब महावत खा जी वा राय भगवंत वा दरवार खरच का पईसा कै वासतै आगै खानाजाद अरज लीखी है जो जवाव ईनायत न हुवा सो नवाब वार वार ताकीद रूपया कै वासतै फरमावै है जी ।

श्री महारांजा जी सलामती । महारांजा अजीतस्यंघ जी की वीरादरी की सनदी गुनालचंद तयांन कराई अर सरकार की सनदी तुरत बंद छै ।

श्री महारांजा जी सलामती । साहीजादो जीहादार स्या बहादर ईदू की तरफ सीकार गया है सो हजुरी सौ हरकारा बीदां होहीगे जो उठा की हकीकती पै दर पै अरज पहुचाबो करै जी, हरकार भेजता तो बंदा ही पणी हरकारा बंदा कनै कोई नही जी ।

श्री महारांजा जी सलामती । लसकर मै यह खबरी है जो जसवंतपुरा वा हवेली तबेला सुधां हकीमुलमुलक<sup>1</sup> को पातसाह जी ईनाम बकस्यौ, या खबरी बंदै भंडारी सौ कही तब भंडारी जवाब दीयां जो ग्रेक घड़ी मै लेस्यौ । श्री महारांजा जी सलांमती.....।

---

1. हकीमुलमुलक — साहजादा जहाँगिराह का प्रमुख परामशदाता ।

॥ श्री गोपाल जी सत्त छै जी

॥ श्री महाराजा जी श्री जैसंघजी

॥ सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री.....चरण कमलानु  
खानजाद खाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिपतं तसलीम वंदगी अवधारजो  
जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला है । श्री  
महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा  
जी माईत हैं, धणी है, श्री परमेसुर जी री जायगां है । म्हे श्री महाराजा जी रा  
खानजाद बंरा हां जी । श्री पातिस्याह जी श्री महाराजा जी सु महरवान है ।  
श्री महाराजा जी सुख पावजो जी । पान गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फुर-  
माव जो जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । परवानो भी महाराजा जी को ईनायत हुवो  
मु माथे चढ़ाय लीयो, सरफराजी व खानजाद नवाजी हुई जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । अमीरल उमराव का नाव को खत दीवान  
भोघारी दास जी खानजाद नै दीयो मु गूजरानो । ईखलास वोहार जाहर  
कीयो । नवाव वोहत महरवानगी फुरमाई । जवाव को खत लिख दीयो है, मु  
हजुर मोकलों है मु नजर गुजरसी जी । अर नवाव श्री महाराजा जी का पधारवा  
पौ घणी ताकीद करी जु अब महाराज अठै कही कै भरोसै न रहै, सीताव आवै  
जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । नवाव खानखाना जी नै अजार वोहत थो,  
अबै तो फुरमत है । राजा ऊदोतसिघ जी की साथ खानजाद अंदर गयो थो मु  
धोड़ी सी मांझा के सोई है पण आगावीचै फुरसत है जी ।

1. मुघ ।

2. मुघ ।

। श्री महाराजा जी सलामत । गुरु की अरज पोहोची, जु ऊठा सै नीसरो अर खबर है भुटंत की तरफ गयो, पण चोकस न्ही कठीनै गयो है । चोकस हुवा अरजदासत करसु जी । गुरु कै वासतै पीजरो बनायो है तीमै तलै उपर चारु तरफ खीला आदमी रहै तीकै सारी तरफांसु भैजी ई भात को वणो है सु गुलाल बाड़ के वारै गामा उप्र धरो है ।

। श्री महाराजा जी सलामत । वादस्याजादो अजीमुसां जी की जुवानी हकीम व नवाब खानखाना जी व महाबत खां जी बहुत ताकीद कर कह है जु पात-स्पांह जी श्री महाराजा जी का पधारवा के वासत बार बार व्याही कह है जुह मूं सू खनवह मुंकोल वह मुं अहद द्यैही तीमू बाता है तीनू सीताब आवै ।

श्री महाराजा जी सलामत । खानाजाद आगै भी पै दर पै अरजदासतां करी है अर अबै भी राहै खानजादगी कै अरज लीखी है जु महाराजा जी सीताब पधारजो जी । पधारवा की घणी ताकीद फुरमाव जो जी । महाराजा श्री अजीत-सिघजी पधारै है तो भलां ही है न्ही तर श्री महाराजा जी बेगा पधारजो जी । अर महाराज का पधारवा कै वासतै दीवान भीखारीदास जी नै नवाब फुरमायो है सु ग्यांकी अरजदासत सै जाहर होसी जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । खानैजाद आपकी परेसानी कठा मे लीखै । ई दरबार को वकील सदा उमराई भात<sup>1</sup> रहा है । अर खानाजाद वा मेघराज भी सदा वैही भात रहा यण ग्या दीना मै आठ महीना हुवा महीना पायां तीसु नीपट परेस्यांन है सु महाराजा तो ईस रहै आबुजी खानाजाद का ही अग्यां मांकी है तीसु उमेदवार हु सीताब खबर लेजो जी । दोय हजार का तनखा को परवानो लाहोर मोकलो है जवाब आया अरज सादत करसु जी । मी० फागुण सुदी २, संवत १७६७ !

---

1. उमरा (अमीरों) की तरह ।

श्री राम जी

श्री महाराजाधीराज सलामती

मीती फागण सुदी २ बीसपतीवार भंडारी वा बंदा नवांव खानखानां कै गये थे सो पहिली तो दीवानखाने वडे अर खैराती का रूपया की फरद लीखी नवाव को गुजराती जी सो रखाये महाराजा अजीत स्यंध जी श्री जी ब्रफ गुजराने बंदै रूपया की ब्रफ भंडारी गुजरान्या—

रूपया १००)

१००)

तब नवाव खैरगाह मै दोन्यो को बुलाय लीया अर बातें तो कुछ करी नही हकीम ईलाज करै थे सो उस दीन सो फुरसती बहोत देखी जी, फेरी पान दे दोन्यो को बीदा कीया जी। तब नवाव महाबत खां जी नवाव कै डेरे आवै थे तब भीतली द्यौडी भंडारी वा खानाजाद सलाम करी तब खडे रहै, भंडारी सो फुरमायां जो राजा अजीत स्यंध कहा ताई पहुचे तब तेस करी कहां—जो तुम राजों का भी काम खराब किया अर ओर भी लोग खराब कियां। तब भंडारी जी अरज करी जो राजा आवे, तब गुसा करी नवाव की हजुरी गया जी। तब बहा सो भंडारी वा खानाजाद हकीम सलेम के डेरै गया तब हकीम सलेम अंदरे सो कहाय भेज्यां जो आजी मी कांहीला हूं बाहारी न नीकसुगां, तुम डेरा जावों। तब हमो कहाय भेज्या जो साहजाद जी नीसण वेई फुरमाया है सो हमारै हवाल करी ज्यो हम हजुरी भेजां। तब उनो कहाय भेज्या जो काली तुम आईयों।

श्री महाराजा जी सलामती। बंदै वा भंडारी साहीजादा जी सो भाती भाभी रदनयन करि जो काबिल की मुहंम राजों सो मोकुफ राखै सो साहीजादो जो पबुल करै है, नीसाण हाचो आवैगा तब हजुरी भेजांला जी।

श्री महारांजा जी सलामती । रूसतम दील खां<sup>1</sup> को तोपखाना दीखण का की दरोगाई हुई थी सो तो वाकां की फरद सी अरज पहुची होयली जी । सीरो-पाव पायां पाछै पातसाह जी सो अरज करी जो दीखण के पयादे वीना तनखाह टीकैगे नही । तब पातसाह जी फुरमायां जो तुम परगना तजवीज करी ल्यावों, तब सांभरी वा मेड़ता की अरजी लीखी गुजरांनी जो वहाका हासील उनकी तनखाह होय, तब पातसाहजी मजुर<sup>2</sup> करी । तब गुसाई गंगाधर, रूसतम दील पासी रहै है सो ये समाचार वंदा नै कहाय भेज्या जी । तब वंदै फेरी केसरी स्यंघ पंचाय-णोत नै गुसाई मजकुर पासी भेज्यां तब गुसाई कहा जो देवती साचाहेडी की भी अरजी लीखा है सो आजी काल्ही मै पातसाहजी की नजरी गुजरांनैगां, सो हकी-कती अरज पहुचै जी ।

श्री महारांजाधीरांज सलामती । ये समाचार वंदै भंडारी सो कहां, तब भंडारी वंदा सो कहा जो ये समाचार तुम हजुरी कों लीखो मती मे सगला काम सवारी लेस्यां । तब वंदै भंडारी सो कहा जो या सरीयत लुण खाणै की नही जो ये समाचार हु न लीखु, तब भंडारी जी कही जो तुम हमारे कहे माफीक अरज-दासती करवो करो, सो हुकम होय तो दरवार की खबरी बवाकी लीखबो करूं अर हुकम होय तो भंडारी जी की सल्हा माफीक अरज लीखबो करू जी । वंदा कोई भांती भंडारी नै नां रजावंद राखै नही है जी ।

श्री महारांजा जी सलामती । नवांब खानखानां को खत बीमारपुरसी कां वा रूसतम दील खां को खत मुबारकबाद बेटा हुवा को ईनायत होय जी । रूसतम दील खां कै ताई पालकी झालकीदार पातसांह जी बकसी । रूसतम दील का मामला बहोत अधी कां है जी अर इसकी तबीयत कोई भाती श्री जी सो छीपी नही जी । श्री महारांजा जी सलामती । तुरांब अली खां की अरजदासती नवाब खानखानां ने आई थी तीहमै श्री जी के वासतै बहोत भाती लीख्या था, सो तीहकी नकल हजुरी भेजी छै सो नजरी गुजरैली जी । मीती फागण सुदी ३, सुकर वार, सं० १७६७ ।

1. रूसतम दिल खां जाजू के युद्ध में, जो शाह आलम तथा आजमशाह के मध्य जून 18, 1707 को लड़ा गया था, उपस्थित था तथा वह आजम का सिर काटकर शाह आलम के पास ले गया था । शाह आलम (बहादुरशाह) का विश्वसनीय सेनापति, जो सिक्ख अभियान में काफी सक्रिय था ।
2. मजुर=मंजुर, स्वीकार ।

श्री राम जी

श्री महाराजाधीराज सलामती

मीती फाल्गुन सुदी ४ तनीसरवार नै चोत्रदार दोय नवाव महावत खा जी कां आयां अर भंडारी को वा बंदा को बुलाय ले गयां । तव चोत्रदारा नवाव सो अरज करि, तव नवाव फुरमाई जो दीवानखानै वेठौ । तव पहैर दीन वाकी रह्यो तव नवाव महावत खां जी दीवानखानै आये तव मुजरा कीयां । तव फुरमाया जो तुम बैठे रहों हम खाण खाय आई तुमकों कुछ कहैगे । तव स्याह कुदरतुला<sup>१</sup> साथी थां तव स्याह कुदरतुला को फुरमायां जो नवाव फुरमाया है सो तुम ईनोको कहों । तव कुदरतुलै कही जो मैं भी भुखा हूं सो खाय कै कहुगां । तव महावत खां जी फुरमायां जो तुमकों कुदरतुला सारा समाचार कहैगां सो तुम सुणीयो अर जवाब दीज्यो । तव स्याह कुदरतुला खां खाणां खाय आया तव खीलवती मैं भंडारी को वा बंदा को ले बैठे अर कहां जो राजो की क्या खवरी है ? तव भंडारी जी अरज करी जो राजा आये । तव स्याह कुदरतुला कही जो राजो की वाजी चीगई है मुचलका लीखी दयाह जो राजा के ते दीन मैं हजुरी आवैगे । तव बंदे कहा जो फावील की मोकुफी कां नीसाण पहैली हमारै हवालै करों, तव कुदरतुला कहां जो मैं नीसाण तुम्हारै हवालै करुगां तुम मुचलका लीखी दयाह । तव केगे भंडारी वा बंदे वा ठहैराई जो नीसाण हमारै हवालै करो अर मुचलका लीघाय तयोह । तव कुदरतुला कही जो मैं या हकीकती नवाव सो अरज करूं,

१. शेष कुदरतुलाह—चंद्रपुराह के दरबार में प्रभावशाली व्यक्ति तथा शाहजादा मजिस्तरान का हवालात ।



तब भंडारी वा बंदै कही जो अरज करो, तब अरज करी, सबको सीख दीवाई। तब घड़ी च्यार दीन रहयो तब डेरै आयां जी।

श्री महारांजा जी सलामती। नवाब का रूपया कै वासतै वा राय भगवंत का रूपया कै वासतै परवांना बंदा कै नाव ईनायत हुवा था सो बजनसी बंदै राय भगवंत को दीखायां तब उनो कही जो नवाब यो कहै है जो राजों के ह्यासों<sup>1</sup> पैसे कोई आवणे नही, बुलाकीचंद का लीख्या आया है जो राजा जै स्यंघ जी दफलउकत करै है, नवाब भीखारीदांस सो ताकीद करैगे तब पईसे आवैगे। सो नवाब के तो लालच अर पईसा आवता ही आवै सो बंदा की सरम रहै बो कठणी है जी सो उमेदवार हुं जो हुड़ी सीताब ईनायत होय जी। अर नवाब फुरमावै है जो तुम पासी गहैणा है सो हमारै व्यापारयों के गहैणै धरी अर रूपया ले दयौह। सो बंदा की कुदरती नही जो बीना हुकम गहैणा धरी रूपयां ले दयौह हुं।

श्री महारांजा जी सलामती। भंडारी बंदा की भाती भाती जमाखात्री करै है जो राजा हजुरी आवैगे तब ज्यानै म्हे सुबो देस्या सो ही पासी तो म्हाका सुबा लेता केतीक बार लागै छै। ओर समान्त्र पंचोली जग जीवनदास का लीख्या सो दरबार का अरज पहुचैला जी। मीती फागु सुदीण ४, सनीसरवार, संवत् १७६७।

श्री राम जी

श्री महाराजाधीराज सलामती

अरजदासती करार मीती फागण सुदी २ वीसपतीवार वा सुदी ३ सुकरवार जी लीखी हजुरी भेजी छै सो सारी हकीकती अरज पहुचैली जी । श्री महाराजा जी सलामती । परवाना च्यारी फारसी ईनाईत हुवा सो मीती फागण सुदी ३ सुकरवार नै आय पहुता<sup>१</sup> जी । परवाना येक मै हुकम आयां जो तुम लीख्यां था जो दोय नीमाण साहीजादा जी कां वा दोय हसबल हुकम हकीम सलेम की मुहोर गो येक तो महाराजा अजीत स्यंध जी कै नाय अर येक श्री जी कै नाय मारफती राजा राजस्यंध जी की हुवा है सो तुम्हारी अरजदासती आय पहुती सो खंगार वतां मै पईसा छै सो तो वै माफीक हीसाव कै दीया ही जाय छै सो तुम भली भांती सो राजा राजस्यंध जी सी रदबदल कीज्यौ । सो माफीक हुकम कै बंदा अमल करैना जी । परवाना दुसरा मै हुकम आयां जो हुड़ी नवाव के रूपयो की वा भगवंन राय के रूपयो की पाछा ये पहुचैली ।

श्री महाराजा जी सलामती । इन रूपयो की बंदा सो नवाव की नीपट नाकीद करै छां सो परवानो वजनसी नवाव को गुजरान्यो जी तव नवाव फुरमाई जो ईन बात का परवाना तुम्हारे हमेसा आवै है अवे जै काम वीरादरी का चलावणा है तो रूया सीताव मगाय दयोह अर हुकम आया जो महैमद सायब का गुमानता को राजीनामों पाछा ये भेजांला ।

श्री महाराजा जी सलामती । जे तो यो राजीनामूं सीताव बंदा पासो आवैला जे ताही बंदा का पीड़ सीताव छुटैगा जी नय ये रूया लागैला जी । परवाना

तीसरा मैं हुकम आया जो कासीदा नवाब सौ अरज करी सो सब लीखाफ अरज करी सौ बंदै बजनसी परवानौ दोन्यों नवाबों कों गुजरांन्यां सो नवाब दोन्यों वहोत रजाबंद हुवा जी । अर परवाना घोथा मैं हुकम आयां जो स्याह कुदरंतुला के लीखै माफीक हाजी महैमंद साल्ह को रूपया ६०) नकद वा येक घोड़ो दे अर अहेमदाबाद को बीदा कीयां अर बदर का साथी दीया है । अर हाजी महैमद सल्हे का वां खत श्री जी का स्याह कुदरतुला नै ईनायत हुवा थां सो गुजरांन्या जी, सो वहोत रजाबंद हुवा जी । अर जवाब पाछां थे लीखाय हजुरी भेजुलो जी ।

श्री महारांजा जी सलामती । साहजादा जीहादार स्या बहादर ईदां की त्रफ सीकार गया थां सो नाहर दोग मारी ल्याया जी । अर मीती सदर लसकर आय दाखील हुवा जी ।

श्री महारांजाधीरांज सलामती । साहीजादो रफीलकदर माफीक हुकम पात-साहजी कै नवाब खानखाना को देखणै को आया था सो नवाब हाथी वा घोड़ा वा खसबोई<sup>1</sup> नजर गुजरांनी थी सो ओर तो क्यौ भी रखाई नही अर खसबोई रखाई जी । अर पातसाह जी नवाब कै उपरी खैरायती कै वासतै रूपया ३२५०) माफीक कीताब कै भेज्या था सो नवाब ऊपरी खैरायती कीया जी ।

मीती फागण सुदी ४ सनीसरवार परभाती ही चोबदार नवाब महाबत खा जी का बंदा नै वा भंडारी नै बुलावणै कै आया तब बंदा वा भंडारी नवाब खान-खाना कै माफीक बुलाये महाबत खां जी कै गये । तब उहा यब जाहीर हुई जो महाबत खां जी कै ताई पातसाहजी फुरमाया है जो तुम खानखाना के यहा रहैवो करों अर कीसी कों नवाब कनै आपणै मती दयौह अर हकीम जाय अर कै साही-जादां आवै सो जाय अर हकीम खाणै को बतावै सो आपणै मुदे आगै खाणा खीलावों । सो माफीक हुकम के नवाब माहांवत खा नवाब खानखाना कै डेरै रहै है । नवाब खानखाना को दीन दीन थोड़ी थोड़ी फूरसती होली जाय है जी अर पातसाहजादो जीहादार स्या बहादर माफीक हुकम नवाब को देखणै आया थां सो माफीक दसतुर कै पेसकस गुजरांनी थी सो उन भी खसबोई ही रखाई जी ।

मीती फागुण सुदी ५.....सं० १७६७ ।

श्रीगोपालजी सदा सहाय है जी ।

महाराजाधिराज महाराजां जी  
श्री जैसिध जी

सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री.....चरण कमलानु खाना-जाद घाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं, तसलीम बंदगी अवधारजो जी । बठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला है । श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता करावजो जी । श्री महाराजा जी माईत है । घणी है श्री परमेसुर जी री जायगा है । म्है श्री महाराजा जी रा खानजाद बंदा हों जी । श्री पातसाहजी श्री महाराजा जी सै महरवान है । श्री महाराजा जी मुख पावजो जी, पान गंवाजल भारोगण रा घणा जतन फरमाव जो जी ।

श्री महाराजा जी सलांमत । नवाब खानखाना जी नै आजार है सु अरज पोहोचीने परहैजी करै है ती उपर हुकम हुवो महावत खां ताकीद राखे । मु महावत खां जी रात दीन नवाब कने ही रहै है सु रूसतमदील खां अरजी कर सांभर व डीढवाणो व मड़तो अंबरी रीसाला की नकदी की तनखाह में हुकम करायो, तद नवाब खानखाना व महावत खां दीवान भीखारीदासजी व भंडारी खीवसी नै बुलाय कहो—आज ताई बात थाम राखी पण महाराज न पधारा अर आ दीना मे रूसतम दील खां खाली दरवार जाण तनखाह कराई सु दस हजार सै आयलो अर मेवातां नै बदसतुर सावक पुर मांडल की फोजदारी हुई, नुसरत खां चार पांच हजार सुवारा सै है अर मेवात की फोजदारी साहनवाज ग्यां नै हुई सु बीस हजार सुवार कं नजदीक पातसय्याही फोजा वैनी नामै हुई, वड़ो फीसाद वै मुलक मै होती । तद दीवानजी व भंडारी जी अरज करी सु राजा अजीतसिध जी मेड़तै आण पोहता है अर महाराजा श्री जैसिध जी राह मै ही

है सीताव हजुर आसी। तद नवाव कहो—एक महीना को मुचलको लिखदों जू वादसाहजाद अजीमस्यांजी की मारफत अरज कराय रूसतम दील खां नै मोकुफ रखावा। ई भात घणी रदवदलां सु नीठ दोय महीना को मुचलको ठहरो सु दीवान जी व भंडारी लीख दीयो है सु अँ सारा तफसीलवार समाचार आगँ अरजदासत कीया है अर अवँ वादसाहजादा अजीम सां जी को नीसांन व नवाव को खत मोकला है सु नजर मुवारक मै गुजरसी जी।

सु अवँ आवा की घणी ताकीद फुरमाव जो जी। जो महाराजा श्री अजीत सिध जी का पधारवा की ढील होय तो वानँ भीखा<sup>1</sup> को भी वल है अर वै घराणँ सदा आगँ भी होय आयो है अर थली नजदीक है उठै जाय वैठसी, पण श्री महाराजा जी के घराणँ तो कदे ई भांत हुई नही सदा राह बंदगी का सुही दीन दीन तेज परताप वधतो गयो है तीसु श्री महाराजा जी अरजदासत पोहचत सवा सीताव पधारजो जी, पधारवा की ढील न्होय जी।

श्री महाराजा जी सलांमत। राठोड़ दुरगदास<sup>2</sup> जी नै ईडर को परगनो जागीर मे हुवो पंचास हजार रूपय्या मसादत<sup>3</sup> का दीराया गुरजवरदार रूसतम दील खां की मारफत फरमान ले चालो जी।

श्री महाराजा जी सलांमत। राजा ईदरसिध जी की पांच सदी जात कमी हुई अर कवर मोहकम सिध नै पांच सदी जात पांच सै असवांरा को ईजाफो हुवो खवर है नागोर को उमैदवार कीयो है।

श्री महाराजा जी सलांमत। अकवरावाद वा स्याहजहानावादि व लाहोर का सुवैदारा नै हुकम हुवो हीदुनै जाय जसीन आपको न करै अर हीदु जात राक अहल खीदमत है ताकी जागीर तगीर करो।

श्री महाराजा जी सलांमत। महमद सायब मनसबदार वादर जी को सादक महमद खां आसफदोला के पेसदमत तीकी वीरादगी मै है तीकी जागीर मोजावाद मै है सु ईके वासतँ दीवान भीखारीदाम जी भी आगँ अरजदासत करी है औ अठै सदा हंगामो राखै है सु खात्र मुवारक मै आवँ तो ईजारो दीजे य्या वैका गुनासता नै अमल दीजे जो ही खात्र मै आवँ मु ही करजो।

श्री महाराजा जी सलांमत। लाहोर का व पेसावर का मुतसदी हरचैन उपर रूपया हजार २०००) की तनखाह खानाजाद का रोजगार की तनखाह मै इनायत हुई थी सु मन्नाफक हुकम के लाहोर का पुग का दखलदार कर्न मोकर्ती<sup>4</sup> थी सु वै नवाव दीयो जू खगीफ का तो शानद दरिया बर्म बह गयो अर

तकावी देर वी कराई है सारो ही अठे रूपया हजार दोय अढाई का हासल है तामै आठ सै नोसै को अठा को खरच है, रबी का हासल का गरू आसी तद देसु सु ई ही भात दीवान भीखारीदास जी नै भी वै लिखो है ।

मु श्री महाराजा जी सलामत । खांनाजाद आपकी अरज वार वार कठा ताई लिखै जु महाराजा श्री मानसिघ जी सु ले अर आज ताई ई सरकार को वकील कदै ई भात हो न्ही सदा उमराई भात रहो है । अर या दीना मै अजीतसिघजी को व राणा जी को वकील तो वै भात रहै है अर खांनाजाद ई भात रहै जु पयादा सदा सरकार सै पाया गया है तांका देवा को व रोज खुराक को भाडा को व कपडा को वगैरह भात भात का कसाला सु कठा ताई अरज लिखु । अठा का अमला पहैला का महीना की तनखाह कदे हुई न्ही सदा अठै ही साहुकार उपर तनखाह रही है सु आठ महीना पाछै तनखाह हुई तीके वै यो जवाब दीयो सु या सारी जुवानी खांनाजाद का अय्यामा की है तीसु अवै उमैदवार हु जु मतसदां नै खांनाजाद की खरची के वासते ताकीद हुई है । पण महाराजा जी सलामत ।

खांनाजाद नै च्यार वरस हुवा बंदगी करता भागनगर मै वै भात की बीती सु अवै खांनाजाद मै कुछ ताकत परेसानी खैचवा की रही न्ही तीसु उमैदवार हु सीताव खवर लीजे जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । मी० फागुण सुदि १२ सोमवार पहर डोठ दीन चढा नवाव खांनखाना को वाको हुवो वडो मुर बी कदरदां थां तीसु अवै श्री महाराज होली भी खेल चुका है सीताव पधारजो जी ।

मी० फागुण सुदि १२, सोम, सां० १७६७ ।

श्री गौपालजी सहाय

श्री महाराजाधिराज महाराजा

श्री जैसिंघ जी

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलानु खानाजाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारजौ जी। अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छै, श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जौ जी। पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जौ जी। श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी सु महरवांन है श्री महाराजा सुख पावजौ जी।

खानाजाद नवाजी को परवानो ईनायत हुवो सु माथे चढाय लीयो तमाम सरफराजी खानाजाद नवाजी हुई जी।

ओरंगावाद का पुरा मै दाउद खां<sup>१</sup> अमल न दीयो सु दीवान भीखारी दास जी के परवांने में लिखी थी ज अमीरल उमराव<sup>२</sup> की सफारस व हसबल हुकम भेज जौ सु दीवान जी परवांनो दीखायो सु अमीरल उमराव कु ईलतमास दी है अर दीवानी कचहडी मे ईलतमास दी है सु हसबल हुकम दीवानी कचहडी सु कराव भेजु हुं अर अमीरल उमराव का खत दीवान नै अर दाउद खां कु लिखाय भेजु हुं जी।

१. दाऊद खां पन्नी—दक्षिण के प्रधान एवं मीरबखशी जुल्फिकारखां का नायब, जिसे 7000 जात व 5000 सवार—दो अस्पा सेअस्पा का मंसब तथा बीजापुर, वरार एवं औरंगावाद की सूबेदारी प्राप्त थी।
२. असद खां—औरंगजेब का वजीर जिसे बहादुरशाह ने वकील-ए मृतलक का पद प्रदान किया।

साह अजीमशांजी<sup>1</sup> सु रदवदल हुई अर भांत भांत नीशां करी सु हकीकत अर फुरमान तयार होय है तीको मजमुन दीवान जी के लिखै सु मालुम होयलौ जी । अर साह अजीमशां जी आपको नीशां तयार करायी है तीकी हकीकत दीवानजी के लिखे नु मालुम होसी जी ।

हीदायतुला खां<sup>2</sup> को मुवारकवादी को खत ईनायत होय जी । अर ईनायतुला खां खांनसामां है धैटो हीदायतुला खां है तीसु वेने भी मुवारकवादी को खत दीजां जी ।

वजीर तो चंद रोज कोई होण को दीसे नहीं । अमीरल उमराव की तरफ तो तीन साहजादा है अर महावत खां की तरफ अजीमशां है सु ऐक रात को सोहरत हुई ज अजीमशां महावत खां ने वजारत दीराई ती उपर तीनु साहजादौ की फोजां गुलालवाड़ उपर दोडी ज अजीम कुं महावत खां को मारडालो वे समे अजीमशां तो हजुर था अर महावत खां डेरे सु सुवार होय चोकी खाने मे गुलाल-वाड़ मे जाय बैठे । चार पहर रात सब लसकर मे सोर रहो घोड़ा जीन रहा, दुसरे दीन अजीमशां अमीरल उमराव कुं बुलाय दीलासा करी, सु चंद रोज तो वजारत कही न होती दीसे नहीं । हीदायतुला खां ही काम करेलो जी ।

खांनाजाद ने लाहोर का व पेसोर का पुरा उपर दीय हजार तनखाह हुई थी सु लाहोर के पुरे के हवलदार जवाव दीयो—जमा नहीं सु तनखाह फेर हजुर पहली भेजी है सु नजर गुजरांनी । श्री जी अब खांनाजाद आपके वासते हर वार काई लिखे जो खातर मुवारक मे आवे सु सआदत आपकी जाण हुं जी ।

सां० १७६७, चैत बदी ८, गुर तीसरे पहेर ।

1. साहजादा अजीमशां ।

2. हीदायतुल्लाह खां (सादुल्लाह खां) = हीदायतुल्लाह खां का पुत्र तथा बहादुरशाह के शासनकाल में दीवाने तन व खानिस्ता तथा मूनिम खां की मृत्योपरांत (फरवरी 28, 1711) प्रमुख दीवान के रूप में कार्यरत ।



क्रम संख्या ३५

वकील रिपोर्ट संख्या ३४

चैत्र बदी १३, संवत् १७६७

श्री महाराजाधिराज महाराजा जी  
श्री जैसिघ जी

सिध श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री.....चरन कमलां नु खाना-जाद खाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारजो जी अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला है श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है श्री परमेसुर जी री जायगां है म्है श्री महाराजा जी रा खांनाजाद बंदा हां जी । श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी से महरवान है श्री महाराजा जी मुख पावजो जी । पांन गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फरमाव जो जी ।

श्री महाराजा जी सलांमत । परवानो खांनाजाद नवाजी को इनायत हुवो सु मीती चैत बदि १० पोहोतो खांनाजाद नवाजी व सरफराजी हुई जी ।

श्री महाराजा जी सलांमत । पनापुर कै वासतै हुकम आयो जु पनापुर लीजो ई मे थको मुजरो होसी । सु परवानो पोहच स वां दीवान भीखारीदास जी का ईतफाक सै नवाब महाबत खां जी नै खत दीयो अर परवानो वजनस पढायो । नवाब फरमायो अबार अरज करवा को वकत नही, महाराज कुच कर नजदीक आवै अर अरज कर परवानगी दां । सु श्री महाराजा जी का कुच कीयां की खबर आवै वैही वीरा अरज कराय लेस्यां जी सु यां हकीकत दीवान भीखारीदासजी भी अरजदासत करी है जी ।

श्री महाराजा जी सलांमत । हीदायतुला खां जी दसतुर कीफायत खां जी कै मीती चैत बदि ११ आदीतवार दीवानी कचहड़ी मै आण वेठो अर वादस्याहजी नै वाजवुल अरज करी अर दवाव का मुतालवा वगेहरै का मुतसदा नै बुलाय कहो तीकी वीगत—

दवाव के वासत अरजी करी जु दोय लाख रूपय्यां को दर माहो लागै है सु आज ताई तो सरवराह हुवो अवै खालसो न्ही, खजानो न्ही तीसु खुदलमकां के दसतुर उमराव सरवराह करै । ई भात की अरजी तो हजुर भेजी अर दवाव का मुतसदां नै कहो—खुलदम का के दसतुर उमरावा कना सु गुररै सफर सै सरवराह करावो । सु महाराज सलांमत । जो सरवराही हुई तो खानाजाद की परेस्यांनी की हकीकत तो हर वीरां अरज होय है सु श्री महाराजा जी रा परताप सै ही दीन गुजरै है । सु दवाव की सरवराही तो मालुम अर दवाव का मुतसदी जी भांत को ई सरवराह करसी अर श्री महाराजा जी की दवाव सदा सारां सुं भली भांत सरवराह रही है । अर महाराज श्री अजीत सिध जी की तरफ सै भंटारी है सु तो कहै है दवाव लागसी तो सरवराह करस्या सु अै तो सरवराह करसी । अर दीवान भीखारीदास जी के अर खानाजाद के रदवदल हुई सु दीवान जी कहै है हजुर नै हूं भी लिखु हूं अर थे भी लिखो जु उठा सै सरवराही आवै । श्री महाराजा जी सलांमत । हजुर से सरवराही आवै जी पहली दवाव की सरवराही हुई तो खानाजाद उपर तसदीयो होसी सु हूं तो खानाजाद हूं मुनै तो बंदगी सु ही काम है पण य्यो सारो बोहरा सरकार को है तीसु उमेदवार हूं जु अरज-दासत नजर तसवां बोहरा उपर दर माहो आवै जु दवाव को दरमाहो लागै सु माह दरमाह दीयां जाय जी । श्री महाराजा जी सलांमत । ई वात की हजुर का मुतसदा नै घणी ताकीद होयजी जु बोहरा उपर सीताव लिखो कराय मोकलै, ई काम की ढील न करै जी ।

श्री महाराजा जी सलांमत । मुतालबा<sup>1</sup> तसरफ<sup>2</sup> के वासत अरजी करी जु खुलदम कांन का अमल सै कीतरायक उमराव व मनसबदार तो नकदी कीसत भरै था अर कीतरायक का दाम कटा था । सु अवै भी वही दसतुर हाय । सु ई भात की तो हजुर नै अरजी करी अर कचैहड़ी का दारोगा नै व मुतालबा तसरफ का मुतसदां नै बुलाय कहो—सारा का वकीला ने बुलावो जो नकद सरवराह करै तो कनै नकद भरावो, नकद न भरै तांका दाम काट लो । सु कीतरायक तो नकद भरसी कीतरायक दाम कटायदेसी । घणा मुतसदां सै साधन करसी । खाने-जाद नै भी जो हुकम आवै ती मवाफक अमल करै जी ।

श्री महाराजा जी सलांमत । उमरावां की तथा मनसबदार वगहरै का ईजाफा की याददासत नवाव खानखाना थकां हुई सु तो हुई अर अवै जो याददासत आवै है अरज मुकरर सांनर का दसखतां नै, ती उपर दसखत न करै है जु ईजाफा वेदसतुर हुवा है तावी कीरोड़ा तलव हुई है । अर असल मनसब की

1. मुतालबा = राजा की तरफ माहो (मुगल दरबारा की) माँग ।

2. तसरफ (तसरफ) = नियन्त्रण ।

बाकी तलब कीरोड़ा देणी है तीसु ईजाफा खुलदमकांन कै दसतुर होय सु ईकी भी अरजी हजुर मोकली है ।

श्री महाराजा जी सलांमत । दागंनामा कै वासतै कहो—दीदु को तो हजारी ताई अर मुसलमान को तीन हजारी ताई मोजुदात देखो, तांकी मोजुदात न होय तांका दाम काटलो ।

श्री महाराजा जी सलांमत । दवाब व मुतालवा वगहरै की अरजी हजुर गई थी ती उपर साद मुबारक हुवो जु खुलदमकांन कै दसतुर करो । सु मीती चैत बदि १२ अरजी आई सु गुरा सफर से दवाब की सरबराही की चीठी होसी अर सरबराह करासी जी, तीसु योमे वड़ो वादे सीर हजुर मोकलो है । अरज-दासत नजर गुजरत स वां सीताबी बोहरा उपर लिखो आवै जी । आबा की ढील हुई तो खानाजाद को अठै रहणो बोहोत मुसवल होसी जी । तीसु उमैदवार हुजू सीताब आवै जी ।

मीती चैद बदि १३, सां० १७६७ ।

श्री राम जी

श्री महाराजाधिराज सलामति

मिती चैत सुदि ३ दीतवार महावति खां जी को पातसाह जी फुरमाया जो राजों के मुनसर्धी<sup>१</sup> कों सिरोपाव धी अर ताकीदि करी जो राजों कों सिताव बुलावों। तव पातसाह जी तीसरै पहैर दिवांन आम कीया तव हमी अरज कराई जो राजा मिताव आवैं है ? तव भंडारी वा बंदा को वा गुलाल चंद वा दोदराज मुनसी नों सिरोपाव ईनायत कीया तसलीमाति दीवान आम मी बजाय लाऐ जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । मिती चैत सुदि ४ सोमवार पातसाह जी का पेसखाना लाहौर कों चला जो गुरु का सिट्यौ नै चकगी समद खां वा वाजीद गां सुवार पावदा १५०० सै राँ नासा और लाहौर पर सुवारी की तयारी है सो फिसाद यहोत उठा । पातसाह जी मुनता ही पेसखाना चलाया अर हुकम कीया जो मंजल व मंजल पेसखाना चला जाय हम कूच द्र कूच लाहौर जायगे । श्री महाराजा जी सलामति । आगिला तो मोसर<sup>२</sup> गुरु का ऐसा था जो आप पधारते नों थाव खाह कांग होता अक दुसरा मोसर फेरि भी श्री महाराजा जी का भागो नो ही थाय वाजवाया है जो सिताव पधारिवो होय तो सलाह दोलति है जी । पातसाह जी वा साहिजादा जी वा नवाब महावति खां जी भांति भांति करि दिसागा करी है और करते है जी । और कूच पांच कोस जरीवां का मुकरर हुवा है जी, दीनतस्वंध सेघावत का लिखा आवैं सो बंदा को भी लिखी दीज्यो जी ।

१. मुनसर्धीको ।

२. पदसर ।

श्री महाराजा जी सलामति । अब सब उमराव या ही कहते हैं जो राजा आंवेने<sup>1</sup> की ढील करैगे तो वहीत बुरी करैगे और नवाब महाबत खां जी कहें है जो मेरे ताई खत रूपयां ७५०००) का लिखि दीया है अर हाल रोक रूपया २५०००) देने का करार कीया था सो अब तक दीऐ नही सो और पैसे क्यों करि देंगे । सो निपट वहीत बुरा मानै है जी सौ उमैदवार हों जो नवाब के रूपया सिताव आवै जी ओर राय भगवंत रूपया ५०००) वा दरवार खरच का रूपया आवै तो विरादरी को काम चलै जी । श्री अजीत स्यंघ जी का विरादरी का काम सब होय चुका है जी । रूपया आया बीना सब काम बंद पड़ा है जी जो खात्र मवारक मै पसंद आवै तिसका जुवाव सिताव ईनायत होय जी ओर खत नवाब महाबत खां जी कों वा बंदे के नाव प्रवाना ईनायत हुवा था वौली मलारणां वावती सो आय पहुंचा है जी । नवाब महाबत खां जी ईन दिनो मो जुलाव लीया है सो गुजरांन ने का मौसर हुवा नही है सो मौसर हुवां खत गुजरांनि जवाव लिखाय भेजौंगा जी । श्री महाराजा जी सलामति । लाल बिहारी कोतवात्र पुरा साहिजहांनावाद का की अरजदासति भेजी है सो नजरि गुजरैगी जी ।

श्री महाराजा जी सलामति । भगवन्त स्यंघ खगांरोत नै खास मौहर सों प्रवाना लिखी दीया था तीस मा प्रगना नरायणां मो० गागरड़ वगै० का दाम एक लाख बीस हजार अर प्रगाना पीड़ायन का दस लाख अेसी हजार सो मुसारण अलेह के सनद दरगाही तो पाही है पल अमल ऐताहं दामां मा पाये ।

प्रगना नराईणां मो० गागड़ वगै०  
का दाम अठासी हजार

प्रगना पड़ायनि मो० एक  
कसवे अमल रह्यौ गांव  
दरोवसत नरुका कै तसरफ मो  
रह्या

श्री महाराजा जी सलामति । मसोदा पारसी<sup>2</sup> करि भेजा है, माफिक प्रवानों खास मौर सौ ईनायत होय तो थाकी खलासी पातसाही दरवार मो होय जी ।  
मी० चैत सुदी ५, संवत १७६८, मंगलवार ।

1. आने ही ।

2. फारसी

श्री राम जी

श्री महाराजाधिराज सलामति

हकीकति तमाम भंडारी की अरजदासति करार मी० चैत्र सुदि.....की भेजी है तीसों अरज पहुंची होयगी जी । श्री महाराजाधिराज सलामति । पहली तो पातसाह जी के लाहीर चलने की वहीत ताकिदि थी जो वाका की फरद सों अरज पहुँची जो समद खां वा कुतव खां कांम आए, केरि अरज पहुंची जो एक रहै एक कांम आया । तव पातसाहजादे रफीसाह हरद सो फुरमाया जो तुम हुकम पातसाहजांदे जहांदार नै पहुंचावो जो तुम लाहीर की तयारी करी हम तुम को गुरू के सिध्यों की तंवही के वासतै भेजै है जो रदवदल दरम्यान है जो ठाहरैगी जो अरज पहुंचाउंगा जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । भुव पति.....राजा नाहनी का जो महावति खां जी के कंदि था तिसके वासतै चेलां पातसाह जी की त्रफ सों हुकम पहुंचाया सो ईसके ताई गुरू वाका पिजरा वारदार है तिस मै डारो तव महावत खां जी दरवार जाय पातसाह जी सों अरज करी जो वह वेतकसीर हे, देस के मुलक मै सों गुरू वाहिर निकसि गया तव पातसाह जी फुरमाया जो उसको सजावन करीगे तो सब जिमीदार सोख हो जांयगे ईसै खाहनखाह सजाय करो, तव फेरी महावत खां जी अरज करी जो उस पिजरे मी काठै बहुत सखत हैं डारते हीं एक घरी मो मरैगा । तव पातसाहजी फरमाया मरि जायगा ती वरजहंदम, तव महावति खां फेरि अरज न करी । तव पातसाह जी दरवार सो उठे तव महावति खां फेरि अरज करी तव पातसाह जी फुरमाया जो पिजरा के कांटे

मोडिवोह अर हुकम पातसाहौं का राखो । उसको पींजरा मां डालौ, तब चेला आय कांटे मोड़ि पींजरा मां डालि गया सो अब तक तो जीवै है । जो हकीकति होयगी सो अरज पहुंचाउगा जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । पातसाह जी की या खबरि है, जो कोई तो कहै है जो जहांनाबाद कों चलैगें कोई कहै है जमुना जी के किनारे कोई दिन रहेंगे सो ठीक पड़े अरज पहुंचाउगां जी और खत हदायतुला खां कों भेजा था सो आय पहुंचा है । सो मारफति पचौली जगजीवनदास की पहुंचाया है सु जुवाव पाछा थे भेजोला जी । ओर खत जवाब महाबतखां जी का सुजायत खां जी को लिखाय भेजा है सो नकल सौं सब हकीकति अरज पहुंचैगी जी और खत महाराजा अजीतस्यंघ जी का भेजा था सो पहुंचा सो रदबदल आप करया, नवाब महाबत खां जी सों मालुम करोंगा जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । प्रग्ने मेड़ता का ईजारा का रूपया स्यालु जमा थे अर चेलां की तनखाह मां या प्रग्ना था, तब नवाब महाबत खां जी को चेलां जाय दवाया तब कहैवति सुनवति बहौत हुई तब नवाब महाबत खां जी भंडारी को कहया जो चेलां परेसांन है, तुरत रूपया हजार पांच तो आज थ्रु जो उनकी दिलासा होय तब भंडारी रूपया हजार पांच वैही घडी चेला के हवाले कीया औजु भी चेलां रहता रूपया वासतै तंलव करि रहयौ है जो ठाहरैली सो पाछा थे अरज लिखौंगा जी । अर वंदे सो भी आय चेलौ तगादा कीया जो देवती सांचारी भी हमारी तनखांह मौ है सौ तुम भी रूपयां की निसां करो । तब मै उनको जुवाव दीया जो देवती सांचरी नवाब महाबत खां जी बुलाकीचंद आपीन भेजा है मैवाफिक नही जो नवाब के क्या आया क्या वाकी है तब चेलौं नै नवाब कों जाय दवाया तब नवाब ने रूपयां तेईस हजार चैला नै दीया सो खान्न ममारक मौ आवै तो जो फसाले स्यालु मो प्रग्ना बहाव का रूपयां बुलाकीचंद नै दीयां है सो वंदे को लिखी जेजीज्यौ जी ।

मीति चैत सुदी ९, संवत १७६८, संणीसरवर ।

श्री राम जी

श्री महाराजाधिराज सलामति

॥ आगै अरजदासति करार मिति चैत सुदि १२ की भेजी है तिसे संगली हकीकति अरज पहुंची होयगी जी । श्री महाराजाधिराज सलामति । पातसाह जी लौहौर पहुंचने की वहीत ताकीदि है जी । मिति चैत सुदि १४ त्रिसपतिवार पेसखांना पहार की तलहेटी दरा को चला है जी, सो या राह सिरहंद जाय निकर्मगी जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । फुरमान तयार हुवा सो मारफति नवाव महावति खां जी चले है जी अर खत महावति खां जी अपना बंदे के हवाले किया है सो हजुरी भेजा है सो पहुंचां की जुवाय ईनायति होय जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । अगै सैद मुजायत खां<sup>१</sup> के तांई खत नवाव महावति खां जी का लिखाय हजुरी भेजा था । तिस की नकल भेजी थी । तिसो मारी हकीकति अरज पहुंची होयगी जी, सो खत मुजायति खां को पहुंचाया होयगा । फेरि बंदे नवाव महावति खां जी सो रदबदल करी जो खत नवाव का मुजायत खां को भेजा है सो इस खत सां कांम न होयगा । मुजायत खां सखती वहीत पकरी है, पातसाह जी सां अरज करि हसबल हुकम लिखाय देह तव नवाव कहा जो पातसाह सां ईन दिनो अरज करनी मुनासब नही, तव मैं अरज करी जो अरजी अपनी मोहर सां पातसाह जी कों लिखि देता हो, नवाव पातसाह जी कों गुजरांन अर जो मुझे फुरमावो ती इसलाम खां के मारफति पातसाहजी के दसखत नवाव साहिब के नाव अरजी पर कराय ल्याऊ । तव नवाव महावत खां जी फुरमाया जो तुम अपनी मोहर सां अरजी लिखिधौ मैं पातसाह जी कों गुजरा-

१. मुजायत खां कागहा - धरमेश्वर का मूदेदार ।



नीगा, तब बंदे अपनी मोहर से अरजी लिखी दी सो नवाब ने पातसाह जी की नजरि गुजरांनि । पातसाहजी ने दसखत कीये जो जफरजगं सुजायत खां को लिखै जो जागीर वा जिमीदारी में प्रगने राजा के हैं तिसी मुजाहिमत होय पेसकस न लें, सो खत नवाब का हजुरी भेजा है, सो खत सुजायत खां को पहुचांवैगे अर नकल खत की हजुरी भेजी है तिसों हकीकति अरज पहुंचैगी जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । किसनस्यंघ नरुका वा चुड़ामनि जाट को अमीरल उमराव रूसतमदिल खां की तानिन कीया था तब महाबत खां जी अरज करि मौकुफ कराया और सिरोपाव दिलाए अर दाखिल चौकी अपनी के कराए। अर नहानी के राजा को हुकम हुवा जो दिली लेजाव सलेमगढ़ मी बंदीखाने राखी । मित्ती चैत सुदी १५, संवत १७६८ ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । गुरू का फिसाद का बडा मौसर आस वाज खाया है अर पातसाह जी गुरू के उपर जाय है ज ईस वकत मै महाराजा अजीत स्यंघ जी वा आपका पधारना होय तो वडी सलाह है जी जैरवाज मबारक मै पसंद आवै जो दौलतस्यंघ को प्रवानो ताकीदि को ईनायत होय जो राजा अजीतस्यंघ जी को को सिताव लै आवै जी । अर भंडारी खीवसी भी कहै है जो मै भी महाराजाजी को बहौत ताकीदि लिखि हैं ।

श्री राम जी  
श्री महाराजाधिराज महाराजा जी  
श्री जैतिघ जी

स्वास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलांनु खानाजाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जी जी । श्री महाराजा जी के सुख समाचार घड़ी घड़ी पल पल के भले चाहये जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छै जी । पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जी जी । श्री महाराजा माईत हे घणी है श्री परमेशुर जी जी जायगा हे । म्हे श्री रा खानाजाद वंदा हां । श्री पातिसाह जी श्री महाराजा थे महरवान हे । श्री जी सुख पाव जी जी । पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जो जी ।

खानाजाद नवाजी रा परवानां आयां वोहत दीन हुवा सु वदनवाजी रा परवानां सदा ईनायत होय जी ।

महाराजा सलामत । ईनायतुला खां तो खानसामां है अर हीदायतुला खां वेको वेटो दीवान खालसा को व तन<sup>१</sup> को है । खानखाना पाछै यां दोनु बाप वेटा का अग्रतयार है, जो ये कहे हे सु पातिसाह जी करे हे । सु चेत सुद १० खानाजाद ने रात ने घीलवत मै बुलायो अर कही—महाराज नही आवे हे सु कीस वासतें, जो अतलब थां को कहो सु करदां, अर कही—महावत खां नाहन का राजा ने कोल पंजो कीसम<sup>२</sup> दै पहाड़ा मे सु बुलायो अर अठे आया पछै वेकोली<sup>३</sup> कर केद में

- 
१. दीवान-१-पातिसा व तन ।
  २. कीसम—शपथ ।
  ३. वेकोल—वचन से फिरना ।

कीयो। अर खानखाना मुवां पछे गुरु के वासते पीजरो बणायो थो सु वे पीजरा मे नाहन का राजा ने बैठायो, कुलफ जड़ दीयो। सु ई भांत की बेकोली महावत खां करी, तीसु उसवास सब कही न। महावत खां का कोल को हुवो सु सब कोई साचा हे पण सब महावत खां सरसा<sup>1</sup> बेईमान न है। तीसुं थे महाराजा कुं हमारी जुवानी लिखो जो महाराजा हमे अपने दील की लिखै। सचा कोल दे अर अपने मतलब जो दील मे हे सु हमे लिखै। पै वे भी अपने कोल सु न फीरै, जो बात होय सु सची होय। तब खानाजाद कहीज आज ताई हमारी बात मै महावत खां है अर वह यह बात सुगे तो दुसमन होय जाय, अजीमशं हमारी बात मे है सु सुणै तो बुरा मानै, तीसका क्या जतन कीजै? अर हमारी बात साहजादे वीगर करणी नही। ती पर कही हम तो साहजादे अजीम के ही दसतगीरफता<sup>2</sup> है, अजीमशं ही तुम कुं खुफया हम पास भेजे तो हम पास आवोगे? अर महावत खां सुं तो यह रदवदल जाहर न्ही करणी। जद सब तुम्हारे मतलब मवाफक काम कर चुकेगे तब महावत खां पर जाहर होयगी सु भी यह बात जाहर नही होयगी क राजा जी की खाहस<sup>3</sup> सुं काम हुवा या वकील न रजु करी। हमारे आवो तब रात पहर देढ पहर गये आवो रोज आवो मत, हम बुलावे तब ही आया करो। सु खानजाद ये समाचार दीवान जी सुं व भंडारी जी सु खीलवत मे कहा। सु श्री जी नै ये समाचार दीवान जी भी अरजदासत करेला जीतने श्री जी को जवाब न आवे जीतने ईनायतुला खां सु हीदायतुला खां सुं रदवदल कुछ करी जाय न्ही। जेसो हुकम होय तेसो कीजे। पे अर अखतयार तमाम ईनायतुला खां हीदायतुला खां को है। महावत खां जी की अब बात उठ गई।

अमीरल उमराव जी की खबर मुसखत<sup>4</sup> तो न्ही पै खबर सोहरत<sup>5</sup> हे ज रवी अल अवल मे बजारत को सरपाव कलमदान जड़ाड दे तीस सुं अमीरल उमराव सुं भी खुफीया जोड़ राखणो जरूर हे। ओरंगावाद का पुरा की सीफारस मांगी तो याही कही—हम खत आवें तो सीफारस लिख दै, श्री जी ने चाहे हे ज हमारी तरफ आवे तो हम मतलब चाहे सु करदै जी, अर अब ही चंद रोज महावत खां की बातों उपर भुले हे तो आप ही वाद चंद रोज के रजु हमसुं करोगे, हमारे अर राजा जी के घराने सदा ईखलास हे तीससुं हम चाहते हे इनका काम होय। आसफदोला सुं पहली कोल करार था तो हम केसा कीया अर महावत खां कोल

1. सरसा (मरीका)—की तरह।

2. दसतगीरफता—पकड़े हुए, दाम के ममान।

3. खाहस—च्चाहिस—मरजी—इच्छा।

4. मुसखस (मुशखस)—तमाखीन की हुई, जांच की हुई।

5. सोहरत—मरहर।

कीया तो बरफी<sup>1</sup> राजा को कुरान बीच दे ल्याये अर पीजरे मे केद कीया, ये असी तरह कहे हे । अजीमशां भी अब अमीरल उमराव की ही पख<sup>2</sup> हुवा तीसुं अठे रदवदल हुई सु लिखी हे ज अब जो भला होय सु हुकम आवे पण मसल्हत अब खानाजाद की नाकस अकल मे तो या आवे हे—जाहर तो बोहार<sup>3</sup> महावत खां मु राखजे अर वात न बोहार सब सुं राखजे अर समे देखजे तेसो साधजै ।

खानाजाद वकील हे सब दरबारां मे जाय हे । हुकम होय सब ठोड़<sup>4</sup> जाय, हुकम होय महावत खां के ही रहे ओर ठोड़ जाण सुं कदाच महावत खां बुरो मान अर खानाजाद को गीलो करे तो मंजुर न्होय अर हुकम होय तो कही के न जाउ । फर खानाजाद पर अंतराजी न आवे, जेसो हुकम होय सु करू जी । जो दस ठोड़ जाउ हुं तो दस खबर सुणजे हे, सब सुं बोहार रहे हे अर महावत खां की वा वात थी सु अब न्ही पण जो हुकम आवे सु सही ।

दवाव सब उमरावां ने लगी तीपर सब उमरावा का वकील ऐकठा हुवा ज म्हां सुं सरंजाम न होय । तीपर दवाव के दारोगे अरज की—वकील सरंजाम करै न्हे । हुकम हुवो—सरबराह खां कोतवाल वकीलां ने केद कर सरबराह करावे । सब कोतवाल सवने बुलाया । सब का वकीला डेरा चवुतरा पाछे कराया । सब वकील रात दीन चवुतरे वेठा रहे हे । कोतवाल कहे हे—हुकम हे खाहनाखाह<sup>5</sup> सरंजाम करो । ती पर महाराजा जी की व अजीत सिध जी की तरफ की ईलत-मास<sup>6</sup> शाह कुतरतुला की मारफत अजीमशां जी कने दीवान जी व भंडारी जी भेजी थी—ज म्हाका दांम ही कटा रहे ती पर मंजुर न करी, दसखत कीया, जफर गंग सुरत दीहद ई का ये अरथ ज महावत खां समझाये सरबराह करावे । अर चेत सुद ११ कोतवाल सब वकीलां ने कही—चार दीन था की ईजत राखी आज सरबराह करो के केद कर सुं, वेईजत करसुं । तब वकीला कही—म्ह कहां सु सरबराह करां, उमरावा कने सरबराह करावो, वे म्हाने खरची दै, म्हे सरबराह करां । तब कोतवाल कही—थे थांका खावदा कने जावो जो सरबराह करै, ती कने तो दानो उलावो अर सरबराह न करे ती कने लिखाय ल्यावो । हुं सरबराह न करूं हुं, अरज करसुं, कभी मनसब होसी । ती पर सब वकील आय आपका खावदां कने गया । ती पर अमीरल उमराव आसफदोला की व आपकी दाउद

1. बरफ के पहाड़ों के ।

2. पख में ।

3. बघहार :

4. ठोड़ = बगह ।

5. खाहनाखाह (घरान दवाह) = किसी-न-किसी तरह ।

6. ईलतमास (दल्लेमान) = धर्म, प्रार्थना ।

खां की दवाव सरबराह करणी कबुल की, रूसतम दील खां कबुल की, महावत खां खांनज्मां खां कबुल की, राजा उदोत सिघ कबुल की । ओर भी वकील खावंदां सु सरबराही ले ले आवे हे । अवार ताई नही तो कही न्ही करे, अब देखजे काई चुके । अजीत सिघ जी के तो भंडारी सरबराह करसो । महाराजा ने केई अरज-दासतां करी पण दवाव को जवाव ही नही सु उमेदवार हुं सरंजाम सीताव आवै, दाम काटा है सु बहाल करासां । खांनाजाद अब आपकी हकीकती काई अरज लिखे, खांनाजाद हुं ।

फुरमान म्हावत खां जी आपका आदमीयां कै साथ हजुर भेजो है सु नजर गुजरसी । चेत सुद १३ हीदायतुला खां फेर खांनाजाद ने बुलाय कही—हमारी तरफ रजु करो तो देवती सांचारी व मेड़तो दीराउं अर लाहोर की सुबादारी की नीयावत दीराउ, ऐक ने फोजदारी दील वीच लाहोर सुधी<sup>1</sup> दीराउं । सु ये समाचार भी दास जी ने भंडारी जी नै कहा ।

हीदायतु खां जी ने मुवारक वादी रो खत दीयो थो सु दास जी खांनाजाद ने सोपो खीलवत मे गुजरानो, जवाव तयार करायो सु पाछा सु भेजसां जी ।

सां० १७६८ वैसाख वदि १. सनउं ।

पनांपुर के वासते म्हावत खां तो दर गुजार अर खत हीदायतुला, खां ने आवे तो गुजरान बहाल करावां ।

नाहन का राजा ने दीली भेजो सलेमगढ मे केद राखे सु अब चलसी ।

गुरु का चकमे सीख फेर पैदा हुवा लाहोर का साहदरा ताई अमल वाको है.....।

1. दिल्ली से लाहौर तक।

श्री राम जी

श्री महाराजाधीराज सलामती

अरजदासती करार मीती चैत सुदी १५ की लीखी हजूर भेजी छै तीसी सारी हकीकती अरज पहुची होयली जी। श्री महाराजाधीराज सलामती। परवाना ४—पारसी ३ हीदुई १, वंदा कै नाई ईनायत हुवा थां सो वंदै सलाम करी माथे चढाय लीया जी, खानाजाद सरफराज हुवां जी। परवाना ऐक मै हुकम जाया जो सब उमराव दवाव सरवराह करै तव तुम भी हजुरी को अरजदासती कीज्यो, दवाव खरच की हुंडी भेजैगे अर दाम जो येवज दवाव की कटे है सो देवती साचाहेडी तथा मौजावादी में लीज्यो।

श्री महाराजाधीराज सलामती। दवाव के वासतै अरजी साहांजादा जी को लीखी दी है जो दोन्यो राजा हजुरी आवै है, दवाव के वासतै जो हुकम होयगा वा पंच अमीर करैगे सो हम भी करैगे। सो अरजी परी कुछ दसकत हुये नही है सो दसकत होय आवैगे तीस की नकल हजुरी भेजुगा जी।

श्री महाराजाधीराज सलामती। उकीला पर बडा हगामा होय रहा है, रोजीना घेरी ले जाते है, आधी आधी राती पाछै घरी आवतै है।<sup>1</sup> जीवणी दाणा कीसो उकील अब तक नाख्या नही, गुरजवरदार भी भागे है सो जो ठाहरै ली सो पाछा से अरज लीखुगा जी। अर देवती साचाहेडी तथा मौजावादी मै तन्ग्रह का तलास करुगा जी। श्री महाराजा जी के परताप सो माफीक हुकम सब काम होयगे जी। अर छत नवाव जफरजंग वा खानजमा व वहादर वा अमीराहम यां को ईनाईत होवे धे सो पहुचावे है जी सो जवाब बोका पीछे थे

1. परी भावतै—पर पर भाते है।

भेजूगा जी । हुकम आया जो छीयालीस हजार दाम परगनौ जलालपुर मै महैमद जमा वाँ महैमद अमां मनसबदार के है सो तीस की हकीकती हीदुई परवानां सौ मालुम होयगी । सो परवाना हीदुई बंदा पासी न पहुता जी ।

श्री महाराजाधीराज सलामती । हुकम आयो जो तुमों लीख्या थां जो खत तममुख अगरवाल का लीखाई भेज्या है सो हजुरी पहुच्या नही । गरीब नवांज सलामती । अगरवाल का तमसुक की नकल बंदे जगजीवनदास उकील को सोपी थी सो वा आपकी अरजदासती मै भेजी होयगी जी । परवाना दुसरा पारसी मै हुकम आयां जो नीसान हीदुई दसकत खास कां वा हसबल अमर हकीम सलेम कामैल पद्य लालस्यंघ वा बेनीराम हाथी आय पहुतां सो इसके जुवाव की अरजदासती वा खता का जुवाव पाछै थे भेजैगे अर राजा अजीतस्यंघ जी नै लालस्यंघ हाथी ताकीद लीखी है सो श्री सीताराम जी सौ उमेदवार है जो वेगाही आवना होयगा ।

श्री महाराजाधीराज सलामती । अब तो सलाह दोलती यह ही है जो जेता सीताब पहुचै तैता ही मुजरा हैं जी । परवाने तीसरे मै हुकम आयां जो दोलत स्यंघ सेखावत का लीख्या आया जो राजा अजीतस्यंघ जी मेड़ता सो कुच किया सो सीताब ही रांजगढ़ आय व्याह करी माहरोठ वा सांभरी की राह आवैगे जी सो तुम नवाव सौ अजर कीज्यौ, सो बंदै वजनसी परवाना नवाव कों पढ़ाया, नवाव नै वजनसी पातसाह जी सौ अरज करी, ती परी पातसाह जी फुरमाया जो जेता सीताब आवै जेता ही उनका मुजरा है । पमवानो चोथा हीदुई करार चैत सुदी १२ कां ईनायत हुवा तीसमै हुकम आयां जो पिरोहित स्थाम रांम को परगना मोजावादी की जामीनी न ठाहरी तीसौ केसोदास वा करमचंद व्यापारी की जामीनी लीखाय भेजी छै सो उधालु की कीसती वा व्यापारया कना दीवाज्यौ । सो माफीक हुकम करुगा जी ।

श्री महाराजाधीराज सलामती । परवान २ फारसी ता० करार १३ सफर के ईनायत हुवे सो माफीक अवादे आय पहुता जी । बंदा सरफरांज हुवां जी । परवाना मै हुकम आया जो राजा अजीत स्यंघ जी रांजगढ़ आय पहुचे है अब सीतारामजी कीया तो सीताब ही हजुर पहुचैगे वा अरजदासती साहीजादा जी को दा खत येक नवाव महावत खां जी नै वा खत दोय हकीम सलीम<sup>1</sup> कों वा खत देक रुसतम दील खा बहादुर कों वा खत हीदुई राजा गोपाल स्यंघ को ईनायत हुये थे सो आय पहुचे जी । सो मीती वैसाख बदी ७ बीसपतीवार नै खत नवाव जफर जंग को गुजरान्यां तब नवाव पढी बहोत रजा बंद हुगे अर पानगाह जी की अरजी मै खत लगायां अर फुरमायां जो तीसरे पहरी हम अरज करैगे, फैरी

1. हकीम-उद-मुल्क=साहजादा जहाँगहा का प्रमुख मन्दाहकार (पार्टीज ऑफ पॉलिटिक्स, 76)

फुरमाया जो अरजदासती साहीजादा जी की कहा है ? तब वंदे अरजदासती वां नकल बजनसी गुजरानी तब नकल पढ़ी फुरमायां जो खुब लीखी है । तब वंदे अरज करी जो जीस भाती हुकम होय जीस भाती गुजरानीं । तब फुरमायां जो साहीजादो जी पातीसाह जां की हजुरी आवैगे तब मै या अरजदासती साहीजादे जी को गुजरानोगां अर मै अपने खत की हकीकती अरज करोगां । अर साहीजादो जी अपनी अरजदासती पातसाह जी कों गुजरानैगे । तब वंदा को फुरमायां जो तुम्हारे नाई परवांनां आया है । तब वंदा परवाना आपना नजरी गुजरान्यां, तब नवाव पढ़ी फुरमाया जो जेते सीताव आवै जेताही मुजरा है । अर नवाव रुसतम दील खां जी येक मजल अगाउ चाल्या है अर गोपालस्यंध जी वहीत रजावंद हुवा अर कही—जो अवै पेशखांना चल्या सो मै आगे जाउ हुं सो आगली मजं(ल) जुवाव का खत लीखी चहंगा सो पाछा थे लिखाई हजुरी भेजुगा जी ।

श्री महारांजा जी सलामती । पातसाह जी कै वालतोड़<sup>1</sup> हुवा थां सो सो मुकाम दस कीया जी अर अवै फुरसती हुई है । सो मीती बैसाख वदी ९ सनीसर वार लाहौर की त्रफ नै पातसाह जी को कुच हुवो जी । सो कुच भी कोस पांच जरीवी को कीयो जी । सो लसकर वहीत कसाईला सो आय पहुतो जी अर अवै या हुकम कीया है जो अवै बैसा ही कुच हमेसा होवो करै जी ।

श्री महारांजा जी सलामती । नोताद होली की पातसाहजादा जी का लोगा नै वा नवाव महावत खां जी का लोगा नै दीई जी । अर सीरोपाव खांनाजाद नै पातसाह जी ईनाईत कीया था तीकी भी नोताद पातसाही लोगा नै वा साहीजादा जी का लोगा नै दीई जी । अर ईदरमनी<sup>2</sup> मुनसी हकीम सलेम कां को रुपया १००) भंदारी खीवसी अपनी सरकार थे दीयां तब वंदा नै भी कहाय भेजी जो थे भी याकी सरकार सो दयौह, लीखने पढ़ने का काम ईनसी हमेसा अपना रहैवो करै है, सो दीया जी ।

श्री महारांजाधीरांज सलामती । अब कै लसकर मै महैगाई हमेसा ज्यादा रहैवो करी अर महैगाई कै सबव वंदा लसकर मै वहीत करजदार हुवां अर सरकार मे भी रुपयां मसादती तरीक वहीत खाये अर अवै खाणे को भी जुरता नहीं है । सो उमेदवार हो जो जवाव सोताव ईनाईत होय जी ।

श्री महारांजाधीरांज सलामती । खत २ हकीम सलेम को ईनायत हुये थे सो वंदे गुजरानै अर नीसाण कै वासतै रदवदल करी । सो हकीम जुवाव दीया जो साहीजादे जी सो अरज करी लीग्याय दयौहगां । सो सीताव लीखाई हजुरी भेजुगा जी ।

1. बापनोड़ फुजी ।

2. ईदरमनी—साहबाब जहाँशाह के प्रमुख परामर्शदाता हाकीम-उन मुन्क का मुन्गी ।



दरवार की हकीकती मारी पचोली जगजीवनदाम का लीख्या सो तथा वाका की फरद मी अरज पहचैली जी । मीनी वीगाख वदी ११, संवत १७६८ ।

श्री महारांजा जी सन्नामती । खत नवाब महावत खां जी का भेज्या है सो नजरी गुजरैगा जी अर माफीक हुकम सीपारसी भट जी के दासतै लीखाय अर स्पीराम गुजराती हाथी भेजी छी जी ।

श्री रामजी

श्री महाराजाधीराज सलामती ।

अरजदासती करार मीती वैसाख वदी १३ बुधवार की लीखी हजुरी भेजी छो तीसों सारी हकीकती अरज पहुची होसी जी । भी महाराजाधीराज सलामती । परवाना २ दफत्र दीवानी करार मीती वैसाख वदी ६ का लीख्या सादर हुवा सो आनी पहुचे । परवाना येक मै हुकम आया जो येवज दवाव के दाम ३४६००००० कटे है तीसकी जागीर मै प्रगना वहात्री तथा मौजावादी मँलीज्यौ ।

श्री महाराजा जी सलामती । दवाव की येवज अमीरल उमराव के दाम कटे थे सो दवाव के वासत उकीलो सो ताकीद हुई थी । तब नवाव ने कह्या जो हमारे दाम कटे है सो हमको जागीर दयीह, हम दवाव सरवराह करेगे । तब सब अमीरों ईतफाक करी, यह ही अरज करी जो दाम येवज दवाव की कटे है तीस की जागीर पावँ अर दवाव सरवराह करै ।<sup>१</sup> तब वंदै भी जग-जीवनदास को कह्यां जो तुम भी या ही जवाव दयीह । तब जगजीवनदास जागीर के वासत हीदायतुला खां जी सो कह्यां । तब जुवाव दीयां जो सबका राह होयगा सो तुमारां भो राह होयगां ।

श्री महाराजा जी सलामती । येतीं जागीर पातसाह जी के खालसै नही जो येवज दवाव की जागीर दीजे । अर दवाव सरवराह कराजे सो अब तो दवाव की दात मुबहम होय ही है, उकीलो सो तनव कोई नही जब जागीर येवज दवाव की दैगे तब दवाव की वराउ रद पचोली जग जीवनदास कना कराई हजुरी भेजुगा जी ।

1. सरवराह करै—पसून करे ।

2. दयनी ।

श्री महारांजाधीराज सलामती । हुकम आयो जो परगना मेड़ता रांजा अजीत स्यंध जी कै साढां चो माहा<sup>1</sup> मै ईजारे चुक्यां अर परगनो बहात्री सरकार मै छ माहा मै ईजारै चुक्यां । सो नवाव महावत खा सौ अरज करी मेड़ता माफीक बहात्री को ईजारों चुका ज्यौ अर पेसगारा नै रूपया खरच का दाय है जीतीनै हजार लागै सो भी दे अर बुलाकीचंद नै परवानो कराय जे जी ज्यौ । श्री महाराजा जी सलामती । मेड़ता को ईजारो नाहर खां अपनी मुहोर सौ छ माहा लीख दीया था तब बंदै भी मेड़ता माफीक लीख दीया जी ती सही ईजारा माफीक नवाव भंडारी खीवसी सौ पईमा की तलब करै है जी अर तुरत साढ चो माहा का मजकुर कोई नहीं जी । अर जै मेड़ता का साढ चो माहा चुकैगां तो वंदा क्यो गाफील रहैगा जी । अर पहैली बहात्री का ईजारा चुकांउगा जी ।

श्री महारांजा जी सलामती । परवांता ४ फारसी ईनागत हुवां सो सलाम करी माथै चढ़ाय लीया, खांनाजाद सरफराज हुवां । हुकम आया जो नाहनी का राजा की हकीकती लीखज्यौ सो बंदै तो आगै ही अरजदासती करी भेजी है जो नाहनी के रांजा को दीली भेज्या हुकम हुवा जो सलेमगढ केद रहै सो दीली जाय पहुच्यौ सलेमगढ पहुचाई आया जी ।

श्री महारांजाधीरांज सलामती । हुडी रूपया ६५०) की बंदा कै नाई ईनाईत हुई थी सो आनी पंहुती जी, बंदा की खबर श्री महारांजाधीरांज बीना कुण लेहजी अर बदा जो ईहा काम करै है सो खीवस्सी भंडारी का ईतफाक सौ करै है जी । खात्री मुवारक ईस बात सौ जमा रहै जी । बंदा बीना ईतफाव भंडारी कै न करै है जी ।

श्री महारांजाधीरांज सलामती । पहली तो उमीरल उमराव की दीवानगीरी की खवरी बहोत गरम थी अबै तो बात सरद पडी गई है जी । अर नवाव महावत खां जी सौ पातसाह जी बहोत मिहरवानगी करै है सो देखजे क्या ठाहरै जी ।

श्री महारांजा जी सलामती । बीजैस्यंध जी आगै तो दाय महैल देस भेजे ही थे येक भारथ स्यंध सीसौदया साहीपुरां वाला की वेटी सीसोदणी हजुरी रही थी सो अब मीती वैयाख सुदी ४ मगलवार कै दीन सुंदर खोजा साथ दे अर देस नै रूखसद करी जी । अर अब हजुरी मै महैल कोई भी नहीं जी । अर दाय महीने हुये बीजै स्यंधजी पातसाह जी कै मुजरै कोई जाय नहीं है जी । न जाणी ज सवव क्या है जी ? अर पातसाह जी येक कुच येक मुकाम पहार की तलहैटी की राह चले जाते है सो परगना छतवनुर के उरै कोस पांच आय पहुचे है जी । अर खवरी या है जो सतनंज के दरीया बडी पुल बंधै है सो उम राह होय लाहोर चले जाही ।

1. साढ़े चार माह को जमा पर ।

श्री महाराजा जी सलामती । परवाना करार ता० २४ सफर का लीखा ईनायत हुवा था तीस मै हुकम आयां जो अरजदासती पचोली जगजीवनदास की सो अरज पहुची जो खानखाना के मुवा पाछै हीदायतुला खां का मामला खुब है जो कुछ अरज पातसाह जी सौ करै है सो ही मनजुर होय है । सो वंदा सौ या हकीकती पचोली जगजीवनदास कही थी तब वंदे व भंडारी खीवसी वीचार कीयां जो चीना हुकम साहीजादा जी कै व महावत खां की सलाह बीना हीदायतुला खां के जाणा सुव नही । तब वंदे वा भंडारी खीवसी, पचोली जगजीवनदास को हीदायतुला जी के भेज्या सो वै रदवदल करै है सो अब तक कोई असी वातचीत नही हुई जो अरज लीखवा मै आवै अब जो क्या रदवदल होयगी सो अरज लीखोगा जी । हीदायतुलाखा पचोली मजकुर कै हाथी कहाय भेजी जो तुमारे बुलावणे का हुकम मेरै ताई साहीजादै जी कीया है अर तुम भी अरज करी ल्याह सो हकीम मलेम सौ कही है । सो हकीम जी कहेंगे तो हीदायतुला खां के जाहीगे जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । नवाव महावत खां जी का रूपया २५०००) जो हाल रोक देवा कै वासत परवाना दोय तीन ईनायत हुये थे सो परवाना व मुजीव घानाजाद नवाव सौ कहाय की यासो ईस वात कों च्यारी महीना हुवा । रूपया हजुरी गी ईनाईत हुवा नही । सो नवाव की ताकीद वंदा सौ ज्यादा होती है, कहैत है जो तुमारां अवादां पीचेहत्र हजार रूपया जो जोहरयी लो, तनखाह लीख दीई है सो भी भाय पहुच्या सो रूपया की नीसा करो सो पचीस हजार रूपया तो तो नवाव न जरूरी देणा जी अर पीचेहत्री हजार रूपया को जुवाव ईनाईत होय नीसा माफीक नवाव ओ अरज करु जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । पातसाह जी सौ अरज पहुची जो साढारा की भवैनी गरु का सीखो घेरी सो कोई तो कहै है जो गरु के साथ वीनजारा थां नी न लीन्ही अर कोई कहै है जो नाहनी के राजा के लोगों लीन्ही । सो भवैमी ती ली न्ही । सो जो अब ठीक पडैगा सो पाछा थे अरज लीखोगा जी ।

श्री महाराजाधीरांज सलामती । राजा सतरसाल<sup>1</sup> को फुरमान वा हसवल हुकम सादर हुवां जो दीघणी<sup>2</sup> उजेणी की तरफ आये है सो तुम उजेणी सीताव आई उनको तबीह कोज्यी । तब खाड़ेराव परीहार जो राजा सतरसाल के वेने के साथ रहै है तीमको बुलाय नवाव महावत खां ताकीद करी । तब उन्हौन अरज करी जो राजा सतरसाल की धामैनी पहुचे की खबरी आई है, फुरमान पहुचते ये भावना की खबरदारी करैगे ।

1. उजमान सुन्दर ।

2. नसात्र ।

श्री महारांजाधीरांज सलामती । खीवसी भंडारी के रांजा अजीतस्यंघजी का खत वां वंदा को पासी थो जी का खत आया थां । सो मीती बैसाख सुदी ५ त्रिसपतीवार नवाव को खीलवत मै गुजरानो तत्र नवाव भंडारी सो फुरमाया जो मै ये खत पातसाह जी की नजरी गुजरानोंगा सो असा न होय जो वै साभरी न आये होय । तत्र भंडारी जी अरज करी जो वै सांभर के उरै आये होंईगे । तव वंदा सी फुरमाया जो रांजा जैस्यंघ जी खुत्र काम कीया जो आवैरी फेरी न गये अर हमारै ताई या भरोसा है जो राजा जैस्यंघ जी खाहनाखाह आवैगे अर राजा अजीतस्यंघ कां आवने का भरोसा परता नही । तत्र भंडारी जी खीवसी अरज करी जो राजा अजीतस्यंघ जी वां राजा जैस्यंघ जी सीताव हजुरी आवैगे मै ईस ही वासतै ईहा बैठा हां । तव नवाव फुरमाया जो खुदाय तुम्हारा क्या करै ।

श्री महारांजाधीरांज सलामती । नवाव महावत खा जी भंडारी खीवसी वा वंदा सो फुरमावै थे जो मै पातसाह जी सो अरज करी जो मालवा मै दीखण्यो का फीसाद बहोत है अर धामोनी की तरफ सो सतरसाल भी आवै है । अर ईधर सो रांजा अजीतस्यंघ वा जैस्यंघ को हुकम होय तो दीखण्यो को तत्रीह बवाकी करै । तव पातसाहजी फुरमायां जां येक मरतवै वै हजुरी आवै हम उनको उमदा खीद-मती फुरमावैगे, वै हमारे खुत्र बंदे है अर फुरमान हमारा सादर हुवा थां तीसमे पहुचे की अरजदासती आई नही । तव नवाव महावत खा जी अरज करी जो साझ सवेरे मै अरजदासती हजुरी आवैगी । तव पातसाह जी फेरी फुरमाया जो तुम ताकीद लीखो जो सीताव हजुरी आवै, काम का उकत है ।

श्री महारांजा जी सलामती । मीती बैसाख सुदी ६ सोमवार पचोली जग-जीवनदास का रूका खांनाजाद के नाई आया थो सो बजनसी हजुरी भेज्यो है सो दवाब की हकीकती अरज पहुचैली जी । भंडारी खीवसी वा बंदे अरजी दवाब की मारफती नवाव महावत खां जी दसकत पातसाहजादां जी का कै वासतै साह कुदरतुला नै सोपे है सो जो दसकत पातसाहजादा जी का होय आवेला सो पाछां थे अरज लीखौलो जी ।

श्री महारांजाधीरांज सलामती । बंदै पचोली जगजीवनदास नै रूको का जवाब लीख दीयां जो भंडारी खीवसी व गुलालचंद उकील महारांजा अजीतस्यंघ का वा वंदा अर तुम श्री जी की तरफ सो हाजरी है सो जो आपस मै महाराजा अजीत स्यंघजी की ठहरै ली सो आपा भी करांला, थे सीताबी मती करो अर श्रीं जी का हुकम तो दवाब के वासतै आया ही है सो तुम दवाब के दामो की जागौर बसवा तथा मोजाबादी मै ल्यौह अर परवाना करांवो मै ईहा दवाब सरबराह करूंगा अर तुमो नै कहया था जो हीदयतुला खां जी कहै है जो काम सरकार का होय सो तुम मुसै आय कहो हो, मै सब सरंजाम दयौहगां । सो दोन्यो परगना

मैं येक परगनो दवाव के दामों नै फढ़ाई ल्यौवो ई काम मैं तुम्हारा बड़ा मुजरा है । अर वंदा उस ही परगना परी दवाव सरवराह करई अर नही तरी जब ताई भंडारी जी सरवराह न करैगां तव ताई वंदा भी ईस बात मैं न आवैगां। तुम साफ जवाव दीज्यो—जागीर देह अर दवाव सरवराह कराई लेह ।

श्री महाराजाधीराज सलामती । पहाड़ की तलहटी का सबव करी लसकर मैं म्है ज्यादा हुवा तीका सबव करी नवाव महावत खां जी वा रूसतम दील खां का घत का जवाव न आया है जी । सो जवाव पाछा थे हासील करी भेजो लो जी श्री महाराजाधीराज सलामती । भारत स्यंघ जी सोद्यां साहीपुरा वाला के खबरी आई जो साहीपुरा री फोज सुवा अजमेरी का की आई अर राड़ी हुई सो आदमी धसेक' छोटा मोटा वारली फोज का कामी आयां अर कसबो मजकुर च्यारयो त्रफ मो फोज घेरी राख्यो छै अर ईहा भारतस्यंघ साहीजादा जीहादार स्याह बहादर की तईनाथ है सो अरजी साहीजादा जी नै गुजरानी है जो मैं तो हजुरी मैं, चाकरी हजुरी मैं करू हूं अर मेरा उतन ईस भाती खराब होय है । सो हुकम होय तो मैं देस की खबरी ल्यौह अर रजपुत हु सो देस परी कामी आउगां । सो अब तक अरजी परी दसकत हुये नही है सो जो ठांहरै ली सो पाछा थे अरज नीचोले जी । मीती वैसाख सुदी ११, सं० १७६८, मुकाम सतलंज डेरो कोस सात ।

श्री राम जी

श्री महारांजाधीराज सलामती

अरजदासती करारं मीती वैसाख सुदी ११ सोमवार की लीखी बुधवार हजुरी भेजी है तीसो सारी हकीकती पहुचोली जी। श्री महारांजाधीरांज सलामती। जेठ वदी १ दीतवार को पेसखाना पातसाही सतनज नंदी को चाल्यां हुकम हुवां जो ऊहा जाय हवादार डेरा खड़ा होई अरं चतुतरा वधै, ऊहा जसन करैगे।

श्री महारांजाजी सलामती। महैमंद अमीखां<sup>१</sup> बहादर घर का हाथी ऊपरी चढ्या थां अर पातसाही मनसबदार अबदुल रहैमान भी हाथी ऊपरी चढ्या जाई थां। सो नवाब महैमंद अमी खा को हाथी थोडा-सा कम सत थां सो दुसरे हाथी ऊपरां दोड्यां सो हाथी का पाछीला पाव दातो सो ऊठाई लीव अर कोस पावताई<sup>२</sup> लीया चलयो गयो। तब हाथी तो ऊहा सो भाजी छुटां अर महैमद अमी खां महाऊत सौ कही जो हाथी को बैठाई मै ऊतरी पालकी असवार हुगां, तब महाऊत अरज करी जो अबार हाथी कह्या मै नही, ठंडो पड्या<sup>३</sup> बैठाऊगा। तब हाथी को जीस तीस भाती पाणी ऊपरी ले गयां अर पाणी ऊपरी जा अर पाणी आपणै ऊपरी छड्क्या। अर महाऊत भी पाणी हाथी के माथै परी डाल्या अर महाऊत बहोतेरा कह्यां सो हाथी बैठा नही तब महैमद अमीखां जी खवास को कही जो तुम पछै सो उतरी जां तेरे पीछै मै भी ऊतरूगां। तब खवास तो हाथी सो ऊतरी

1. मुहम्मद अमीन खां—संभल एवं मुरादाबाद का फौजदार तथा बहादुरशाह के शासन के प्रारम्भ में 5000/3500 का मंसबदार। इस समय गुरु बंदा के विरुद्ध शाही अभियान में कार्यरत।

2. पाव कोस—चौथाई कोस।

3. शान्त होने पर।

गयां सो हाथी बोल्या नही, फेरी भहैमंद अमीखां जो भी हाथी सो उतर्या सो ऊतरता ही हाथी फीर गयां। सो महैमद अमीखां जी कै ताई हाथी नै दातो वीची दावी लीयां तव महैमद अमीखां जी की कमरी मै छुरी थी सो छुरी काढ़ी अर हाथी के मोहो भीतरी तीन घाव कीये सो घाऊ वहीत कारगर हुवां अर महैमद अमीखां जी को दाती वीची सौ हाथी डाली दीयां, अर हाथी चाहै था जो पाछले पाऊ की लात लगावे सो हाथी के फीरते पहेली महमद अमी खां जी दोई हाथी के ओर मारी, सो हाथी चीस मांरी आगां नै भागी गयो अर नवाव महैमद अमी खां जी नै पालकी मै डाली अर डेरे ले आयां सो माथा मै वा वावा हाथ मै<sup>1</sup> जखम आई होजी। अर जीव जीवता बच्या। जब या खवरी पातसाह जी सो अरज पहुची तव पातसाह जी फुरमाया जो हमारा हाथी बच्या, जोनाऊर मुवा वो पड़्या मरो, तव खवास वाको फुरमायां जो तुम जाई हमारी तरफ सो खवरी ले आवो।

श्री महाराजा जी सलामती। पातसाह जी फरासखाना का दरोगा नै फुरमाया जो सारा परदा दुतरफां वड़ा करो हम तीसरै पहैर जारती को जाहीगे तव दारोगै सरा परदा वड़ा करी अरज करी जो तयार हुवा है। तव पातसाह जी खोजे को फुरमाया जो खवरी ल्यावो जो कुण कुण ऊमराव आवे है तव खोजे ने तहकीक करी अरज करी जो महावत खां आया है ओर कोई ऊमराव आया नही तव पातसाह जी फुरमाया जो महावत खां को हजुरी बुलाई ल्योह। तव महावत खां जी हजुरी जाई सलाम करी, तव पातसाह जी आगै बुलाई फुरमाई जो आगै तुम्हारा वाप हमारी खूब खबरदारी राखे थां तुम भी ऊसी भाती खबरदारी राख्या करो आजी तुम्हारा वड़ा मुजरा हुवा जो सवके पहैली आप छडे रहे। फेरी पातसाह जी बसार मुवारक जनाने समेती पयाद हो गये अर ऊहा सो उलसखाने का नवाव महावत खां को ईनाईत कीया, फेरी साझ को दागील दोलतीखानो हुये तव उलस मे वैया फेरी भेज्यां अर पातसाह जी वहीत म्हेरवानी फुरमावै है अर साहीजादा अजीमसान भी वहीत म्हेरवानी फुरमावै है। पाचवै सातवै दीन हमेसा नवाव पातसाहजादाजी कै मुजरा नै जावो करै छै जी।

श्री महाराजा जी सलामती। पातसाह जी सरै असवारी<sup>2</sup> साहजादो कों वा ऊमरावो को फुरमायां जो हमा छाऊणी रोपड़ करैगे<sup>3</sup>, सब साहीजादे वा ऊमराऊ हवैली रोपड़ में करों ईसका नाऊ हम जीहागीरपुर मुकरर कीया है अर ईहा सो

1. बाया हाथ मै=बायें हाथ में।

2. गरी सवारी=गाड़ी सभियान के समय घोड़े पर सवारी।

3. छाऊणी को स्थापना करैगे।



साहजीहानाबाद भी नजदीक है अर लाहोर भी नजदीक रहै है । अर दरे का मुढा बंद रहैगां । पहाड़ो के रांजा गरू की मदती करी सकोगे नही अर गरू भी पहाड़ को भाजैगां तो जाई न सकैगां । अर पातसाह जी चाहै है जो पातसाहजादा जीहादारसाह बहादर वा रफीलसाहा बहादर को जीहानाबाद की तरफ बीदा करूं अर महैमद करीम की साथी फोज आदी दे अर लाहोर को भैज जी । अर नवाब रूसतम दील खां अरज करी जो मेरै ताई गरू उपरी हुकम होय अर हजरती सतनंज<sup>1</sup> उपरी छाऊनी करै, सो पातसाहजी मजुर करी अर फुरमाईणा । पातसाहजी का श्री...जी को मालुम है जी सौ जो ठहरैली वा ठीक पड़ैलो सो पाछा थे अरज लीखो लो जी । अर गरू का फीसाद लाहोर की तरफ बहोत है अर लाहोर के कसबे कै ताई आगर खा वा आगर खा का बेटा वां महमद रफी फतुला खा का भतीजा ले रहे है नही तर कसबा लुटी लीया होता जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । चेला पातसाही दवाब सरवराह कै वासतै भंडारी सौ वा बंदा सौ आय ताकीद करी तब भंडारी वा बंदा चेलो को साथ ले असवार होई नवाब महाबत खा कै डेर गये । नवाब खीलवती मै बुलाई लीये अर राजों की हकीकती पूछी, तब हमों अरज करी जो चेले दवाब के वासतै आये है सो जो नवाब की खात्री में आवै सो फुरमावै । तब नवाब चेलो कों बुलाई फुरमायां जो दाम ईनके कटें है सो ईनके ताई दामो की जागीर का परवाना ध्रौह वे दवाब सरवराह करैगे । तब चेलो ने नवाब सौ अरज करी जो परवांना हमारै तालीकै नहीं, हमारै ताई दवाब सरवराह करांवा को हुकम है । नवाब फुरमायां जो तुम जाय हीदाईतुला खां के ताई कहो तब चेलो अरज करी जो नवाब का भी ऊक्रील बुलाया है । तब नवाब भी यही जवाब दीया जो मेरे भी दाम कटे है सो जागीर ध्रौह मै भी दवाब सरबराह करूंगां । तब नवाब दोन्यौ राजो की बेई अरजी लीखी अर स्याह कुदरतुलां कों पातसाहजादा जी कां दसकता कै वासतै सोपी है सो जो दसकत होय आवैला सो पाछा थे अरज लीखौलो जी ।

श्री महारांजाधीरांज सलामती । जमा खरचं खांनाजाद ३ हजुरी भेज्यां सो तीनका दाखीला अब तक हुवा नहीं अर हवालगीरी बंदा के नाई मडी है सो मुत्सदी हजुरी का नै हुकम होय जो अरज करी अर जमा खरच को दाखीलो करांई देह जी । अर हवालगीरी खानाजाद का नाव सो दुरी होय जी ।

श्री महारांजाधीरांज सलामती । भंडारी खीवसी बंदे सौ कहां जो महारांजा अजीत स्यंब को मेरै नाई परवाना आया है जो हम साभरी<sup>2</sup> ताई आवैगे अर

1. सतलज ।

2. सांभर ।

साभरी सौ कुच तब करेगे तब पातसाहजादाजी को नीसाण कावील की मोकुफी का आवंगा। तब भंडारी जी वा खानजाद आपस मे सलाह करी नवाब महावत खा जी पासि गये अर अरज कराई जो कुछ खीलवती मै अरज करणी है। तब नवाब खीलवती मै गुलाई लीयां। तब महाराजा जी का परवानां सब नवाब को पढायां अर सब हकीकती अरज करी। तब नवाब अरजी करी अर स्याह कुदरतुला के हवालै करी जो साहजादे जी का नीसाण सीताव कराई धीह। तब कुदरतुलाह साहजादे जी के दसकत अरजी उपरी कराई हकीम सलेम कै हवाले करी तब हकीम जी नीसाण तयार कराई अर महारांजा अजीत स्यंघजी का नीसाण वा हसवल अमर हकीम सलेम की महोर सौ भंडारी के हवाले कया जी। अर श्री...जी के नीसाण वा हसवल अमर हकीम की महोर सौ खानाजाद को सोप्या सो हजुरी भेज्या है, सो सब हकीकती अरज पहुचैली जी।

श्री महारांजा जी सलामती। राठोड़ो के यह मजकुर हुवां जो महारांजा अजीतस्यंघ जी की फोज म्हारोठ परी गई। तब वंदे भंडारी सो पुछ्या जो तुम्हारै क्या लीट्या आया है। तब भंडारी कहा जो मै महारांजा जी को अरज-दानती करी है जो जै मारोठ भागैगे तो मै ऊठी आऊंगां, यहा पातसाह जी सौ थोर ही भाती अरज पहुचैली सो यह सीवा कराया सब वीगड़ी जाहीगां। सो महारांजा अजीत स्यंघजी की फोज म्हारोठ कोई जाई नही अर सीताव हजुरी पधारैला सो हकीकती अरज पहुचै जी।

श्री महारांजा जी सलामती। यह मोसर वहोत खुब है जै दोन्यो राजो का पधारणा ईस ऊकत मै होय तो वड़ी सलाह दोलती है अर जै गरू भाजी जाय अथवा आई मौलो तो तीस पाछे पधारण श्री...जी ने मालुम है जी। तीसो वंदा वार वार अरज पहुचावै है जी जो दोन्यो रांजा अैसे मोसर मै पधारै तो नीपट चुत्र ही जी। पातसाहो के फुरमान के वासतै वहोत पईसे खरचै है तब नीठी हाभील होई है सो पातसाह जी नै फुरमान महारांजा अजीत स्यंघजी नै वा श्री ...जी नै अजरूय महरवानगी वा वंदनीवाजी सौ आप हीम रैहैमती फुरमाया है सो अैसे उकत मै दोन्यो राजों का पधारणा होय तो संसार मै वडा जस होयजी अर जै पातसाहजी दीली जाई तो अमर नाव होय जी, अर दीखणी मै फीसाद वहोत है सो जी उहो को वीदा करै तो वडा काम होयजी। सो वंदे की तो अकली मै यही आवै है जो जेतै सीताव पधारै जेता ही वडा जस होय जी ती सोबाई जो छात्री मुवारक मै पसंद आवै सो जवाब वंदा नै ईनायत होय जी। अर राजा गोपाल स्यंघ भद्रोड़्या नै आगे खत ईनाईत हुवा थां सो उनको पहु-चायां अर ऊगका जवाब लिखी गोपाल स्यंघ जी वंदा को सोप्या था सो हजुरी भेज्या है सो नजरी गुजरैलो जी। अर नवाब महावत खा को भी खत लीखाइ हजुरी भेज्या है तीसो सारी हकीकती अरज पहुचैली जी।

कीक करी अरज करो तब महावत खां जी हीदायती केस खांवाकानीगार<sup>1</sup> कुली सो तहकीक करी अरज पहुचाई जो टीके का फुरमान वां जमीदारी का वा सीरोपाव वा घोड़ा दोई वा हाथी येक वा माला मोत्या की हमेसै<sup>2</sup> टीकै की पावै है । तब पातसाह जी फुरमायां जो सब तयारी करी सीताव चलावों अर महाराणा का कीताव दीया सो अरज पहुचै जी ।

श्री महाराजाजी सलामती । आगै तो परगना मौजावादी की खरीफ को तुमवार<sup>3</sup> ईनाईत हुवो थो अर अबै स्याम स्यंघ खंगारोत रबी की आफती को तुमवार रूपया १५४०) को ओर करि भेज्यौ सो बंदे आगै अरज पहुचाई थी जो वे कनो स्यंदा काम करदा वाकीफहाल जो जवाब साल भलीभाती कचहैडी मै करै सो हजुरी सो ईहा आवैज्यो जगजीवनदास उकील के साथी जाई हीदायतुला खां जी के रदबदल करी मामलो फैसली करै सो ईस बात का जवाब ईनाईत न हुवा । अर केसरी स्यंघ जी का गुमासता साहुकारा नै जाई दबावै तब साहुकार या जवाब देह जो म्हाकै पईसा तयार है थे आपणो मामलो फैसलि करो मेह पातसाही दरवार मै कोई जावा नही ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । परवाना हीदुई करार मीति बैसाख सुदी १४ का मै हुकम आया जो परगना मोजावादी की कीसती का रूपया की हुड़ावणी केसरी स्यंघ का गुमासता कनै दीवाज्यौ । श्री महाराजा जी सलामती । बंदे तो या अरज लिखी थी जो मोजावादी की पहैली कीसती का रूपया सरकार को गहैणो गहैण धरी अर ब्याज बाधी वाई गुजरात्या नै दे अर केसरी स्यंघ जी का गुसामता नै रूपयां दीयां था अर हजुरी सो हुकम आयां जो गहैणो तुम छुड़ाय लीज्यौ, सो माफीक हुकम ब्यापार्या के नाव ई साले गहैणो छुड़ाया सो इन रूपयों की हुड़ाई ब्यापार्या काटी लीई सो सरकार का गहैणा की धीवाई वा ब्याज लागा सो तो सरकार मै नोटावड़ेगां ती वासतै बंदे अरज लिखी थी अर हुड़ावणी<sup>4</sup> तो ब्यापार्या काटी ले रूपयां दीया जी ।

श्री महाराजाजी सलामती । हुकम आया जो पेसोर का बाग का कागद दसतुर का हजुरी मै नही अर तुम उहासी वाकीफहाल<sup>5</sup> हों सो जीसमै कीफाईत सरकार वा आवादानी रैयत कि होय सो करवाज्यो । सो माफीक दसतुर कै तो बंदा वाकी फहैवणी जब ताई ऐक वार हरचैन ऊहा न जाई तब ताई ऊहाकी रैयत कि दीलासा न होई, तब ताई हासील की कमी होयगी, तीस वासतै हरचैन कै

1. सूचनाएं प्रेषित करने वाला ।

2. हमेशा ।

3. विवरण ।

4. हुड़ावणी=हुण्डी जारी किये जाने पर लगने वाला कमीशन ।

5. वाकीफहाल (वाकिफ-ए-हाल)=स्थिति की जानकारी रखना ।

नाई परवाना ईनाईत होय जो ऊहा जाई रैय्त की दीलासा करी आवी ज्यी ऊहाका हासील नमी न होय जी। अर बीना गये हरचैन के ऊहाकी रैय्त कि दील न होय जी अर बागवान वंदा पासी आये थे तीन की हर भाती दीलासा करी पाघ बंधाई सीख दीई जो साख का ऊकत है तुम ऊहा जाय आवदानी करो।

श्री महाराजा जी सलामती। मी० डीगार्यो परगना धोसा को वे वाजी दस को नवाव महावत खां का सगानैर है यांसो सरकार नवाव की वसत ले भागी व यांसो नवाव का परवालखाना का दरोगा की महोर सी फरद हजुरी भेजी है सो धोसा का आमीला न हुकम होय जो ऊसी पैदा करी नवाव की वसत ले अर हजुरी भेजै अर वसत देवा मै ऊजर करै तो उसका मातवर जामीन ले अर उसकी साथी आदमी दे अर ईहा भेजैज्यी ऊसका जवाब वा करी लेह नी। ईसके वासत नवाव वंदा सी बहोत ताकीद करै थे जो वसत मै आदमी सीताव आवै।

श्री महाराजा जी सलामती। दवाव की अरजी की फरद स्याह कुदरतुलाह को दसकत पातसाहजादा जी का के वासते सोपी थी सो स्याह कुतरतुलां साहीजादा अजीमसान जी को गुजरानी तब साहीजाद जी फुरमाई जो तुम फरद महावत खां को सोपी हम पातसाह जी की हजुरि जाहीगे तब महावत खां गुजरानैगां तब स्याह कुदरतुलै फरद नवाव महावत खां जी नै सोपी। सो अब ताई फरद उपरी दसकत हुये नही, जब सो साहीजादी आपस मै गुफतगोई हुई है तब सो पातसाहजी सब ऊपरी गुसरहै है, दीन मै तीन वारी मुकररी दरवार करै है अर जो कोई अरज करै है तीसै बददीमागी का जवाब दै है। अर हीदायतुला खां जी का चेला वा जसोल दवाव के वासतै पचोली जगजीवनदास सो ताकीद करी थी। तब जगजीवनदास जसोल वा चेला नै वंदा पासी ले आया तब वंदे जसोला नै जवाब दीया जो श्री महाराजा जी का दाम दवाव मै काटी लीये है सो उनकी जागीर हमारै ताई दीजेज्यी हम दवाव अब ही सरवराह करै। हमारै ताई हमारै छावदी' का हुकम है जो दवाव सो कोई भाती उजर करो मती। जागीर देह तब दवाव सरवराह कीज्यै अर ईन दीन मै दोन्यो राजों की दवाव की भी ताकीद हुई नही है जी।

श्री महाराजा जी सलामती। जुलम्माना के वासतै वंदा नै हुकम आयां जो जीस भाती जाणो-जीस भाती फैसली दीज्यो अर जगजीवनदास को भी हुकम आया जो फलान की मारफती मुकदमां फैसलि दीज्यो सो पचोली मजकुर वंदा पासी जुलम्माना का चेला ले आया तब पचोली कही जो दरोगा वा मुसरफ रु० ६०) वा चेला रु० १०) पावै है सो धीह सो रदयदल करी रूपया ३१) दीयां

1. नासिक=स्वामी।

अर पचोली जगजीवनदास की कवज ली है जी अर या करार कीया है जो जब ताई श्री महाराजा जी हजुरि पधारै तब ताई फ़ैरी आदमी न भेजै जी ।

श्री महाराजा जी सलामती । परगना मोजाबादी नै साहीजादा रफीसानजी की सरकार का फोजदार, अमीन, कीरोड़ी बीदा होय थे सो बंदा मोकुफ रखाये थे तीस की बंदे आगै अरजदासती करि थी सो जवाब ईनाईत न हुवा सो उमेदवार हु जो जवाब सीताव ईनाईत होय ती माफीक बंदा अमल करै जी । दरवार की हकीकत सारी वाका की फरद सौ अरज पहुचैली जी । मीती असाढ़ वदी ८, स० १७६८ ।

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा

॥ श्री महाराजा जैसिध जी

। : । स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलानं  
खानजाद खाकपाय पं० जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जी जी ।  
अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छै, श्री महाराजा  
जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जी जी । श्री महाराजा माईत है,  
धणी है, श्री परमेसुर जी री जायगा है । म्है श्री जी रा खानाजाद हा । श्री  
पातिसाह जी श्री महाराजा जी थे महरवान है । श्री महाराजा जी सुख पावजी  
जी । पान गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जी जी ।

अप्रच परवानो खानाजाद नवाजी की आयो, सीर चढ़ाय लीयो, तमाम  
सरफराजी खानाजाद नवाजी हुई जी ।

परवानां मै हुकम आयो ज हीदवी अरजदासत भेज्या करो, फारसी मत  
भेजां सो हुकम मवाफक हीदवी ही अरजदासतां भेजसुं जी । अर हुकम आया  
पछै तीन अरजदासतां चली है, चौथी या अब अरजदासत है । सु दरवार का  
समाचार मालुम हुवा होसी जी । खानाजाद नवाजी का परवानां भी पै दर पै  
ईनायत हुवा करै जी । हीदायतुला खां जी श्री जी का काम नै वोहत चाहै है;  
जाणे हे जी पांच बरस सुं खानखानां ई काम नै हुवो चाहे थो सु खानखानां ई  
आरजु मै ही भर गयो । सु अे सोवको काम म्हारा हाय सुं हांय तो हीदसतान  
म म्हारो नांव अबदा आवाद ताई रहै । अर बडा राजा है हीदसतान का थंम<sup>१</sup>  
है । अेना राजां उपर म्हारो अहसान होय, जस पाऊला । लालची न्हे, चोर न्हे,

1. म्पम्म ।

पको दयानतदार है । ईनायतुला खां जी हीदायतुला खां जी मनसाबाचा श्री जो का भांत भांत का काम करबा उपर है । यां दोनु बाप बेटा का हाथ सुं भली होसी तीमे ये कोताही न करसी । खांनाजाद रात दीन हमेस यां के रहे है हाजर, तीपर अठे भंडारी जी व दीवान जी नै भी खीलयत मे बुलाया है, सरपाव जुदा कीया है । पग भंडारी जी कदही तो कबुल करे है जमीलसा, कदही कहे हे महाराजा श्री अजीतसिघ जी नै लिखो पण जवाब न आयो जो आपसुं<sup>1</sup> जावां तो महाराजा बुरो माने है । अर दीवान जी कहै है जागीरां को तो सब काम हीदायतुला खां सु पड़ो है अर अबार वे बाप बेटा मनसुध आपणो काम कीयो चाहे हे । ईसा वकत मै चाल खुफया मील जे कही पर जाहर न्होय, अबार चंद रोज टालो दे बेठसां अर वो भी ई गमाज पकड़सी तो चंद रोज पाछे भी काम ने जासां तब लजत न्ही, तीसुं पहर रात गया मील आसां, पछे वकील तो रहो करसी ती पर हीदायतुला खां जी सुं कही, ज कही दीन पहर देठ पर रात गया पछै दीवान जी भंडारी जी ने ल्यासां ती पर खां भी कबुल करी कहे जद आवौ तब पहली खबर कीजो, पहर पछै वुलाय लाजो । सु अब ताई तो चला न्ह चलसी तो जो रदबदल होसी सु अरजदासत करसु । पण मीलणो मसल्हत हे जी फेर तो जेसो हुकम आसी तेसो करसा जी, पण जीतरे न मीले तीतरे काम भी जारी न होसी । दीवान दो येहै काम सब यांसुं रजु है । भंडारी जी, दीवान जी साहजादा ने अरजी दी थी सु हुकम हुवो हकीम सलेम फेर म्हांसु पुछ हीदायतुला खां पास सबने साथ ले जाय सु सहजादां के नदी पछे वहदो है तीसुं फेर न पुछौ है हीदायतुला खां को साहजादो ही मुरवी है । दवाव सरवराही का पातिसाह जी शहनवाज खां मुजफर जंग की तोजीह उपर दसखत कीया है जीकी नकल हजुर भेजी है । असतबल का दारोगा के पेसदसत दीवान भीख्यारीदास जी ने रूको भेजो थो सु दीवान जी रूको खांनाजाद पास भेजो अर आपको रूको भेजो सु वजनस हजुर भेजो है ।

सु दवाव का दांमां को काम भी हीदायतुला खां सुं है । श्री जी लिखो है देवती सांचारी के मअजावाद में दांम लीजो । सु देवती सांचारी तो खान्दमे हे, मअजावाद रफीशानै है अर पातिसाह जी मुजफर जंग की तोजीह पर असा दसखत कीया है सु दवाव का लोग तो अब असा लागा है ज लिखण मे न आवे । वोहत उमरादां तो दवाव सरवराह करी ओर करना ही जाय हे । अमीरल उमराव तो आसफदोला का आपका दांम ले दवाव सरवराह करी अर आम कने तो दीना दांम दीयां ही सरवराह करावै है । अर कोई जवरदस्ती मु कहे हे ज दाम लियां वीगर हरगज दवाव मरवाह न करुं तो चांथाई दांम मनसव

की तलव का मुतालवा<sup>1</sup> तसरफ<sup>2</sup> मे खलासा महाल काट ले हे अर दवाव मे दांम कटा है सु दे हे । दवाव मे दांम तो मवाफक ही कटा है सु दीजे अर मुतालव तसरफ मे तो चोथाई मनसब की काट ले । तीसु अव दांमा को भी झगड़ो उमरावा छोड़ दीयो अर दवाव सरबराह करण लागा । अव श्री जी की दवाव वासते फेर नकीव लगा है अव देखजे रदबदल करतां करतां कांई चुकै, जो चुकसी सु अरजदासत करनुं । साहजादो अजीमशं दवाव सरबरा ही नै बजद है, भांत भांत का दसखत कर भेजे है । हीदायतुला लागु है ज खाहनाखाह उमरावा सु दवाव सरबराह करावे । तीसु अव श्री जी दवाव सरंजाम कर भेजजो जी । साहुकार पर हुकम आवे ज माह दर माह बराबरद<sup>3</sup> मवाफक दया जाय । मुसरफ तहवीलदार मुकरर कर भेज जै जी ।

अव ताई तो श्री जी व म्हाराजा अजीतसिध जी की वीरादरी को काम वंद थो । अव तो श्री जी कुच दर कुच पधारे है । नारनोल पोहचां की तो सवान्ह सुं अरज हुई नै सुं अव ताई तो उरै पधारा होसो जी । सु अव वीरादरी की तलव लेणी है सु भी हीदायतुला खां जी सुं ही काम है ।

महावत खां जी वानाशहीया सु कहो आपकी तलव के वासते हीदायतुला खां ने वेईजत करो । ईतरा मै वालासाही व फतहुलाखां नी महमद अमीखां की साथ तईनात हुवा, तव या आपकी तलव कै वासतै हीदायतुला खां को घर घेरो, तंग कीयो । तव हीदायतुला खां अरजी की ती पर अमीरल उमराव ने व मुग्रलस खां नै ईसलाम खां तोवखांना का दरोगा ने हुकम हुवो, मुखलस खां, ईसलाम खां तोवखांनो लेवां पर गया, सब ने ले आया वा अरज करी महावत खां का कहा सुं ईतनो म्है कीयो । तीपर महावत खां जी उपर अंतराजी हुई । सीरा की चौकी दी थी, खांखांना की होड़ सुं दुर कर सीरा की चौकी अमीरल उमराव ने दी, पंसदरामद था सु मने कीया । अंत्ररी रीसाला का दरोगा था सु रीसालो ही सब वरतरफ कीयो । ती पर महावत खां जी अजार को वहानो ले वेठ रहा था । सु ये समाचार तो पै दर पै अरजदासत कीया है । अव महावत खां चंद रोज दरमोयान दे अव मुलाजमत की दुसरी चौकी मे दाखल हुवा, अव ताई अंतराजी मे ही है । पण पातिसाह रहीम दील<sup>4</sup> है घोड़ा दीन्मे म्हरवान होय जासी । अव रोज व रोज म्हरवानी करै है जी ।

धानं सु रकेके कुरछेव पास आय चंद रोज का मुकाम कीजो जी । जुं वीरादरी की जागीर ले चुका तव आगे पधारजो जी ।

1. मुतालवा = मंसबदार के प्रति राज्य की वित्तीय मांग ।
2. तसरफ = नियन्त्रण ।
3. बराबरद = बाराबरी सवार ।
4. रहीम दिस = रहमदिल ।



गुरु पर म्हमद अमी खां व गाजी खां रुसतम जंग गया है, सब फोजदार, जमीदार है। अब ताई कुछ गुरु को मुकाबलो वणो न्हे, लड़ाई फोजां सु होय है, गुरु की तहकीक खबर न्ही कहा है जो ठीक होसी सु पाछां सु अरजदासत करसु जी। कोई तो कहे हे गुरु भागो मु पहाड़ का राजा के गयो, कोई कहे है गुरु जखमी है, कोई कहे गुरु ताई फोजां गई न्ही लोग ही लड़े है, तहकीक कुछ न्ही अर पातिसाह जी तो म्हमद अमी खां व गाजी खां रुसतम जंग ने सरपाय माही जुदी ही कर चुका है सु अब भेजसी।

चीमां जी की जागीर पर पहली ही दसखत हुवा था ज खालसो करो सु ही दसखत है। जवती का परवानां पहली ही लीख्या है सु दफतर मे धरा है<sup>१</sup>, चला न्हे। दलेर दील खां व वालाशही लोग चीमां जी की जागीर लेण को हुकम ल्याया था सु अरजी दफतर मे धरी हे हजुर चली न्हे।

दखण को गनीम अवताई नरवदा वार ही है पार गयो न्हे, मालवा नै लुटे है। अठा सुं वेकी तंबीह की कुछ फीकर न्ही। जद वाका सु अरज होय है तव योही हुकम होय है सुबेदार, फोजदारां नै लिखो तंबीह करै।

राय राजा सुं मउ' को परगनो तगीर कर खालसे कीयो थो सु जहांदारशह की अरज सु फेर राय राजा ने बहाल कीयो।

क्रांम वकस का तोपखाना का लोग खानखाना के रीसाले था सु वांकी तलब चढ़ी, महाबत खां जी दै न्ही। तीपर असाढ़ सुद ५ खान खाना के सब तोपखाने पहली तो राय भगवंत सु डेरे सोरसरावो कीया तब भी नवाब तलब न दी तब नवाब पातिसाही दरवार आया गुलाल बाड़ के दरवाजे नवाब की पालकी फीरतां रोकी। सोटा, पथर, धुल फुराटो बोहत कीयो, डेरै आवण न दै। घड़ी दिय हगामो राख्यो, तब मीनत मया कर डेरे ले आया। राजे खां, खानखाना के खानसामां थो अर नवाब के भी अब वोही खानसामा थो अर तोपखानां को दारोगो थो, वेने आपका दीवानखाना मै बोहत मारो, बेईजत कर मुसका बांध सीर उघाड़ै आपका बाजार मै फेर<sup>२</sup>, पठाणां के हवाले कीयो अर तोपखानां की तलब राय भगवंत नै कही दौ। राजे खां सात सदी को मनसब राखै है। खान जमां खां वेकी पख राखे थो तीसुं मारदी सु अब यै भाई भाई भी अणरस हुवो, घर फुटो देखजे काई होयजी।

। सां० १७६८ अषाढ़ सुदी ७ भोमत्रार गजर वाजतां हीदायतुला खां ने पांच सदी जात ईजाफे हुई अर झालरदार पालकी वकसी जर दोजी।

- 
1. रखे हुए हैं।
  2. महु।
  3. फिराकर।

। सांभर, बेराढ, सीघाणे खानखानां का रीसाला नै तनखाह हुई ।

। राजा उदोत सिघ जी नै देस की सीख हुई सरपाव हाथी दीयो, रफीअशं सरपाव समसेर दी, छत्रसाल बदेला से लड़वा जासी, देस मै भी फोज राखी है ।

महाराजा सलामत । खानाजाद आपकी परेसांनी कहा ताई लिखुं न डेरो, न कपड़ो पहरण नै न खाण ने न उट । सु खानाजाद की तो सहल है जी भांत रहै ती भांत सभादत है । पण ईजत है सु सरकार की है । आगला वकीला के तो सरा पड़दा डेरा कै होता, दस दस घोड़ा पालकीं, बीस बीस उट तोसाखानो होत अर खानाजाद तो बीखो भोग बढकी करै है सब सरम परदाखत श्री जी ही करैला ।

। राजा उतमराम भी रुकसत को तलास करै है । भुसावड़ की, हीडोण की, भीम का तोड़ा की फोजदारी फीरोजमंद खां, फीरोज खां मेवाती का भाई न हुई । शह अजीमशं हकीम सलेम सुं ऐतराजी कर खीदमत तगीर करी दीन पांच छह सु हकीम सलेम दरवार जाय न्है ।

लालसोट का परगनां का सतर लाख दाम दीलदार खा ने तनखाह था सु वेंमु तगीर हुवा, अबदुला खां वगेरह महाबत खां की बीरादरी नै हुवा । सु नुसरत यार घां ने परगनो सोपे हे सु जो परगनो सरकार मे इजारे लेणो होय तो ठीक कर लिखजे । आगे कौतनां ने ईजारे थो, आगला जागीरदार का मुतसदां ने कांई कारताजी देई थी जो मुसकस हुकम आवै । अर सराफ<sup>1</sup> की माल जामनी आवे तों घांगु रदबदल कर फसल करां ।

। गुरु भागो सु पहाड़ा मै गयो फोज पाछे हे खबर है वरेली की तरफ जासी ।

। चुड़ासन जाट नै साहजहानां वाद सुं ले आगरा ताई राहदारी हुई । महा-वत घां स्पाहो दीवानी मै दीयो ।

। गनीम अब ताई दखणी मालवा मै है ।

। राजा मुसलम खां की पांच सदी जात पांच सै असवार कम कीया सेर अपगन खां का लीखा सु ।

1. मराठ ।

क्रम संख्या ४५

वकील रिपोर्ट संख्या ६३

श्रावण सुदी ३, संवत् १७६८

श्री गौपालजी सहाय

श्री महाराजाधिराज महाराजा

श्री जैसिघ जी

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलानु खानाजाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखत तसलीम बंदगी अवधार जौ जी । अठा का समाचार श्री जी रा तेज प्रताप थे भला छै श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद करावजौ जी । श्री जी माईत है घणी है श्री परमेसुर जी री जायगा है म्है श्री जी रा खानाजाद बंदा हां । श्री पातिसाह जी श्री महाराजाजी थे महरवान है । श्री जी सुख पावजौ जी । पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जौ जी ।

खानाजाद नवाजी रो परवानो आया वोहत दीन हुवा सु बंद नवांजी रा परवानां सासता ईनायता कीजौ जी ।

आगै अरजदासत पै दर पै हजुर भेजी सु नजर मुवारक गुजरी होसी जी । साहजहाना (वा)द उरै कुरछेत्र जी की नवाह मै मुकामात फुरमाय अरजदासत व खत भेजेला जु दांम वीरादरी का लां जी ।

पातिसाह जी व्यास नदी असाढ सुद ऽऽ गुरवार पुन कराह पर उनरा अजीमशं सुवारी के पाछै पाछै चला गया । पातिसाह जी सुवारी मै हजार सुवार भी न था अर अजीमशं की सुवारी मे सुवार हजार छह मान था ओर तीनु साहजादा पार उतर गया था, सु पातिसाह जी तो पार उनरा अर अजीमशां जी का डेरा वार ही हुवा । पुन उपर जहांगाह<sup>1</sup> की अहनमान<sup>2</sup>

1. शाहजादा जह.वाह ।

2. महवमानः इतिमान=नगर का बंदोबस्त ।

यो सु उठ गयो, अजीमशां की वाड़ी जाय खड़ी हुवो, ज आधी रात नै नदी चढी पुल टुट गई। अजीमशां जी का डेरा मै गोड़ा सवां पाणी आयो सु रात नै तो जनानी सुवारी हाथीयां उपर रही सवार हुवा पाछै जठा सु डेरा टुठ गया था अर नदी पर गया था सु फेर तीन कोस आय डेरा कीया। पातिसाह जी सु गांत भांत की अरज हुई सु असाढ सुद १० रात नै साहजादा जी नै हुकम आयो ज तीन कोस फीर जाता मसल्हत न कीजो, दरयाय चढो थो तो कोस आध कोस फीरता अय सीताय कुच कर नदी के मुतसल उतरजो सु असाढ सुद ११ म्हे बरसतां ही साहजादो जी कुच करौ, ऐक कोस कुच करौ, असाढ सुद १५ चढी नदी मे ही नवाड़े चढ हजुर गया। पहर देढ पातिसाह जी की हजुर रह फेर नदी वार नवाड़े वेठ आयो। पातिसाह जी तो उतर गया पण लसकर सब वार पड़ो है, नावां लसकर उतरै है जी।

असाढ सुद १५ तो कुछ मजकुर न हुवो। सावण वद १ बुधवार शाह कुदरतुला जी की मारफत हुकम शहजादा जी को हुवो ज राजा नै लिखो बरसात मे आहसते आहसते आवै, बरसात सतलंज पार करै। तव भंडारी जी व भीखारी दास जी शाह कुदरतुला जी सुं पुछी ई वात सुं पातिसाह जी बुरो माने तीको काई जतन? तव कुदरतुला जी कही पातिसाह जी की मरजी भी इस्मै है। तव पुछो कुं कर जाणजै? तव कही—जहादारशाह रफीअशां पास छह छत हजार सुवार है अर दोनो राजा पंदरा, सोला हजार सुवारां सु हजुर आवै है सु अजीम कहे अर लसकर मै हीदु मुसलमानं सब अजीमशां का है, जागीर देणी वे को अखतयार लोग वै आपका कीया, ती पर पातिसाह जी नै भी अजीमशा की तरफ सु उसवास रहो सु अय उसवास गया ज पुर उरै हजरत की सुवारी मे हजार सुवार न थै अर ईन पास छह सात हजार सुवार थे। जो ईनका बीगाड़ करणा होता तो असा वकत कद पावै? सु पातिसाह जी न भी जाणे ज ये वाअेतकाद है ये शाह कुं पुछा राजा दोनु कहां आये, गव अरज की नारनोल पास पोहर्च अय हजुर आये तव फुरमायो बरसात है, आहनतै आहसतै आये, दो वार शाह कुदरतुलाजी अजीमशां जी पास आयो गयो अवाय सुवाल ल्यायो तव शाह कुदरतुला कही ज हसबल हुकम महाबत खां को मोहर नु दीरासां। महाबत खां जी तो पार है। सावण वद २ गुरवार शाह अजीमशां जी भी लसकर सुधा पार हुवा अर लोग पार होतो जाय है। खानाजाद तो पहर की अरजदासत मै ही अरज लिखी है ज कुरुछेत्र के नजीक रहै ज सु धीरादरी की सनदां लां। श्री जी सलांमत। जो बणे है सु श्री जी का प्रताप नु बर्ष है जी। चार महीनां की फुरसत पाछै जो भली होसी सु श्री जी का प्रताप नु होसुं जी। तीसुं धीरज सुं तो चला आजो कोस दौय को कुच कीयो, पांच सात मुकाम कीया, ई भांत पधारजो अर पै दर पै अरजदासत गत

भेजता रहजे । हुकम मवाफक चला हजुर आवा हां, ईतरा मे ज मतलब है सु सरंजाम करलेसा जी ।

गुरू पहाड़ा मै भाग गयो फोजा पाछै लागी है । पहाड़ का रा सुजा भी सब जमा हुवा है देखजै कांई चुकै वे पास ज्मयत बोहत है ।

मालवा सु गनीम अब तांई गयो नही सब सुबो खाक सपा कीयो अठा सुं कुछ तबीह की फीकर न्ही फुरमाई ।

राजा उदात्तसिघ देस गया वांकै देस मै पठाण चाकर राख्या है अर छत्रसाल के फोज है ही अर वैको बेटो हीरदै नरायन दस हजार पठाण चाकर राख उदात्त सिघ को मुलंक सब खाक स्याह कीयो । अब देखजे बुदेलखंड मै कांई उदरह होय ।

चीमा जी की जागीर खालसे है जबती परवाने तयार हुवै है ओर सब हकीकत भंडारी जी अंक पलवी मे महाराजा श्री अजीतसिघ जी नी लखी है सु जाहर होयलीह जी । अर दीवान भीखारीदास जी की अरजदासत सु सब समाचार मालुम होसी जी । खानाजाद आपको डेरो दीवान जी पास ल्यायो हुं कवीला समेत दीवान जी पास रहुं हुं जी । अब तांई खानाजाद आपकी परैमानी की केई अरजदासतां भेजी पण म्हारी शुं मी दीसा कीसुं कुछ परदाखत नहुई । अब दीवानजी भंडारीजी आखो देख अरजदासत की ही होसी । उमेदवार हुं आज तांई की तलब चुकाय पाउ आगां सुं कही साहुकार पर हुकम आवै ज अठा का अमला फेला सुधा महीनो दीयां जाय तो कुत सुं आज जतर हुं अर सब दरवार का चोबदारां ने ईनाम सदा पाय आया है सु पाउ तो दरवान सोर न करै । खानाजाद नै तो सब ठोड़ जाणो पड़ै है जी ।

भंडारी जी अर दीवान जी ने शह अजीमशां कही हीदायतुला यां पाग जावो । अब भंडारी कहै है पहली गुलाल चंद कीं म्हाकी तरफ मं ने जावो श्री जी की तरफ सु थे जावो ही ही सु अब गुलान चंद ने हीदायतुला या जी पाग ने जासुं फेर भंडारी जी ने दीवान जी ने ले जांमं । जो रदबदल होमी म् दीवान जी अरजदासत करसी । महाराजा सलामत । आज दीवान तो ये ननग्रा नेगो यांका हुकम मे तीसु यांसु राह दुरसन कीया है ईंमु राखतो दुरमन र्हो तो जागीरां के ई लांजे ली जी ।

दीवान जी कनै हमीदुदी खां की बकसीगीरी की मुवारकवादी को खत भेदां यो सु खानाजाद नै दीयो म् गुजरान म् जी । अर जो रदबदल होमी म् अरद...

श्री रामजी साय छं जी ।  
महाराजाधिराज महाराजां  
श्री जैसिघ जी

सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री.....चरन कमलानु खानाजाद खाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं । तसलीम वंदगी अवधारजो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला है श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है घणी है, श्री परमेसुर जी री जायगा है । म्है श्री महाराजा जी रां खानाजाद वंदा हां जी । श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी सै महरवान है । श्री महाराजा जी मुख पावजो जी । पान गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फरमाय जो जी ।

श्री महाराजा सलांमत । आगै पै दर पै अरजदासतां करी है तांसु सारा समाचार अरज पहुच्या होसी जी । पण दोय महीना हुवा जु खानाजाद नवाजी का परवानो ईनायत न हुवो सु उमैदवार हुं जू वंदानवाजी का परवाना पै दर पै ईनायत होय जी ।

श्री महाराजा जी सलांमत । मी० सावण वदि १० सक्रवार दीवान भीखारी दास जी नदी पार उतरा व सावण वदि ११ खानाजाद पार उतर लसकर दाखल हुवो अर भंडारी जी खीवसी जी नदी पार ही है सु मीती सावण सुदि १ को महु-रत जोतसां<sup>1</sup> दीयो है सु सावण सुदि १ पार उतर सी जी ।

महाराजा जी सलांमत । सावण वदि ११ दीवान भीखारीदास जी व खानाजाद नवाव महावत खां जी नु मीला नवाव सु मजकुर हुवो सु दीवान जी की अरज-

1. श्वांतियियों ने ।

दासत सै अरज पोहोच सी। तकरार लीखणो मनासब न देखो पण उमैदवार हुं नवाब फुरमाया है ती माफक अमल फुरमाव जो जी।

श्री महाराजा जी सलामत। हीदायतुला खां जी को मजकुर आगै पै दर पै अरजदासत कीयो है तीसु अरज पोहोची होसी। मीती सावण बदि १२ खानाजाद हीदायतुला खां जी सु मीलो। खां साहब बोहोत महरबानगी सु फरमायो जु हम महाराजां का काम ने बोहोत चाहं हा। सु य्या हकीकत दीवान जी सु खानाजाद कही अर भंडारी जी नै लिख मोकलो पण भंडारी जी व दीवान जी बीना हजुर की मरजी न मीलै है। पण महाराजा सलामत। जागीर को सारो काम ईसु है अर पातिसाह जी की ईन बदनय्या सु महरबानगी जादा है अर अवार अँ चाहै है तीसु जो काम सरकार को होसी सु खात्र खाह होसी अर पछै आपणा मतलब नै मीलस्यां न द्रौयो बोहार<sup>१</sup> न रहसी तीसुं मीलणो य्यासु सलाह है। पछै जो हुकम आवै ती मवाफक खानाजाद भी अमल करै जी।

महाराजा सलामत। जौ पातिसाह जी खानखानां सुं महरवांनी करी वजारत दी थी तो आसफदोला के डेरे को कोई झांकन गयो नही जो बीठलदास भंडारी नै महाराजा अंजीत सिध जी न चाहो अर भंडारी खीवमी ने कीयो तो सब यासु रजु है, तीही भांत आपां तो ऐक महावत खा ही पकड़ रहा हां पण पातिसाह जी तो वजारत हीदायतुला खां न सोप चुका, जागीर देण को अग्रनयार तां हीदायतुला नै है अर वैका छाने<sup>२</sup> मीलण सुं काई वीगाट्ट है। कोई या अरज न करे हे ज महावत खां सुं तोड़ जै वो तो है ही पण छाने हीदायतुला खां ने दीवान जी भंडारी जी मीले तो ओगण<sup>३</sup> तो नही। फेर भी खानाजाद हाजर सब ठोठ रहै ही है जुं रहसी पण ऐक वार ये मीने दम वै वीम वे मीलो करो तो यो जाणै म्हारा है सब काम करला अवार ताई बाकी ग्याहम<sup>४</sup> है फेर ई तरफ की दील देया वो भी दील नरद करमी तीसुं खानाजाद की नाकम अकल मै तो या आवे हे ज वजीर नु मीलजै, ईखलाम बोहत कीजै पछे तो जौ ग्यातर मुबारक मै आवे मु सही।

खानाजाद की परैमानी कहां ताई अरज कहां ताई लिख्यु। ई वरग मे सब गहणो घर मै यो मु बेच बेच ग्यायो अब श्री जी का पावां की दुगई हे न पाका नुं दीन वांटुं हुं। कपड़ा पहरण ने नही नही, डेरो नही, बरदार नही ग्यावा-

1. वा. अर।

2. छाने = बुदनाद (दिल्लर)।

3. ओगण = ओस (बदल)।

4. कपड़ियां।

जाद तो ई हालत सुं भी सआदत जाणै है पण लोग कहै है सरकार को वकील ई खगवी सु कदै न देखो । सु म्हारा ही भाग की बात दोय हजार की लाहोर की तनखाह भी अवकै फेर दी, आठ म्हीना तनखाह ने ही लीयां फीरो सो रूपया कासद अजुरदांरा ने ही लाग़ा पर हवालदार दमड़ी न दी सु अव परेसानी की हद हं, खबर लीजे तो जीवतो रहूं नही सीरसदके होसु ।

सं० १७६८, सांवण सुदि १३, सोम ।



गुरू की तरफ थो सु फेर खबर हे, साढोरे गयो फेर तहकीक हुवां अरजदासत करभुं जी ।

लाहोर का व पेसोर का पुरा उपर दोय हजार रूपया दीराया था सु ऐक हजार तो नीठ ऐक वरस मे दीया, हजार के वासते कहे हे—फेर हुकम आवे ज लाहोर ही का हासल मे दीजो तो दो, जाहर करे हे, पेसोर का पुरा मे अमल पायो नही । पातिसाही हुकम भी माने न्ही सु लाहोर का हासल पर आवे जी तो पाउं ।

सं० १७६८, भादवा वदि ५, बुधवार ।

श्री गौपालजी सहाय छै जी ।

श्री महाराजाधिराज महाराजा  
श्री जैसिधजी

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...चरण कमलां नु खानांजाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जी जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप ये भला छै श्री महाराजा जी रा शीख समाचार सासता प्रसाद कराव जी जी । श्री जी माईत है घणी है श्री परमेसुर जी री जायगा है । म्हे श्री जी रा खानांजाद बंदा हां । श्री पातिसाहजी श्री महाराजा जी थे महरवान है । श्री महाराजा जी सुख पावजी जी । पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जी जी ।

आगे अरजदासतां पै दर पै भेजी है थांसु समाचार मालुम हुवा होसी जी ।

परवानौ खानांजाद नवाजी कौ आयो सु माथे चढ़ाय लीयो तमाम सरफ-राजी खानांजाद नवाजी हुई जी ।

परवानां मै हुकम आयो सु थारी परेसानी सुण हुंडी रुपया पांच सै ५००) की भेजी है । सु हुंडी ३ तीन रूपया ४५०) साढा चार सै की पोहची । पचास की हुंडी रवाना<sup>१</sup> करता हजुर मे ही रही होसी अठै न पोहची है सु चाढा चारसे की कवज भर पायां की लिख दी ।

पातिसाह जी नै वाका सवान्ह सुं अरज पोहची ज दोनु राजां की नाथ तीस हजार असवार है सु फरद पढ जहांदारशाह वगेरह साहजादा

1. रवाना = रवाना ।

वेठा था गु जहांदार शह अरज की भाई के बुलावे जमयत ल्यावे है तीस हजार न होय तो बीस हजार असवार तो होय ही होय । बीस हजार उनके होय अर सात आठ हजार सुवार भाई पास है ही, तीस सुं मुलाह दोलत यह है उन्कु हजुर न बुलाय । ये ती उपर पहली हुकम तो यो हुवो थो—वरसात है आहसते आहसते सतलंज उपर आवे राह में पाणी वोहत है । सु शाह कुदरतुला जी भी अजीमशं शाह वहादर की चुवानी कहो थो सु तो पै दर पै अरजदासता की थी । फेर अब हुकम हुवो साढोरै जाय । सु महावत खां जी की मोहर सु हसबल हुकम ले गुरजदार श्री जी की हजुर चली है सु पोहची होसी ।

सु अब तो श्री जी सलामत । दोनु तरफ को धरम रहो । महाराजा अजीत सिध जी भी हजुर का आवा सु<sup>1</sup> राजी न था, श्री जी जोरावरी सुं वानै हजुर लीयां पधारै था सु वाको चाहो हुवो । अर पातिसाह जी नै रटनां लागी थी हजुर बुलावाकी सु आप सुं उठै भेजा । सु श्री जी रा प्रताप थे भली ही वणती जाय है । अब श्री जी हुकम मवाफक साढोरै पधारजी जी । अर अरजदासत कीओ हुकम मवाफक हजुर आवा था अब वो हुकम आयो है तीसु साढोरै चाला अर जमयत जादा सीवाय जावते लांवां हां सु सरकार का काम नै ल्यावां हां जु कहीं ठोड़ तरदद कर वतावां बीनां जमयत न हां कांम काई कर सकजै सु अब यो काम हुकम हुवो सु सीवाय जावतै जमयत ईतना हजार सुवार है सु उमेदवार हां ई जमयत की जागीर पावा ।

महाराजा सलामत । अठे दरवार की या तरह हो गई है । छतरसाल बुदेला की रूकसत पाछे राजा उदोतसिध भी देस की रूकसत मागे सु रूकसत न हुई तब अजीमशां सुं छाने छाने मीला, जाहर तो रफीअशं की साथ हे वातन्मै वासुं सोस सुकृत खाई तब अजीम अरज की—उदोतसिध के मुलक में छतरसाल फीसाद कीया हे सु राजा रूकसत वतन की मागे है सु रफीअशां वार-वार रूकसत की अरज करे हे, पातिसाहजी सुण चुप होय रहे । तब अरज की—आप सुं उठ भी तो जायगा तीस सु रूकसत ही कीजै । तब उठ जाण को नाव लीयो तब कहीं रूकसत कर दो । सु ईसी तरह दरवार की पड़ी है । चीमनाजी उठ गया जागीर वहल है दीलासा का हुकम जाय हे, वरसात पाछै आजो । भारतसिध साहपुरावालो उठ गयो—जागीर वाहल रही, हसबल हुकम दीलासा को गयो । राणांजी मेवाती मारा तीपर गुरगुराट फीटोसो करै हे, रोज कहै हे अजमेर जांसा, कसमीर को चलणो मोकुफ कीयो जी । फेर देखने काई चुकै । घड़ी घड़ी का मता है ।

श्री जी सलामत । श्री जी वाका की फरद की नकल नारनोल की भेजी थी अर

1. आवा सु=आने के लिए ।

वाकेनवीस हीदायतुला खां नै हकीमलमुलक<sup>1</sup> नै खत भेजो सु वेकी नकल भेजी थी सु दीवानजी खांनाजाद नै फरदा सोपी सु खांनाजाद दफ्तर मे तहकीक करी सु पढ़नी तो नवीसदा बतावे ही नहीं, कहण लागा—उलटी गंगा बहे है, दसतुर तो यह हे जीम घटी वाकैसवान्ह की फरद आवे उसी घड़ी हम तुम्हे नकल पोहचावे, तुम महाराज पास भेज दो, फेर उसी घड़ी अरजी भली भांत लिख पातिसाहजी सु अरज करै, सो राह रवस सदा की थी सु तुम्हारै दरवार मे भी छोड़ दी है। दीय वरस हुवै वाकेसवान्ह के नवीस दे महीनां पावते थे सु नही पावै, फरद की नकल भेज देते तव हम देते, भली फरद आवती तो हमें देणां कर अरज कराय ने गीले सीकवे की फरद आवती तो हम देणा कर बंद करावते सो तो रवस छोड़ दी तांस मुहम भी यह करे हे। भली फरद आई अर आवेगी सु तो दाव राखे हे अर गीले सीकवे की फरद आवेगी सु तुरत अरज करेगे। अब भी आगे सु सलुक करो तां भना हे नही तो अखतयार है, बोहत ही उलाहण दीया। तव खांनाजाद वाकी भांत भांत दीलासा करी ज अब तो बंदगी मे आया हां थांसु ही सलुक करसां। तव कही ये नारनोल के वाकेनवीस ने लिखा था सु हम तुम कुं खबर भी न करी अर अरज भी करणे न दी, कुछ मतलब तो तुम सुं न था ज खबर दे अर अरज करावै। तव हीदायतुला खां जी सु यही कही शाहनवाज खां सुं पातिसाह तगीर न करेगे। अर राजा अब ही चाकरी ही नही करते उनको कद दे। यह कह फरद व खत अरज करणे न दीया, शाहनवाज खां ने ही हमारा भला मांनां।

श्री जी सलामत। ओर तो हजुर मे सब वाकफ ही है पण ठा० बुधसिधजी ने कांई हुवो, सदा यां वाता की खबर राखता अर दयाराम हजुर मे हे सदा दीवानी का पेशदस्त रहै है। महाराजा श्री वीसनसिध जी का अमल मै हरीसिध जी की कीसा कीसा काम करता अर ठोड़ ठोड़ सु गीला लिखा आयता अर तरदद लिखा आयता सु जेसी फरद आवती तेसो खरच दे अरज करावणी होती सु अरज करावता अर अरज करावणी होती नही सुं बंद कर राखता, नकल हजुर भेजता। सु यां वाता का खरच के वासते केई वार अरजदासतां की पण जवाब कदे न आयो। अब तांई ओर भांत वात थी अब बंदगी मे पधारो हो दस ठोड़ सु गीला लिखा आसी दस ठोड़ सु तरदद लिखा आसी सु फरद की खबरदारी राखजे ली तो मतलहत है अर देस मे हुकम होय सब ठोड़ का वाका नवीसां सुं सवान्हवीसां सुं सनुफ राखै अर हजुर मे भी ताकीद रहे अर दरवार की याही वाता की बोहत ताकीद फरमाजै तो फरद-फरद की खबरदारी राख हजुर नकलां भेजु अर जो फरद अरज करावण की होय सु तो अरज कराउं हुकम होय तीकी नकल भेजु अर जो अरज करावणी मनासब न देखु सु फरद बंद कराउ तीकी नकल हजुर भेजु

1. शाहजादा जहाँशाह का प्रमुख पदाभिर्वाता।

पण या फरदा की खबरदारी राखणी जरूर है ई काम को खरच करणो जरूर है फेर जो हुकम भाये सु सही जी ।

दीवान जी का परवानां मे लिखो थो नुसरतयार खां लिखो हे हजुर सुं दीवानी परवानो आयो है, चटसु वगेरह महाल की तखफीफ<sup>1</sup> बाजयाफत<sup>2</sup> करी सु चाटसु वगेरह का दांमां की हासल की नीसां करो । सु श्री जी सलामत । दीवानजी खानांजाद सु कही, खानाजाद हीदायतुला खां जी सु अरज की जु नवाव का कहा मवाफक मे महाराजा ने अरजदासत की है ज चाटसु वगेरह की अरजी लिखी है पण अरज न्ही करी अर महाराज हमारी तरफ भावे तो ओर बड़े बड़े मतलब कर देसु । उहां नुसरतयार खां ने यह तुतया उठायो है, तब नवाव कही —हमने जो कहा हे सो ही है अरजी हम पास है अरज न्ही करी नुसरत यार खां ने खीलाफ लिखा है, श्री जी सब काम तो दीवानगीरी मे रजु अर दीवान के आपणे बोहार न्ही वो चाहे ज हु काम कर दुं जस लुं । श्री जी ई बात को जवाब ही न लिखै अठै भंडारी जी शाह सुं पुछो सु अमर हुवो जरूर मीलो, सु अब ताई तो कोई मीलो न्ही अब देखजे काई चुके पण दीसे हे वो चाहे हे जीतरै न्ही मीले वो न चाहेलो तब गलै पड़ता फीरजेला घरू बोहार सुं न मीले ला जद शाह कही की साथ भेजसी तब कही की साथ जासी, तब वो जाणसी मे बुलाया सुन आया भेजा आया है । वो भी उचे दील मीलसी । खानाजाद तो श्री जी की तरफ सु हाजर रहै है ।

दीली का जैसिघ, पुरा की केतीक धरती अजीमशं शाह बहादर का लोगां दवाई हे तीकी दासजी अरजी की थी, दसखत हुआ खानसामां तहकीक कर अरज करै सु अरजी शाह का खानसामां सेफखां ने दी है । हकीकत लिखाउ हुं जी जो ठहरसी सु अरजदासत करसुं ।

बणारसी जी बैका राह की दसखत क हीदायतुला खां जी की मोहर सु व सीपारस फोजदार के नाव लिखाय मंगाई थी सु ईलतमास दाहां दसकत सीपारस भेजुं हुं जी ।

महाबत खां जी ने श्री जी कौ खत गुजरानी तीकी नकल दीवान जी की अरजदासत मै भेजी है सु नजर गुजरसी ।

सं० १७६८, भांदवा बदि ११, सोम ।

1. तखफीफ (तखफीफ ए-दामी) = जमादामी में कमी तकनीकी रूप में तखफीफ कहलाती थी, कमी की गयी जमा के लिए जागीरदार अन्य जागीर (जतनी ही जामा की) के लिए दवेदार हो जाता था ।
2. बाजयाफत (बाजयाफत) = बकाया वसूली ।

श्री गोपालजी सहाय

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा  
श्री जैसिघ जी

॥ : ॥ स्वास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...चरण कमलां नु खाना-  
जाद चाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारजी जी । अठा  
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप थे भला छै, श्री महाराजा जी का  
सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जी जी । श्री जी माईत हे, धणी हे,  
श्री परमेसुर जी री जायगा है । म्है श्री महाराजा जी रा खानजाद बंदा हां ।  
श्री पातसाहजी श्री महाराजा जी सुं महरवान हे श्री जी सुखपायजी जी, पांन  
गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाय जी जी ।

॥ आगे अरजदासत भेजी हे तीसुं समाचार मालुम हुवा होसी जी ।

॥ भादवा वदि १३ गुरवार भंडारी शाह कुदरतुलाजी साथ शाह अजीमशां  
जी कने गया, अरज की मे तो राजा ने वोहतेरो लीखो पण आवे नहीं, जो दखण  
नरवदा उपर रुखसत करो तो जाय । तीपर साहजादे जी कही, अखतयार है पाति-  
साही ऐतराजी में आवोगे, भंडारीजी वोहत ही कही पण मांनी नहीं, तव कही  
मोने रुकसत कीजे हुं जाय ले आउ, तव कही—जावो ले आवो । टावर आये  
पीछै जी अरज करोगे सु सव मंजुर होयगी पण पहली पातिसाह की खातर मे  
आवे ज हमारी चाकरी मे तो आये वदनकसी डुर होय तव जो मतलब कहोगे सु  
सद होयगे । अर घर मे वेठे ही हुकम करते हो सु कोण मुणे । सु अब दीन पांच  
सात मे भंडारीजी चलसी अर भंडारी जी कहै है मोने या भी कहीज, डावर  
आयां पछै दरगयांरी तंदीह ने रुकसत करसां । नु कुदरतुलाजी तो न कही पण

भंडारी जी कहै है, या भी भंडारी जी कही । गुजरात का मुन्ना को तो जवाब दीयो ज तुम चाहते हो ज कभी ठोड़ की खीदमन होय सु तो हरगज होण की नही, तीसु श्री जी तो महाराजा अर्जात गिघजी ने समझाय कह जो ज चाकरी ने दील दे डावर आवे गुरु ने तबीह करे, मुजरो कर धीगावै, फेर अरज करेला मु मंजुर होसी । अर श्री जी नलांमन कथान गाहनागाह महाराजा अर्जातगिघ जी भंडारी का आयां उपर भी न आवे तो श्री जी जी तो हरगज रहजोमत जी । कुच कर डावर पधारजो, मतानब नव मंजुर होगी, पातिसाहजी बोहत मुख पासी जी ।

सां० १७६८ भादवां वधि १३ गुरु गंला ने नाहरगां सांभर सु आयो सुणो हे खांनाजाद सु पोहकर मे देण की रदबदल कराई थी अर खांनाजाद अरज की थी ज राजा परतापसिघ राणाजी का भाई की भी ईही भांत देण की फजीहती करी थी । सु श्री जी वेने कह दीयो तव सु दुघ पायां हे । महावत खां जी सुं भी कह गयो चार लाख रूपयां की हरकत पचोली की तीसु अब कुछ खांनाजाद की अरज करे तो मंजुर न होय ।

॥ श्री गोपालजी सहाय

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा  
श्री जै सिंघ जी

॥ स्वास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलानु खानाजाद खाकपाय पा० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जी जी । अठा का नमाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छै । श्री महाराजा जी रा सीध नमाचार रासता प्रसाद कराव जी जी । श्री जी माईत है, घणी है, श्री परमेश्वर जी री जायगा है । म्है श्री जी रा खानाजाद बंदा हूं । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरखान है । श्री महाराजा जी सुख पावजी जी । पांन नंगाजत आरोग्य रा जतन फुरमाव जी जी ।

। महाराजा सलामत । गाजी खां ब्रहादर उरफ रुसतम वील खां ब्रहादर नै मीती भादवा वदि ८ सनवार केद कर लाहोर का कीला मै तोक जंजीर कर वेड़ी-मात केद कीयो घर जवत हुवी ।

। महाराजा सलामत । गाजी खां ब्रहादर नै दस हजार सुवार की फोज सुं गुरु की तंबीह नै सलंतज नदी उत्तर राह मे सुं हजरत रुखसत कीयो यो सु तमाम मुसफ का सहर गांव तो सब लुट लिया अर महमद अमी खां भी दस बारा हजार नुवार सु गुरु की तंबीह ने पा ओर सब फोजदार, जमीदार तईनात था । अब नाई गुरू पहाड़ा मे रहो तब ताई तां शारां मुलक पातिसाही सहर, कसबा बंद कर खाफ कीया । अब गुरू पहाड़ां मे सुं नीकसयां सुं दोय चार कोस का तफवत नु अबर की तरफ गयो । तब गाजी खां सुं महमद अमी खां सुं तंबीह न हुई । गुरू मांके आंग होय नीकन गयो । ईसे खां पछाप ई जी नाको है ती महमद अमी



खां सुं व गाजी खां सुं कही लडाईं मालो । गाजी खां बहादर उहां सुं फोज समेत भागे सु हजरत सुं दस कोस ठोड रही तहां सु अरजदासत की ज केतेक मतलब जरूरी है सु रूबरू अरज करने के है । इस वासते हजुर कदमवोसी कर जहां हुकम होय तहां जाउं । हुकम हुवा गुरु के सीर की साथ आवोगे तब कदमवोसी होयगी । अब भी फीर जा मतलब होय सु अरजी कर भेज, गुरजदार पोहचण पायै ही न्ही का सांझ को लाहोर सहर मै आवे, फोज कोई पोहची कोई न पोहची वा अरज हुई तब महाबत खां जी, ईसलाम खां तोपखाना का दारोगा ने मुखलस खां नै, कोतवाल ने हुकम हुवो केद कर ले आवो । सो भादवा बदि ७ सुक्रवार सब फोजा जाय देउ पहर रात गयां सहर का पास सुं केद कर लाया । आधी रात का अमल मे केद कीयां लावण की अरज हुई तब आधी रात तांई तो गुलाल बाड़ मे रहो, सवार हुवा बेडी डाल पालकी मे बेठाय सब लसकर देखो, सहर का कीला मे कैद कीयो, कबीलो सुहागपुरै भेजण को हुकम हुवो, माल मताह सब जबत हुई । ईसलाम खां तोपखानां को दरोगो सहर का कीला मै कैद कीयां बेठे है, सब फोज पर अंतराजी है बोहत बरतरफ होसी । ओर भी कई केद कीजैला सु पाछा सु पै दर पै अरजदासतां करसुं जी ।

। महाराजा सलामत । महमद अमी खां की खबर है गुरु कै पाछै लगो गयो है ।

। महाराजा सलामत । ईसा मे जौ खतर मुबारक मे आवे अर महाराजा अजीतसिघ जी की मसलहत मे आवे तो दोड़ पहाड़ मे बेठण न दीजे अर पकड़ लीजे तो बड़ो मुजरो होय, बड़ो मरातब होय जी ।

। भादवा बदि ६ गुरवार महाबत खां जी कै मीज्मानी हीदायतुला खां जी की हुई, पहर दीन रहां सु भंडारी जी दीवान जी खानाजाद व राणा जी का, छत्रसाल बुदले के मुतसदी सब महाबत खां जी के जाय बेठ रहै । महाबत खां जी पहर दीन रही सुं हीदायतुला जी का मुनतजर<sup>1</sup> बेठा रहा सु पहर रात गया हीदायतुला खां जी आया । हमीदुदी खां जी यां की रदबदल मे हे सु घड़ी चार रात गयां आये पीछै तीनु मील एक चबुतरे पर बेठे । पहर रात गयां पछै नवाब सब ने बुलाया, हीदायतुला खां जी को जुदो जुदो मुजरो करायो, नो नो रूपया सारा नजर कीया, दौय दौय रूपया राखा सब की दीलासा की जी । दीवान जी की दीलासा करी, हमीदुदी खां जी की नो नो रूपयां नजर कीया, कही का राख्या नही, खेलना का मोरचा मे था सु वो मजकुर कीयो, ईखलास जाहर कीयो, खानाजाद भी वा मोरचां मे थो सु महाराज का ईखलास की अरज की घड़ी एक बेठाय रूकसत कीया, अब दीन एक दौय मै सब हीदायतुला खां जी के डेरे जासी जी ।

1. मुनतजर (मुन्तज़िर) = प्रतीक्षा में ।

। खानाजाद हीदायतुला खां जी के डेरे हाजर रहै है श्री जी को बोहत दखलास जाहर करै है जी ।

। कीरपा राय हीदायतुला खां जी को पेसदसत है तीकी मारफत चार महीना मु रदबदल है । वसुं दीवान जी मीला वे सव वदगी की अरज की सु दीवान जी अरजदासत करसी जी ।

। लाहोर का जैसिघपुरा का मुतसदीयां ने बाणदार जहांदार शह जी का ने दीया फीलखांनो मनै कराय दीयो, पुरा मै आज ताई खेर सलाह है ।

। फोकलताश खां का वाग की हीडोला की बोहत महाफजत होय जी ।

। महाराजा सलामत । गजसिघ व साह मनोहरदास ईजारां की मुकरर करे है । सु महाराजा सलामत । जेतपुरा की व गाजी का थाणां की ठीक पडै है । ओर भी परगना लेसां जी । साहुकार की जामनी भेजजै जुं पटा लीखाय ला जी ।

। नारनोल की नीयावत की रदबदल ठहरती दीसे है अगे नायव देहती सु ईजाफा दीयां व खरच दीया लेसकजै है जी के नाव हुकम होय तीके ही नाव सनद करावां । अब हकीकत गजसिघ जी साह मनोहरदास अरजदासत करसी जी ।

सं० १७६८, भादी वदि ६, खगजरख ।

क्रम संख्या ५१

वकील रिपोर्ट संख्या ८१

भाद्रपद सुदी ११, संवत् १७६८

॥ श्री गौपाल जी सहाय

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा

॥ श्री जैसिध जी

॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री चरण कमला नु खानजाद खाकपाय पं० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बदंगी अवधार जी जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप कर भला छै । श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जौ जी । श्री महाराजा माईत है, धणी है, श्री परमेसुर जी री जायगा है, म्हे श्री महाराजा जी रा खानजाद बंदा हं । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी थे महरवान है । श्री महाराजा सुख पाव जो जी । पान गंगाजल आरोगण जतन फुरमाव जो जी ।

। अप्रच श्री महाराजा जी रौ परवानो खानांजाद नवाजी रो आयां घणां दीन हुवा सु बंद नवाजी रा परवाना सासता ईनायत फुरमाव जौ जी ।

। महाराजा सलामत । देवती सांचारी का रूपयां को कोल हंगामो कर रहा है । बुलाकी चंद नै दुर करावै है, नुसरत यार खां के हवाले कराये चाहै है तीसु याका रूपयां की अेसी सबील होय ज परगना मे कोई खलल न करे ।

। साहजहानांवाद का वाका सुं अरज पोहची ज वाग व रमनो कटै है, सीकार खेले है, सो बजनस फरद महावत खां जी पास पातसाह जी भेज दी सु महावत खां जी बजनस फरद भंडारी जी नै दीवान जी नै पढ़ाई, नकल वै फरद की ले हजुर भेजी है सु नजर गुजरसी । नवाव कहे था ज यां वात सु हजरत वुरो माने है, दुख पावै है । अत्र गुरु साढोरे गयो है जो ईसामै श्री जी डावर की तरफ

आर्व तो वढ़ो मुजरो होय । तब भंडारी जी वही मोने हकसत कीजे तो हुं ले आऊ, तब नवाव कही म्हारो तो मोह न है ज हुं पातसाहजी सुं या अरज करू अर ई अरज करावा मे तो या जाहर होयं ज यै उठ गया चाहे है, अर देह दिय महीनां हूवा जहानावाद मे वेठे रहा भांत भांत की तऊठी करे है सुं क्या मसल्हत है, वणी वणाईं वात कुं बीगाइ है । अब ताकीद लिखो ज डावर आवे अर जो जो मतलब लिखेगे सु सत्र मरंजांम पावेगा । भंडारी जी घणी ही वातां कही गुजरात को सुवो दीजे वावाप्यार के घाट की खीदमत दीजे ओर केई की तरंग कही पण वेथीमाग होय घर मे नवाव उठ गया । अब भंडारी जी कहे है नवाव तो न मानी साहजादा अजीम जी सु भी कह देखा ।

श्री जी सलांमत । आणे तो दस बार साहजादा जी सुं कह चुका है, जवाब पाय चुका है, अब देखजे काई हुकम करै, पण यां वाता सुं रस तुटतो जाय है तीसुं श्री जी की खातर मुवारक म आर्व तो महाराजा अजीतसिध जी ने समझाय कहजां—चाकरी करणी होय, पातसाह जी सुं रस राखणो होय, देस मे फेर चलल करणो न होय, राजा राज प्रजा चैन चाहे तो ये वातां अब छोड़ दे, दील लगाम चाकरी करै, मुजरो कर दीयावे, गुरु ने पकड़ ल्यावै सीर ले आवे पछे जो जो वातां अरज करै सु सत्र मंजुर होय । अर दीली मे वेठा भांत भांत की फुरमायस करै तो अखतयार है, पहली पातिसाह जी की हजुर खानखानां देरीनी थो जो पातसाह जी ओर तरफ को भी कही केबाव कहता तो वो समाल लेतो, अब तो छोकरा की मजलस रही है, सब लड़का लड़का ही है, पातिसाह जी खातर मे आवे हे सु ही कर वेठे हे, येसा समया मे तो चाकरी सुं बहुत खबरदार रहसी वोही पेंस पड़सी तीसु श्री जी समझाय दीली सु कुच कराय डावर नीतान पधारजी जी अर कुरछेय पाम आवो तब मतलवां की वाजबल अरज कीजे तो सब मंजुर होय जी ।

श्री जी सलांमत । अबार ताई सब वात सामे है अर कुच कर डावर पधारा नव सब मतलब भी होमी, पातसाह जी को दील साफ होसी, ईजाफा लेसां, जागोरां लेना, जो जो चाहे मां मु सब होमी, बलकी जादा होसी जी ।

। गाजी यां के चालीस लाख रूपया तो नीकल चुका, कीरीड़ देह कीरोड़ नरुद जीनस मताह जवत होसी ।

। श्री जी दीली सुं कुच करै तो सरहंद की फाजदारी को तलास करां, दीली व लाहोर बीच नव मुलक श्री जी के ओइदे होय जी ।

। पातसाह की खबर है जहानावाद ने कुच करै, कुच की ताकीद है ।

। हुकम हूवो गाजी यां की कोई अरज करनी वेको भी यो ही हाल करसां, अब सर चीचड़ी जीमे चार पर्देसा भर नुण यो रोज कर दीयो जी ।

1. बने पनाती ।

जादा अजीमशं जी का दसखत कराय तसतग लिखसां जी सु पाछा सुं त दसतग हजुर भेजुं हुं जी ।

पातिसाह जी को खुफया सवान्ह नवीस लिखो ज चीमनां जी ई मुलक मे लोगां पर जबरदसती करे हे हजुर चाले नहे ती पर जागीर तगीर हुई बेटो कतो सुजात खां ने दी, भीम का तोड़ा का दाम ओर परगनां लोगां ने दे हे ।

लाहोर का मुलाणा<sup>1</sup> पांच बरस सु हजरत को खुतबो पढबा दे था न्ही, कुछ वांका मजहब की बाता को झगड़ो थो ती पर हैदराबाद सुं पातिसाह जी यां मुलाणां की तेबीह नै व आपको खुतबो पढाबा नै लाहोर आयो सुं दौय म्हीनां सुं लाहोर का मुलाणा ने समझाया पण समझे नै; कैद कीया वो भी समझे न्ही, मीलक रोजी ना गाव पाये था सु तगीर कीया । दौय चार बार, मारवा को हुकम कीयो पण मुलाणा न समझां तब म्हीनां ऐक पहली महाबत खां ने हुकम हुवो थो फोज ले जाय, म्हे कहां हां ती भांत खुतबो पढावे । तब महाबत खां जी बडी फोज सु तयार हुवो, जुमा मसजद बाहर कीमे केई हजार मुलाणां मरण ने जाय बेठा था तब तो मोकुफर रही । असोज बद ६ सुक्रवार महाबत खां सब फोज सु सहर मे गया, ईसलांम खां तोपखानां का दारोगा ने हुकम हुवो सहर मे सारै बाड़ौ रोपै मुलाणो सहर कौ कोई जु मोनसजद मै आवण न दीयो, सहर का सब कुचा बंद कीया था । महाबत खां जी खुतबो पढाय आयै, कोई कहे हे आगे सदा यांका धरम मे पढ आया है तीही भांत पढी, कोई कहे हे वा नई तरह बणाई है ती भांत पढी ।

सं० १७६८, आसोज बद ८ ।

1. मुलानां=नोनाना ।

श्री गोपालजी साय छै

श्री महाराजाधिराज महाराजा  
श्री जैसिध जी ।

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...चरण कमलानु खानाजाद ग्राकपायपां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी । श्री महाराजा जी रा सीध समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप नु, अठा रा समाचार भला छै । श्री महाराजा जी माईत है घणी हे, श्री परमेसुर जी री जायगा है म्है श्री महाराजा जी रा खानाजाद बंदा हां । श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरवान है । श्री जी सुख पाव पावजो जी । पांन गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फुरमाव जी जी ।

अप्रच खानाजाद नवाजी रो परवानो आया वोहत दीन हुवा सो खानाजाद नवाजी का परवानां कोही बंदा ने आधार है ती सु उमेदवार हुं हर जोडी की साथ परवानां खानाजाद नवाजी का ईनायत होय जी ।

माहजादा जी को सरपाव व नीसान फारसी तो दीन दोय पहली सोपा था नु रजपुता की साथ सरपाव भेजो है सु तो पोहचो होसी अब अजीमशं का खास दमघता को रुको भेजो है नीसान की साथ नु नजर गुजरसी जी । ईही मवाफक महाराजा अजीत सिध जी ने रुको हीदवी लिखो है एक ही मजमुन लिखो है जी । धार्ग भी हीदवी दमघतां का रुकन श्री जी पास होसी, महाराजा अजीतसिध जी पास होनी सु दमघत देख लीजो जी । यह बुदरतुला जी दोन रुका दीया है । श्री जी मनामत । अब तो भांत भांत छातर जमा हुई । साठेरे पोहचा पाछे नोताद रघुनद होसी तीसुं अब वेगा पधारजी जी, ढील न होय जी ।

जादोजी पंडित<sup>1</sup> राम राजा का बेटा को वकील अठै महावत खां जी पास थो सु खानखाना का बाका पछै अमीरल उमराव अरज करी ज दखण मे फीसाद है सु जादो पंडता का लिखा सु है, जादो ने म्हारे हवाले कीजै सु महावत खां जी छीपाय राखो आखर हर का राजा सु सलगा, तब जादो देखो ठीक सकु न्ही तब अजीमशं जी सुं जाय जोड़ कीयो, महीना ऐक अजीम जी भी छीपाय राखो । अब राजा साहु नै व राजा शीव जी नै हीदवी नीसान व सरपाव व धुगधुगी दे, जादो ने सरपाव दे रूकसद कीयो । पहली महाराजा पास आसी । महाराजा राणाजी पास पोहचाय दे । राणाजी चंद रोज राखसी, दखणी की फोज नरबदा बार आसी तब बाकी साथ दखण जासी । तीसुं श्री जी हजुर आवे तब बोहत महरवानगी कर राणां जी ताई पोहचाय दीजो जी । साहजादा जी वैनै कहा है सु वो रूबरू अरज करसी जी ।

खानाजाद बार बार आपकी परेसांनी कहां ताई अरजदासत करे व्याज मै ही रोजगार जाय हे<sup>1</sup> तीसु लाहोर को व जहानाबाद को पुरो नीम सवाई ईजाफा सु भी कबुल करूं हुं ईमे सरकार की कीफायत है खानाजाद की परेसांनी मीटे है जीके कही साहुकार पर माह दर माह कर पाउंजी नीपट परेसान हुं ।

1. जादु केशो पंडित—ताराबाई का वकील । यहाँ राजाराम की विधवा ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय के वकील के रूप में उल्लेख किया गया है । वास्तव में वजीर मूनीम खां ने ताराबाई के वकील को वादशाह से मिलाया था तथा उसके लिए शाही फरमान जारी करने का आवेदन किया था । मूनीम खां की मृत्युपरान्त महावत खां (शाहजादा अजीम-उस-शान के सहयोग से) ने इसकी पैरवी जारी रखी ।

2. सम्पूर्ण वेतन व्याज के पैसे चुकाने में खर्च हो जाता है ।

श्री परमेश्वर जी साय छै  
श्री माहाराजा जी

स्वस्ति श्री लसकर विजै कटकेत माहाराजाधिराज माहाराजा श्री श्री श्री श्री श्री जैसिध जी चरण कमलानुपातसाही लसकर थे आग्याकारी हुकमी बंदा भां० खीवसी लिखायतुं सेवा गुजरो तसलीम अवधारजो जी । अठा रा समाचार श्री जी रै प्रताप कर नै भला छै । श्री जी रा घडी घडी पल पल रा सदा आरोग्य चाहीजै जी । श्री जी बडा छै साहिव छै । हुं श्री जी रो खानाजाद छुं मोसुं सदा मैहरवांनी नु निजर फुरमावै छै तीण सूं विसेख फुरमावै जी ।

अप्रच दांम सात लाख प्रा० रोसनपुर खंगारोत भगवंत सिध हरीसिघोत रै तालकै मै अलावंदै खां सायसता खां रा पोता री जागीर मै तनाखाह छै सो ईणारो अमल दखल मां नै न छै मालवाजवी देवे न छै तिण उपर अलावंदै खां साहिजादै जी कनै फिरीयाद कीवी जु म्हारी जागीर रो टको नावै छै<sup>१</sup> हुं पूरेसान छुं सो हसवल हुकम नै हसवल अमर श्री माहाराज कु सादर आवै छै नै म्हां सु भिखारी-दास जी नुं पिण ताकीद हुई तिणसु अरज लिखी छै दैस रै हाकीमां नु ताकीदरो परवांनो होय जु ईणारो अमल दखल करारवा की कराय दे वै अेसो न होय जु अं अठै नालस करै...।

...आसोज वद १४, सं० १७६८ ।

1. नामं छं=नहीं जाता है ।



श्री गौपालजी सहाय

स्वस्ति श्री महाराजा सलामत । काती वद ८ भोमवार महावत खां के भंडारी जी, दास जी<sup>१</sup>, खानाजाद गया था सु महावत<sup>२</sup> खां खीलवत कर कही ज कती वद ७ भोमवार अदालत मे पातिसाह जी मुने फुरमावे था राजौ का क्या चुकया, मै अरज की ज साठोरै हुकम मवाफक आये अब जहां ठोड़ मुकरर होय तहां जाय । तब हुकम कीयो अजीतसिघ पुरव जाय, राजा जैसिघ दखन जाय अर वहां न जाय तो कांगड़े जाय, वहां भी न जाय तो हजुर आवे, अब उसवास काहे का रखते है कोण उनको खाता है अर हमारा उसवास रखते है सु सारी उमर उसवास ही रखैगे, कद ही तो उसवास दुर करै अर हमसे उसवास रखते हे तो अजीमशां तो उनका भाणजा है पुरव अजीम कु है<sup>३</sup> पुरव जाय वहां तो कोई उसकुं खाता न है अर मे जाणता हुं सब यह फीसाद महाराजा के छोकर का है मुझे वेठे वेठायै कु सोरसमे मत ल्यावो—या फुरमावे था के अजीमशं मुजरै आयो तब देख कर कहौ वह आया उसका भाणजा, यह खायगा तो नही अपनी आखौ उपर रखैगा अर यह भी कही, अजीमशां जी महारै रूवरू तो न कही पण दीसे हे खीलवत मै वोहत कही ज बराड़<sup>४</sup> को सुवो महाराजा अजीतसिघ जी नै दीजै पुरव मे कोई सुवो श्री जी ने दीजे । पातिसाह जी की मरजी हुई थी

1. दीवान भीखारीदास ।

2. वैठक ।

3. पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा इलाहाबाद के सूबे शाहजादा अजीम-उस-शान के अधिकार में थे ।

4. वरार ।

अमीरल उमराव<sup>1</sup> सुं पुछी, तव अमीरल उमराव अरज की अजीत सिध कु वराड़ की सुवेदारी हुई तो मैं दखण छोडी, खातर मे आवे जी ने दखण सोपजै, अजीत-सिध वराड़ मे जाय तव सब दखण मे मैरा क्या बंदबसत रहै वह तो सब दखण खुट ग्याय, अजीतसिध नरवदा पार होय तो मुझे सुवेदारी दखण की कबुल नही, अर राजा जैसिध को दखण भेजो तो कबुल है । दखण राजा जैसिध को भेजये अर पुरव अजीतसिध को भेजये । सु अजीमशां जी बोहतेरो कही पण हजरत अजीमशां की अरज वराड़ की कबुल न की, तीपर अजीमशां जी आजुरदा हुवा कही अपनां काम अपने हाथ हजरत खरात्र करते है तो मे क्या करू, वाप वेटा थोहत रदबदल हुई पण आजुरदा होय उठा, रस न रहो । आज अदालत मे भी आय वेठा या सु हजरत तो गुसा सौ आय वेठा । सु नवाव कही मोने हजरत देखतो ही वे वाता कही अर साहजादा ने आवतो देख वा कह चुप होय रहा । अजीमशां भी गुसो खाया वेठा रहा अर पातिसाह भी गुसा सुं ही वेठा रहा । तीपर नवाव कही यह वात तो पस न गई अर क्या तदवीर करणी । तव भंडारी जी कही महाराजा तो पुरव हरगज न जाय, जो गुजरात रखो के मालवे रखो तो सुलह कबुल है के दखण नरवदा पार खानदेस, वराड़, वावा प्यारा के घाट ये ठोड़ तो कबुल है, ओर हरगज कबुल नही सु वह होय भावे न होय । तद नवाव कही यह हरफ<sup>2</sup> तो अब हरगीज मत कही अर दीसे हे हजरत मुझ उपर अंतराजी करंगे, वह तो वेटा हे जवाब दे वेठेगा, हजरत की खातर मे आवे सु करै अर उनका कुछ कर भी सकते नही पै हम उपर बडी अंतराजी होती दीसे हे । आज फेर अदालत मे बुजेंगे तव मे क्या अरज करूं ? तव भंडारी जी कही अजीत सिध जी की तो एक वात हे छुट गुजरात मालवे वराड़ ओर कुछ कबुल नही । तव कही लिखदी मे अरज तो कर सकता नही, तुम्हारा लिखा हाथ पकड़ाउंगा तव लिखो तो न कर दीयो अर या कही म्हे साहजादा सु ठेहराय चार पांच दीन मे नवाव सुं अरज करसो । नवाव कही—भला, मे आज चुप रहूंगा जो हजरत आप ही पुछेंगे तो कहूंगा आज मे बुलाय मवाफक हुकम के सब वकीली से कही वे लिख ल्यावेंगे तो नजर करूंगा । ईस भात दीय चार दीन टालौगा, तुम साहजादा जी सुं ठोक करो । फेर नवाव कासु<sup>3</sup> शह कुदरतुला के गया । कुदरतुला साहजादा जी की व पातिसाह जी की सब रदबदल कही, आपस मे वाप वेटा रस न रहो, सु कही वराड़ को मालवा को गुजरात को जवाब दीयो हरगज न

1. अजितार गज—मीर बगती के पद के नाप ही उते दक्षिण के विषयों का सम्पूर्ण उत्तर-दायित्व था ।
2. सार ।
3. पाम मे ।

होय । तव भंडारी जी भी जवाब दीयो यां तीनु ठोड़ सीवाय कबुल नही सुल्हे मोकुफ, म्हे देस जासा थाने फोजा भेजणी होय सु भेजो । शह कुदरतुला वोहत समझाया पण ऐक ही जवाब भंडारी जी कहो । सु कुदरतुला जी आज अरज करसी, देखजे साहेजादी जी काई जवाब दै, रोज की रदबदल मे देखजे काई चुकै । जो ठहरसी तथा रदबदल होसी सु अरजदासत रोज की रोज हजुर करसुं जी । श्री जी मसल्हत कर लिखजो आखर कांई करणो, ऐकठा<sup>1</sup> तो हरगज राखता दीसे नही, पुरब के दखण जुदा जुदा भेजसी ।

---

1. महाराजा जयसिंह एवं महाराजा अजीतसिंह को एक साथ ।

श्री गौपाल जी सहाय

श्री महाराजाधिराज महाराजा

श्री जैसिध जी

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...चरण कमलानु खांनाजाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जी जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छै । श्री महाराजा जी रा सीध समाचार सासता प्रसाद कराव जी जी । श्री जी माईत हे घणी हे श्री परमेमुर जी री जायगा हे, म्हे श्री जी रा खांनाजाद वंदा हां । श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरवांन हे । श्री महाराजा जी सुख पाव जी जी, पान गंगाजन आरोगण रा जतन फुरमाव जी जी ।

अप्रच श्री महाराजा जी रो परवानो दीवान भीखारीदास जी के नांव आयो ज सेध सादुला<sup>१</sup> आगे भी सरकार का मतलवां मे कोसस करै थो अर अत्र दीली मे मीलो धो सु आगला बोहार पर नजर कर अरज करी ज हुं लसकर जासुं सरकार का मतलव वकील जाहर करसी तीकी वंदगी वजाय लासुं सु जगजीवन दास आगला मुकदमां सु वाकफ हे अत्र सेख सुं सरकार का मतलव कहै । सु श्री जी सजामत । सेध जहानांवाद सुं तो चालो हे, लसकर मे दाखल हुवो न हे । अत्र दीन दोय चार मै आसी तत्र खांनाजाद सदा वासु मालसी सरकार का मतलव वासु जाहर करणा होसी सु करसां, सरजाम देसा जी ।

श्री महाराजा सलामत । दरवार का समाचार साह कुदरतुला खां जी व महावत खां जी की रदबदल का अरजदासत काती वदि १२ हजुर चली हे तीसुं मालूम

१. सादुला खां (हिंदुपुस्तक) = दीवान-ए-उन बो यालिना ।

हुवा होसी जी । अरजदासत चला पछे शह कुदरतुला के डेरे गया सुं रदबदल तो बोहत हुई पण भंडारी जी जवाब दीयो ज महाराजा अजीतसिघ जी नै गुजरात मालवो, बराड़, खाहनाखाह न दीजै तो सोरठ ही दीजे अर सोरठ भी न दो तो सुल्हबर हम है । अजीतसिघ जी छुट पां चार ठोड़<sup>1</sup> ओर कही ठोड़ नही जाय, सुल्ह करो, भावे मत करो । तब कुदरतुला कही—लिखदौ, तब या लिख दीयो सोरठ कबुल है ओर ठोड़ कबुल नही । तब दास जी सुं कही तुम क्या कंहो हो ? तब दास जी कही हजुर कु लिखा है जवाब आये अरज करेगे । तब भंडारी जी कही...ई लिखसां पीराग जी कबुल है । तब कुदरतुला जी कहा लिख दौ । तब दास जी कही बीना हुकम हरगज लिख न दुं । तब भंडारी जी कही म्हे लिखदां हां तब दासजी मोहर खोल भंडारी जी आगे धरी, भंडारी जी मोहर कर दी सु ईलाहाबाद की तरफ तो श्री जी की तईनाती ठेहरे हे अर सोरठ की तईनाती अजीतसिघ जी की ठेहरे हे । तब ये मुचलका रजामंदी का ले कुदरतुला जी महाबत खां जी पास आया । महाबत खां जी कही सोरठ की अरज हुं न करू हजरत बेदीमाग होसी, मतलब सरंजाम न होसी । तब भंडारी कही होय सु होय न होय सु न होय पण गुजरात मालवा सोरठ बराड़ या चार ठोड़ मे कोई ठोड़ दौ ओर ठोड़ कही न जासा । तब दास जी न पुछो यो कही अखतयार भंडारी जी को है । भंडारी जी कहे है सु समझ ही कहै है । तब दोनु मुचलका कुदरतुला जी की साथ पातसाह जादा जी पास भेज दीया है । वांजबल अरज महाबत खां जी तो न ली कुदरतुला जी नै कही मे तो साहजादा जी कु दीखाय चुका अब तुम फेर दीखावो । तब कुदरतुला जी मुचलका व वाजबल अरज साहजादा जी पास ले गया, साहजादे जी मुचलका तो राखै अर वाजबल अरज मे सु ईतरा मतलब दुर कर दीया :

नागोर ईदरसिघ न बहाल रहै सु यो मतलब दुर कीयो, कहो तुम कोण हो ज यह अरज करो ।

महाराजा को मीरजाराजे जी को खीताब न लिखे, कहो कुछ तरदद करोगे तब पावोगे ।

ओर मतलब लिख दो जो अरज करेगे हुकम होयगा सु सही, तब फेर वाजबल अरज ओर लिख दी सु अब मुचलका वाजबल अरज होसी जो हुकम होसी सु अरजदासत करसुं जी ।

महाराजा सलामत । अरज पहुचायां पछे जो सोरठ व पीराग जी कबुल हुवो तो सोरठ तो अजीत सिघ जी का मतलब मवाफक है, मारवाड़ सुं नजीक है वाकी तो बणी अर पीराग जी की भंडारी जी कबुल की सु हजुर की मरजी

मवाफक ही कही होसी तीरय तो हे पण देस सुं तो दुर हे जो खातर मे आवे तो हजुर की ही ठहराजे, अरजदासत कीजे, हुकम होय तो हजुर आउ, हजुर आय फेर जहां हुकम होय तहां जांड तो पातिसाह जी का वील मै सु सब गुवार दुर होय जाय, साफ वील होय जाय, ईजाफो खीताव ओर जो जो मतलब कहे जे सु सब होय पण छाती करड़ी करी चाहजे जो हुकम आवण की मसलहत होय तो कोल करार साहजादा जी कने सब लीजै । दस हजार सवार से पधारो तब ये कांई कर सकै पण बंदगी को नकस दुरसत होय जाय पछे तो जो खातर मुवारक मे आवे सु सही । आज काल्ह साहजादो जी मुचलका वाजवल अरज करसी । देखजे कांई हुकम होय जी ।

नां० १७६८, काती वदि १४, सोम, पहर रात गयां चली ।

हीदायतुला खां का खत को जवाब ले हजुर भेजो हे सु नजर गुजरसी जी ।

क्रम संख्या ५७

दकील रिपोर्ट संख्या १०३

कार्तिक सुदी १, संवत १७६८

॥ श्री गौपाल जी सहाय छे

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री  
जैसिध जी

॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...चरण कमलां नु खानाजाद खाकपाय पां० जगजीवन दास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छै । श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जौ जी । श्री महाराजा जी माईत है, धरणी है, श्री परमेसुर जी री जायगा है । म्है श्री महाराजा जी रा खानाजाद बंदा हं । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी थे महरवान है । श्री महाराजा जी सुख पावजौ जी । पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जो जी ।

। अप्रच काती बदी १४ का समाचारां की अरजदासत तो जागे चली है सु नजर गुजरी होसी जी । काती बद २२ दीवाली के दीन पातिसाह जी सुं साहजादे जी बाजबल अरज अर रजामंदी का मुचलकां की अरज की ती पर पातिसाह जी वाजबलअरज उपर दसखत कीया, तीकी बीगत ।

। महाराजा अजीतसिध जी नै सोरठ की फोजदारी मंजुर हुई ।

। श्री महाराजा जी नै अहमदाबाद गुहारा<sup>१</sup> की फोजदारी हुई या ठोड़ पीराग जी<sup>२</sup> सुं कोस २<sup>३</sup> छै, गंगाजी वार है । बसंत जमीदार को मुलक है, सुं बसंत तो

1. अहमदाबाद गहोरा (खोरा) ।

2. प्रयाग ।

3. अन्य विवरण के अनुसार यह दूरी पिरागजी से पश्चिम की ओर 30 से 35 कोस दी गयी है, (बी० एस० भटनागर, 91) ।

मुझे वेको बेटो राज करे हे, बडो मुफसद<sup>1</sup> हे। कदही सुवादार ने अमल दे है नही। ओर भी जमीदार है। सु दसखत हुवा अहमदावाद गुहारा वगेर की फोज-दारी शह अजीमश दे।

। महाराजा अजीत सिध जी का व श्री महाराजा जी का ईजाफा के वासत लिखो थो ती पर दसखत उमेदवार है।

। महाराजा अजीतसिधजी का कवरां का ईजाफा के वासते लिखो थो अर महाराज कवार चीमनां साहब जी का ईजाफा वासते लिखो थो, सु दसखत हुवा, उमेदवार रहे।

। वीरादरी की तलव वासते लिखो थो सु दसखत हुवा, हीदायतुला खां अरज करे।

। दवाव का दांमां की लिखी थी। परवतसर तो अजीत सिध जी ने जागीर दीजे अर मझजावाद श्री जी की सरकार मै दीजे तो दवाव खातर जमां सु सरवराह होय तीपर दसखत हुवा, हीदायतुला खां अरज करे।

। राव गौपाल सिध जी का मनसब की सनद जारी होय अर जागीर पावे तीपर साद<sup>2</sup> कर दीयो।

। खुद्य सिध वगेरह गोडां की सनद बंद है सु जारी होय वे पर साद कर दीयो।

सु वाजवल अरज की नकल दासजी ने हजुर आगे भेजी है अब दसखतां की नकल सुधादास जी की अरजदासत मे भेजी है सु नजर मुवारक गुजरसी जी। शाह कुदरतुला जी वजनस खास दसखतो सुधा दीखाई। अब महावत खां जी नै सोपरी। उठामु साह लीजे ला सु हीदायतुला खां जी ने दीजेला, उठे वीरादरी की व दवाव का दांमां की परगनां की हकीकत लिख अरज करसी जी।

लाख रुपया अजीतसिध जी की तरफ-सु अर लाख रुपया श्री महाराजा जी की तरफ सु भंडारी जी पातिसाह जी की व साहजादा जी की पेसकस कबुल कीया तीमे साठ साठ हजार तो पातिसाह जी की पेसकस अर चालीस चालीस हजार साहजादा जी की पेसकस कबुल कीया सु मंगाय खजानां रीकाव का मे दाग्रन करां हुकम होय जहानावाद का के अजमेर का खजाने भरा। तब शह कुदरतुला जी कही साहजाद जी तो तुम्हारे पास हरगीज न ले, अपने रुपये भी पातिसाह जी कु देगे। तब भंडारी जी कही हम लाख लाख रुपये देगे फेर साहजादे जी का अग्रतवार है भावै<sup>3</sup> आप ली भावै पातिसाह को दी।

सं० १७६८, काती सुद १, बुधवार।

1. मुफसद - मुफासिद; पगारी, उत्पान करने वाला।
2. साद (रयद) = पारसी संप्रदान का शब्द जो स्वीकृति के लिए बनाया जाता है।
3. भावै = मर्यादा सदे ती।



क्रम संख्या ५८

वकील रिपोर्ट संख्या १०६

कार्तिक सुदी ६, संवत् १७६८

॥ श्री गौपाल जी सहाय

॥ महाराजाधिराज महाराजा श्री  
जैसिध जी

॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...चरण कमलान खानाजाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी। अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छै। श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जौ जी। श्री महाराजा माईत हे धणी है। श्री परमेशुर जी री जायगा हे। म्हे श्री महाराजा जी रा खानाजाद बंदा हां। श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरवांन है। श्री जी सुख पावजौ जी। पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जो जी।

। आगे अरजदासत काती सुदि १ ने चलाई हे तीसुं समाचार मालुम हुवा होसी जी।

। अब काती सुदि ५ सनउ साह कुदरतुला जी कै भंडारी जी व खानाजाद गया अर दीवान भीखारी दास जी ने तो दीन पांच सु अजार है सु अब फुरसत हुई सु कुदरतुलाजी कही हुकम हुवो है। महमद अमी खां उपर गुरु मकहुर आयो चाहै है सु जो कदाच मकहुर महमद अमी खां उपर आवे तो दोनु राजा महमद अमी खां की मदत करै, गुरु ने तबीह करै।

। साह कुदरतुला जी भंडारी जी ने कही, थांका कहा मवाफक लाख लाख रुपयां की मै अरज की ज साठ साठ हजार तो हजरत की नजर कबुल करे हे अर चालीस चालीस हजार साहब आलम की पेसकस कबूल करे हे, तीपर अमरह वो अजीतसिध जी का तो लाख ही रुपया हजरत की नजर करौ अर राजा जे-

सिध जी लाख रुपया दे हे तीमे पचास हजार पातिसाह की नजर करो अर पचास हजार म्हे लेसां । तीपर कुदरतुला जी कही अजीतसिध जी की तो एक लाख ही की पेसकस हजरत की लिख दी अर पचास पचास हजार की दीय फरद लिखदी । ती पर भंडारी जी तो लाख रुपया की फरद आपकी मोहर सु लिख दी अर दास जी ने कही थे भी लिख दी, सु दास जी कहै हे वीना हुकम न लिखदुं । अब भंडारी जी कहे हे दीय लाख दोनु राजां का पातिसाह जी की ही पेसकस लिखदां लाख लाख, अर साहजादा ने लाख रुपया दोनु तरफ सु जुदा दां । पचास पचास हजार सु अब देढ लाख को करार करे हे । सु दास जी तो कहे हे काम हमारा क्या हुवा ज देढ लाख दे सु हकीकत भंडारी जी भी दासजी भी अरज-दासत करसी । श्री जी को हुकम आयां जो लिखणो होसी सु दास जी लिखसी ।

काती सुद २ दीवानी परवांनो खास मोहर सुं आयो ज खोहरी को परगनो सरकार मे ईजारै लीवो सु भली की जामनी प्रोहत सामराम की है, देस सुं मगाई हे सु ठहराजो अर खरच की हंडी भेजां हां । महाराजा सलामत । खरीव सु ही ईजारो ठहरो, रवी का चार म्हीना है मवाफक हुकम के या ठहराई हे । खरीफ मे जो अनुपसिध लियो होय सु तुमार मवाफक भेज दे । मुतसदीयां भी या बात कबूल की पण जामन मानवर मांगे हे सु सामराम ने हुकम होय आपका गुमासता ने लिखै जी भांत नीसा होय ती भांत करदे अर सीताव जामनी आवे । खरीफ कोहंगा महे परगनो लेणो हे तो यो वकत हे, फेर न जाण जे केसी वणे अर की के नांव पटो लिखा बांक कबुलयत दा ।

श्री जी सलामत । जेतपुंग को कांस ईजारा को चुका दीय महीना हुवा पण प्रोहत जी जमनी ले न्ही तीसुं काम बंद है । प्रोहत जी का गुमासता ने जेतपुरा वालो कहे थाकी मातवरी सराफा मे कही कने कराय दी, गुमासता मातवरी आपकी कराय दे न्ही तीसु प्रोहित जी ने हुकम होय गुमासता ने लिखे थे आपकी मातवरी को लियो, सराफा का साहुकारा कने लिखाय दीजो अर खोहरी को जेतपुरा की मांल जामनी दीजो ।

। दवाव गुराजीलकाद सुं सरखराह होसी ।

। चानजाद की परेसानी लिखण सुं गुजर गई अब खातर मे आवे सु कीजै ।

सं० १७६८, काती सुद ६, रववार ।

। भंडारी जी सु रदवदल हे सायद पचास हजार ओर वधावे हे सु न वधे अर साथ साथ कहे चुका है पछे जो ठहरसी सु अरजदासत करसी जी ।

आज म्हावत खां का सु खीदमतं का स्याहा लेण ने जाय है अर चानजाद तो हुकम आयां साह लेसी जी ।

क्रम संख्या ५६

वकील रिपोर्ट संख्या १०८

कार्तिक सुदी १२, संवत् १७६८

श्री गौपालजी सहाय  
श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री जैतिघजी

स्वास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलानु खांनाजाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं । तसलीम वंदगी अवधार जी जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छै श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जाँ जी । श्री महाराजा माईत है, धणी है श्री परमेसुर जी री जायगा हे । म्हे श्री जी रा खांनाजाद वंदा हां जी । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं मऱरवान है श्री जी सुख पाय जी जी पांन गंगाजल आरो गण रा घणा जतन फुरमाव जो जी ।

अप्रंच खांनाजाद नवाजी रो परवांनो आया घणा दीन हुवा सु वंदनवाजी रा परवांनां हर जोडी की साथ ईनायत होय जी तो मतलवां सुं वाकफ हो जै जी, जवाव सुवाल करजै । अर दरवार का मतलव तो रोज वरोज का अरजदासत करुं हुं जी पण पै दर पै परवांनां ईनायत हुवो करे तो वंदनवाजी है जी ।

वाजवलअरज होय आई थी तीकी नकल तो आगे भेजी हे मु नजर गुजरी होंसी अब वेही मतलव फेर वाजवल अरज मै लिख्या अर केताक ओर मतलव निख महावत खां जी ने दीयां । नवाव काती मुद ८ बुधवार साहजादाजी कने ले गया, साहजादाजी फेर दसखत कर दीया तीकी नकल दामजी की अरजदामत मे हजुर भेजी हे मु नजर गुजरसी जी । अहतयात के वासते हींदवी मे भी अरज करुं हुं जी ।

श्री महाराजा का व महाराजा अजीत सिघजी का ईजाफा वेडे लिखो मु द्रमखत कीया उमेदवार रहै ।

महाराजा कुवार का व अभैसिध जी वगैरह कवरां का ईजाफा का दसखत कीया जफरजंग मरातव अरज करै ।

पटण व हालार<sup>1</sup> की फोजदारी अजीतसिध जी न होय दसखत कीया, नमेश-वद<sup>2</sup> ।

कंतत<sup>3</sup> की व तरहार की व चंनाट की फोजदारी श्री जी ने होय सु कंतत की फोजदारी हुई—अहमदाबाद गुहारा सुधां ।

श्री जी को व्याह कर आगे जावां दसखत हुवां अब खीदमतां हुई है उठे पोहचा पछै अरज लिखसो सु मंजूर होसी ।

वीरादरी का पांच सदी पाई सुवार अमुमन मोकुफ रहा हे सु उमेदवार हां वहाल रहे दसखत हुवा पातिसाही जावतो बरहम करो जाय नही ।

वीरादरी की तलब भरपायां दसखत हुवा अजमेर की पायवाकी मुकररी सुदै ।

भेड़तो देवती सांचारी ईजाफा का तलब मे पायां, के वीरादरी की तलब मे के दवाव मे पाया, दसखत कीयां कलम, जदै अर महावत खां जी ने कहो यह तो कोल करार हुवा तव ही फुरमान मे दाखल हे ज मुफसी खालसा कीया, अब वेही कोल सुं कु फीरते हे ।

दवाव का दामां मे मअजावाद व फुलयो केकड़ी पावा, दसखत हुवा हीदाय-तुना खां वारसी दै अरज करै ।

महाराजा अजीत सिध जी का पुरा सहरां मे हे सु पायां, दसखत हुवा, खान-सांगां अरज करै ।

राव गोपाल सिधजी को हीमतसिध कवर को मनसब वहाल होय, राव को खीताब होय । दसखत हुवा—मनसब वहाल, खीताब नही ।

सुब सिध गोड़ का सनदां ली ।

ओर फुटकर मनसबदारा की हकीकत लिखी हे सु वाजवलअरज की नकल मुं गानुम होसी जी ।

नवाव डेरे आय कही वाजवलअरज पढ देखो अर राजौ के ईजाफो की व वीरादरी के सुवारो की फेर भी अरज करेगे, वीला सरत न हुवा तो मसरूत<sup>4</sup> ही थोड़ा बोहत लेगे, सु ईजाफे की व वीरादरी के सुवारो की अरजी फेर लिखाई है जी अर ओर साहा दफदरां ने दीया ।

1. हतार=हालोल ।

2. नमेशवद (नमी शवद)=नही होगा, नामंजूर ।

3. रगत (कतित)=इलाहावाद ।

4. मसरूत (मसरूत)=सशत्रुं ।

फुरमान तयार कराय कर स्याहा देणां थां सु दीया ।

दीवान आला का दफतर कौ परवानां फोजदारी का दै तीका स्याहा दीया ।

दवाव मै मअजावाद फुलया केकड़ी की अरज करै हीदायतुला खां वो स्याहो दीयो ।

गोपाल सिधजी का हीमत सिध का मनसव की तसदीक दी

गोपाल सिधजी देढ हजारी जात छह से सुवार,

हीमत सिध चार सदी दोय से सुवार ।

कमाल जालोरी की अरजी हुई वेकी सनदां ली, सुख सिध वगेरा गोडा की सनदां ली ।

सरकार मे आगै वीरादरी का मनसव लीया है तो सीवाय अत्र सामसिध जी का अमर सिधजी वगेरह दस आसामी ओर अरजी मै लिखाय दी है जी, कदीम मनसवदार ।

श्री जी सलामत । खोहरी लेणी है तो सीताव जामनी व खरच मुतसदां को जरूर सीताव ईनायत होय अर सांम रांम ने हुकम होय आपका गुमानता ने लिखे ज सराफा में या सरत लिख दै जी व जागीर बहाल रहे तो मी भाला ताई जामन होये लिख दै । श्री जी सलामत । सांम रांम का गुमानता एक बरम की हर ईजारादार ने लिख देणी कहे सु मुखो तो लिखाय ने जबरदमत तो लिखावे नहीं, कहे थांको राजा जबरदमत है ऐक माल की जामरी दै आगा सु परगनी दाव वेठ रहे जामन दे नहीं तो कीसु झगड़ता फीरा, तीसु तीन बरम को पटो लिखाय लो, तीन बरम की कबुलयत लिख दी, तीन बरम को जामन दां तो परगनी दां तीन बरस में या कबुल कग हा लिख दे ज परगनी बहाल रहे तो दा नहीं न दां । जेसो लिखो मांगे हे अर परगना दै हे तीसु फतव खरीफ जाय हे । श्री खोहरी लेणी हे तो खरीफ सु देमी, खरीफ मे लीयो होयनां सु तुमार मवाफक भरदे सी । तीन बरस की जामनी लेणी, जामन की मानवरी' लेणी । श्री खोहरी लेणी हे तो मव तरह ताहजादा का मुतसदीया सु श्री जी का हुकम मवाफक ठहरायो है जी ।

खानाजाद आपकी परेसानी लीखतो लीखतो थारो पत्र मरजान न हुबो । छह महीनां हुवा मरकार मे तलब का जो रोजगार पाउ सु बजार मे ही उर जाम तीसु उमेदवार हूं छह महीना चहा हे सु पाउ आगा सु मात्र दर माह पाउ । मरम सु ईजन सु दरदान मे फीर मवु जी ।

गुराजीलकाद सुं दवाव सरवराह करणी पड़सी सरजाम दी सु भंडारी जी दासजी मुचलका दीया है ज गुराजीलकाद सु दांगो घोड़ा हाथीया मे डालां सु मुत्तसदी दवाव का रोज कहे है। बीस दीन पाछे दांगो घास सय सरवराही करासां तीसु दवाव को दर माहो सीताव आवे जी ।

सां० १७६८, काती सुद १२, सन वारखडी फजर चलो ।

क्रम संख्या ६०

वकील रिपोर्ट संख्या १०६

कार्तिक सुदी १४, संवत् १९६८

## ॥ श्री गौपाल जी सहाय

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलानु खानाजाद खाकपाय पं० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जी जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप थे भला छे । श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जी । श्री महाराजा जी माईत हे, धणी है, श्री परमेसुर जी री जायगा हे । म्है श्री महाराजा जी रा खानाजाद बंदा हां । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरवान है । श्री जी सुख पावजो जी, पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जी जी ।

। अप्रंच खानाजाद नवाजी को परवानो इनायत हुवो सु सीर चढाय लीयो, तमाम सरफराजी खानाजाद नवाजी हुई जी ।

। अहमदावाद गुहारा कां फोजदारी की दीवान जी का परवांना मै लीखी सु हुकम मवाफक दीवान जी सब हकीकत कही सु अब श्री जी का हुकम मवाफक फुरमान व दीवानी दफतर सु परवांना तयार करावां हां । महमद यार ग्रां कोल सनद सीताव करावे तीको सजावल<sup>१</sup> लीयो है सु फुरमान व परवांना खीदमत कां दीन पांच छह मै हाथ लागसी जी सु हज्ज भेजां हां जी, कंतन की फोजदारी की भी सनद करावां हां जी ।

। वीरादरी का असवारा की अरज तो फेर भी कराई पण चार गदीया डेनका असवार न हुवा, फेर साहजादे जी कही यह हरगज न्ही होना, मु भंडारी जी कही चार वार अरज कराई अदके मंजु न हुवा मु अब सनद तयार करावो मु अब वीरादरी की सनद तयार करावां हां जी ।

---

१. सजावल = भू-राज्य प्राप्ति का अधिकार ।

दवाब का दांमां मे मअजावाद की अरज कराई सु दसखत कीया, हीदाय-तुला खां अरज करे सु महावत खां जी की मोहर सुं स्याहो ले दीवानी कचहड़ी मे दीयो, तीकी नकल हजुर भेजी हे सु नजर गुजर सी । दीवानी कचहड़ी मे हकीकत लिखाय तयार करी हे । अब हीदायतुला खां जी अरज करसी जो हुकम होसी सु अरजदासत करसुं जी, जो मंजुर होय है तो परवांनो कराय हजुर भेज नुं जी ।

। दीरादरी की जानीर अजमेर की पायवाकी मे लेसां अर वाकी रहेली सु अहमदावाद गुहारा मे व कंतत मे भर लेसां जी । चौथाई दागनामां के वासते मोकुफ रहसी दागनामो देसा तब चौथाई का दांम पासा । अर पांच सदी हे थांके दवाब होसी, पहली दवाब के बदले दाम काट लेता था अब दाम काटे नही, दवाब ही सरबराह करासी जी ।

। महाराजा अजीतसिध जी को हालार की भी फोजदारी हुई ।

। खानाजाद नवाजी कर सातसे रुपया दीवान जी पास रोजगार मे दीराया था सु लीया जी, जमां खरच हाल तो ईको दीवानजी नै सोपसुं जी ।

श्री जी का ईजाफा सरत, बीला सरत वासते व महाराजा अजीतसिध जी का सरत, बीला सरत वासते फेर अरजी लिख दी थी सु नवाब महावत खां जी श्री पातसाहजी सु अरज करी सु आगे माजुल<sup>1</sup> फोजदार नै मसरूत थी ती मवा-फिक श्री जी नै भी ईजाफो मसरूत को होई आयो छ जी, तीकी नकल हजुर भेजी है जी । तीसु समाचार मालुम होसी जी ओर परगने कंतत की फोजदारी तगीर अबदुलाखां की श्री जी के नांव हुई छे अर परगनां तरहार की फोजदारी अबदुला खां नै वहाल रही छै सु यां दोनु परगनां की फोजदारी उपर असी लाख दाम मसरूत छै सु तफरीक मसरूत की फेसलन हुई छे अब जो ठहर सी सु पाछा थे श्री हजुर अरजदासत करस्यां जी ।

। दोई लाख रुपया की फरदा भंडारी जी की वा दास जी की मोहर सु लिख कुदरतुला जी नै दी । देढ़ लाख रुपया तो पातिसाह जी की नजर व पचास हजार साहजादा जी की नजर । सु पचास हजार की फरदा तो साहजादा जी आप पास राखी अर देढ़ लाख की फरद के वासते कही, महावत खां ने सोपी जु पातिसाह जी की नजर करै । सु भंडारी जी फरद नवाब ने सोपी ।

। महाराज कवार का ईजाफा भी अरजी दी है जो हुकम होसी सु श्री जी लीयासां जी ।

1. माजुल (माजूम) = पदभूषण ।



॥ श्री रामजी

श्री महाराजाधिराज सलामति

आगे अरजदासती करार मिति मागिअर वदी ६ संवत् १७६८ की हजुरि ईरगाल' करी है सौं सारी हकीकति अरज पहुंची होयगी जी । श्री महाराजा-धिराज सलामति । प्रवांना किताद फारसी वा हींदुई ईतायति हुवा सो आय पहुंचा सलाम करि माये चढ़ाय लीया । वंदा सरफराज हुवा जी । परवाना करार ता० १४ सवाल के मैं हुकम आया जो दसखत पातसाह जी के सनंद वीरादरी के पर हुएं जो सुवे अजमेरि के मे जागीर दयोह । श्री महाराजा जी सलामति । दसखत पायवाकी के हुएं है सो जो तजवीज के प्रगनी मो पायवाकी होयगी सो ली जेही गी अर जो ई सीवाई प्रगने जागीरदारों के होंयगे सो भंडारी जी की सलाह थे रदवद कीजंगी सो जो ठाहरंगी सो पीछे सौं अरजदासती करोंगा जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । नवाब महावति खां जी ईन दीनी मो आपने पईसों के वासतै ताकीदि बहौत करै है । अर थोरा सा दीन भी खैचा है ति सो भंडारी जी की सलाह सो उनकी तसलहै कीजै है सो नवाब की तसलहै हुएं पाछे मलारना वा बौली की रदवदल नवाब सौं करोंगा जी अर मनसब वा ईनाम जो आगे जसवतस्यंध अहमदाबाद गहोरा की खिदमति पर पावै था तिस का स्याहा महावति खां जी की मोहर सौं ले दफत्र दिवांनों मी सौपा है जी सो मनंद जागीर की जहां आगीला पावै था तहां की तयार होय है जी ओर भगवत स्यंध वगैरह जो आगे बिरादरी मे तईनात थे तिनकी बहाली के वासतै हुकम आया सो वंदा वा भंडारी जी की सलाह सो सब कामो मी मुकदई है सो जो जो कांक सरंजाम होयगा तिसकी हकीकति अरज पहुंचागा जी । ओर हुकम आया

1. ईरगाल—मेकना ।

जो विरादरी का सुवारां के दाग के वासतै जो कुछ मुकरर हुवा होय सो अरज लिखी यो । सो अरजी मारफति साह कुदरतुलाह की सौं साहिजादे जी सौं अरज पहुंची । साहिजादे जी फुरमाया जो विरादरी के रजपुतों के घोडो को आगै दाग माफ नही सो अब भी दांग माफ न होयगा, सो अरज पहुंचै जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । प्रगना बहाद्री का इजारा हाल साल<sup>1</sup> के वासतै हुमक आया जो कफायति सौं ढह्या ज्यौं सो पीछले साल के रूपया को लारो के देने है सो उनकी हुंडी ईनायति होय जो पीछले साल सौं तो फारिखत हुजै पाछै हाल साल थे सलाह भंडारी जी की सौं रदवदल कीजैगी जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । प्रवांना हींदुई करार मी० मागेश्र वदी ५ का मै हुकम आया जो प्रवाना टोड़ा भीव की जामिनी प्रोहित स्यांम रांम की पीछे सौं पहुंचैगी अर जो कुछ प्रगने मजकुर मै गुमासतें विजैस्यंघ जी के मुतसरफ हुये है सो जागीरदार सो कहियो जो वै पईसा विजैस्यंघ जी सौं लेहिसो । वंदे सैद खां का दिवान सौं बुलाय कहा तब उन्है जुवाव दीया जो दयारांम मुतसदी विजैस्यंघ जी का ईहां आया है तुम उनकी मुतसरफ हुऐ है सो लिखाय मंगगा अर पंचीली जगजीवनदास वकील को हमारे साथ दयो जो कचहैडी दीवांनी मै साबुत करि दे, हम पईसा दयारांम सौं लेगे । अर हुकम आया जो किसमति नामा<sup>2</sup> फेरि दुरसत करांय ने के वासतै सनंद दिवांनी लिखाय वंदाज्यो । सो सैद खां का दिवांन सौं ताकीदि करी है सो फेरि किसमति नामा करावने के वासतै दिवांनी सनद तयार होय है सो पीछे सौं सिताव पहुंचांउगा जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । फुरमांन वा सिरोपाव दोनो राजो के गुरजवरदारों के हवाले हुये है सो मित्ती मागिभ सुदि.....के चले हजुरि पहुंचैगे जी । अर स्यास्यंघ वा स्यादांन राठीड़ गुरजवरदारों के साथ दीये है सो हजुरि पहुंचैगे जी । अर सब हकीकति स्यास्यंघ जुवानी अरज पहुंचावैगे जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । प्रगना मालपुरा का ईजारा की कबुलाति की नकल ती आगे भेजी थी, तिसो सारी हकीकति अरज पहुंची होयगी जी । अर पटो देवा मै राजस्यंघ जी फिरि गया जो दिली मै म्हांकै मुनमदी जगजीवन दास, साह नैन सुख थे ईजारो ठेहरायो छै तिसु माफिक कबुलाति फेरि निर्गो दयो । तब भंडारी जी वा वंदे यामौ रदवदल करि पटो नै हजुरि भेजा है गो अरज पहुंचैगी जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । हरचैन मुनमदी पुरा लाहौर के नार्तिर

1. इजारा हाल साल—चानू वर्ष का ईजारा ।
2. किसमतिनामा—वद दस्तावेज जिस्मे मु-राज के बंदोबस्ते के मुबतिय करियर दिया जाता था ।

करी जो आगे नासिर खां नावं सुबै काबिल केनै खत २<sup>१</sup> श्री जी को लिखे थे अर हमी दोनो खत हजुरि पहुँचाएँ सो अब तक उनका जुवाब ईनायति न हुवा सो अब बंदा उमेदवार है जो उन खती का जुवाब ईस मजमुन आवै जो पेसौर<sup>१</sup> में बाग वा हवेली मरकार के हैं तिसका गोर खसमांना जिन्न भांति मुतसदी सरकार का कहै तिस माफिक करै ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । स्यामी सीतलदास वैरागी कांथरयो प्रोहित है अर वरस बिस सौं पेसौर की हवेली मौ रहै है । अर महाराजाधिराज महाराजा जी श्री बँकुठंगांसी जी रोजीना<sup>२</sup> टका वा ठाकुर का भोगनै वा खाने कों करि दीये थे फेरि श्री महाराजा जी का अमल मौ जब तक बंदा उहा था तब तक पावै था तब पुरा सरकार सौं तगीर हुवा अर विजैस्यंघ जी को हुवा तब भी पावै था अब हरचैन मुतसदी कहै है जो बिना नई सनद कोई दया नही सो बंदा उमेदवार जो स्यामी सीतलदास की सनद ईनायत होय जो स्यामी श्री ठाकुरा नै भांग लगावै अर श्री.....जी को आसिरवाद दे जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । ओर तो काम सब श्री.....जी के प्रताप सौं हुये ही है अर होते है । अब भंडारी जी वा बंदा ईस बात के तलास मो है जो दोय महीना की सीख आवैरि की होय तो सुभ सरंजाम करि अर गहोरै<sup>३</sup> पधारै ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । मुंतरा<sup>४</sup> की फोजदारी को प्रवानां तयार हुवा था, फेरि साहिजादा जी फुरमाई जो मुंतरां हमारी जागीर है उहां राजा की फोजदारी बनैगी नही । तब भंडारी वा बंदे अरज करी जो तरहार वागैरह सब महाला की फोजदारी राजा कों फुरमावै जो राजा मुजरा करि दिखावै सो अब ताई मुसकउस<sup>५</sup> बस हुवा नही जो मुसकस ठाहरैगी सौं पीछे सौं अरज पहुंचाउगा जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । मी० मांगथ सुदी १ बिसपतवार के दिन रुसतम दिल खां माफिक ईलतमास नवाब महाबति खां जी के खलास हुवा है जो अर दयोढ हजारी पांच सै सुवार को मनसब हुवा है कांगरा की किलादारी मुहरर हई है अर हुकम हुवा मुलाजमति न करै प्रवाहरा जाय ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । पातसाह जी नै दोनो राजों को घोड़ा २ मरहमति कीऐ थे सो महाराजा अजीतरयंघ जी के तो घोड़ा किमति २०० ss

1. पेसावर ।

2. प्रतिदिन ।

3. पर ।

4. मुंतरां=मुमरा—मदरा ।

5. मनसब (मुसकस) = तदर्थीय किया हुआ, निष्पत्ति किया हुआ ।

का आया अर सरकार मै कामि किमति का घोड़ा आया तब बंदे भंडारी जी की सलाह सौ साह कुदरतुला कों अरजी लिखी दी । साहिजादे जी दसखत कीऐ जो जिस किमति का घोड़ा राजा अजीतस्यंघ को दिया है तिस ही किमति का घोड़ा राजा जैस्यंघ को दयौह । सो घोड़ा बदलाय हजुरि भेजा है ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । साहिजादे जी ने निसांन वा सिरोपाव खासा दोनौ राजों को ईनायति कीऐ हैं सो स्यौस्यंघ वा स्यौदांन राठौड़ के हवालै कीऐ है । सो हजुरि पहुंचैगे जी । और पचौली जंगजीवनदास जमा खरच आपना अलुफा का वा लवाजिमां को ईवतदा<sup>1</sup> व सरू खिदमति का करि भेजा है सो नजरि गुजरैगा जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । प्रगाना टोड़ा भीव मै फुटकर जागीरदारो के दांम है सो वैभी ईजारै ठहराये है । हाल साल<sup>2</sup> का दु माहा, गुदसता साल<sup>3</sup> का सवा दु माहा, ती साला<sup>4</sup> का अढाई माहो ओर खरचा उनासी सौ ठहरा है । सो औरो की सनद तयार होय है, हाल पातसाह कुली बेग गुरजबरदार का दांम दोय लाख दस हजार की सनंद दरगाही तयार थी तिसको पटो कराय वा दरगाही सनद की नकल हजुरी भेजी है अर खरच का रूपया ठाहरे हैं सो हकीकति अरज पहुंचैगी जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । प्रगना टोड़ा भीव की जांमिनी प्रोहित स्यांमराम की अब तक आय पहुंची नहीं, सो उमेदवार हों जो जांमिनी सीताव ईनायति होय जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । नवाव महाबति खां जी को पातसाह जी खिताब ईनायति कीया है बकसियल मुमालिक महाबति खां बहादुर जफर जंग ऊफादार बहादरसाही ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । मी० मागिसर सुदी ५ सोमवार के दिन सवारां ही मसहुद खां खोजा वागै० का दरोगा, केताएक तोबखांना का तोपची लै वांगो की महाफजति<sup>5</sup> के वासतै सुवार हुवा था सो राव बुधस्यंघ जी की मिसिलि आय निकस्यां सो राव जी की मिसिलि एक बाग मो थी सो बसंत राय सौ कहाय भेजा जो तुम मिसिलि बाग सौ उठावो, दंगल मै डैरा करौ तब वा कही जो दिन एक दोय मै डैरा उठावैगे । तब मसहुद खां आगे कों चला बाजार

- 
1. ईवतदा (इवतिदा) — आरम्भ, शुरु ।
  2. हाल साल — चालू वर्ष ।
  3. गुदसता साल (गूजस्ता साल) — पिछला वर्ष ।
  4. ती साला — पिछले से पिछला वर्ष ।
  5. महाफजति — हिफाजत, सुरक्षा ।

मो आय निकसा तव ऐक दरखत तुरत का कटाऐक कलाल की दुकांन आगै पड़ा था तव कही ईसकी वाधि ल्योह तव बाजार मो सीर हुवा रजपुत दोड़े तव तोपच्या गोली चलाई सो ऐक आदमी तो वरनि गयो, आदमी ४ ऐक चिंग दायल हुगे, सो हकीकति अरज पहुचै जी ।

मो० मागिश्च बुदी ६, संवत १७६८ ।

श्री राम जी

श्री महाराजाधिराज सलामति

आगै अरजदासति करार मित्ती मागिश्च सुदी.....की हजुरि ईरसाल करी है तिसो सारी हकीकति अरज पहुंची होयगी जी । श्री महाराजाधिराज सलामति । दरवार खरच वागैरह जो ईहां होय है सो सब भंडारी जी की सलाह सो कीजे है जी । सो जहां भंडारी जी देह ऐक कटावै है सो तो काटि लीजै है जी अर वटो साहिजहांनी अर औरंग साह्या सराफा मै ईकोत्रा सईमों कमि है जी सो बंदे भंडारी जी सौं या हकीकति कही जो हमारी सरकार मै दस्तुर साहिजहांन्या का है तव भंडारी जी कही जो म्हे कहा सो थे करो, ईकोत्रा मई काटी लेवा मै कांड किफायति छै या रूपया देवा मै सब रजावंद होय है सो हकीकति अरज पहुंचै जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । भंडारी वा बंदा वा गुलालचंद वा पचौवी जगजीवंतदास हदायतुला खा जी के जाय जागीर की रदवदल करी तव नवाब फुरमाया जो मोरठ मै आगै जागीर फोजदार पावै या सो तो तुम निघाय ल्योह अर पिराग मै जो आगै जमवंत स्पंघ पावै सो ऐ निघाय ल्योह । अर निघाय की जागीर अजमेरि की पायवावी है निम सो निघाय ल्योह । तव भंडारी जी खिन्नवति मै अरज करी जो आगै नवाब खानगानादी हमारी दाए प दी थी तिम ही भानि नवाब अवै हमारी दाह पबई । तव नवाब जुदाव दिया सो तुम

साहिजादे जी सो ईस बात की अरज करो मै भी साहिजादे जी सो अरज करौंगा । साहिजादे जी फुरमावैगे तो मै तुमको कौल द्यौहगां । हमको अर तुमकों साहिजादे जी का हुकम बजाय ल्यावणा है । तब सव नवाव सो रूखसति होय, क्रिपारांज जो पसदसत नवाव का वा सुवा नवीस अजमेरि वा अकबरावाद वा विराग का है तिस के डेरे गये, अर उससो रदवदल करी जो तुम हमारा काम सिताव करि द्यौह । रूपया ३००००) नवाव को देहिगे अर रूपया हजार १००००) तुमको देहिगे । तब क्रिपाराम जुवाव दिया जो मेरे ताई रूपया पांच हजार ही द्यौह पाणे नवाव ने रूपया चालिस हजार पुरा करि द्यौह । तब भंडारी जी रूपया ४००००) तो नवाव नै अर रूपया १००००) क्रिपाराम नै देना ठहराया जी अर नवाव को भी रूपया क्रिपाराम की मारफति देना मुकरर कीया छै जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । मिर असदुलाह<sup>१</sup> मनसबदार पातसाही को पिदमति फोजदारी वा अमीनी प्रगनै बैराठ वा सिवाने की हुई सो उन मसाले के वामत पातसाहजी को अरजी गुजरांली तिस पर दसखत खास साद<sup>२</sup> होय आवे तिसकी नकल हजुरि भेजी है सो नजरि गुजरैली जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । पातसाहजाद जहांसाह जी के मुतसदयौ पातसाहजी कों अरजी गुजरांली जो प्रगना मुतसफा वादसाहिजादे जी की जागीर मै है तहां दोनौ राजी के लोग कही जाय है सो सव जागीर उजड़ होय गई । तिस पर पातसाहजी दसखत कीऐ तिस की नकल हजुरि भेजी है सो नजरि गुजरैली जी । श्री महाराजाधिराज सलामति । बंदा वा भंडारी को नवाव हदायतुला खां जी बुलाय बोलमा दीया जो ईनायतुलाखां जी की जागीर उहा थी जो तुम्हारे लोगों खराब करी तब हमो अरज करी जो अब ताई तो राजी की नातिग<sup>३</sup> कही ठोर को आई नही या अज रहैगी, नवाव की जागीर राजो के लोगों बनी करि खराब करैगे जी । तब नवाव हीदायतुला खां जी खत लिखी दीया सो हजुरि भेजा है जी । सो गुरति मजलसी वावत का जुवाव सिताव ईनायति होय जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । आगे हुंडी रूपया साहीजहान्या<sup>४</sup> की आवे सो सो ही दरज मै आवे थे अब हुंडी औरंगमाह्यो की आई सो बाजार मै बटा बदलाव मै सो दिकोया सई थे कनि आवे अर बंदे माफिक तिरसते भंडारी जी सो गही जो हमानी नरकार मै दह एक काटि लीज है अर रूपया सहाजहानी

1. असदुलाह का ।

2. दसखत खास साद—वादसाह के हस्ताक्षर ।

3. नातिग (नातिग)—दिखावत ।

4. साहजहानी रूपयों में भुगतान सम्बन्धी ।

दीजै है। अर साह नैन सुख का लिखा मेरे नाव आया है जो मुहमसाजी<sup>1</sup> कों खरच करी तिसमे हुंडावनि दर सैकड़ै रूपया १३॥) काटि लीज्यो सो बंदे सब कागद भंडारी जी को पढाए। भंडारी जी जुवाब दीया जो म्हे रूपया दिलावां सो थे देवो करी बटो का हुंडावनि म्हे कदे कांधी न छै देह एक जहां की म्हे कहां तहां की काठि ल्यौह सो हकीकति अरज पहुंचै जी।

श्री महाराजाधिराज सलामति। गहोरा का जमीदार हिरदेई का पोता सभादत राम का बेटा पातसाह जी के हजुरि दादखाह<sup>2</sup> आयो थो सो या खबरि पाई जो गहोरा की फोजदारी श्री...जी को हुई, तब आपनों दीवान बंदे पास भेजा अर हकीकति लिखी भेजी सो ऐ पेसकस देनी करै है जो हमारं उहां अमल कराय दयौ सो उसकी हकीकति बंद पारसी वजनिंसि हजुरि ईरसाल कीया हैं सो नजरि गुजरैगा जी। सो जो उसका जवाब जो खात्र मुबारक सों फुरमावै सो जुवाब मा प्रवाना सित्ताब ईनायत होय जी।

श्री महाराजाधिराज सलामति। प्रवांना करार मी० मागिश्र सुदी ४ का वा अरजदासति साहजादे जी कों बाबत साह कुदरतुला को इनायति हुवा था सो आय पहुचा, सो प्रवांना बंदे वजनिंसि भंडारी जी को पढायो। तब भंडारी जी जुवाब दीया जो अबार थे ई बात को जुवाब मति लिखो मेरे ताई भाई रुघनाथ नै श्री.....जी के हुकम माफिक लिखे है मै जब ईसका जुवाब कहौ तब लिखियो। तब बंदे कही जो कहो तो अरजदासति साहजादे जी कों वा साह कुदरतुलाह को गुजरांनि, ऐं तब कही जो अब ई अरजदासति गुजरांनवा की वकत होसी तब म्हे अर थे ई अरजदासति नै गुजरांना ला सो हकीकति अरज पहुंचै जी।

श्री महाराजाधिराज सलामति। ज्यो खरच फरद २४ महीना परोज २२ का हजुरि ईरसाल कीया है सो नजरि गुजरैगा जी। सो दयाराम को हुकम होय जो खजाने का दाखिला भराय बंदे की हवालगी मै दाखिल करि दे जी।

श्री महाराजाधिराज सलामति। हदायतुला खां जी को खिताव उजारति खां की सरफराज हुवौ छै सो वाका की फरदां सो अरज पहेंची होयगी जी।

श्री महाराजाधिराज सलामति। भगवंत राय दीवान राजस्यंध जी का नै प्रगना मालपुरा का इजारा बावति देना कीया था सो मुसारण आलेह<sup>3</sup> रूपया २०००) दीया है जी सो हकीकति अरज पहुंचै जी। मी० पोस वदी १, संवत १७६८।

- 
1. मुहमसाजी (मुहिमसाजी)—महत्वपूर्ण कार्यं।
  2. दादखाह—घाशीवाद लेने।
  3. मु सारण आलेह (मुशरून इलैहै)—उपरोक्त।



॥ श्री रामजी

श्री महाराजाधिराज सलामति

॥ आगे अरजदासति करार मितो पाम वदी १ संवत १७६६ की हजुरि ईरसाल करी है तिसों सारी हकीकति अरज पहुंची होयगी जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । मितो मागिश्र सुदी १२ सोमवार के दीन साह कुदरतुलाह के आदमी सों वान्यामतुला वा असीर खां काविल वाले का वेटा तिसो गुफनगो हूट सो साह कुदरतुलाह खां का आदमी को जखमी कीया तब साह कुदरतुलाह जी गुसा खाय ईहतमाम खां के डेरे रुसि जाय बैठे, तब या खबरि साहीजादे जी को हुई तब साहीजादे जी फरमाया जो तुम जाय साहि कुदरतुला खां को जिस भांति रजामंद करि लै आवौ, अर दिवान खास व अदालति का दारोगा नै हुकम हुवा जो जब तक साह कुदरतुलाह को ऐ न लै आवै तब ताई हजुरि मा आवै तब माफिक हुकम कै वांजाय साह कुदरतुलाह जी के मिनति करि आजीजी करि लै आए। फेरि घड़ी चारि राति रहया साह कुदरतुलाह जी सुवार होय सहेर लाहौर को गये । किसी को जाहिर न हुवा जो सहेर में कृण जायगी जाय रहे । भंडारी जी साह कुदरतुलाह पासि रदबदल को गये थे गो साह कुदरतुलाह जी तो पाए नहीं तब राति को साह जी के सब आदमी बुलाय अर कही जो बाहुत बुरी करी साहजी जहां सहेर में गये होंय वहा मुनै बसावो, तब उनौमें सहेर मैतिसांदि, तब भंडारी जी साहिजादे तो अरज कराई जो मैं ठौर साह जी की पाई है हुकम होय तो जाय लै आऊ । तब साहिजादे जी फुरमाई जो अन्यत्तै जाय ले आवौ । तब भंडारी जी घड़ी चारि राति पाछि नीरहया अनवार होय गजरवाजे डेरे आया अर जहां जहां लसकर में साह जी के रहने की डोर थी तहा गुलालचंद को भेज्या अर वन्दे सों कहा जो तुम ईहाही

रहो, गुलाल चंद साहजी की खबरि ल्यावै तव तुम जाय साहजी की तसलहैकीज्यै अर साहजी को डेरे ले जाज्यी अर मै सहैर जाय साहजी की खबरि लहां हां । तव भंडारी जी असवार होय सहैर मै गये, जहा साहजी को उनके आदमी वताया था तहां तो पाए नहीं, तव लोग वताए जो ईहांसो अब ही साहजी असवार होय नवाडे परि गए हैं । तव भंडारी जी नवाड़े गया उहां भी साहजी न पाए तव लोगों वताया जो साहजी मुलतान की राह जातै है तव भंडारी जी सहैर वाहिर होय उस राह चले, ऊहा नवाब महावति खां जी सौ मिलाप हुवा तव नवाब फुरमाया जो तुम ईस वखत कहा जाते हो । तव भंडारी जी अरज करी जो साह कुदरतुलाह जी को हुंढै थे जो जहा उनके आदम्यी वताए थे तहा तो पाए नहीं । तव नवाब फुरमाया जो हमारे असवार खबरि ले आए है अर असवार साथ हैं सो तुम हमारी लार आवो हम साह जी को लै आवेंगे । तव नवाब वा भंडारी जी घड़ी चारि दिन रहयां, साहजी को लै आए । सो भंडारी जी तो आपणै डेरे आए अर नवाब महाबत खां जी साहजी को आपणै डेरे ले गया अर कुछ खिलाय अर आपणै आदमी तातवर साथ दे साहजी को साहजी के डेरे पहुंचा आए ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । मिति मागिश्र सुदी १४ बुधवार भंडारी खीवसी वा बंदा हदायतुला खां जी के डेरे गए थे, सो नवाब सौ तो मिलाप न हुवा, दुपहैर उहां सौ उठि नवाब महाबत खां जी के डेरे गये । पहैर दिन बाकी रहै नवाब सुवार होय पातसाहजादे.....की हजुरि गए अर कुदरतुलाह जी तिन दिन ताई दरवाजा मुंदि हवेली मां ऐकले बैठे रहे, अर उस दिन तो नवाब महावति खां जी को डेरे को रूकसति कीया अर सुबांह हुऐ, साह कुदरतुलाह के बुलावने के वासतै साहिजादे जी के रूका साह कुदरतुलाह को आए सो साह कुदरतुला ने मुकान पछे अर दरवाजा न खोला, पातसाहजादे जी अपने हजुरी साहजी पास भेजे पण साहजी कीसी सो बात न करी, तव राति पहैर ऐक गए सब चाकर साहजी के साथ ले धोढी पर जाय उन चाकरा हाथ कहाया जो तुम भूखे प्यासे मरते है । तव साहजी उठि के वाने पास आए कहा तुम सोर क्यों करते हो, जोवो तुम खांना खाब, तव चाकर कंहा हम खांना तव खांयगे जब आप खावगे, तव कहा जो फते महैमद हमारा चाकर खाना ले आवो, तव खासी भंडारी जी को नाही रही सो रूकसति कीया, तव भण्डारी जी तो उहांही रहे; बंदा वा गुलाब चंद वा पंचोली जगजीवनदास को रूकसति कीया सो डेरे आए । मी० पोसवदी १ सुक्रवार को दिन नवाब व महावत खां जी छड़ी चारि दिन पाछी लाबा की रहां, तव माफिक हुकम पातसाहजांद के साह कुदरतुलाह के डेरे आय सब लोगों को हवेली मांसों काढि दीया, नवाब नै दरवाजा पसों खंडे होय आवाज दी कै तो दरवाजा खोलो कै हम द्रवाजा तोड़ी नाखैगे,

तब साहजी नै दरवाजा खोला । साहजी अर महावति खां अंदर बैठि वार्त करी घड़ी दोय दिन सौ नवाव साहजी को पातसाहजादे जी पास ले गये, भंडारी जी घोड़ी ताई साथ गया । साहज को नवाव डेरे गये, अर पहैर राति गये साह कुदर-तुलाह खां अपने डेरे आये तब भंडारी जी साह कुदरतुलाह जी के साथ आये, घोड़ी पर सौं रूखसति किये । मी० पोस वदी २ सनीसर वार के रोज माफिक दरतुर के साहजी पातसाहजादे जी के हजुरि गये दव भंडारी जी को भी साह कुदरतुलाह जी के साथ आये अर वंदे सौं कंहा जो कहोतो मै आज पातसाहजादे जी के हजुरि होय आंऊ, मुझै साह कुदरतुलाह नै कहा है, तब वन्दे जुवाव दीया जो दोनी सरकारो का काम तुम को करना है जो खात्र मै सो करो । तब भंडारी जी को साह कुदरतुलाह ने साहिजादे जी की हजुरी बुलाय भेजा, घड़ी एक हजुरी रहे पाछे डेरे आये, मोहर ५० वा छीट थान १० मुलतान का थान २ बसमाकी थान.....नजरि गुजरानी साहिजादा जी सब रखाई फुरमाया जो साह कुदरतुलाह के वासतै तुम खूब तलास कीया तुम्हारा मुजरा हुवा, मिहरवानगी फुरमाव भंडारी जी को रूखसति कीया । दुपहैर को साह कुदर-तुलाह डेरे आये भंडारी वा वंदा वा गुलालचंद वा पंचोली जगजीवनदास साह कुदरतुलाह जी पास गये तब साहिजादे जी सौं व साहजी सौं मुझै जुवाव सुवाल के आये थे सो सब पाछा ऐ व्होत भली भांति अदव सो लिखे थे ।

श्री महाराजा जी सलामति । पहैली तो फुरमान तयार हुये तब महावत खां जी पास साहजी नी अरज करी जो हुकम होय फुरमान लै गुरजवरदार चलै-तब पातसाह जी फुरमाया जो हसबल हुकम ईसही गुरजवरदार के हाथा ले रंगो, राजा को ई दिन साढीर रहै हम हरसदार खां की फोज दे दवावे को भेजा है....।

॥ श्री गोपाल जी सहाय

श्री महाराजाधिराज महाराजा

श्री जैसिघजी

स्वास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री.....चरण कमलानु खांना-जाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारजौ जी । अठ का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छै जी । श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद करावजौ जी । श्री जी माईत है, धणी है । श्री परमेशुर जी री जायगा हे । म्हे श्री जी रा खांनाजाद बंदा हं । श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी थे महरवान है । श्री जी सुख पावजौ जी, पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जौ जी ।

अप्रच खांनाजाद नवाजी रा परवानां सासता ईनायत कीजौ जी ।

बीरादरी की जागीर को व मसरूत की जागीर कौ डोल वजारत खां जी पास लिखायो दीवानी दफतर सुं भली भांत लिखायो तीका परगनां की तफसील आगे अरजदासता मे भेजी है अर तफसील दीवान जी नै भी लिखाय दी है । सु मालुम होसी जी । आगला परगनां सीवाय फागवी का दांम आठ लाख सुलतान सिघ जी कै नांव दफतर मे बहाल रखाया था सु वांके नांव ही रखाया था, अब सुवार तो वांका कम जात बहाल रही । अर ईजाफा को तलास करा हं सु भी लेसां । सदी ईजाफ जात होसी तब चार सदी होसी । सु चार सदी का चार लाख दांम फागवी का भी ई कोल मे लिखाया अर बाकी सब तलब का दांम परयाग जी का सुवा मे सरकार तरहार मे व मानकपुर मे लिखाया है । भंडारी जी का कहा मवाफक अब डोल दीन दोय मे साहजादा

जी पास जासी, दसखत होय आसी तव डोल की नकल हजुर भेज सुं जी । भंडारी जी दोनु सरकार की तरफ सु चालीस हजार तो वजारत खा ने देणा कीया, दस हजार बांका पेसदसत ने देणा कीया ।

शह कुदरतुला जी ने महावत खां जी आठ कोस सु मनाय ल्याया तो भी चार दीन ताई दरवाजो हवेली को बंद राखो । पोस बंद १ महावत खां जी डेरे आया, दरवाजो खुलाय साहजी नै पातसाहजादा जी पास ले गया । भंडारी जी भी कुदरतुला जी के डेरे रहा । नवाव साहजादा जी पास सु वारे आया तव भंडारी जी सुं कही दोनु राजा चंद रोज रहणे का हुकम हुवा था सु अब हुकम हुवा राजा तो अपना खीदमत उपर जाय अर हजार सुवार रखै हो सदार खां पास ।

पोस बंद २ भंडारी जी ने कुदरतुलाजी साहजादा जी पास ले गया तव यां पचास मोहर नजर की दस छोट सो रखाई मजकुर तो कुछ कीयो नही ।

खोहरी का ईजारा के वासते हुकम आयो थो सु साहजादा का मुतसदीयां सुं प्रोहत की जामनी वेई कही सु हरगज कबुल न करे था सु हर तरह समझाया तव कही, तीन पांती<sup>१</sup> का तो और जामन दी अर चौथी पांती प्रोहत की ही कबुल करसां । अर पोस बंद हो प्रोहत का गुमासता कह है ज म्हां पर प्रोहत जी लिख दे ज धे जामन होजो तो म्हे साहजादा का मुतसदीयां ने रजामंद करलां म्हां की ही जामनी दां । तव खांजाद कही, म्हां सु रुवरू कर दी तो हजूर ने लिखां तो पर कही, प्रोहत जी का लिखा वीगर म्हे कु कर कहां तीसुं खातर मुवारक मे आवे तो प्रोहत की ही जामनी भेजजे । बांका गुमासता पेस ले जाय तो भली है । खांजाद भी तलास करसी अर जो ऐक दीय पांती को ओर जामन बणे तो नीपट भलां है । तीसुं जामनी व खरच सीताव आवे तो पटो लिखाय लां जी, अर खरीफ सुं ही देसी ।

खांजाद जमां खरच हजुर भेजो है सु उमेदवार हुं साहुकारां का रूपया ईनायत होय तो सरम रहे । फागुण मे खांजाद का लड़का को व्याह है जो साहुकारां सु सरोधो रहे तो फेर गरज करै तो व्याह करदुं जी अर आगां सुं दर माहो दवाव में पायां जाउ ।

भगोतीदास हरकारे अरज की तीकी नकल दीवान जी ने सोपी है सु हजुर भेजी है तीसुं मालुम होती ।

मुतसदी सरकार सुं सदा पाय आया<sup>२</sup> है सु रोज ताकीद करे है । परीछत राय

1. पांती—भाग ।

2. दरबार के मुतसदी हमेना से सरकार (फाम्बेर राज्य) की तरफ से निश्चित राशि (बरगीत के रूप में) प्राप्त करते रहने से ।

श्री महाराजाधिराज सलामती

अरजदासती करार मीती पोस सुदी ६ कि लिखी हजुरी भेजी छै तीसौं सांरी हकीकति अरज पहुची होयली जी । श्री महाराजाधिराज सलामती । मीती पोस सुदी ८ सनीसरवार कोलारा सौ देवती सांचारी का रदवदल हुई सो ती साला सरकार मै ईजारे ठेहरया सो कबुलियती वा पटा की नकल पाछा थे हजुरी भेजुलो जी अर ईक हराफ हकीकती बंद मै लीखी भेजी है सो मालुम होयली जी । सो उमेदवार हु जो जामनी साहुकारां की सीताव ईनाईत होय जी । अर जै जामनी आवाकी ढील होयली तो बंदा सी वा भंडारी सी कोलार सुण काढैला जी । जामनी व वाकी सीताव ईनाईत होय जी । टोड़ा की सी जामनी ईनाईत न होय जी जो स्यामराम का गुमासता नकारवाने तयार होय परगना टोडा की जामनी का अब तक पडया नही है जी । पिरोहीत मजकुर का गुमासता कहै छै जो या चीठि प्रोहित का दसकता की नही ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । हुडी<sup>1</sup> दरवार खरच कै वासतै ईनाईत हुई थी तीस का जमा खरच का बंद १ ईक हरफि माफीक सला भंडारी जी की जो खरच हुंको छै तीको करी हजुरी भेज्यौ छै सो नजरी गुजरैलो जी । श्री महाराजाधिराज सलामती । दरवार खरच का जोनको देणा कीया हे सो तो बीना लीया काम करैला नही । तीसै बंदा उमेदवार है जो खरची सीताव ईनाईत होय जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । कोलार कहै जो म्हां कै तो बुलाकी चंद की मारफती रूपया ६१०००) पहुचै है अर तुम सड़सती हजार कहो हो सो रूपया छ हजारे कि फयज थे म्हां नै बुलाकी चंद की मुहोर से मंगाई दयोह, म्हे बुलाकी चंद

1. हुडी ।

का उकील पासी लेहगे । अर येक महीना मै कवज न आवैली तो रूपया तुम पासी लेहगे । तीसो बंदा उमेदवार है जो कवज असली सीताब ईनाईत होय जी । अर काजी की मुहोर सौ कवज हजुरी मै रहै जी ।

श्री महाराजाधीरांज सलामती । दवाब तो सरबराह कीया परि खरची का कसाला है तीसौ बंदा उमेदवार है जो खरची दवाब की पंचोली जगजीवनदास के नाव सीताब ईनाईत हो जी अर मुसरफतै हैवीलदार भी आवै जी ।

मीती पोस सुदी ६, सवत १७६८, मु० लाहोर ।

॥ श्री राम जी

॥ श्री महाराजाधिराज सलामती

अरजदासती करार मीती पोस सुदी ६ की लीखी ईरसाल करी है जी सौ सारी ढकीकती अरज पहुची होयली जी । श्री महाराजाधिराज सलामती । परवांना करार मीती पोस वदी ५५ का लीख्या साद हुवा था सो मीती पोस सुदी ६ आय पहुता वंदा सरफराज हुवां, माथे चढाई लीया जी । हुकम आयो जो परगना चाटसु बार्गहर की तहसील, तकफीफ वा जीयाफती<sup>१</sup> कै वासत असवार १५ नुसतीयार खां का आया छै सो तुम तलास करी परवांना दीवांनी माफी का सीताव कराई भेजी ज्यो ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । फरद अरजी की तयार करी है सो ईद कै वासत ऊजारती वाजी का उखत<sup>२</sup> पाया नही सो ऊकत पाय अरजी गुजरानी परवांना कराई भेजुलो जी । वॉलफैल सुवारा मा ऊठवा कै वासत जरूरी जाणी अरजदासती दीपचंद दीवान नुसरतयार खां का क नाव मै फरद नकल दसखत खान जो पातसाह जी माफ का कीया है सो लीखाई हजुरी भेजी है जी सो मुत-नदी हजुरी का नै हुकम होय जो कागद नुसरतयार खां के पहुचावै जी अर असवार उठावै जी । परवानो कराई पाछा थे हजुरी भेजुला जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । हुकम आया जो परगना फागुई मै दाम गाननां पाय वाकी है सो दरोवसत जागीर मै लीज्यो सो माफीक हुकम वंदा अमान करेलो जी । श्री महाराजाधिराज सलामती । हुकम आयो जो परगना येक-

१. तकफीफ व जीयाफती (तकफीफ व जियादती)—कमीवेणी ।

२. उखत—बचन, समय ।



लात अठै तहकीक करी सो न हुई सो ठीक पाडी कर लीखज्यौ । श्री महाराजां-  
घिराज सलामती । यकलात अठै अजमेरी का कानुगो वा सो तहकीक कीयो सो  
उनांनै कही जो यकलात जी रो...जाद भाया का नाव है सो अरज पहुचै जी ।

श्री महाराजाधीराज सलामती । वीरादरी की जागीर के वासतै वंदा राती दीन  
वजीद छै । उमेदवार हु जो श्री महाराजा जी का तेज परताप थे सीताव सरंजाम  
पावै जी । श्री महाराजाधीराज सलामती । हुकम आयो जो मीती पोस वदी 55  
नै हःदुवार<sup>1</sup> सु कुच क्रिया है सो वंदा नै वडी सुस्याली हुई जी, अर वंदा भी अवे  
ईही बात का उमेदवार है जो सीताव ही श्री.....जी का कदम देखु जी । श्री  
महाराजाधीराज सलामती । कासीदा की जोडी अठै कोई नही सो मुतसदी हजुरी  
का नै हुकम होय जो कासीदा की जोड़ी सीताव भेजै जी । अवै तफाऊन ज़्यादा  
पढया है सो कासीद आवै तो पै दर पै खवरी पहुचावो करूजी ।

श्री महाराजाधीराज सलामती । परगना वहात्री की जामनै के वासतै आगे  
अरज लिखी छी सो मालुम हुई होसी जी । सो वंदा उमेदवार है जो जामनी  
सीताव ईनाईत होय जी । जामनी आवा की ढील होयली तो को लार भंडारी  
वां वंदा सी सवाग करैला जी । मीती पोस सुदों १०, संवत १७६८ ।

॥ श्री गोपालजी सहाय छै जी

॥ श्री महाराजाधिराज महारांज।

॥ श्री जैसिघ जी

॥ : ॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री चरण कमलान सदा सेवग  
खानाजाद खाकपाव पचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी ।  
अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप कर भला छै जी । श्री महा-  
राजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी । श्री जी घणी छै,  
साहीब छै, श्री परमेसुर जी री जाईगा छै जी । म्हें श्री महाराजा जी रा खाना-  
जाद वंदा छ। जी । श्री पातसाह जी श्री जी से मीहरवान छै तीको श्री जी सुख  
पावजो जी । पान गंगाजल आरोगण रा घणां जतन फुरमाव जो जी ।

। अप्रंच श्री महाराजा जी को परवानो आयो सु माथे चढ़ाई लीयो, तमाम  
सरफराजी व बंदनवाजी हुई जी ।

। मसहूत<sup>१</sup> की व बरादगी की जागीर मे परगनां भंडारी जी की व दासजी  
की सलाह मवाफक लीया अर वाकी जु ज तलव रही छै सु भी यांकी सलाह  
मवाफक लेरा जी ।

। हुकम आयो, जमां खरच की व दवाव की बराबरदी की हकीकत हीदंवी  
परवाना गु मालुम होसी हीदवी परवानो ई जोडी की साथ पोहचो न्ही, पोहचसी  
तव जवाव अरजदासत में करमु जी, पण खानाजाद का बेटा को व्याह फागुण मै

१. मसहूत जागीर ।

है, आजसु ऐक महीनो ब्याह को रहो है, सठ सरम श्री जी नै है । अर परगनां खोहरी के वासते साह नेन सुख जी लीखो छै जु ईजारा को पटो कराई भेजजो अर मालजामनी अठै आमल छै तीकी नीसां करदे अमल करसां के हजुर से आदमी मातवर पटो ले आवे तीकी म्हे अठे मालजामनी की नीसां कर दे पटो लेसा ।

सु श्री महाराजा जी सलामत । खोहरी को परगनो नरुका अनोप संघ की सुपरद मै तथा तनखाह मे छै अर पातसाह जादा जी के घणां मुसाहीवा मे छै, जुदी आमल मातवर उठै नही अर अठा सै ई कांम के वासते आदमी भेजै सु वण न आवै अर या तो वमुजव हुकम के पातसाहजादा जी का मुतसदीयां से रदवदल कर इजारो ठेहरायो थो सु अब हजुर से मालजामनी साहुकार की आवै अर वांका खरच कीह की आवै तो पटो रबी से लीखाई हजुर भेजां जी ।

। ओर श्री जी सलामत । मुतसदी पातसाही दरवार का हमेसां सरकार सुं दर माहा पाई आया छै सु खानाजाद से तलव करे छै, अर वांही सु काम रात दीन छै अर परीछत राय की मोहर सुं फरद यांका महीना वगेर की छै तीकी नकल खानाजाद आगे हजुर लीख भेजी है अर ईकी नकल दीवान भीखारीदास जी भी ले हजुर भेजी है जी सु नजर गुजरसी जी । उमेदवार छां जु दवाव की तनखा के साथ यो भी हुकम आवे तो मवाफीक दसतूर के पायांजाई तनखाह या जरूर कर दीजे जी ।

। ओर पातसाही दरवार का चोवदार तथा दीवान आला की कचहरी वगेरे चोवदार हमेसां ईनाम दर माहा पाई आया छै अर हमेसां कचहरी दरवार जाणो हमेसा यांही लोगां से काम, तीसै उमेदवार छुं जु हुकम आवै तो मवाफीक दसतूर के हमेसां पायो करे जी तीकीं तनखाह आवै अर रुपया दां नै दीनां दीयां तो कही दरवार मे जाव सकजे नही, पहली चोवदार खीदमतगारां ने दीजे तब जाण दे ।

। ओर खानजाद का व लवाजमा का दर माहा की तनखाह माहजहानाबाद व लाहोर व पेसोर का पुरा उपर आई सु माथे चढ़ाई ली मरफराजी व बंद-नवाजी हुई जी मवाफीक हुकम के दीवानी परवानो पुरा का हवानदारा ने दीखायो तीपर लाहोर का पुरा का हवानदारा जाहर करी जु वाग मै पचाम रुपया ई बरस का हासील मे रेवी मुथा बाकी छै मु मावण भादवा मुथा भर देसां अर पेसोर का पुरा का हवानदार खीदमत को ईमतेफा लीख दीयो छै जु उठै एक दाम हासील नही । अर जहानाबाद का पुरा का हवानदारा नै हकीकत लीम

छै जो उठा से समाचार आवसी सु अरजदासत करसु जी, तीसु उमेदवार छुं जु हमेसां दवाव की तनखाह मे सुं पाई आया छां ती मवाफक पायां जाऊ जी ।

। ओर पातसाही दरवार को जमा खरच<sup>1</sup> आगे हजुर भेजो है सु नजर मुवारक गुजरां ही होसी जी तीसुं उमेदवार छुं जु जमां खरच मे साहुकारा का खत का रूपया ज्मां छै सु ईमायत होई जु साहुकारा ने दे फारग होवां जी ।

। ओर खानाजाद का बेटा को फागुण मै व्याह छै सो उमेदवार छुं जु कुछ सरकार से मसादे ईनायत होई जी ।

। खोहरी के वासते साहजादा का मुतसदीयां सु बोहत रदबदल हुई वा कही म्हां को आमल उठै नही परगनो अनुर्पासिध ने तनखाह छै अर नकद टका साहुकार मालजामन दोहो तीसुं कबुल करां हां जो थाने लेनी हे तो मालजामन दो ऐक कीसत पहली खजाने भरो अर पटो लो, अर आदमी तो भेजण को साहजादां के दसतुर नही तीसुं श्री जी सलामत । यो परगनो लेणो है तो साहुकार की जामनी भेज दीजो, ऐक कीसत का रूपया दै अर मुतसदीयां का वार्स हजार भेजजे अर खरीफ सु लीजै तो तुमार मवाफक जु लीयो होय सु भर लीजेजी अर रबी सुं लीजे लो तो पचट्टु के हीसाव लेसी दोय हीसा खरीफ तीन हीसा रबी यो ठहरे है तीसुं जामनी व एक कीसत का रूपया सीताव आवे अर मुतसदीयां को खरच आवे ।

। हुकम आयो वसवे फोज ज्मां होय है जे सोखी करे हे थाने तंवीर होसी जो नरका को कोई फीरयाद करे तो खवरदार रहजो । श्री जी सलामत । श्री जी तो सीताव कुच कर अहमदावाद गुहारे पधारजो, डील मत करो, पांच दीन सुं जादा आंवेर मे मत रहो कुच कर वाके दाखल कराजो अर पाछे फोज मुलक को बंद-बसत करसी ईसो न्होय ज श्री जी बंदबसत के वासते मुकामात करे अर पातिसाह डील सुण अंतराजो करे, साहजादो झुठो पड़े, सु मत करो जी । साह कुदरतुला जी कही हे मै साहजादा जी सुं बजद होय पांच दीन की कहाई है अब म्हारो बचन रहे सुं कीजो ।

। पातिसाह जी कसमीर की सेर ने कुच करसी जरीदाखवर<sup>2</sup> हे, बुनगाह<sup>3</sup> अठे रहे, ऐक दोय साहजादा साथ चले ऐक दोय बुनगाह पर रहै । कचहडी सब अठे रहेली सु खानाजाद तो दरवार मे साथ पातिसाहजी की चालसी । एक आदमी मातवार अठे चाहजे सु कचहडीयां सुं खवरदार रहै, दवाव अठे रहे सु सरकाराह करे, ती सुं खानाजाद को जवाई धनराम आगे मुलाजमत भी करी हे,

1 दरवार में होने वाले राज्य का खरच व जमा का विवरण ।

2 खरीफखर—सरकारी सूचना ।

3 बुनगाह—गाही टैरा ।

दरबार मे वाकफ हे सु कचहड़ीयां की खबरदारी ने व अठे दवाब का घोडा हाथी रहसी तीकी सरबराही ने अठे रख जासुं की तीसु उमेदवार हुं कुछ तसदक फरमावे अर वेके नांव सरफराजी को परवांनो ईनायत होय । श्री जी सलांमत या सफर बरस देस बरस की होसी तीसुं फहमीदा आदमी राखणो जरूर.....।

॥ श्री परमेश्वर जी सत्य छै

॥ स्वरूपि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री श्री श्री श्री श्री जैसिध जी चरण कमलांइन पातसाही लसकर था आग्याकारी भां० खीवसी लीखतं, सेवा मुजरो अवधार जो जी । अठा रा समाचार श्री महाराजा जी रै तेज प्रताप कर भला छै जी । श्री महाराजा जी रा घड़ी घड़ी पल पल रा सदा आरोग्य चाहीजै जी । श्री महाराजा जी वड़ा छै जी, श्री महाराजा जी साहिव छै जी, मो सुं सदा भैरवांगी फुरमावै छै जी, तीण था वसेख फुरमावण रो हुकम हुवै जी । श्री महाराजा जी रा डीलां रा पांन कपूर गांगाजल आरोगण रा घणा जतन फुरमाव जो जी ।

अप्रचि श्री जी सलामत । यां दीनां मै साह नैण सुख रा कागद चार पांच बाया था तीण मै वार वार लीखीयो छै हमकै ईजारा रो फैलाव छै सो मुलक रो बंदवसत जरूर करणो छै । बीगर बंदवसत ईजारा री वात रस न पड़सी । सो ईणरी अरज तो आगै खीजमत मै लीखी छै सो मालुम हुई होसी जी । श्री जी सलामत । श्री महाराजा तो पातसाही काम था वाकफ छै, नैण सुख वाकफ न छै सो ईण वात री खीजमत मै अरज करै छै जो श्री महाराज दस दीन बीराज नै बंदवसत करै सो या सलाह मार वीचारण री न छै । श्री महाराज तो सरव जाण छै सो भलीज फुरमाव सी । पीण अवार उखैलो करणो मनासव नही । पातसाह जी अपरी तरफ था कीणी वात री तखसीर<sup>१</sup> न राखी छै नै पेहलाईज सुं श्री जी री जतरी फरी फीसाद री सुणै तरै भली नै लागै जीण सु था अरज दवायनै करू छु

1. शगरीर—कमी ।

लाखै बातै हमार उखैला री मत फुरमावै हमार री याही ज सल्हा छै । आबैर पध्दार पांच सात दीन बीराज नै गहोरा नै कुच फुरमावै, ईण बात मै तमाम पातसाह जी री रजाबंदी छै नै सरकार रो घणो फायदो छै नै श्री महाराज रै खातर मै याही ज आवै म्हानै पातसाही था सरोधोन राखणो तो श्री महाराज रो ईखतीयार छै । चाकर होय सो तो सरकार रा फायदा री अरज लीखै ।

ओर खरची रै वासतै सा० नैणसुख नै लीखीयो छै सो वीगत मालुम करसी जी उण माफक खरची ईनाईत हुवै जी । ई तरफ सु भांत भांत खुस्याली फुरमावै ।

बाहुडता प्रवांना सदा ईनाईत कराव जो जी ।

सं० १७६८...।

श्री महाराजाधिराज सलामती

॥ आगे अरजदासति करारा मित्ती माह वदी ११ की हजुरि हरेसाल करी है तिसीं सारी हकीकति अरज पहुंची होयगी जी । श्री महाराजाधिराज सलामति । भंडारी खीवसी बंदे सीं कहा जो महाराजा जी का परवाना वा साह नैन सुख का कागद म्हाने वार वार आवै छै जो हमारे ताई बंदवसत देस का करणां है सो कोई दिन की अध की सीख होय तो देस का बंदवसत करि अहमादावाद गहोरां को कुच करां । सो थे क्यौ कुच करवा की दिल की ईसारा तांलंबो होयगी । तब बंदे जुवाव दीया जो मै तो कदै ऐनी खिलाफ अरज लिखी नहीं, जो बात दरवार मी होय आवै है सो ही लिखता हूँ । तब भंडारी जी कहा जो थे वावत नहीं लिखी तो अब म्हे भी अरजदासती का कागद साह नैन सुख को लिखा छां थे भी अरजदासती लिखी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति, बंदे तो आगे भी अरजदासत्यीमो दाखिल कीया था जो पातसाह जी की मरजी रूखसति की नहीं, पातसाह जी का याही हुकम है जो मुद्दम<sup>१</sup> को चले जाय । अर कोई दिन की रूखसति के वासतै साह कुदरतुलाह को दवाय कहा था सो साह कुदरतुलाह कही जो मै साहजादे जी की मरजी लि है सो आवैरी मो पांच दिन रहि अर कुच करि चले जाय अर ज्यादा टिल<sup>२</sup> लगावनी मुनासिब नहीं सो तपसीलवार भंडारी खीवसी की अरजदासति मो अरज पहुंचीगी जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । आगे पातसाही दफत्र का मुतसदी वा नौसीदा

१. मुद्दम—पट्टरपूरे नैतिक अभियान ।

२. टिल ।



सरकार थे फसीलाना पावै थे सो बिचके दिनो मा सबब फिसाद के सोश्री पहुंचै नही सो अब सब दफत्रों के मुतसदो वा नोसीदां ऊठी लागे हैं जी सो हालती मुतालिबा के दफत्र सोऐक वरक मुतालिबा की लिखाय ऐक अहदी दसतग पचौली जगजीवनदास के नाव ल्याया है सो सगली हकीकति पचौली अरजदासति सो अरज पहुंचैगी जी सो मुतसध्या नै हुकम होय ईसका जुवाब का प्रवांना ईनायति करांवै जी । मी० माह वदी 55, संवत १७६८ ।

श्री रामचंद्र जी सहाय  
श्री महाराजाधिराज श्री जंसिघ जी

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज श्री...चरण कमलां नु खांनाजाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जो जी। अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप पे भला छै। श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद करावजो जी। श्री जी माईत हे, घणी हे, श्री परमेसूर जी री जायगा हे। म्हे श्री जी रा खांनाजाद वंदा हां। श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी सु महरवान हे। श्री जी सुख पावजो जी। पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जो जी।

श्री जी सलामत। साह कुदरतुला जी आंवेर सुं कुच कर वाकी<sup>१</sup> वोहत ताकीद करे हे, कहे हे मे साहजादा जी सु वजद<sup>२</sup> होय आंवेर के राह होता जाय पांच दीन सुं जादा न रहसी, ई भांत कोल करार कर हुकम लीयो थो। पातिसाह जी ने खबर भी न की। साहजादे जी कही पातिसाह जी हजुर मजकुर होयगा तो मे कहुगा आंवेर मे होय राह हे तीस वासते मे कहा हे। उस राह ही होता जाय, यह वात टाल दुगा, तीस अब साहजादे जी का सुख न रहे मेरा बोल रहे। नु महाराज करे सीताव कुच करै। श्री जी सलामत। मुलक को बंदवसत मुतसदी कीयो करसी। श्री जी तो सीताव कुच कर पधारजो जी ई मे ही पातिसाह जी की रजामंदी है, डील मत करो जी। पातिसाह जी की साहजादा जी की रजामंदी मे सब भला हे जी। महाराजा सलामत। चाटसु की, दोसा की

1. महाराजा जयसिंह के आंवेर से कुच करने के लिए।

2. वजद (बजिद)—खबरदस्ती मे मनाना।

तखफीफ<sup>1</sup> माफ हुई तीको वजारत खां की मोहर सु परवांनां कराय दास जी के हवाले कीया ।

। परवांनांो म्हमद मुकीम अजमेर का दीवान के नांव

। परवांनांो नुसरतयार खां के नाव

अब दोनु आसफदोला की मोहर दसखतां ने परवांनां अमीरल उमराव के देसां जी । दसखत मोहर कराय हजुर भेजसां जी ।

बीरादरी को दाग तसीहो<sup>2</sup> एक बरस माफ हुवो सो ईलतमास उपर दसखत हुवा तीकी नकल हजुर भेजी है अब या फरद बकसीयल मुलक के दे महाबत खां की मोहर सुं तसदीक ले याददासत अरज मुकरर करासां ।

मुतालबा का दफतर मे फरद दांम काटबा की लिख तयार की तीकी नकल हजुर भेजी है । पयादा भंडारी जी के व दास जी के खानाजाद के पाछा लागा है, नकद कीसत कर मांगे हे । कहे हे नकद कीसत कबुल करौ कै दांम काटां हां ।

श्री जी सलामत । हजुर का जवाब आवणताई भंडारी जी, दास जी, खानाजाद मुतालबा का मुतसदीयां की मीनत मया करां हां जो फरद हजुर का जवाब ताई राखै हे तो भलां हे न्नी जसी बणसी तेसी अरजदासत करसुं जी । अर फरद रहसी दांम न काटबो अखतयार मुतालबा का मुसतोफी को अब पेट भर टका लेसी आगा सु मनमानतो सालीनो कर लेसी, तब फरद राखसी दाम न काटसी । पहली तो अखतयार नवीसंदा को थो, श्री जी को ईसमनवीस जी की जीलद मै श्री जी के सीर मुतालबो है सु लिखो धरो है वो नवीसंदां लिख फरद मुसतोफी ने दे तब मुसतोफी ने याद आवे सु वो ईसम नवीस सरकार सु महीनो सदा पावे हे । परीछद राय की मोहर सुं फरद खानाजाद पास हे तीकी नकल केई बार हजुर भेजी पणवे को जवाब आयो नही वे फरद मे वे नवीसदां को नाव भी दाखल हे, जद वे नवीसंदे देखो ज हुं सदा पाउ थो सु अब केई दीन सु पाउ न्ही, तब फरद लिख मुसतोफी ने दी । अब पयादा, अहदी पाछे लागा हे सु के तो नकद की कीसत ठहरसी के दांम काटसी, अर चंद रोज वात टलसी तो मुसतोफी ने देसा वेका पेसदसत ने देसा अर वे ईसम नवीस ने देसां अर आगा सु सब ने सालीनो कर देसां तब फरद रहसी । सु अब भंडारी जी, दास जी, खानाजाद वेसु रदवदल करे हे जो ठहरसी सु अरजदासत करसु जी ।

श्री जी सलामत । पहली ईसमनवीस दो पावे हे सु देता तो ईतनो वीसतार कुं पडतो, टका की ठोड़ दस टका लागसी तब वात थंमसी, सु या वात तो जु

1. तखफीफ—जमादामी के पुनःस्थापन के लिए की गयी प्रक्रिया; जमादामी में कमी ।

2. दाग तसीहो (दाग तसहीहा)—घोड़ों को दाग के लिए प्रस्तुत करना ।

बगी तुं बनी पण अब तसरफ वाला<sup>1</sup>, तकसीम वाला<sup>2</sup> वगेरह ज सदा पाय आया हे सु मांगे हे न दीजेतो तो तसरफ मे दांम काटसी । त तकसीमवाला मवाजनां<sup>3</sup> का मंगावाने परवांना भेजसी, अहदी भेजसी देह वदेही को हासल मगासी, भांत भांत की सब कोई आप आपका काम की दीकतां उठासी तीसु उमेदवार हुं फरद मवाफक सब का दर माहा फसलाना चढ़ा हे सु पावे । आगां सु मंजुरी को हुकम आवे सु पायां जाय, वांकी तनखाह आवे अर ढील हुई तो जी भांत मुतालवा की रदवदल आय पड़ी हे परमेसुर वात ने थामसी तो टका का दस टका लगासी तीही भांत सब ठोड़ ठोड़ का लगसी, टका का चार चार टका लसी, घणी महनत होसी, कोई कांम हाथ रहसी कोई कांम वीगड़ जासी । अर अवार एक मुतालवा की रदवदल आय पड़ी है ओर सब कांम खांनाजाद के हाथ हे सब ठोड़ का ईसम-नवीस वगेरह सदा पाय आया है जीनै जीनै दीयां जासा तो कोई काम की चरचा नही चले तीसु कांम कांम उपर दील दे वाकफ हो जे हर कांम को नफो नुकसान वीचार जे । जी काम की खातर मे आवे जईने साधा जाजे तीही कांम को खरच मंजुर कीजे अर श्री कांम ने जाणजे ईका साधन की अब तुवाज नही तीको जवाब ईनायत होय फेर खांनाजाद कांम उपर नजर कर अरजदासत करणी होसी सु करसुं जी । पण ई कांम सुं गाफली<sup>4</sup> न फुरमाजे जी । तगाफल करण मे हजारा को नुकसान होसी जी । दफतरा की खबरदारी राखणी जरूर है ।

श्री जी सलामत । सो सो वरस मुं जे मुसतदी पाय आया हे सु अब कु कर छोड़सी जी । तीसु उमेदवार हुं सब मुतसदीयां को दर माहो मवाफक फरद के मंजुर होय जी ।

वीरादरी की याददासत आसफदोला का सुवाद ने अमीरल उमराव ने दी हे सु सुवाद होई आयां अरजदासत करसुं जी । रात दीन लगाहुं सु वा सनद वेगी कराय जागीर का परवांना लां हां जी ।

वीरादरी की जागीर मे खंडार, खीरनी वगेरह माहल लीखाया हे त्यांकी अरजी वजारत खां जी पास हे अब अरज होसी जी या दीना मे वजारत खां सुं खास चौकी का मनसबदारा सुं गुफतगो हुई श्री तीसु आजुरदा<sup>5</sup> था, अब दरवार जाण लागे हे सु वेगी अरज करासां जी ।

1. तसरफ वाला — तसरफ कार्यालय ।

2. तकसीम वाला — वह कार्यालय जो राजस्व के प्रांकों में सम्बन्धी इनाम-किताब रखता था ।

3. मवाजना — मुरादना — समूह किये गये भू-राजस्व के वार्षिक तुलनात्मक प्रांकों ।

4. गाफली — भूत ।

5. आजुरदा — दुश्मन ।

श्रीवजी ईजारदार दवाव के हुकम कचहरी का दारोगा उपर कढायो हे ज सात हजार रूपया म्हार दवाव खुराख<sup>1</sup> का, खुलदम कां के वकत का केसोराय मेघराज का अमल का सरकार मे वाकी हे । तीमे तीनसे रूपया दर माहे सन ५१ मे कर दीया था, दोय कीसत पाई हे, ईतरा मे पातिसाह आलमगीर को वाको हुवो । अब हुकम होय पाउती पर अहतमांम खां के नांव हुकम कढायो है सु दवाव का दर माहा मे तीन से रूपया दर माहे पावे थो अब हुकम होय तो तीन से रूपया दवाव की सरवराही जी साहुकार पर होय सु ईने भी दीया जाय अर हुकम भेजाय की ढील करतो हाकम तो ईने रूपया दीरांवे हे खानाजाद ने क साली...।

खानाजाद का वेटा का व्याह का तीस दीन रहे गया अब ताई कुछ मसादत ईनायत हुई नही अर साहुकारा का रूपया जमा खरची का वाकी का भी ईनायत हुवा नही ज साहुकार ने दे सरोधो साध फेर व वाने ही करज ले, थोडा मे ही व्याह करतो । सो व्याह तो नजीक आयो टको घर मे नही, बडो नाव ज श्री जी को वकील हे, पंचा मे सरम राखनी सु बडा धरम संकट मे पडो हुं, परमेसु सरम राखे के श्री जी सरम राखै अर खानाजाद टालो भी घणो ही कीयो पण सनमंधी हठ चढो है तीसुं इसमे सरफराजी होय जी, बडी नवाजस है ।

पेसोर का पुरा उपर देठ हजार की खानाजाद का अलुफा की तनखाह आई थी सु पुरा का मुतसदी ने वोहतेरो समझायो पण पुरा की खीदमत छोड़ ही दी, ईसतीफा लिख दीयो सु तो आगे हजुर भेज्या हे, अब दीवानी सनद पुरा का हवलदार के नांव आई थी सु वेने दीखाई सु फेर दी तब खानाजाद अठा ताई भी कही जो लाहोर का पुरा की खीदमत करसी सो ही पेसोर का टका को जवाब करसी, तब कही या भी खीदमत छोडी मनमाने जीने दौ । तीसु पेसोर का पुरा की सनद फेर हजुर भेजी छै सु पोहचसी । अर लाहोर का पुरा मै सुं मे बारा से देणां कहा है सु भी सावण भादवे कहे हे देसुं अब दमड़ी नही, अर दीली का पुरा की खबर आई नही खबर आसी सुं अरजदासत करसा जी । सु तीनु पुरा मेसुं खानाजाद की गरज दमड़ी की सरी नही । उमेदवार हुं दवाव को दर माहो जी साहुकारा सुं मुकरर होय वे पर ही खानाजाद को दर माहो मुकरर होय जी । अठे लसकर मे तीस रूपया सक्डे बटो है अर देढा खत करे हे सु रूपया को दोय रूपया लिखावे तब गरज नीठ सरे हती सु खानाजाद की सीताब परदाखत होय जी ।

सां० १७६८, माह बदि, ११ सनउ ।

श्री महाराजाधिराज सलामती

आगे अरजदासति करार मिते माह वदी ५५ की हजुरि ईरसाल करी है तिसों सारी हकीकति अरज पहुची होयगी जी । श्री महाराजाधिराज सलामति । सवाने जहानावाद के सौ अरज पहुची जो हातम वेग साहिजादे अजीमुसां बहादर जी का निसान दोनौ राजौ को लै गया था सो निसान तो राजौ को पहुंचाया अर खिदमताना हातम वेग को दे थे सो लीया नही, अर गैर रजावंदी में रुख-सति हुआ । सो लसकर सौ कुचं करि जहानावाद कों आवै था सो कोस वारा लसकर थे वरें आया तव दौड़ा दौड़े सो हातम वेग मारा गया, वसत भाव लुटि लै गए । सो लसकर मैं या सुहरति हुई जो राजौ सों गैर रजावंदी मैं आवै सो राजौ की फौज आय मारि गई । सो ईस बात को साहिजादा जी व नवाब महा-वति घां जी बगेरे सब उमरावां के बहोत खवाव है अर हरकारा साहिजादे जी के विदा हुए है जो हातम वेग किन मारा सो सब हकीकति तहकीक करि लै आवो ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । जब हातम वेग ईहांसों चला तव भंडारी वा बंदे को खबरि कोई हुई नही जो साहिजादे जी क्या जुबानी फुरमाया, क्या निसान मो लिखा था अर हजुरि सी भी प्रवाने ईनायति ह्ये तिसमें भी हातम वेग का कुछ व्यौरा न आया जो कौन काम कों साहिजादे जी नै भेजा था । अर हातम वेग के मारे जाने को दोनो सरकारों की बदनामी ज्यादा हुई है जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । ईन बातों सों पातसाही का रंग ओर भांति हवा है तिसों सलाह दीलति है जो पेसखांना गहोरे को सिताव निकसै जो दिन पांच सात की ढील भी कुंच की होय तो गिरदपेस का वाका नवीस, सवाना नवीन क्षयित करै जो राजा का पेसखांना गहोरे को निकसा ।

श्री महाराजाधिराज सलामति । विरादरी की यादिदासति अब तक अमीरल उमराज उमराव के सी आई नही । सो भंडारी वा बंदा ईस वात के वासतै लगी रहे है सो आज काल्हि मै आवैगी जी । सो भंडारी जी कहे है जो म्हे कोई वार श्री महाराजा जी नै अरजदासति वा राह नैन सुख नै कागद लिख्या है सो थांको जुवाव भी आयो नही सो म्हे थांको सरकार मे काम के वासते कब तक वैठया रहाला सो बंदे सो तो सरकार की हकीकति लिखी नही पणि विना खरची आंऐ ईहां काम निकसै न्ही तिसी मुकरर अरज पहुंचाई है जो भंडारी जी खरची की तजबीज करि भेजी है तिस माफिक खरची सिताब ईनायत ज्यौ काम काज करि लीजै जी ।

मिती माह सुदी १, संवत् १७६८ ।

॥ श्री गोपालजी सहाई छै जी

महाराजाधिराज महाराज  
श्री जैसंघ जी

॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराज श्री.....चरण कमलान सदा सेवक खानाजाद खाकपाव पचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप कर भला छै जी । श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी म्हांके धणी छै, साहीव छै, श्री परमेसुर जी री जाईगा छै जी । म्हे श्री जी का खानाजाद बंदा छां जी । श्री पातसाह जी श्री जी से बोहत मीहरवान छै तीको श्री जी सुख पावजो जी । पांन गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फुरमाव जो जी ।

। अप्रंच श्री महाराजा जी को परवानो खानाजाद नवाजी को आयो सु माथे चढ़ाई लीयो, तमाम सरफराजी व बंदनवाजी हुई जी । ओर अहमदावाद गुहेरा की फोजदारी उपर असी लाख दाम ईनाम व आठ से असवार मसरूत इजाफे हुवा छै ताकी तलव एक कीरोड चमालीस लाख दाम हुवा तलव तीमै छीयासी लाग तीन हजार पाचसे दाम तो हुवेली अहमदावाद गुहेरा का लीया अर बाकी दाम जलालपुर का परगना मे लीया, सोला लाख दाम परगने जलालपुर में पाई-याकी रहा छै सो भी बीरादरी की तलव मे लेसां जी । दरवसत<sup>१</sup> परगनो लेसां जी कही ओर की सराकत<sup>२</sup> परगनां मे राख सा नही जी ।

१. दरवसत—सम्बन्धित इकाई का सम्पूर्ण भाग ।

२. सराकत (निराकत)—दूतरे हिस्सेदार ।



। ओर दवाव मै छत्रीस लाख दाम व ज हुवा था सु अे अठारा लाख दाम परगनै सारसोप मै लीया छै जी । बाकी दाम परगनै फागुवी मै तनखाह लीया छै जी सु साहा परवानां तयार कराई हजुर भेजा हा जी ।

। ओर श्री महाराज जी सन्नामत । हातम वेग गुरजवरदार राह मे मारो गयो तीकी हकीकत साहजहांनावाद का सवाना नवीस का लीखा से श्री पात-साह जी नै अरज हुई । सु व फरद की नकल श्री जी हजुर भेजी छै ती सै हकी-कत मालुम होसी जी । सवाना का मुतसदी हमेसा सरकार सुं दर माहा फसलानां पाई आया छै सु यां दीना मे नही पावे छै जी, जो मवाफीक दसतुर के पाया जाई तो यैसी वाता की हकीकत की वासते अरज पोहचावे । तीसुं उमेदवार छां जु हमेसा पाई आया छै सु पायां जाईजो, सवाना मै लीखी आवै सु खानांजाद की बीना ईतला अरज न पोहचावै जी ।

। ओर वीरादनी की याददासत नवाव आसफुदोला के दफतर सुवाद के वासते नवाव अमीरूल उमराव जी कने गई छै सु महीनो डोढ हुवो छै जु दसखत कर दे न छै । सु साह कुदरतुलाह जी ताकीद के वासते फीरे छै जी उठा सु आयां पाछै याददासत अरज मुकरार ने जोसी जी ।

। ओर खानांजाद का दरमाहा की तनखाह पुरां उपर आई थी तीकी हकी-कत आगे पे दर पे अरजदासत करी छै सु अरज हुई होसी जी । तीसु उमेदवार छुं जु हमेसा दवाव की तनखाह का दर माहा मे पाई आया छा ती मवाफीक पायां जावा । अर बंदजादा को व्याह छै फागुण का महीना मे छै सु बोहरां का रूपयां सरकार मै उठा छै सु इनायत कीजै जु बोहरां से सलुक रहै जी । अर कुछ मसादे इनायत होई तो व्याह मै सरम रहे जी ।

मीती माह सुदि ६, सं० १७६८ ।

॥ श्री परमेश्वर जी साय छै

॥ स्वरूप श्री सरवओपमा विराजमान महाराजाधिराज महाराजा जी श्री श्री श्री श्री जैसिध जी चरण कमलान पातसाही लसकर था आग्याकारी भां: खीवसी लीखतुं सेवा मुजरौ अवधारजो जी । अछा का समाचार श्री माह-राजाजी रे तेज प्रताप कर भला छै जी, श्री महाराजा जी रा घड़ी घड़ी पल पल रा सदा आरोग्य चाहा जै जी । अप्रचि श्री महाराजा जी वड़ा छै जी माहिव छै जी मोगु सदा सु नीजर म्हैरवानगी फुरमावै छै तीण था वसेख फुरमावण रो हुवे जी । श्री माहाराजा जी रा डीला रा पांन कपूर गांगाजल आरोगण रा घणा जतन फुरमावजो जी ।

॥ अप्रचि श्री जी सलामत । अठे पातसाह जी रा दुसमणा रो डील फागुण वद ५ रै दीन वैचाक<sup>1</sup> हुवो सो नीपट घणा दवीया तद वा तीनुं साहजादां ऐकी कर नै रात घड़ी २ गया फोज चढ़ाय राखी अजीम जी सु करण रै वासतै सो अजीम जी पीण पातसाह जी रो हजुर सु डेरा आयनै सारी जमीत नो वखानो तयार करा पोसी लेम्नाने सीपायां नै दीयो नै फोज चढ़ाय नै मोरचा बंधी कर राखीं । मनै पीण साहजादा जी रो हुकम आयो जमीत लैनै हजुर आवो, सो हुकम माफक सारी जमीत लैनै रात पोहर १॥ गया हजुर गयो, माहे मुजरौ मानम करायो, बोहत रजामंद हुवां, पछै रात रा दोढ़ीयां माहै तसबी खांना री टोढ़ीयां हीज सूता नै वद ६ आघो दीन दोढ़ीयां हांजर हौ पाछै पातसाह जी या टील री छवर आई अवे कीउ फुरसत छै वार ऐक दोय मुढे बोलिया पीण नीराए फुरसत न हुई छै, तुरत डील वैचा कहीज छै । साहजादा रै परदो माह वड

1. वैचाक (वैचाक) = मिमिल ।

भडो मांड रहो छै । सो नीवड़ा यां सु सारा समाचार लारा सु अरज लीखु छु जी । हुं साहजादा जी रैजालीयां मै चोकी खानै छु, सारी जमीत लीया वेठो छु अठे श्री माहाराज ईस समाचारा माफक घर नो जाबलो फुरमावै जमीत ज्यादा भेली करै नै उणीज जायगा वीराजीया रहै देस सु जमीत सारी हजुर बुलाईजै नै खातर ममारख मै आवै तो हमै व सुकंद नै पीण-पगे लगाय चाकर राखीजै । अबार रामोसर मै जमीत सावठी हजुर राखण री सला छै पछै जी कोई मजकुर देख सु तीण माफक सीताव अरज लिखसु जी । श्री जी अठारी तरफ सु भांत भांत खुस्याली फुरमायै । श्री जी रा प्रताप सु सरकार रो बोलवाला करा छै ।

॥ श्री जी सलामत । खंगारोत भगवानं सिंघ जी रा तरफ सु मु० वीमलदास अठै छै सो या भगवानं सीघ जी री चाकरी री सारी हकीकत कही नै यारी सरकार री तरफ सु पाछी गोर न हुई तीणरी पीण हकीकत कही सो मारी चाकरी सु हूं पीण वाकफ छु यां मांन सुध बंदगी करी छै उण भांत मनसब जागीर छोड़ नै आय बंदगी करी नै गंठ बाई पातसाही गरदी हुई जद सु यां गांठ ही ज बांधी छै सो सारी हकीकत श्री महाराज सु मालम छै पीण पाछी यांरी गोर न हुई तीण सु अरज छै । यांरी भांत भांत गोर हुवै जी । पेहल के फेरे जोधपुर आवैर रो काम हुवो तरै तो श्री जी यांरा मुनसब दीसा न फुरमायो जदै हुकम हुवो, हुत तो वात सरै कांम होय आवतो नै अवै ही श्री जी रा प्रताप सु की उई सु तो कांम ठीक लगायो छै नै अवै यो फीसाद हुवो जीण सु अरज छै । प्र० पकारन मै यांरो अमल कराय दीजै कीतराईफ दाम तो यांरे जागीर मे पाया छै बाकी सरकार मै ईजारै छै सो दरोवसत अमल कराय दीजै, असवारां बीना पांवते नीभणी ना वै सो सारी गौर सरकार था होसी जद नीभ सी देवी सिंघ रो पटो वहाल राखण रो हुकम हुवै वै छोड़नै घरै परा गया छै सो दीलासा कर हजुर बुलाय पटो सरफराज कीजे, ईण भात उमराव ठाकुर दील सोजी सु वंदगी करै ती लारी ओरा सीवाय घणा परदाखत कीजै तीण मै सरकार की सोभा छै न आगा सु दुसरा ठाकरा नै पीण देख होय । वाहुड़ता प्रवाना मदा ईनाइत फुरमाव जो जी ।

संवत १७६८ रा फागुण वद ६, रववार ।

श्री गौपाल जी

श्री जी सलामत । फागुण सुदि १० गुरवार जहांदार साह व जहांसहा, रफीअसां तीनु मील अजीम उपर हला करी<sup>1</sup>, तोपखाना की मार बडी हुई । तीसरा पहर पाछै अजीम की खबर है, कोई कहे हे मारो गयो कोई कहे हे भागो । महमद करीम काम आयो, राजा बहादर महावत खां, हमीदुदी खां, साह नवाज चां की खबर है मारा गया । कोई कहे हे महावत खां भागो, अजीम का डेरा लुटा, सब तोपखानो, खजानो जहांदारसाह लीयो । अजीम का डेरां उपर जहादारसाह का डेरा मोरचा मे था सु जाय खड़ा हुवा, फते की नोवत वाजी, सहर में दुहाई जहांदारसाह की फीरी । अवार रात की तो या खबर आई, सवार ठीक होसी सु अरजदासत करसुं जी । अमीरल उमराव को अखतयार रहै, सवार खानाजाद भी जाय मीलसी । जोडी सरकार की तो अवार चलाई हे पण राणां जी की जोडी सु अहतयात कै वासतै ईके हाथ भी अरजदासत भेजी है जी । खानाजाद ने सीख सलाह लीखणी होय सु लीखजो जी । अर खरची की सीताव मदत होय जी । गजसिध दमडी दी न्ही । हजुर सु मदत होय जी । अब देखजे यां तीनुवां के काई सुल्ह ठहरे, के लड़ाई होय सु अरजदासत करसुं जी ।

पेली लखोटा भेज जी जी । दास जी भंडारी जी तो पोहचाहांसी ।

सां० १७६८ फागुण सुदी १० गुर पहर रात गया । कासद पै दर पै भेज सु जी । कासीद हजुर सुं सीख सलाह का पै दर पै आवे जी ।

1. घातमज किया ।

श्री गौपालजी सहाय

श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री  
जैसिध जी

स्वास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...चरण कमलानु खानांजाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जी जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप थे भला छै । श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जी जी । श्री जी माईत है, धणी है, श्री परमेसुर जी री जायगा है । म्हे श्री जी रा खानाजाद बंदा हं । पांन गंगाजल आरोगणरा जतन फुरमाव जो जी ।

अप्रेच दासजी ने भंडारी जी ले गया, सु समाचार तो पै दर पै अरजदासता की है । दास जी हजुर पोहचा होसी जी ।

फागुण सुदि १० गुरवार जहादारसाह, जहांसाह, रफीअसां तीनु मोरचां मै चढ खडा रहा । अजीम उपर हलां की, तोपखानां की मार की । अजीम भी चढ आपका मोरचां मै खड़ो रही, तीसरे पहर सलेमान खां जहांसाह का मोरचां उपर घोड़ा उठाया सु सलेमान खां, फीरोज खां मेवाती, बाज खां का बेटा वगेरेह फोज अजीम की दोडी थी सु मारली । जहांसाह मोरचो अजीम को खोस लीयो । उठे ही महमद करीम के गोलो लागो । तब महाबत खां भागो । महाबत खां का भांगण सु अजीम की फोज चली, अजीम सुवार हजार दौय सु रह गयो तब हमाउ बखत नै व महल की सुवारी नै बुनगाह का डेरां भेजी अर आप भी भागो, तीरवा दौय तीन जाय फेर फीरौ इतरै गोली लागी, फोजा घेर लीयो, जखम बेसुमार हुवा तब अमारी घेर जहादार साह की दोडी ले आया सु घडी

चार पांच रात गयां मुवो । जहादारसाह की फतह हुई । सबकै नोवतां वाजी । अजीम का डेरा उपर तो जहांदर साह का डेरा हुवा । जहासाह कोस एक तफावत सुं उतरा, रफीअसां तफावत सु उतरा, खजानां उपर अमीरल उमराव जाय उत्तरी, तोपखानां का रहकला तीन बांका लोग ले गया ओर अजीम को लोग भागो, सु सहर मे आयो, लसकर लुट गयो । अब दुहार सहर मे जहादारसाह को फीरो । अब तीनु उठै मोरचां मै है देखजे अब यांकै कांई चुकै, सुल्है ठहरी है सु ही रहै क लड़े ।

कुल अखतयार अमीरल उमराव को है जी । आज खांडेराय पड़हार छत्र-साल बुदेला को अजीम की साथ थो सु आयो । ती लड़ाई का ये समाचार कहा भर राजा गोपाल सिध कै ई भांत खबर आई, काल्ह खबर थी कोई कहै थो भागो, कोई कहै थो काम आयो, तीकी तो दोय अरजदासतां रात ही चलाई सु पोहची होसी । एक जोड़ी घरू अजुरदार चला, एक अरजदासत राणां जी की जोड़ी की साथ चलाई सु सांगानेर का मुतसदीयां ने रूको लिख दीयो है वे कासीदा कनै अरजदासतां ले हजुर भेजसी । मुतसदीयां ने हुकम होय रहै जो अरजदासत वे राह आवेती ने खानाजाद का लिख्या मवाफक रूपया दे अरजदासत बुरत हजुर भेजै ।

आसफदोला ने लिखणो होय सु लिखजे जुं अमीरल उमराव नै लिखै ।

श्री जी फते की मुवारकवादी की अरजदासत नजर भेजजो जी, अमीरल उमराव नै खत लिखजो जी ।

महावत खां तो भागो सु नदीया पार उतर गयो । साहनवाज खां, हमीदवी खां की खबर न्है मारा गया क भागा, साह कुदरतुला की खबर न्है, राजा बहादर की कहै है जखमी भागो, राजा उतमराम की खबर है सहर मे भाग आयो, राव सकतसिध की खबर ठीक न्है ।

श्री जी सलामत । लड़ाई तलवारां की तो हुई नही, बाण, गोलां सु दोय सै, चार सै आदमी मारा गया अर महावत खां भागो तीसुं सब फोज चल खाई, अजीम मारी ।

अजीम मारा पछै खानाजाद गजसिध पुरा का हवालदार सु कही पातसाही नई वेठे हे, परवानां मवाफक रूपया दे तो अमीरल उमराव ने जाय मीलां । फुरमान, मनसय, खोताव, जवाहर लां, चोवदार ठोड़ ठोड़ कां नै दीजै तव कांम करण पाजे सु साफ जवाव दीयो, थांको हीमायती<sup>1</sup> थो सु तो मारी गयो अब न जाणां घाने पुरो होयक नही जो ओर ने पुरो होय तो रूपया की पास लुं । तव खानाजाद बांहतेरी दीलासा की पण मानी न्है । तीसु श्री जी देगी खबर लीजौ

1. हीमायती—हिमायत करने वाला—यहाँ पर अजिमुगल के मन्दिर्भ मे प्रयोग किया गया है ।

जी । ढील न्होय । बोहरो कोई न्ही । सब छीप छीप रहा है । अवार तो जीव जांमो वेच साधसुं पण वेगी खबर लीजो जी । सुन्हेरी रूपहरी थेलीयां व लखोट सीताव भेज जी जी ।

मी० फागुण सुदि ११, सुक्रवार, १७६८ दोपहर कासीदा ने सोपा ।

ओर थ्यार्क दोय तीन दीन मै लड़ाईय्या सुलह की चुक जासी अर दवाव का मुत्तसदी भाण लागसी तीसु उमैदवार हु जो दवाव को भी सरंजांम आयै जो लगै तो सरवराह करू जी ।

श्री गोपाल जी सहाय छै जी

महाराजाधिराज महाराजा

श्री मीरजाराजा जैसंघ जी

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री...चरण कमलान खानाजाद याकपाव पचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी। अठा का समाचार श्री महाराजा जी के तेज प्रताप कर भला छै जी। श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता प्रसांद कराव जो जी। श्री जी घणी छै, साहीब छै, श्री परमेसुर जी री जाईगा छे जी। म्हे श्री जी का खानाजाद बंदा छा जी। पान गंगाजल आरोगणरा घणा जतन फुरमाव जो जी।

अप्रंच भागे समाचार दरवार का की अरजदास करी छै तासे समाचार श्री जी नै मालुम हुवा होसी जी।

ओर दास जी<sup>१</sup> का कुच कीया पाछै खानाजाद सहर मे कबीला नै राख अमीरल उमराव जी की हजुर गयो। नवाव भांत भांत खातर तसले करी। सदा नवाव पास हाजर रहु, वाजवल अरज गुजरानी तीकी नकल हजुर भेजी हे सु नजर मुवारक गुजरसी। चेत वदि ३ घडी दोई रात गयां नवाव खानाजाद ने पातिसाह जी की हजुर तसवीह खाना<sup>२</sup> मे ले जाय मुलाजमत कराई, पांच मोहर नजर की सु माफ हुई। पातिसाह जी श्री जी की भांत भांत खातर जमां फुरमाई अर वाजवलअरज मंजुर की तीकी विगत—

1. शिवान भीषारीदाम।

2. तसबीहखाना=पूजा करने वा कमरा।



मीरजा राजा को खीताब पावां, सु मंजुर कीयो सु खीताब श्री जी ने मुबारक होय जी ।

मनसब सात हजारी जात सात हजार सुवार बद्दसतुर मीरजा राजा के पावां, सु मनसब की नवाजस<sup>1</sup> फुरमान मे लिखी है सु मालुम होसी ।

खीताब व मनसब की नवाजस को व ईनायत महरबानगी को फुरमान पावा, हुकम कीयो, लिखो खानांजाद के हवाले करो । अर महरबानगी कर खानांजाद नै सरपाव ईनायत कीया सु फरमान व अरजदासत सवार ही हजुर चलायो है सु बोहत अदब सुं फुरमान लीयो होसी वाके दाखल कराया होसी जी । सु श्री जी महाराजा जी नै खीताब, मनसब मुबारक होय जी । पातसाह जहादार साह होय चुका, तखत बेठा, अब सुकरगुजारी की अरजदासत व नजर मोहर २२)) बाईस भेजी है सु मंजुर होय जी ।

महाराजा सलामत । चेत बदि ५ अजीमशं का मारा पछै दस दीन ताई सुलाह की वाता रही । जहासाह ई मीती जहांदारसाह नै कहाई भेजी, मुलक माल जी भांत तेमुर की ओलाद वाट आया है ती भांत बटसी । आज हुं भी चढ़ खड़ी रहूं हुं थे भी चढ़ खड़ा रहो । सु जहांसाह आई मेदान में खड़ी रहो, जहांदारसाह व रफीशं दोनुं मील चढ़ खड़ा रहा । चेत बदि ५ सारे दीन तोपखाना की लड़ाई रही, चढा खड़ा रहा, साझ ने उठे ही डेरा कीया । चेत बदि ६ सारे दीन लड़ाई तोपखानां की रही । घड़ी चार दीन रहां फेर डेरा खड़ा कर डेरा दाखल हुवा । जहांसाहा डेरा मे जाई घडी ऐक वेठ फेर सुवार होय खड़ी रहो अर तलवार की ही मार करतो आयो । जहांदारसाह रफीश भी चढ़ खड़ा रहा । तीनुं तरफ का आदमी हजार दोय दलवादल के नजीक तलवारं सुं काम आया । अमीरल उमराव उपर तुट पड़ो । मोरचा मे साझ पड़ा जहासाह काम आयो, एक वेटो मारो गयो दोई छोटा वेटा पकड़ आया ।

जहांदारसाह व रफीअशं सादीयानां<sup>2</sup> वजाय डेरा फेर दाखल हुवा वेही दीन पहर रात गया जहांदारसाह रफीअशं नै कहाय भेजो, आगे काबल वगैरे हीमो थांको थो अब थे महारी रीफकत<sup>3</sup> करी काबल के बदले पुग्ब जहांसाह ने थी म् थे लो; दखण चाहो दखन लो । तब रफीअशं अरज कर भेजी, जदमं खुदाय नै दुनीया पैदा की हे जदमं कीमही नै पानिमाही मांगो पाई होय तो मे भी मांगु । दीन नीकलते नीमाज के वकन लड़ाई है, अर तोपखाना अब ही मे छुटे अर हजरत भी रात को आराम करे हुं भी आराम कह, जावाव भेज तोपखानां की लड़ाई

1. नवाजस (नवाजिन) = महरबानी ।

2. सादीयानां — नवराग ।

3. रीफकत — रिफकत ।

तीन पहर रात ताई भली भात हुई, घड़ी चार रात पाछली रही तब रफीअशं सुवार होय खड़ो रहो, जहांदारसाह सुवार होय खड़ो रहो, गोली तीर की मार करी ।

चेत वदि ७ सोमवार घड़ी दोय दीन चढता अमीरल उमराव दोडो, रफीअशं की फोज भागी । रफीअशं हाथी उपर सु उतर धरती उपर तीरंदाजी करण लागो, जहा ताई तीरंदाजी करतो रहो तहांताई तीरा मै पोई लीयो उठै ही रफीअशं काम आयो । सुलतान ईवराहीम रफीअशं को वड़ो वेटो लड़ाई मै काम आयो । दोई वेटा पकड़ लीया । सु ई भांत अजीमशं व महमद करीम मारा गया । कोई कहे हे महमद करीम गयो अर जहांशह व रफीअशं एक-एक वेटा समेत मार लीया । अब जहांदारसाह पातिसाह होई तखत वेठा ।

महाराजा जी सलामत । अब मनसब की तसदीक याददासत करावणी, जागीर लेणी, परवांना करावणां, तीसु दरवार खरच की खरची की वेगी खबर ले जो जी । जो दासजी ही ने भैजणां खातर मै आवे तो दासजी ने भैज जे, ओर कोई मुनसदी भैजणो खातर मै आवे तो वेने भेजे जो । अर खातर मे आवे ज वकील खीताव लीयो, मनसब लीयो, काम थो सु कर चुको । जागीर मे जो परगनां लिखसा सुं तलास कर लेसी तो खरची दरवार खरच नै सीताव ईनायत होय जी ।

खानाजाद मनसब, खीताव, फुरमांन लीयो तीको नतीजो असो पावे जे सारा संसार मै नवाजस जाहर होय ।

महाराजा अजीत संघ जी का तो अठै कोई थो नही । भंडारी जी व गुलाल चंद वकील तो देस उठ गया अर खानाजाद सु तो वां ईसी नवाजस करी थी ज सो बरस की वकालत दुर करी, तीस बरस वीरवा मे चाकरी करी, कई वार मुजरा कर दीखाया पण जद ही जोधपुर पायो तब ही वकील ओर करो । पीण खानाजाद ई वात पर नजर न करी अर या जाणी ज श्री जी का खानाजाद हुं ई वार या मै वांकी भी बंदगी करदी । ती पर फुरमांन व महाराजा को खीताव व मनसब लीयो सु वांका भी फुरमांन श्री महाराजा कने भेजो है सु पोहचो होसी । श्री जी वा कने भेज दीयो होसी । अब वाने समाचार की अरजदासत भेजी हे चु वां कने भेज जो जी ।

ओर अमीरल उमराव के ऐक तीर मोठा उपर लागो छे । ओर रूसतमदील खां ने, मुखलस खां ने गरदन मारो । ओर हुकम हुवो छ अजीम की साथ जहांसहा, रफीअशं की साथ लोग भागा हे तोकी हकीकत अरज करो ओर हकीकत होसी सु पाछा छे अरजदासत करस्यां जी । मीती चेत वदि ९, संवत १७६८ ।

श्री गोपालजी सहाय छै

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री  
मीरजाराजा जैसिंघ जी

॥ : ॥ अरजदासत खांनाजाद, पां० जगजीवनदास की महाराजा सलामत आगै अरजदासती पै दर पै भेजी है सु नजर गुजरी होसी जी ।

॥ महाराजा सलामत, जहांसाह, रफीअसां मारो अर महमद करीम पकड लीयो । जहांदारशह पातिसाह होय चुका तब खांनाजाद अमीरल उमराव जी सुं अरज की लडाई की पहलां फुरमान मनसब खीताब ईनायत हुवो थो सु तो फुरमान चलाया सु हजुर पोहचा होसी । सुकरगुजारी की अरजदात अब आयसी, पण अब हजरत तखत बैठा सब नै मार लीया खातर जमां हुई, अब पातिसाह होय चुकै अब तखत बैठे पीछै फुरमान खीताब को, परवानगी को ओर दीजै । ती पर नवाब पातिसाहजी सुं अरज की ज वकील फेर ओर भी फुरमान मांगै है । तब पातिसाह जी महरबान होय हुकम कीयो ओर भी उनकी दीलासा का फरमान भेजौ, खिताब लिखौ । सुं श्री जी का प्रताप थे खीताब मनसब लीयो तीकौ फुरमान ओर भैजो है, सु बोहत अदब सुं लीजौ जी अर सुकरगुजारी की अरजदासत, नजर तखत बैठा की मुबारकबादी की सीताब भेजजौ जी, ढील मत करौ जी ।

॥ कदीम जागीर बहाल रहै तीका बदमतुर साबक का परवाना की ईलतमास दी थी सु नवाब का दसखत कराया बहाल करी सु मुबारक होय जी अब खरची आवेतो परवाना करावां जी ।

सां० १७६९, चैत सुदी सुरज रहै अरजदासत चली ।

श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री  
मीरजाराजा जैसिधजी

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलानु खानाजाद  
खाकियाय पां० जगजीवनदास लिखतं, तसलीम बंदगी अवधार जी जी । आठा का  
समाचार श्री महाराजा का तेजप्रताप थे भला छै श्री महाराजा जी रा सीख  
ममाचार सासता प्रसाद कराव जी जी । श्री जी माईत हे, धणी हे श्री परमेसुर  
जी री जायगा है । म्हे श्री जी रा खानाजाद बंदा हं, श्री पातिसाह जी श्री महा-  
राजा जी सुं महरवान है । श्री महाराजा जी सुख पाव जाँ जी, पांन गंगाजल  
धारोगण रो जतन फुरमाव जी जी ।

महाराजा सलामत । दोय फुरमान तो पातिसाहजी का अमीरल उमराव जी  
खांनाजाद नै दीया सु तो हजुर भेजा सु नजर गुजरा होसी । ऐक फुरमान तो  
अजीम का मारां पछै जहांसाह का जीवतां खानाजाद ने मुलाज्मत कराई पातिसाह  
जी महरवानगी कर सरपाव दीयो, श्री जी ने फुरमान दीयो थो । सु खानाजाद  
दोय चार दीन मुख छोड़ो थो । जी घड़ी जहासाह व रफीअसां नै मार लाया वे  
पहो ही पातिसाहजी को फुरमान व वा<sup>१</sup> दोनां का मारां का समाचारांकी अरज-  
दासत भेजी । फेर जहादारसाह जी तखत बेठा तब खानाजाद अमीरल उमराव  
जी सुं अरज की वह फुरमान ईनायत हुवा था सु पेसगंज सुलतानी<sup>२</sup> कै दीया था ।  
अब छातर जमां हुई ओर फुरमान दीजे तब नवाब अरज की तब पातिसाह जी  
ओर फुरमान ईनायत कीया । सु आज दस पदरा दीन हुवा दुसरो फुरमान हजुर  
भेजो है सु नजर गुजरो होसी ।

१. उन ।

२. पेसगंज सुलतानी (पेशे गज-ए-सुलतानी)—ब्रादशाह की हजुरी में ।

आज चेत सुद १३ अमीरल उमराव को खानांजाद मुजरो कीयो, तब खानांजाद ने कही—जवाब आज तक आया नहीं सु कुं, तीपर खानांजाद कही—घड़ी पल मै जवाब की राह देखां हां कदाच राह को मुलाजो है जो ओर फुरमान ईनायत होय तो बड़ी महरवानगी है। तब नवाब कही—ओर भी फुरमान लो। सु आज अरज की, हुकम हुवो ओर फुरमान दो, सु तयार होय है, खानाजाद ने दे हे तो खानाजाद हजुर भेजसी कदाच आपकी जोड़ी चलासी तो वाका कासद ले आसी।

खानाजाद आपकी बंदगी मै हाजर है, पै दर पै फुरमान भेजे हे। मनसब ले चुको खीताब ले चुको, अब अरजदासत सुकरगुजारी की सीताब भेजजो जी। नजर तखत वेठां की भेज जो जी। अमीरल उमराव नै राजा सभाचंद ने खत भेजजो जी। मतलबां की वाजबलअरज भेज जौ जी। असफदोला जा कनै कही मुतसदी मातबर ने भेजजो जी। वांका लिखा अमीरल उमराव ने भीजवाजो जी।

तसदीक मनसब की व दसतुर सावक<sup>1</sup> जागीर बहाली का परवना खरच बीना बंद पड़ा है। सब संसार ईजाफा की तसदीकां ले हे, परवानां जागीर बहाली का ले हे, ईजाफा की जागीरां ले है। काल्ह कोई हजुर मे यो मजकुर करेला, संसार का परवानां आया सरकार को वकील परवाना भेजे न्ही, तीसु अप डर सुं अरजदासत करू हुं सनदां लेण को समय यो है। चार टका घट बध खरच ईजाफा की सनद लीजे, जागीर लीजे, आगली जागीर का परवानां लीजे ढील न कीजे ...पछै जी भांत पातसाही का काम होय आया है तीह भांत सहज मै होसी जी।

श्री महाराजा जी सलांमत। महंमद कुली महंमदाबाद का जमीदार को वकील अठै ईखलास खां जी कनै आण जाहर करी—श्री महाराजा जी का सुवार महंमदाबाद मै जाई महंमद कुली नै पकड़ लीयो अर परगना मै अमल कीयो, तीसुं इखलास खां जी खानांजाद ने बुलाई कहां—हमारै वा महाराज कै कदीम सुं इखलास है, महाराज कुं मेरी जागीर मै अमल न करणो थो, भंला अब भी महंमद कुली न छोड़ दे अर रूपया मेरी जागीर मै तहसील करा है तीकी हुडी कराई सीताब भेजै। तीसुं उमेदवार हुं—ईखलास खां तन को दीवान हुवो है, श्री महाराज का काम ने है जागीरां को काम ईही सु लेणो है, तीसु महंमद कुली नै छोड़ दीजे अर सरकार मै रूपया तहसील हुवा है ताकी हुडी कराई सीताब भेजा जै।

श्री महाराज सलांमत। दीलदार खां लालसोट को जागीरदार सरबराह खां उपर हुकम चढाओ है। खानांजाद ने बुलायो थो। रदबदल हुई सु सारी हकीकत

1. दसतुर सावक (दसतूर-ए-साविक) —पुरानी प्रथानुसार।

बागी अरजदासत मे लिखी है। मी० चैत सुद १० खांनाजाद कने मुचलको लीयो है तीकी नकल श्री जी हजुर मोकली है। सतर लाख दाम लालसोट मै दीलदार खां वगरे का तनखाह है तीमै अदतालीस लाख दाम का ईजारा वीचतो<sup>1</sup> पीरोहत सांग रांग का गुमासता है बाकी बाईस लाख दाम दीलदार खां वगरेह का है तामि पांच हजार आठसै रूपया हजुर मै पाय्या—बाकी<sup>2</sup> का के वासतै हुकम कढायो है। खांनाजाद तो ईह मुकदमां सुं वाकफ न्ही तीसुं अरजदासत गुजरत सवां य्यां का बाकी का रूपया की हुंडी कराई सीताव ईनायत फरमाव जै जी। आगां सु रवी को ईजारो लेणो होय तो पईसां का जांमन की नीसां भीजा जी।

श्री महाराज सलांमत। सईद खां वगरे भीव का तोड़ा का जागीरदार सरवराह खां उपर हुकम कढायो है जू भीखारीदास जी की मारफत परगनां हम श्री महाराज की सरकार मै ईजारे दीयो है जोसमै ऐक कीसत का रूपया पाय्या है बाकी का कुल गया। ईतना वीच श्री पातसाह जी को बाको हुवो तीसु अक् बाकी का रूपया वकील पास दीरावो। खांनाजाद नै बुलायो जद खांनाजाद कही—परगनां तो रहे श्री जी की सरकार मै ईजारे लीय्यो ही थो, एक कीसत का रूपया दीया ही था इतनां मै तुमारे गुमासतै उहां वीजेसीध जी के ईजारो दीयो सु तुम उनसुं समझो, वां कही—हमारै ताई तो हरगीज उनकु ईजारो देणो कबुल न्ही, हम तो सरकार मै ईजारो दीयो है सु रूपया की नीसां करो। तीसुं उमेदवार हुं दास जी की मोहर सुं पटो कबुलईत को य्यां कने है, झगड़ा वणै नही तीसु श्री महाराज तोटा मै अमल कीजै अर य्यां का रूपया की हुंडी कराई सीताव भीजा जै जी।

श्री महाराज सलांमत। देवती सांचारी को परगनां बदसतुर सावीक कोलां नै फेर बहाल हुवो। परवानो बदसतुर सावीक बहाली को कराय्यो है अर खांनाजाद सु लागे है जू म्हाकी कीसत का रूपया की नीसां करो। खांनाजाद वांसुं कही—ईह मुकदमां के वासतै हजुर नै अरज लीखु हुं हजुर सुं हुकम आया सारो सबीन होसी। तीसुं अरजदासत गुजरत वांका रूपया को सरंजाम करवाई भेज जै जी।

श्री महाराज सलांमत। खांनाजाद देवती सांचारी को परगनां जागीर मै लेवा वामतै बोहत तलास मै है पण करुं काई श्री जी को जवाब वा खरची पोहंची न्ही। खांनाजाद आपकी कुत मै भी आजीज तीसुं अक् सीताव सरंजाम पोहंचां परगनां जागीर मै लेवा को तलास करां जी।

श्री महाराज सलांमत। सरवराह खां कोतवाल कचेड़ी दीवानी को दारोगो

1. मध्य—मध्यरूप।

2. पापशापी।

हुवो तीनै हुकंम हुवो है—तीनुं सहजादा कनै जो जो रूपया वा घोड़ा लीया है सु फेर लो । सु सारी हकीकत आगे अरजदासत मै लीखी है सु मालुम हुई होसी । अजीम की सरकार सुं पांच हजार रूपया वा घोड़ो ऐक दास जी लीया है अर बीस हजार रूपया वा घोड़ा दोई भंडारी जी वा हजार रूपया वा घोड़ा ऐक हाथी राम बीकावत लीया है तीसुं उमेदवार हुं पांच हजार रूपया दास जी लीया है सु सरकार सुं हुंडी करवाई सीताब भीजाजै । महाराजा श्री अजीतसिघ जी सुं भी लीखजै बीस हजार रूपय्यां की हुंडी करवाई सीताब अठै भेजै । हाथी राम का रूपया कै वासतै खनांजाद उपर हक नाहककोतस दीय्यो है जो कठे ही नजदीक सो होय तो श्री जी वे सुं भी ताकीद फुरमाई हजार रूपया भीजाजै ।

महाराज सलांमत । श्री पातसाह जी मी० चेत्र सुद ६ सफर जुमा की नीमाज पढवा नवाड़ा<sup>1</sup> उपर सुवार होई सहर मै पधारा था । नीमाज पढ नदी पार सीकार खेलवा पधारा । घड़ी दोई तक सीकार खेला । पेहर दीन पाछलो रहो जद नवाडा राह दोलतखानै आण दाखल हुवा ।

महाराज सलांमत । श्री पातहाह जी मी० चेत सुदी १० हाथी नवाडा बा नै सहर मै पधारा आप कीला मै पातसाही महल...झरोखै जाई बेठा । पांच जोडी हाथां की कीला नीचे...उपर रेती मै लडी तीन पहर तक हाथां की लड़ाई को तमासो देख सुवार होई चार, घड़ी दीन रहता का आण दोलत खानै दाखल हुवा जी ।

महाराज सलांमत । घोड़ा लीय्या है सु आसफ दोला जी की रूबरू जहानावाद का दीवान कै हवाले कर कबज ले अठै भेज जो ।

महाराज सलांमत । वकाया की फरदां हजुर मोकली है सु नजर गुजरसी जी । चेत सुद १३ सुकरला खां आगला सुकरला खां को बेटो आकल खां आगै जहानावाद को कीलेदार सुबेदार थो तीको दुहीतो है सो अजमेर को सुबादार हुवो ।

महाराजा जी ने व महाराज अजीत सिघ जी व राव राजा बुधसिघ जी ने भीमसिघ जी हाडा ने अयजुदी साहजादा की फोज मे लिखा सु दीला पधार साहजादा की मुलाजमत कीजो जी । पंदरवी तारीख रूकसत है बीसवी रबी अल अवल की पातसाह जी को कुच है आगरा नै ।

- सां० १७६६, चेत सुद १३ ।

1. नवाड़ा—नाव ।

श्री राम जी

श्री जी सलांमत । खानांजाद नावाजी कर ईजाफो, सरपाव, घोड़ो ईनायत कीयो सु सीर चढ़ाय लीयो । तमाम सरफराजी खानाजाद नवाजी हुई, हजारों हजार तसलीमत बजाय लायो जी ।

अप्र० महाराजा सलांमत । खानांजाद ने देढो ईजाफो ईनायत कीयो सु जो खानाजाद देढो ईजाफो लीयो होय तो देढो ईजाफा पाउ, स्वायो<sup>१</sup> लीयो होय तो स्वायो पाउ, अर पोण दुणो<sup>२</sup> पायो होय तो पोण दुणो पाउ, अर दुणो पायो होय तो दुणो पाउ । तीसु गुलाम परवरी<sup>३</sup> के राह देढो ईजाफो पायो तीकी सुकर-गुजारी करतां ई करु जो कदाच गुलाम परवरी के राह खानांजाद दुणो ईजाफो ले अर अरज मुकरर करावे तो उमेदवार हूं जो जादा मीरजा न होय तो पाउ पर गुलाम परवरी कर अनवर<sup>४</sup> मीरजा राजा जी का वकील की मुवाफक पाउ, वनक जादा पाउं तो हीसाव है ।

श्री जी सलांमत । आलमगीर का समय मे मीरजा राजा जी बंदगी करी नु मालुम है, ई सभे खानांजाद बीना बंदगी खीताव लीयो सु आव सरफराजी करणी श्री जी को अखतयार है पण खानाजाद की भी या प्रतग्या है जो श्री जी मनसब मवाफक...जी को अखतयार है पण श्री जी की गुलामी की वा प्रतग्या के राह अरज करु हूं जु जीतनी अरज मुकरर कराउ जीतनी ईजाफो पाउं ।

1. स्वायो—गया—1½ ।

2. पोण दुणो—पीने से 1½ ।

3. गुलाम परवरी—नेवार्य :

4. अनवर—उग्रवन्ध ।



श्री जी सलामत । धनराम खानाजाद मुलाजमत करी है । चीमा साहब की वकालत खानाजाद धनराम के नाव मुकरर होय ई सरत उपर जो मवाफक दसतुर कै मनसब कराय जागीर ले तब रोजगार पावै ।

महाराजा सलामत । मीरजाराजा को खीताब लीयो तीकी नवाजस<sup>1</sup> मै सरपाव, घोड़ा बकसी सु महाराजा की नवाजस की, सुकरगुजारी कठा ताई करूं । पण श्री जी ही इनसाफ करै जो मीरजा राजा का खीताब की नवाजस घोड़ा सरपाव है जो घोडा सरपाव पायो, सरफराज हुवो । म्हारी तो बुनयाद ई नवाजस की हाथी है पण ई खीताब की सरफराजी श्री जी कीही सु नजर है जी । श्री जी सलामत । खानाजाद सु नजर सुं ही परवरण पाई है अर पाउगो जी पण ई सरफराजी को उमेदवार हुं, जी भांत मीरजा राजा<sup>2</sup> जी को वकील मीरजा अनवर रहै थो ती भांत भली तरह खानाजाद भी सरफराज होय दरबार मै रहै जी । खानाजाद की ती सहल है पण ई खीताब की मवाफक श्री मीरजा राजा जी को वकील रहै थो ती भांत खानाजाद भी दरबार मै रहे जी ।

महाराजा सलामत । पेसदसती मै खानाजाद के है, तथा साचई वकील है, खबरदार है, उमेदवार ईजाफा का है जीसु जो खातर मुबारक मै आत्रे सु सब बंदा ईजाफा सु सरफराज होय जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । धनेसुर गुजराती की दुकान पर रूप(या) दोय हजार पांच से की हुड़ी आई थी । सु वैकी अठे आड़त थी, दुकान तो थी नही । सु जी सराफ के आड़त थी वैकी दुकान उठ गई सु उमेदवार हु जी ओर साहुकार मातबर की हुंडी ईनायत होय जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । फखरुद्दी खां अहमूद जनल अबदीन खां के बेटे सतर हजार रूपयां की राजा सभाचंद की नीसां क सुबा अजमेर की दीवानी व महमद मुकीम सुं व फोजदारी सांभर की नसरतयार खां सु तगीर कराय आपकै नांव ली जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । दीवान भीखारी दास जी पांच हजार रूपया महमद अजीम की सरकार सुं ले आया है सुं वां रूपयां वासतै खानाजाद नै घणो कसालो छै तीसु उमेदवार छु जो ये रूपया सीताब ईनायत होय तो खानाजाद को कसालो दुर होय जी जी ।

मीती बैसाख बदी १३, सवत १७६६ ।

1. नवाजस (नवाज़िश)—मेहरखानी ।

2. मिर्जा राजा जयसिंह ।

॥ श्री गीपालजी सहाय

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री

॥ मीरजाराजा श्री जैसिध जी

॥ स्वास्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलानु खाना-जाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जी जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छै जी । श्री महाराजा जी रा सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जी जी । श्री महाराजा जी माईल है, घणी श्री परमेमुर जी री जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी रा खानांजाद बंदा हों । श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी थे महरवान है । श्री महाराजा जी सुख पावजी जी । पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जी जी ।

अप्रच श्री महाराजा जी रो परवानो खानांजाद नवाजी रो तारीख चोयी रवी अवन रो अठाईस बी माह मजकुर की पोहचो । तमाम खानांजाद परवरी हुई, फुरन सात बजाय ल्यायो साथै चढ़ाय लीयो जी ।

हुकम श्री जी को आयो ज श्री पातिसाहजी को फुरमान बालासान<sup>१</sup> दरबाब सरफराजी व नवाजस बे पाया<sup>२</sup> को पोहचो । हुकीकत मानुम हुई अर अदब सु पेस बाजाय तसलीमात बजाय लाया अर नवाब अमीरल उमराव जी की तबजह की । सुकरगुजागी लिघी श्री सु अर खानांजाद ने हुकम आयो ज हमेस नवाब पास हाजर रहे । सु महाराजा तलांमत । खानांजाद हमेस नवाब की खीदमत मै हाजर

१. फरमान बालासान (फरमान-ए-बालासान)— छाही फरमान ।

२. दरबाब सरफराजी व नवाजस बे पाया (दर बाद-ए-सरफराजी व नवाजस-ए-बे पाया)  
—अपार नरमात तथा मेहरबानी से पूर्ण (छाही फरमान) ।

रहै है। राजा सभाचंद<sup>1</sup> कै हाजर रहै है। राजा जी बोहत प्यार करै है। परवानो. राजा की मारफत बजनस परवानो नवाब की हजुर पढं सुणयो। नवाब पातिसाह जी की नजर गुजरानो, पातिसाह जी मुताले मुबारक मै ल्याय बोहत सुख पायो। नवाब से बोहत तारीफ श्री महाराजा जी की फुरमाई। नवाब दीवान खास की कनातां बारे आया तब खानांजाद सु फुरमाई।

श्री जी सलामत। अजब तरह को गंजवकस पातिसाह है। अर नवाब की बुरगी कहा ताई लिखु। महाराजा सलामत। लसकर मै भांत भांत की अफवाहां उठै है अर श्री महाराजा जी ने तो म्हारी काई कुदरत है तदबीर की अरजदासत करूं पण हजुर का मुसाहब मुतसदां ने तो उलाहणो कहां ताई लिखुं ज आज की घड़ी ताई अरजदासत तखत बेठां की मुबारक वादी की भेजी न्ही, नजर भेजी न्ही, नवाब ने खत भेजो न्ही। राजा सभाचंद ने खत भेजो न्ही, बकसी अलमुमालक खानजहां बहादर<sup>2</sup> ने खत भेजो न्ही। मनसब ईजाफै हुवो तीकी तसदीक याददासत को खरच भेजो न्ही। जागीर ईजाफा की लेणी तीका परगनां लेणां को तो हुकम भेजो पर खरच न भेजो। सु कहां ताई तगाफली<sup>3</sup> करी है तीकी अरज करूं। अब हुई सु गुजरी। अब अरज पढत स्वां ओर सारा काम पाछै करण को हुकम होय, पहली श्री पातिसाह जी नै मुबारकवादी की व ईनायत की सुकरगुजारी की अरजदासत व नजर व नवाब अमीरल उमराव नै खानजहां बहादर जफर जंग ने, राजा ने खत भेजौ जी। पातिसाह जी व नवाब आपकी तरफ सु खानांजाद का कहा मवाफक सब कर दीयो। अब श्री जी फुरमावैला सु सब मंजुर होसी। पातिसाह मुतवजह<sup>4</sup> है, नवाब मनसावाचा<sup>5</sup> श्री जी को काम भली भांत कीयो चाहै है। या तो कह चुका ज दोर दोर तुम्हारा है जो चाहो सु अरज करज करो सब मंजुर होसी। तब श्री जी ही ईनसाफ फुरमावै फेर काई रहो ती सीवाय जो मन्मै अरज होय सु लिख भेजजै। श्री जी रजामंद होयला सु ही पातिसाहजी फुरमावला जी। अब ढील श्री जी की तरफ की है तीसुं अरजदासत वगेरह खरच सीताब भेज जो जी।

गुरे रबी असानी पातिसाहजादो अयजुदी पचास हजार अंसवारा की फोज सुं फरखसयर की तंबीह नै रूकसत हुवा। खासो सरपाव डेरै भेजो थो, रूकसत होता हाथी, घोड़ा, जवाहर व कीरोड़ रूपया व ईजाफो दे रूकसत कीया।

1. राजा सभाचंद—वादशाह जहांदारशाह के दीवान जुल्फिकार खां का दीवान तथा दीवान-ए-खालिसा शरीफ।
2. जुल्फिकार खां—इस समय तक दीवान का पद नहीं मिला था।
3. तगाफली=भूल।
4. मुतवजह (मुतवज्जह)=ध्यान देना।
5. मनचाहे—इच्छानुसार।

पातिसाह जी आप कुच दर कुच साहजहानावाद नै चला आवै है। तीस कुच चार मुकाम मुकरर हवा है फेर देखजै कीतना दीन लगे। नदीया का पुल तयार हवा है।

आफदोला पास सीताव मुतसदी भेजजो जी खत मतालव सरंजाम को अमीरल उमराव नै भोजवाजो।

श्री जी सलामत। दस्तुर सावक का परवानां करावण नै दीवान भीखारी दास जी की मारफन की हुंडीया मधे रूपा दस हजार खानाजाद नै दीराया था ज गजसिध जाहोर का पुरा को हवालदार, साहुकारां कने दीवासी।

सु श्री जी सलामत। हुंडी तो पातिसाह जी का तामुत की साथ भंडारी जी को आदमी चली सु दीवान जी का कागद गजसिध भेज दीया वा मी हुंडीया चली गई। पण श्री जी को परवानो व दीवानी सनद हजुर सुं आई थी सु साहुकारां नै दीखाई तीकी वीगत—

पांच हजार तो खड्ग सेन हाथी राम की दुकान सुं दीराया था सुं पहली तो नट गया फेर पदरा दीन को वादो कीयो ज म्हाका साहुकारां को हाल कांमीतां को लीखो आवेलो तो देसां। सु वेसाख मुद ७ वांको लिखो आयो सु व कबूल कर गया। लिखत भरपाया को कराव ले गया पण तुरतं रूपया दीया न्हे। साल सवार वडावे हे कहे हे एक म्हीना मे भर देसा। ग्रानाजाद काम की मुरत वताई ज परवानां करणो है पण कहे म्हीनां मे भर देसा। सु पांच हजार की तो या मुरत हे मोड़ा ना देती ५०००)

धनेमुर की अढ़ाई हजार की हुंडी मधे दीराया था सु धनेमुर तो अठे नहीं वे की आदन थी सु मराफा कने वेकी आइत का घोहरा नै ले गया दोहव समझायो पण वे कही मे वेकी हुंडीया कद ही की नकार दी हुं दमड़ी नुं नहीं। सुठी ही म्हार ऊपर लिख देहे सु धनेमुर कने उठे ही रूपया फेर लेजो जी। आगां सु वेकी हरी मत भेजजो जी।

दोला महासिध की दुकान सुं हुंडीया मधे दीराया था अढ़ाई हजार, सुं वां वां भी पंदरा दीन को वादो कीयो थो, नु वां आय जाहर कीयो ज म्हाके साहुकारां लिख भेजो हे हजुर मे रूपया फेर लीया दमड़ी कोई मांने तो दो मत, ती पर गज सिध वांने माकुल बोहत कीया पण वां साफ जवांन दीयो ज वीगड़ो भावे सु धरो पण दमड़ी न दुं। तब खड्ग सेन हाथीराम वाला गुमासतां समझायो ज सरकार के कांम हे दो पण न दीयां। सो जो हजुर में रूपया फेर लीयां हे तो चुकी, न्ही तो गुन्हगारी मुघा रूपया फेर लीजो जी अर ईसी चररमनुमाई होय ज फेर कोई साहुकार दगो न करे

२५००)

सामराम की हुंडी रूपया १०००) एक हजार की खानाजाद का रोजगार मे भेजी थी सु गुमासतां तो भाग गया अब सहकारां कही प्रोहत ही गुमासता बुलाय भेजा अब झुठी हुंडीयां लिख लिख भेजे हे । कही सराफ भी हुंडी मोल न ली कही वो बदमा मलै है तीसु हुंडी फेर भेजी है जी ।

ईतरा उमरावां तो दवाब सरबराह करी दसतुर आलमगीर कै कीरोड दांम पाछे पांच हाथी अर तबेलो सीरा माफक—

अमीरल उमराव ।

खानजहा बहादर ।

खानदोरां बकसी दुयम ।<sup>1</sup>

राजा गोपाल सिध भदोड़यै ।

हफीजुला खां बकसी सीउम ।<sup>2</sup>

बहरमंद खां गुरजदारा कै दारोगै ।

तरबीयत खां ।

दाउद खां दखण के सुबेदार ।

अलीमरदांखां लाहोर के

ईनायतुला खां कसमीर के सुबेदार ।

सुबेदार, जवरदसत खां वगेर

नासर खां काबल के सुबेदार ।

बेटा की भी सरबरा हुई ।

हुसेन खां थटा का सुबा

अली मुराद खां मुलतान के

को नायब ।

सुबेदार को नायब ।

ओर भी छोटां मोटा सरबरा करी अर हर रोज करता जाय है । जागीर बहाली की सनद जद दे हे तब दवाब सरबराह करा मुतसदीयां की परवांगी ल्यावे हे । सु खानाजाद अब तांई तो हुकम की राह देखे हे । दीन ऐक दोय मे सरबराही को हुकम आवे हे तो भलां हे न्ही तो दवाब सरबराह कर दवाब का मुतसदां की परवांगी ल्याय दसतुर साबक का परवांनां को कांम चलतो करू हुं ईतरा मै श्री जी खरची की खबर लेही लै ।

लालसोठ का जागीरदारां को, भीम का तोड़ा का जागीरदारां को रोज हंगामो कचहड़ी मै लग रहो है सु श्री जी वांको सरंजांम जवाब सुवाल ईनायत कीजो जी बड़ो गाहरयो कर रहा है जी ।

सां० १७६९, वैसाख सुदि ८, गुरवार सवार ही चलाया ।

आज दरबार का दीखावे ने परवांना फारसी आवे, घरू मतलब का हीदवी आवे ।

लसकर मे भांत भांत की अफवाह होय रही है अरजदासत नजर ओई न्ही तीसु परवांनो दीखायो रही रहां हा, बगई अरजदासत नजर सीताब भेज जो जी ।

1. ख्वाजा हसन खाने दौरां—द्वितीय बख्शी तथा कोकलताश का बहनोई ।

2. तृतीय बख्शी ।

॥ श्री गोपाल जी सहाय छै जी

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री  
मीरजाराज श्री जैसिध जी

॥ सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलानु खानाजाद खाकपाव पंचोली जगजीवनदास लि(ख)तं तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला है । श्री महाराजा जी का सीध समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, श्री परमेसुर जी री जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी रा खानांजाद बंदा हां । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरवांन है । श्री महाराजा जी सुख पावजो जी, पांन गंगाजल आरोगणरा घणा जतन फरमाव जो जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । परवानां खानाजाद नवाजी का जोड़ी तीन साथ ईनायत हुवा । तसलीमात बजाय लाय माथे चढ़ाय लीया । अरजदासत व नजर श्री पातसाह जी नै व खत नवाव अमीरअल उमराव जी नै व खानजहां बहादर नै व राजा सभाचंद नै व खत नवाव आसफदोला जी रो नवाव अमीरअल उमराव जी नै भेजा था सु अरजदासत व नजर श्री पातसाह जी नै गुजरानी अर खत गुजरानां । साह नैदसुख जी लीयो थो सु महाराज कंदर चामा साहब के नांव मधुरा की फौजदारी आमतै नवाव आसफदोला जी सु मोहमसाजी<sup>1</sup> ठीक करी है ये ऊठै सोय पार हजार रूपया लागै सु खरच काम कीजो । सु खानांजाद या वात राजा सभाचंद सु जाहर की तद कही जु तुमनै वहां मोहमसाजी त की यहां

1. मोहमसाजी—मस्बूमों काय करम की ऐवज मे तय की गयी रानि ।

नवाव अमीरअल उमराव<sup>1</sup> की मोहमसाजी कीयां बीना कुछ काम सरंजाम पावै नही। जो नवाव की मोहमसाजी करो तो अरजी करै।

सु श्री महाराजा जी सलामत। राजा परताप सिध जी ईजाफा मनसब वगैरै कांमां की बतीस हजार रूपयां की मोहमसाजी करी अर राजा गोपाल सिध असी हजार रूपयां की मोहमसाजी की, तो भी कुछ बात न पुछी। सु राजा परताप संघ जी सुवा अजमेर का तईनात होय रूखसत हुवा है सु सारा समाचार रो वरो श्री जी सु जाहर करैला। सु खानांजाद हकीकत तो लिखावै है पण नवाव अमीर-अल उमराव जी की मोहमसाजी की यां काम सरजांम पावसी तीसुं अरजदासत हजुर भेजी है। जो कुछ जवाव ईनायत होय ती माफक खानांजाद अमल मै लावै सु ईको जुवाव सीताव ईनायत होय जी। मतालव सरजांम का नवाव नै लिख दीया है तीकी नकल हजुर भेजी है सु नजर गुजरसी। सु मतलव की जुदी मोहमसाजी मांगै है। सु मतलव उपर नजर कर जु वानै देणो खातर मुवारक मै आवे सु लिख भेजजो जी। नवाव खातर खाह रूपया लेला तद काम करैला जी। तीसुं सात हजारी सात हजार सुवार की तसदीक हाथ लागै तो पेट भर मनमानतो मांगै सु दीजे। मथुरा जी की फौजदारी हाथ लागै तो जु चाहै सु दीजे। अर देवती सांचारी अथवा मालपुर कै टोक वा खोहरी अथवा ओर परगनां लिखा है तामै तलव भरपांव जे तो भलां है। तीसु ऐक ऐक कांम उपर नजर फुरमाय ऐक ऐक परगना नै खातर मैलाय याकी मोहमसाजी वीचार सीताव जवाव ईनायत फुरमाव जे जी। पातसाह जी कै कुल अखतयार नवाव अमीरअल उमराव जी को है। ती भांत नवाव के तमाम अखतयार राजा सभाचंद को है। जो नवाव व राजा सभा-चंद ने खातर खाह मोहमसाजी दीजेली तो सारा कांम मनमानता सरंजाम कर देला। श्री जी सलामत। अवार रोलाधीया<sup>2</sup> को समै है, ईसी...ममया मे जो काम कर लीजे लो सु तो सरंजाम पावैलो अर दीन चार पाछै जी भांत पातमाही काम होव है ती भांत होयला जी।

श्री महाराजा जी सलामत। दीवान भीखारी दास ना रूपया पांच हजार महमद अजीम की सरकार सु ले आया है सु वा रूपयां कै वासनै खानांजाद सु तगादो हुवो थो सु खानाजाद मुचलको लीख दीयो जु जागीर की ना तद या रूपया की नीसा करां। सु वै की नकल हजुर भेजी है सु नजर गुजगी होधी। अर पर-वानां लेवा लागे तद पयादा साथ दीया है। जु रूपयां की नीमां करे ती सु उमद-वार हु जु यां रूपयां को सरंजाम सीताव ईनायत हो जी।

श्री महाराजा जी सलामत। परगना नानमोड व भीव वा टोटा का जागीर-

1. बजौर उल्फखार खां।

2. भगड़ा, चिनाद।

दार का ईजारा का रूपयां कै वासतै हुकम आयो जु पाछां सु जवाव लीख मोकला छा । सु वै दोग सै आदमी खानाजाद सु कचड़ी मै झगड़ता फरै है सु भीखारी-दास जी ई मुकदमा सु वाफ है । उमेदवार हु जो यां का ईजारा का रूपयां सीताव ईनायत होय तो खानाजाद वाका हमेस का झगड़ा सु खलास होय जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । दसतुर सावक बहाली जागीर का परवानां खरच वासतै रूपया हजार दस चालीस हजार आयां की हुंडी मधे तनखाह हुवा था । सु त्यामां सु रूपया पांच हजार खड़ग सैण हाथी राम का गुमासतां कबुल कीयां है । अर घनसुर गुजराती जी की दुकान पर हुडी की थी सो वै दीवांलो काढो ओर परोहत सामराम का गुमासता हजुर आया ओर टोला महासिघ साफ जवाव दीयो नकारा को खत लिख दीयो सु हजुर भेजो है । तीसु उमेदवार हुं जु सीताव परवानां बहाली का तयार कराय भेजु जी । रूपया पांच हजार खड़गसैण हाथीराम का गुमासता कबुल कीया ओर परवाना तयार करावा लागो हु पर वाकी तनखाह ईनायत होय तो सीताव परवानां तयार कराय भेजुं जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । सारा अमीरा नै दवाव लगी । खानाजाद उपर भी चीठी हुई है सु खानाजाद नवाब अमीरअल उमराव जी सु जाहर कीयो थो सु फरमायो जु तुम दवाव की नाह जमां मत करो सरंजाम करो सु दोग तीन दीन टलै है सु टाला हां पर जागीर को परवानो दवाव सरवराह कीया देला । उमेदवार हुं जु दवाव की सरजाम सीताव ईनायत होय जी ।

सां० १७६६, जेठ वदि १ ।



॥ श्री गोपालजी सहाय

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री

॥ मीरजा राजा जी श्री जैसिघ जी

॥ स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलानु खाना-  
जाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जो जी । अठा  
का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप थे भला छै । श्री महाराजा जी  
रा सीख समाचार सासता प्रसाद करावजौ जी । श्री जी माईत है, घणी है, श्री  
परमेसुर जी री जायगा है । म्हे श्री जी रा खानाजाद वंदा हां । श्री पातिसाह जी  
श्री महाराजा जी थे महरवान है । श्री जी सुख पावजौ जी । पांन गंगाजल धारो-  
गण रा जतन फुरमाव जौ जी ।

अप्रच श्री जी को परवानो खानाजाद नवाजी की आयो सु माथे चटाय लीयां  
तमाम सरफराजी खानाजाद नवाजी हुई जी ।

श्री महाराजा जी को परवानो बदसतुर सावक जागीर बहानी को आगली  
जोड़ी की साथ भेजौ है सु नजर मुवारक गुजरो होसी जी । अब काजी की  
मोहर की नकल कराय हजुर भेजी है जीसु नजर मुवारक गुजरमी जी ।

श्री महाराज कवार चीमा साहब जी की जागीर बदसतुर सावक बहानी को  
परवाना भेज्या है सु मुवारक होय जी । खानाजाद आपकी तरफ सु दरवार कां  
कांन नरंजाम कर हजुर भेजतो ज्ञांछं हूं जी सु नजर मुवारक गुजरना जायजी ।

नारा मुनालक महम्मद का पुत्र बहान कराया परवाना खालसा का दरवार

1. नरुका = एहर द्रव्य कम्बे के कर्ममें दाने वाला धेनु ।

गु तयार हुवा, आसफदोला की मोहर नै दीया है सु दीन चार पांच मै वै भी परवाना हजूर भेजुं हूं जी ।

लाहौर का पुरा को परवानो हजूर भेजो सु पहचो होसी, अब काजी की मोहर की नकल भी हजूर भेजी है सु नजर गुजरसी जी ।

महाराजा सलामत । हफत हजारी जात हफत हजार सवारां को स्याहो खालसा का दफतर सुं ले खानजहां वहादर के दीयो थो सु वे महमसाजी मांगण लागे तब खानाजाद राजा सभाचंद सु कही म्हे घर घर फीरता न फीरसा, महाराज को हुकम नही ज कही कै जावो, यो हुकम है नवाव की दोढ़ी पर वेठा रही, नवाव काम करदे सु ही सही ई बात सु राजा सुख पायो अर साहो ईजाफा को दीयो थो सु खानाजाद पास फेर लीयो अर कही अब कई करणो । तब खानाजाद कही सजावल भेज बकसीयां का सुं तसदीक याददासत कराय मंगावो सु सजावलां नै साहो दीयो ज बकसी का सुं सनद कराय ल्यावै जी ।

महाराजा सलामत । अठै महाराजा अजीतसिध जी की तरफ सुं ऐक नवीसंदो दस रूपयां को महीनदार आयो है सु ईनै दरवार मे कोण पेटण दे तीसुं जहां तहां अजीतसिध जी को जवाव सुवाल खानाजाद पास मांगे तब खाहनाखाह जवाव कीयो चाह जे तीसु नवाव व राजा पुछे हे सु कही जाय है जी ।

फुरमान केसर का कोलपंजा सुं व अमीरल उमराव जी को खत कोल पंजा सुं श्री महाराजा के नाव व महाराजा अजीतसिध जी के नांव व दुरगदास राठोड़ के नांव तयार हुवा उजक मोहर होय चुकी, केसर सुं पंजो फुरमान पर होय चुकी, खत भी नवाव को होय चुकी, अब आसफदोला का मीलण उपर रही थी सु अमीरल उमराव नारेला की सराय सुं बड़ा नवाव का मीलण ने गया सु मीला, चादली मे सालेमर बाग मे आसफदोला मुलाजमत करसी पछे असाठ वदि ५ गुरवार कीला दाखल पातिसाह होसी । अब दीन दोय चार मै फुरमान श्री जी हजुरी चलसी जी ।

साह वेग नवाव को वकील फुरमान ले श्री जी हजुर आवसी जी । मीरजा पादरी महमद सलाह को वेटो श्री जी सुं वंदगी भी राखे हे । नवाव चाहे हे ईने भी भेजे नु देखजे थो भी चलेक साह वेग ही चले । दीन दोय चार का चला फुरमान आवे हे जी । अब फुरमान पहुंचत सवां श्री जी हजुर पधारजी जी, ढील मत करो जी । नवाव कहे हे महाराजा की तुं लिख—वतन, खीताव दादे का मनसव जो यात असल थी सु तो कर दी चाहो थे जीस सुं जादा कीया अर मुलाजमत के रामे ओर ईजाफा होयगा । अब अनाहक उसवास मत करी, खातर जमां सुं

1. मनील-ए-मुत्तक अस्द यो—वहीर जल्फिकार यो का पित्त, जिसे 12000/12000 का नमय प्राप्त था ।

सीताब हजुर आवो जु ओर भांत भांत की रीयायत पर दाखत होय दोर दोर तुम्हारा है ।

श्री महाराजा सलांमत । ईखलास खां तन का दीवान की जागीर मे हवेली अजमेर का गांव है सु याकै गुमासते लिखो हे ज सब जागीर खां की व ओर सब जागीरदारां की जागीर श्री जी के मुतसदीयां तहसील करली, हर चंद लोगां फीरयाद करी पण ज्मानी ईखलास खां के मुतसदी लिखो है, जागीर छोड़ दीजो के मीरजा राजा का वकील पास केद कर रूपया लेजो, तीपर आपका मुतसदी कौ खत अमीरल उमराव पास भेज दीयो । नवाब राजा नै खत दीयो ज वकील को पढ़ावो, ताकीद करौ । तीपर राजा बजनस खत पढ़ायो अर कहौ श्री जी नै अरजदासत करो ज अब तांई भी ठोड़ ठोड़ सुं आदमी थांणां उठायो नही सु मसल्हत सुं या बात दुर है हुई सु गुजरी, अब भी सब जायगा का थांणां उठायो, जागीरदारां ने अमल दी, पाछली फसल की नीसा कर लोगां का राजी नांवां भेज दी । अर ईखलास खां तन को दीवान हे सब जागीर ई पास लेणी है, ई की तो भांत भांत मुदारात करी चाहजे तठे उलटी ईकी जागीर लुटो हो सु या कोण सलाह है । भांत भांत की नरम गरम कही अर ईखलास खां ने कह भेजो अव वकील मीरजा राजा जी को लिखे है जो तुम्हारे टके भेजें हे तो भला है नही तो वकील को केद कर रूपये लीजो ।

तीसुं श्री जी ताकीद फुरमावे ज जागीरदारा की जागीर मे कोई हाथ न डाले अर पाछली फसल का रूपया लीया होय सु फेर दै अर जागीरदारां का लोग झुठ लीखे हे तो दीवान की मोहर सुं महजर<sup>1</sup> कराय भेजजौ जी । काजी की, चौधरी कानुगो की मोहर दसखत को तुमार मंजुर नही कहे हे । चौधरी कानुगो ने केद कर चाहे सु लिखाय ले, तीसुं दीवान सुबा को तीको मोहर सुं महजर भेजजौ जी । ओर जागीरदारां सु झगड़ झगड़ाय चार दीन थांभा जाय है पण ईखलास खां तो तन को दीवान है, रात दीन ईसुं काम रजु है जागीरा तो यो दे हे, असी ठोड़ का मुतसदी सु रीयायत की चाहजे जी ।

महमद सायब मनसबदार हे । वे की जागीर मअजाबाद मे हे, एक लाख केताक हजार दाम सु दास जी वाकफ है सु ऐक वरस का हासल को दावो करे हे । रात दीन छुरी कटारी काढतो फीरे हे । सादक महमद खां आसफदोला को नायब हे मोहर साद परवांनां उपर जरे हे सु ई को हीमायती है । श्री जी का परवांनां उपर ईकी जागीर का मतलबा घणा झगड़ा कीया तब नवाब सुं कही तब नवाब मोहर कर दी अर खांनांजाद सुं कही सब जागीरदारां की जागीर मे अमल न करे, सब का हासल की नीसा करै, अब मसल्हत न्हे ज लोगां की जागीर

1. महजर (मेहजर) = तसदीक, प्रमाणित ।

में देखल करी। सारा का राजीनावां फरखती सीताव भेज जु। पातिसाह जी की नजर गुजरानां।

आसफदोला की नवाब अमीरल उमराव वादली में ही मुलाजमत की, हजार मोहर नजर की। बड़े नवाब सरपाव दीयो, चार पहर रात साथ रहा। असाह वदि २ पातिसाह जी वादली आया। अमीरल उमराव आसफदोला की मुलाजमत कराई, बड़े नवाब हजार मोहर नजर की, हजार मोहर नीसार की। पातिसाह जी बंधत महरवानगी की, चार काव<sup>१</sup> की सरपाव दीयो, बगलगीरी की खीलवत में घेठाया, फेर रुकसत कीया। रात ने फेर बुलाया, घड़ी चार रह खीलवत कर रुकसत कीया। असाह वदि ३ आसफदोला ने स्हर में रुकसत कीया। पातिसाह जी मुकाम कीयो, चौध<sup>२</sup> को भी मुकाम कीया। असाह वदि ५ गुरवार पातिसाह जी स्हर में दाखल हुवा सु पहली तो बेगम साहब पास गया, फेर कीला में दाखल हुवा, कीला को तोपखानो छटो। एक खबर हे चार महीना अठे कीला में रहै अर एक खबर हे दस दीन रह कुच करै। पछे ठीक पड़सी सु अरजदासत कर सुं जी।

परवानो श्री जी को आयो तीमे हुकम आयो दस हजार रुपया, चालीस हजार की हुड़ी मध दीराया है सु साहुकार वै न्है सु साहुकारा सुं रदबदल होय है, पाछां सु हुंडी भेजा हां जीतने<sup>३</sup> अढाई हजार की हुंडी भेजी है तीमे देह हजार रोजगार ईनाम में दीराया है सु लीजो अर एक हजार जो जरूर होय तडे दरवार का काम ने खरज कीजो अर साह नेनमुख जी लिखो अवार जागीर बहाली की सनद मत करावो, महाराजा अजीतसिध जी को काम अर सरकार को काम ऐकटो ही होसी। सु महाराजा सत्तामत। दस हजार की हुंडी में साढ़ा पांच हजार साहुकारा सुं ले परवानां क लिखाया, श्री जी को परवानो चलायां ही दस दीन हुवा। अर चौमां साहब को परवानो दफतरां में दोड़ मोहर दसखत होय आयां पाछे हजुर ने परवानो चलाउ थो कयो हुकम आयो। सु खानाजाद तो जाणतो थो ज परवानां सीताव कराय हजुर भेज सुं तो मुजरो होसी। सु पातिसाह जी को तो आठ आठ नो नो कोम को कुच सारै दीन राह चलतो अर रात ने ससकर में फीरतो, घर घर दूंड दूंड नीसानी करावतो रात दीन दोड़ दोड़ मुजरा के वासते परवानां कराय हजुर चलाउ थो ज श्री को यो परवानो आयां सु अब तो खानाजाद तकसीरवार<sup>४</sup> है ज हजुर का हुकम मवाफक दोड़ा दोड़ा कर परवानां कराया सु परवाना हजुर भेज्या है सु नजर गुजर सी। अर सारा पुरा

१. काव—मात की इतार्ह।

२. चन्दा परी ५।

३. इनी रीय।

४. बरकीरवार—शेरी।

का परवानां कराये हे सु पाछा सु भेज सुं जी । साढा पांच हजार सराफां पास लीया है तीमे पांच हजार तो खगड़ सेन वाजुराम की दुकान सुं लिया तीमे देढ हजार खांनाजाद ने ईनाम व रोजगार में दीराया सु लीया अर चार हजार मे सब परवानां कराया मोताद पयादा ने दी, सु तफसील जमां खरच सु मालुम होसी जी । खांनाजाद तकसीर तो की हे ज हुकस मवाफक परवानो करायो अर दस हजार की ढोड़ चार हजार मे काम कीयो । उमेदवार हुं तकसीर माफ होय अर साहुकारां ने रूपया मुजरा दीजे । अर महाराजा अजीतसिघ जी भी अब परवानां करावसी ही जी । वांको दसतुर है रसमे काम न करै । भंडारी जी ने व गुलालचंद ने पहल के भेजा तव यां दोनो वां यां सोहरत दी ज लसकर मे कही मुतसदी के जाण को हुकम न्ही । ऐक महावत खां के ही रहसो दीन दस बीस तो वेठा रहा फेर घर घर फीरता फीरा, सवार का वेठा पहर रात नै मुतसदीयां के घर घर फीरता फीरै सु ही अबकै हीसी जीतनै ये मीनत मया करै हे जीतने टेढी टेढी वातां करता रहेला । अर जद ये पुछेला न्ही तत्र घर घर फीरता फीरेला । ये ईरानी है पहली आपकी तरफ सुं सब सलुक करे है जद यांको सलुक न मानसी तव श्री जी देखेला । ज घर घर आजजी करता फीरसी अर कोई वात न पूछसी वेअदबी कर खांनाजाद अरजदासत की है सु माफ होय । अर महाराजा अजीतसिघ जी नै समझाय कह-जो सीताव हजुर आवे, सनदां ले । अब चाहं काई है, हफत हजारी काया, वतन दीयो, खीताव दीयो ।

नुसरतयार खाँ ने हजुर बुलायो ।

सां० १७६६, असाढ वदि ५, गुरवार, ६ पहर दीन ।

॥ श्री गोपाल जी सहाय छे जी

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी

॥ श्री मीरजाराज जैसिध जी

॥ सिंधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री.....चरण कमलानु  
ग्रानांजाद खान्नाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधारजो  
जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला है । श्री  
महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद करावजो जी । श्री महाराजा  
जी माईत है, धणी है, श्री परमेसूर जी री जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी रा  
खानांजाद वंदा हं । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरवान है । श्री  
महाराजा जी सुय पावजो जी । पान गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फुरमाव-  
जो जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । आगै श्री महाराज कवार चीमां साहब जी का  
दस्तुर सावक वहाली जागीर का परवाना की नकल व पुरा लाहौर का परवानां  
की नकल काजी की मोहर सू व वाजदल अरज माफ(क) ईरसाद हजुर<sup>१</sup> के  
नवाब अमीरल उमराव जी को खत श्री महाराजा जी हजुर भेजा है सु नजर  
मुबारक गुजरा होसी जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । ता० ४ जमादी अलसानि श्री पातसाह जी  
जसन फुरमायो । पातसाह आलमगीर का वैठवा की ठोड थी तठै ईमतयाज महल  
वेगम<sup>२</sup> तयत वैठा अर वैंके नीचै अमीरां का खड़ा होवा की जायगा थी जठै

1. माफईरसाद हजुर (माफिर-ए-इरसाद-ए-हजुर)—बादशाह के नवानुसार ।

2. मास शूर—जर्दीदारशाह ने बादशाह बनने के पश्चात साल कुंदर को इम्तीयाज महल  
की पदवी से सम्मानित किया ।

कलांवत लोग खड़ा रह्या, अर हजरत सो थंभो दालान दीवान आम को है तठै जरबफत<sup>1</sup> को सामयानो मोतरा की झालरीदार खड़ो कीयो, ती नीचै नो करोड़ को तखत जड़ाऊ साहजहाँ पातसाह<sup>2</sup> बणांयो थो ती उपर बैठा । नवाब आसफदोला जी व नवाब अमीरल उमराव जी व सारा उमरावां नजर करी । नवाब अमीरल उमराव जी सोना रूपा का फुल व मोहरां व छोटा मोती चुनी पनां नोछावर कीया । पातसाह जी नवाब आसफदोला जी व नवाब अमीरल उमराव जी नै खासा सरोपाव डेरै भेजा अर नवाब अमीरल जी नै मोत्या की माला व सूमरणी मोत्या की हजरत पहरां था सू दसत मुबारक सु नवाब नै पहराई अर नवाब आसफदोला जी नै फुरमायो जु तुमारा बेटा<sup>3</sup> खुब काबिल है, जंग सुलतानी मै खुब तरदुद कीया है । ओर खानजहा वहादर नै सरोपाव खासो ईनायत कीयो अर मोत्या की माला ईनायत फुरमाई जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । नवाब अमीरल उमराव जी साहवेग नै पालकी वखसी, मीरजा कादरी व साहवेग नै कोल पंजा का फुरमान दे हजुर सू रूखसत कीया सु दीन दौय चार मै चलसी जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । कही हरामजादै जोसघपुरा मै झुठी खबर ऊड़ाई जु पातसाह जी जैसिघपुरा का लुटवा वासतै हुकम कीयो है सु सारा पुरा का लोग भाग गया । या खबर पुरा कै हवालदार खानाजाद नै कहै भेजी । तद खानाजाद राजा सभाचंद सु जाहर करी तद राजा सभाचंद कहो जु यह हुकम कद हुवा, यह खबर कनहीनै झुठ ऊड़ाई है । तद खानाजाद पुरा का लोगां की तसली कर पुरा मै आवादान कीया जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । नवाब अमीरल उमराव जी नै लिख दीया तांकै वासतै खानाजाद राजा सभाचंद सु वजदैराना कहो मै व मतालव नवाब कु दीये है सु नवाब आसफदोला जी के अर नवाब कै रदवदल दरमयान है सु जैसा होयगा तैसा जुवाव देगे सु ईकी हकीकत पाछा सु अरजदासत करसु जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । मोहनदास नटवो आगै श्री महाराजा बैकुंठ-वासी मीरजा राजा जैसिघ जी कै चाकर थो । तीका बेटा पोना महमद अजीम के चाकर था अर साह कुदरतला के मुसाहब था मु यांकै वासतै दीवन वीखारी दास जी अरज करसी जी, अवार पातसाह जी यानै कैद कर फुरमायो जु खाहम-खाह चाकर रहो सु यां कबुल न करी, अर खानाजाद कनै आय कहो जु म्हे कदीन श्री महाराजा जी का खानाजाद हा सु ईरादो बंदगी सग्कार को है नीमु

1. जरबफत—मोने के धागे से बूना हुआ ।

2. दादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया, जो करोड़ रुपये की लागत का शीशे-मोतियों से लूटा गढ़न था, जिसे तख्त-ए-ताऊम कहा जाता है ।

3. दीवान ज़ुल्फिकार खाँ ।

उमेदवार हू जु खातर मुवारक मै आवै तो यानै परवानो ईनायत फुरमाव जे जुं यानै हजुर भेजु जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । महाराजा अजीतसिध जी को व भंडारी जी को गत नवाव अमीरल उमराव जी नै व राजा सभाचंद नै व लाला लाभोगनी मल नै आया था सु गुजरान्या । अर भंडारी जी का खत की तकल हजुर भेजी है सु नजर मुवारक गुजरसी जी । ओर मतालव महाराजा अजीतसिध जी का आग हुलीचंद नै जुवा मुवारक सु ईरसाद हुवा था सु तो नवाव अमीरल उमराव जी नै लिय दीया ओर मतालव जु भंडारी जी लिखैला मु नवाव नै गुजरानु लो जी, जितनै गुलालचंद आवै ईतनै खानाजाद महाराजा अजीतसिध की का कामा सु खबरदार हूं जी ।

मी० असाढ सुदी ११, सवत १७६६ ।



॥ श्री गोपाल जी सहाय छै जी

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी

॥ श्री मीरजाराजा जैसिघ जी

सिद्धि श्री महाराजाधिराज महाराजाजी श्री चरण कमलानु खानाजादं खाक-  
पाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारी जो जी । अठा का  
समाचार श्री महाराजाजी का तेज प्रताप कर भला है । श्री महाराजा जी का  
सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है,  
घणी है, श्री परमेसूर जी री जायगा है । म्हे महाराजा जी रा खानाजाद बंदा  
हां । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरबान है । श्री महाराजा जी सुख  
पाव जो जी, पान गंगाजल अरोगवाका घणा जतन फुरमाव जो जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । सावण वदी २ राजा सभाचंद, खानाजाद सू  
कही जु सांभर मै सुं थाणा तुम्हारा अबताई उठा नही, मेवात अकबराबाद  
अजमेर के जागीरदारो कुं अमल देते नही हो, अर वाजबलअरज भी करते हो,  
मनसब की सनद चाहते हो, ईजाफे की जागीरै चाहते हो, भांत भांत मतलब  
खातर मै आवै सुं लिख देते हो सू क्या समझे हो ? तीन साहजादे ऐक घड़ी मै  
मार डाले तुम किस नीद सुते हो । अर कान मै कहण लागो—अजीतसिघ तो  
थल है तहां भागा फरैगा, तूम तो जहानाबाद सू असी कोस हो चार महीना  
पातसाह आवैर बैठैगे तब तुम कहां जावोगे । अनाहक कुं फीसाद उठाय वतन  
खराब करते हो । नवाब कहते है—राजा रामसिघ जी सुं अर नवाब आसफदोला  
जीसुं पघड़ी बदली थी अर हमनै कंवर कीसनसिघजी सु पघड़ी बदली थी उस  
बात पर नजर कर मनसब खीताब<sup>1</sup> दिये है । पोते की जायगा कहते है, तुम

1. पदवी ।

राहना खा फीसाद करते हो तो अब तयार है फीर हमें दुसन<sup>1</sup> न है। चार महीने ह्वे तुम्हारी मिनत करते है जुं जुं तुम सोखी<sup>2</sup> करते हो। अब भी ईस काम सुं बाज आयो, सांभर सू थाणां उठावो, सब जागीरदारो कुं अमल दो, खातर जमां नु हजुर आवो, जीस भांत बड़े भिरजा राजा<sup>3</sup> की, राजा रामसिघ जी की राहरवस थी मु करो, चाकरी करो, पातसाह सुं चाहो सु लो। अजीत सिघ कुं समझावो जु महाराजा की चाल पकड़ लुटेरो की राह छोड़ दै। अर अब भी सांभर न छोड़ोगे, जागीरदारी कु कमल न दोगे तो ईस का जुवाव आयै पीछे हम भी तुम्हारे काम मै तन न दोगे, तुम्हारे हाथ सू होय सू तूम करो हमारे हाथ सू होयगा नू हम करैगे। फेर अरज करोगे सु मनजुर (मंजूर) न करैगे। अब पातसाह नै तुम नू क्या घुरा कीया, घर बैठे मनसब दीये, खीताव दीये, जागीर लो चाकरी करो। अनाहक<sup>4</sup> बसवास मे कुं पड़े हो जोररावरी पातसाह सु बीगाड़ करते हो तो तुम जाणो।

श्री महाराजा जी सलामत। राय खुसालचंद<sup>5</sup> खानांजाद सु कही सरबुलन्द खां गुजरान को सूबेदार हवो। हुकम हवो—जालोर कै राह जाय। सू सरबुलन्द खां म्हारे हाथ थाने कहायो है—जु म्हारो ईखलास अर श्री जी को ईखलास थे जाणो हो, थे श्री जी ने अरजदासत करो जु हुं बतन के पास आय नीकल सू, श्री जी सु मिलो चाहु हुं। जो श्री जी की खातर मै या बात अब तो हु पातसाह जी सुं अरज करुं, हुकम होय तो मिलतो जावु। अर महाराजा अजीतसिघजी ने भी लिखी जो वै लिखे तो वानू भी मिलु। अर कहे—सीरदार नै जमयत दे सरहद उपर भेजै जु श्री जी की सरहद ताई साथ चाले आगै अजीतसिघ जी की सरहद सुं बाका लोग पहोचावै।

पांच हजार सूवार घर का चाकर है—

। श्री महाराजा जी सलाम। नवाब अमीरल उमराव साहवेग नै व मीरजा कादरी नै कोल पंजा का फुरमान दे श्री जी हजुर भेजा है सु पहीचा होसी जी। श्री जी हजुर होय महाराजा<sup>6</sup> पास जासी। मतलब बाजवलअरज का सारा नवाय पदा ईतरा मै सांभर को लिखो आयो—चारो तरफ का जागीरदारां को नानन आर्ट, तीनू बहोत वेदनाग<sup>7</sup> हुया है; तीनू साह वेग की दीलासा दिलवरी

1. दोसरा।

2. देखी—बहूषण।

3. मीरजा राजा उयनिह।

4. दिना जान।

5. मान गुंवर का भाई, जिते 5000/5000 का मंसब प्राप्त था।

6. महाराजा पशीबगिह।

7. बरनाम।

बहोत फुरमावजो जी । अर सारा मतालव दोनु सरकार का लिख देवै का खता मै भेज जो जी । अर नवाव नै व राजा<sup>1</sup> नै लिखजो—जो वकील नै जुवानी कही थी सू सब लिखी मालुम हुई अर ई बात को जुवाव लिखणो होय सू लिख जो जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । साह नैन सुख जी लिखा थी जु महाराजा अजीतसिध जी का भी बदमूर साविका परवाना थे ही कराय भेज जो, हजार पांच सै खरच लागै सु आपणी सरकार सु कीजो । सु हुकम मावाफक जागीर वहाली की ईलतमास दी वहाली का दसखत कराया, खरची आवै तो परवानां कराय भेजू । अर पांच सै हजार मै तो होय नही, तीन हजार सरकार का परवाना नै लागू सू वाकै तो कंवरों सुधा बहोत लागसी जो खरची आवै तौ वाको भी परवानो कराय भेजू जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । ईजारां को मुकदमो दुलीचंद साह नैन सुख जी नै खत लिखो ती सू अरज पहोचसी जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । अंचलेसुरदास परगनां गुवालदार को कानुगो सु खानाजाद सु सगपणा राखै है सु जीतमल सधी वाको बाग कदीम वड़ा को है तीनै काटे है । सु वां खानाजाद नै लिखौ है, उमेदवार हु जु संधी मज-कुर कै नाव अदममुजाहमत<sup>2</sup> को परवानो खानांजाद नै ईनायत होय जु वेवाजबी वांको बाग काटै नही जी । मी० सावन बदी २, संवत १७६६ ।

### श्री रामजी

॥ श्री महाराजा जी सलामत । मयाराम राणा जी की तरफ सू मतसदी होय आयो, ती नवाब अमीरंल उमराव जी की मुलांजमत करी नवाब सरोपाव बखसो जी ।

॥ श्री जी सलामत । मी० सावण बदी ३ पातसाह जी नवाब आसफदोला जी के डेरै पधारा जु कुछ नजर करैला तीकी हकीकत पाछा सू अरजदासत कर सू जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । ६० दोड़ हजार खानाजाद नै ईनाम व राज-गार<sup>3</sup> मै ईनायत हुवा था सु तो खानांजाद कै लाहोर सू अब तक खरच हुवा उमेदवार हु जु कुछ खरची ईनायत होय जी ।

1. राजा सभाचंद ।

2. अदम मुजाहमत = भगड़ा बन्द करना ।

3. रोजगार ।

॥ श्री गोपालजी सहाय छै जी

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी  
श्री भीरजा राजा जैसिंघ जी

सिद्धि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानांजाद खाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं, तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप करुंभला है श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है धणी है । श्री परमेश्वरजी री जायगा है म्है श्री महाराजा जी रा खानांजाद बन्दा हां । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सु महरवान है । श्री महाराजा जी मुख पावजो जी, पान गंगाजल आरोगण रा घणा जतन फुरमाव जो जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । मयाराम वकील राणाजी को नवाव आसफ-दोला जी कनै धो नू राजा सभाचन्द की मारफत नवाव अमीरल उमराव जी की मुलाजमत करी । राणा जी की तरफ सु कुछ नवाव की नजर गुजरानो । नवाव सरोपाव दीयो ओर अरजदासत व ऐक सो मोहर ऐक हजार रुपया श्री पातसाह जी की नजर गुजरानी ओर राणा जी की तरफ सु राजा सभाचन्द नै टीको दे है । केसर कुंकु को तिलक, ती पर ऐक ईस<sup>1</sup> मोती चावलां की जायगा ओर सरपेच मुरमा को व पारचो व ओर जिनस तयार कीयो है । नू आछो महरत देघ टीको कर ती जी । कहै है जीनै पातसाह जी राजगी को खीताव दे है तीनै राणांजी टीको भंजै है । सारा हिंदुगतान का राजां नै टीको भंजै है सु धानै भी

---

1. इरगीम ।

भेजो है ओर परगनां पुर मांडल वगैरह<sup>1</sup> की वहाली कै वासतै नवाव सू व राजा राजा सभाचन्द सुं कारसाजी कर है जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । तसदीक याददासत ईजाफा की कै वासतै तथा महाराजा अजीतसिघजी की सनदा वासतै हुकम आयो थो । सु नवाव की व राजा सभाचन्द की हकीकत तो आगै अरजदासत मै लिखी है जु सांभर वगैरह परगनां का थाणा उठाकर आपकी नीसां खातर खाह कारसाजी की कराया पाछै तसदीक याददारात देला जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । भंडारी जी का दोय तीन खत राजा सभाचंद नै आया तांको जुवाव राजा न लिखै थो । कहो, जु नवाव नै महाराजा कुं व मीरजा राजा जी कुं खत लिख हमैसा क्या जुवाव लिखुं, तद नरायणदास मोहर २ महाराजा अजीतसिघ की तरफ सू अठै है सू वो खानाजान सू वजद हुवो जू खत को जुवाव ले दो, भंडारी जी वूरो मानसी, तद खानाजाद राजा सू वजद होय खत को जुवाव ले वैकै हवालै कीयो है जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । आपो पंडत<sup>2</sup> कीतनाक दीन हुवा अठा सू भाग गयो है सु अब अठै हरकारा जाहर करै है जु आपो मजकुर श्री महाराजा जी या महाराजा अजीतसिघ जी कनै है सू अवार तो खानांजाद या वात हरकारां सु कह मौकुफ रखाई है । पण जो वो श्री महाराजा जी कनै होय तो रुखसत कर दी जो जी, और जो महाराजा अजीतसिघ जी पास होय तो लिख जे जू वै नै रुखसत कर दें । नवाव अमीरल उमरावजी वैमू आयतराज है जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । हरकारां अरज की जु महाराजा अजीतसिघ जी मैड़तै आया सु पोहकर<sup>3</sup> आवसी अर आंमेर सू श्री जी भी कुच कर सी ओर पोहकर पधारसी । राव राजा जी भी अजमेर कै नजदीक है सु पोहकर जा सी । राजा वहादर भी पोहकर जासी । उठै सब ऐकठा होय मसलहत कर सी । जो ठहर सी सु करसी । ई वात सू नवाव खानांजाद नै फुरमायो—जु सब राजो पोहकर मै सामिल होते है सु क्या ईरादा रखते है ? कुछ फीसाद कीया<sup>4</sup> चाहते हैं सु श्री महाराजा जी साहबेग कना लिखाय भेज जै जू श्री महाराजा जी व महाराजा अजीतसिघ जी हजुर आवतै है ।

1. पुर मांडल आदि परगने शाही नियंत्रण में थे । यद्यपि वहादुर शाह के शासनकाल के अन्तिम दिनों में महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय ने इन पर अपना अधिकार कर लिया था, तथापि इस अधिकार को शाही स्वीकृति प्राप्त नहीं थी ।

2. मराठा सरदार ।

3. पुष्कर जी ।

4. किया=करना ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । अनंदराम वांकावत पातसाहजादा अयजुदी<sup>१</sup> की साथ है सु बैका वकील नै दवाव वासतै कैद कीयो थो सू बै मूचलको दीयो जू महारा खांवन्द<sup>२</sup> नै लिखुं हुं उठा सूं काई जुवाव आवै ती पर अनंदराम लिखो जु म्हारी जागीर श्री महाराज का मुतसदी मुतसरफ<sup>३</sup> है हु दवाव कठा सूं सरंजाम कर । तद राजा सभाचन्द खानांजाद नै ओलंभो<sup>४</sup> दीयो जु तुम्हारी तरफ सुं नालस होती है ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । जसवंत सिघ कावली सिघ को बेटो अकबरा-वाद मै श्री महाराजा जी की साथ थो सु श्री जी फुरमायो थो जु यांको मनसव व यतन लो तू अब काबु है जो बैकी मोहमसाजी की नीसां आव तो मनसव व यतन की बहाली को तलास कर जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद नै आगै खरची ईनायत हुई थी गू तो लाहोर सू अठा तक<sup>५</sup> खरच हुई अर अब खानांजाद पाचास वरस सू सहर मै कबीला मै आयो सू हर हदुव<sup>६</sup> को खरच है । ती सू उमेदवार हुं जु पाछला जमां खरच की बाकी ईनायत होय तो अठा का खर्च का ओषा सुवर आवुजी ।

श्री जी सलामत । ईजारा को मुकदमो साह नैन मुख जी का खत सु अरज पहीचती जी ।

मिती सावण वद १०, संवत् १७६९ ।

1. पातसाहजादो अयजुदीन = जहादियारसाह का पुत्र ।

2. मासिह ।

3. मुतसरफ (मुतसरिफ) = अधिकारयुक्त ।

4. उलंभना ।

5. यहाँ तक ।

6. हर हदुव = हर तरफ का ।

श्री गोपालजी सहाय छै जी

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी  
मीरजा राजा श्री जैसिघ जी

सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानांजाद खाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बन्दगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला है श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद करावजो जी । श्री महाराजा जी माईत है, धणी है, श्री परमेसुर जी की जायगा है, म्हे श्री महाराजा जी का खानांजाद बंदा हां । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सु महरवान है । श्री महाराजा जी सुख पाव जो जी पान गंगाजल आरोगवा का घणा जतना फरमाव जो जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । परवानो खानाजाद नवाजी को ईनायत हुवो थो सु वजनस नवाब अमीरल उमराव जी नै व राजा सभा चन्द नै दिलायो । नवाब व राजा बहोत रजामन्द हुआ । अर नवाब खानांजाद नै कहो जु मीरजा राजाजी कुं व महाराजा जी कुं लिखो जुं सांभर के थाणा उठाय मंगावै अर जागीरदारों कुं अमल दे ।

सु श्री जी सलामत । अब सांभर को थाणो उठाय मंगावणो मसलहत है । नवाब बहोत कहते है सु अबै सांभर को थाणो राखणो मनासब नही । महाराजा अजोतसिघ जी नै भी ई बात कै वासतै लिख जे जी । अर साह बेग सु श्री जी महरबानी फुरमाई सु बहोत भली की अबै जो मतालब सरकार का दुलीचन्द की साथ ईरसाद हुवा था सु तथा ओर मतालब सकार का व महाराजा अजीतसिघ जी का वाजवलअरज मै लिख साह बेग कै हवाले कीजे जु आपकी अरजदासत

मै नवाब पास भेजै, अर नकल खानांजाद नै ईनायत होय जु नवाब मु वजद होय अरज करावु जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । गाजीकाथाणा को ईजारो मुकरर हुवो है मु गुजसता का तीन गांवा का ईजारा का रुपया ईखलासखां का भीजवाजे अर आगा मु खव दामां की जामनी भीजवावजे जु गाजीकाथाणो इजारे ले चुकां जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । परगना टोक बगेरा का ईजारा की रदवदल राय नोनध मुं है सीताव ठीक पाउ भेजुलो जी पण साहुकार मातवर जामन भेज जो जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । जैतपुरा को ईजारो आगे ठहरो थो सू अवे फेर वोही ईजारो ठहरो । जामनी आवे तो वैको पटो भेजुजी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । ईखलास खां दीवान तनको व दारोगो अरज मुकरर<sup>1</sup> को तीकी जागीर सुवै अजमेर का हवेली का गांवा मै है मु महाराजा श्री अजीतसिध जी का मुतसदी वैवी जागीर को हासल श्री महाराजा अजीतसिध की सरकार मै दाखल कीयो है । मु महाराजा अजीतसिधजी नै लिख जे जु वाकी जागीर को हासल याको आमल उठै है तीकै हवालै करै जी । अर राजीनामो वैकी मोहर मु भिजवावै जी । आगा मु जागीर मै अमल दे जी ईखलासखां सु रात दीन काम है जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । सुजाअत खां पातसाही तीवखानां को दारोगो तीकी जागीर परगनां नगीनां सरकार तीजारै सुवै साहजहांनावाद मै है । मु उठा की रयत सुजाअत खां कनै आण फीरयाद करी जु अनोप सिध व साह चरतभुज मुतसदी सरकार श्री जी का है सुवां सात हजार ऐ सो पहचतर रुपया परगनां मजकुर सु मुतसरफ हुआ अर सेखु बगरैह पांच नफर<sup>2</sup> जमीदार उठा कनै कैद कीया तीमै तीन हजार रुपया नवाब को नांव सुण फेर दीया । मु सुजाअत खां खानांजाद नै बुलाय या हकीकत कही अर मुचलको लिखाय लियो जु पंदरा दीन मै श्री जी हजुर सु जुवाव मंगाय हुं.....। आगे अरजदासत मै लिखी है मु नजर-मुवारक गुजरो हो सी जी । उमेदवार हु जु वैका अमल की नीसा कराय दी हो तो राजीनामो वैकी मोहर सुं भी जवाव जे जी वै खानांजाद सु हमेसा ताकीद करै है जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । जो मुकदमो ऐक बार अरजदासत करं तीनै दूसरी बार अरज लिखणो बेअदबी है । उमेदवार हुं जु जो मुकदमो अरज लिखु तीको पहली मरतबै ही जुवाव ईनायत हुवा करै जी ।

1. दारोगो धरं मुकरर (दारोगा-ए-धरं-ए-मुकरर) — धरं-ए-मुकरर बार्फानिय का दारोगा ।  
2. नफर = लोग (संख्या के संदर्भ में) ।



॥ श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद नै अठै आया पाछै सारा कबीला को व और दुणो खरच है । अर जर सुं आगे ईनाम व रोजगार मै ईनायत हुवो थो सु लाहोर सु दिली पहोचता तक तमाम हुवो । साहुकार अठै कही नै<sup>1</sup> ऐक दाम करज दे नही । ती सू हजर सु ईनायत होय तब ही खानजादा को कारबार चालै । उमेदवार हु जु आगै जमा खरच श्री जी हजर भेजो थो तीकी बाकी व यो रोजगार चढो है सु ईनायत होय तो साहुकार का तगादा सु छुट्टु । अर अठै का खरच का ओघा सु बरभावु जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । मीरधो सुन्दर कदीम सुं सरकार को खानांजाद है अर हमेसा खानाजाद पास हाजर रहे है । अब यो कहै है जु म्हाशी ऐवज हजर सु ओर मीरधो मुकरर होय है । श्री जी सलामत यो वेतकसीर<sup>2</sup> है अर कदीम खानांजाद है, उमेदवार हु जु यो वेतकसीर तगीर न होय जी ।

मी० सावण सुदी २२, संवत १७६६ ।

1. किमी को भी ।

2. वेतकसीर=निर्दोष ।

॥ : ॥ श्री गोपालजी सहाय छै जी

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री  
मीरजा राजा जैसिध जी

॥ : ॥ सिध श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानुं खानां-  
जाद खाकपाय पंचोली जग जीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जो जी ।  
अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला है । श्री महाराजा  
जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत  
है, धणी है, श्री परमेसुरजी की जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी का खानाजाद  
वंदा हां । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरवान है । श्री महाराजा जी  
सुख पावजो जी । पान गंगाजल आरोगवा का घणा जतना फुरमावजो जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । मुजाअत खां पातसाही तोदखाना को दारोगो  
नीको जागीर में मअजावाद वगैरे है सु यां की नकल हजुर भेजी है । सु नजर  
मुवारक गुजर सी । जीं या परगनां का ईजारा कै ब्रासते खानांजाद सुं मुजाअत  
यां कही—जु ईजारे ल्यां, सु करलायां, छह माहो<sup>१</sup> देणो कर गयो है सु थेंद्रो । तब  
खानांजाद कही मअजावाद तो चोमाहो<sup>२</sup> अर ओर परगनां ती माहा<sup>३</sup> छो तो ल्यां ।  
मुजाअत यां कही, जु मुकरलायां अजमेर को सुवैदार यां परगना को ससमहि<sup>४</sup>

१. छह माहो ।

२. चार माहो ।

३. तीन माहो ।

४. ससमहि = छह माहो ।

चुकायो है थानै चो माहा ती माहा नै ईजारै क्युंकर खां । तीपर खानाजाद कही. सुकरला खां भी म्हानै ही तीमाहानै ईजारै दे लो ससमाहो उठै पैदा होय नही । तीपर सुजाअत खां सुकरलाखां नै लिख्यो है, जु मीरजा राजा का वकील ईन परगनों का चोमाहा तीमाहा ईजारा मांगै है, अर तुम ससमाहा मुकर कीया है जो तुम सै वहां अमल होय सकै तो बिहतर, नही ईन कुं ईजारै दे । खानाजाद सुजाअत खां का मुतसध्यां नै नीममाहो<sup>1</sup> देणो कीयो है जुं ऐ परगना म्हानै ईजारै लेघो, वै कहै है सुकरलाखां को जुवाव आयां ठीक पड़सी । सु सुकरलाखां का मुतसदी उठै सरकार का मुतसदयां सुं यां परगनां का ईजारा की रदवदल करता हीसी जो उठै याको ईजारौ ठहर जाय छै तो भलां छै, नही तो साहुकार मातबर की जामनी आवै जुं ऐ परगनां सरकार मै ईजारै ल्यांजी । मअजावाद तो चो माहो और तीन माह नै मांगां हां अर खरच जुदो ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । सुजाअत खां पातसाही तोबखाना को दारोगो तीकी जागीर परगनां नगीनां सरकार तिजारै सुवै साहजहानावाद मे है । सु अनोप सिंघ व साह चत्रभुज मुतसदी सरकार का सात हजार ऐक सो पचहतर रुपया परगनां मजकुर सुं मुतसरफ हुवा । अर पांच आदमी जिमीदार उठा का कैद मै कीया तीमै तीन हजार रुपया फैर दीया । खानांजाद आगै ई मुकदमां की अरज लिखी है । सु नजर मुवारक गुजरी हीसी जी । खानांजाद कनां मुचलको लिपाय लीयो थो जु पंदरा दिन मै श्री जी हजुर सुं जुवाव मंगाय दुं सुं वो वादो आवर हुवो । अब खानांजाद पाछै वैका आदमी है अक वो दरवार मै खानांजाद मु तकौद करै है । तीसुं उमेदवार हुं जु वेका आमिल की नीसां कराय दी होय तो राजनीनामो वैकी मोहर सुं ईनायत होय जी नही तो वो खानाजाद नै वतंग करसी जी के रुपया आदमी अठे भेज जे अर झूठ होय तो काजी की मोहर सुं मजहर कराय भेजजे । अर फारसी परवानो भेजजे जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । महमदावाद का ईजारा की ईखलास खां का मुतसदयां सु रदवदल हुई । वै कहै है म्हाका तीन गावां का गुजसता का रुपया धो तो खां सुं कहां जु मीरजा राजा जी की सरकार मै द्यो अर खानै वली महमद पाम आदमी भेज्या है । जो दली महमद की नीमां आई तो सरकार मै ईजारा देता आघा पाछा होयला । अर वलीमहमद लिख्यो जु अठै सरकार का लोग है मै कनै रुपया देवा नै नही, तो यां का मुतसदी कहे है थानै ही ईजारै दीवा वाला मु जाणजै है । जु वलीमहमद को तो जुवाव ही आवैयो तीमु उमेदवार हू जु यांका पाछला ईजारा का रुपया ईनायत होय अर आगां सु मत्र दामां की जामना आवै जु काम होय जी ।

1. नीम माहो (नीम माही) = पंधरमाह ।

2. मजहर = मेहर ।

श्री महाराजा जी सलामत । अंतकाद खां नवाब अमीरल उमराव जी को भतीजी नवाब आसफदोलाजी को पोतो तीन नारनोल की फोजदारी है । सु यो उठी न आवै है ई की जागीर का च्यार परगना मैं सरकार का लोग है सुं अव ईनै अमल दीजै जी । अर नारनोल आंवैर मुं नजदीक है खबरदारी सु रहणो जरुर है जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद आगै खरची कै वासतै तीन च्यार वार अरज लिखी वार-वार लिखणो गुसताखी है । खानांजाद की हकीकत श्री जी मु रोसन है । आगै जु कुछ ईनाम व रोजगार मैं मरहमत हुवो<sup>1</sup> थो सु तो खरच हुवो । अर साहुकार अठै कही नै ऐक दाम करज दे नही । तीसु खानाजाद नै खरच की तरफ मु बहोत कसालो है । अर मंगसर का महीना मैं खानाजाद का घेठा को व्याव है । आगै बैसाख मैं व्याह मुकरर हुवो थो सु पातसाहगरदी<sup>2</sup> के सबव मोकुफ रहयो । उमेदवार हु जु आगै जमा खरच हजुर भेजो थो तीकी वाकी अर यो सात महीना को रोजगार चढो सु अर मसाबदो<sup>3</sup> ईनायत होय सु साहुकार का तगादा सु छुटु अर रोज खरज का कसाला सु छुट अर लड़का को व्याह कर जी । आगै तो श्री जी का परताप सु व्याहा नै चालीस चालीस हजार रुपया लगाया है अर अवै दिली सहर मैं श्री जी की दसतगौरी मु सरम रहसी जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । अरजदासत लिखतां ही साह नैनमुख जी को कागद तीन दिन के वादें आयो सु थे सरवलंद खां कै वासतै लिखयो थो सु श्री जी को हुकम है जु सरवलंद खां नै जुवाव दीजो जु ई राह न आवै पर वाहरो ही जाय । मु श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद हुकम आयां पहली ही सरवलंद खां नै यो जुवाव दीयो मु वो अकबरावाद कै राह गयो जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । धनेमुर गुजराती की साढ़ा वारा हजार रुपयां की हुडी वमुल कराय देवा वासतै परवानो ईनासत हुवो थो । मु किसनदास विरजभुखन तो दीवालो काड्यो परवानो सादर हुवोती दिन मुं चैके सुवार पयादा<sup>4</sup> कोतवाली चवुतरा का बँठाया है । मु अशार<sup>5</sup> तो वो एक दाम देतो दीसे नही । सुवार पयादा बँठा है पाछां मु जीसी होसी तीसी अरज लिखसुंजी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । परगना टोक व लालसोठ की माफक ईरसाद

- 
1. मरहमत हुवो=दिया गया ।
  2. पातसाहगरदी=गद्दी के लिए मुद्द ।
  3. मसाबदो (मसबदात)=प्रथिम धन ।
  4. सुहमशार एवं पैरल सैनिक ।
  5. पनी तो ।

हजुर कै रदवदल ठहराई छै जो साहुकार की जामनी ईनायत होय तो कबुलीयत पटो लिखांवा जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । आजम खां<sup>1</sup>, कोकल तास खां<sup>2</sup> को भाई खोही<sup>3</sup> वगैरैह परगना थापकी जागीर कां मै अमल करवा आवै सु ईनै अमल दीजे जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । सालह खां, अतकाद खां को वेटो सायसत खां को पोतो ती फरखसेर<sup>4</sup> नै अरजदासत लिखी थी सु म आ लिखां वैकै काकै नवाब अमीरल उमराव जी सु अरज करवा अरजदासत वजनस पकड़ाई, ती पर सालह खां नै कैद कीयो जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । खबर है जु साईवान की वाईसवी तारीख श्री पातसाह जी को अकबराबाद की तरफ कुच होय जी सु स्योहरत है ठीक नहीं जी ।

मी० भादवा वद ७, सवत १७६६ ।

- 
1. आजम खां को 8000/8000 का मंसब तथा आगरा की फौजदारी प्राप्त थी ।
  2. बादशाह जहाँदारशाह का कृपापात्र, जिसे 9000/9000 मंसब तथा मीर बख्शी का पद प्राप्त था ।
  3. खोहरी ।
  4. शाहजादा अजिम्मुशां का द्वितीय पुत्र तथा पूर्व में अपने पिता का नायब ।

॥ श्री गीपाल जी सहाय छै: जी

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजा जी  
श्री मिरजा राजा जयसिंहजी

सिद्धी श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलाय नू खानाजाद खाकपांय पंचोली जगजीवनदास लिखतम तसलीम वन्दगी भवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजाजी का तेज परताप कर भला है । श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता प्रसाद करावयजो जी । श्री महाराजा जी माईत है, धनी है, श्री परमेश्वरजी की जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी का खानाजाद वन्दा हं । श्री पातसाहजी श्री महाराजाजी सुं मिहर्वान है । श्री महाराजा जी सुख पावजोजी पांन गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमावजो जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । परवानो खानाजाद नवाजी को इनायत हुवो । तसलीमात वजाय लाय सर चढाय जीयो । तमाम सरफराजी व खानाजाद हुई । हुकम आयो जुं एक पैलवी में समाचार लिखा था सू मालूम हुआ । इह बात मूं खातर जमां राख जो असो वसवास कदैई मत करो । श्री जी सलामत । खानाजाद की तो ई बात सूं भांत भांत का खातर जमां है । पण अठै सोहरत<sup>१</sup> उठी थी तिमूं अरज लिखनी पड़ी है ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । हुकम आयो जुं ओर समाचार साह नैन सुख का लिखना गूं जाहर होत्ती सूं सारा मुकदमा साहजी का लिख्या सूं जाहर हुआ जी ।

---

१. सोहरत (शोहरत)—वीति ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । जागीरां ईजारे लेबा के वासते साह नैन सुख जी लिख्यो थो सूं श्री जी का हुकम माफक ऐ जागीर तो ईजारे ली सूं तिकी नकल श्री जी हजूर भेजी है । सु नजर मुबारक गुजर सी जी । ये तो पट्टो कबूलियत अबार<sup>1</sup> लिख देता था पण जामनी बिना पट्टो दियो नही तिसुं जामन मातबर की जामनी आवै जीही दिन पट्टो लिखाय लां । अर जामिनी सोपां पण सराफां मै पानीपथयां की दुकान है तिकी जामनी मांगै है ।<sup>2</sup>

॥ श्री महाराजा जी सलामत । खोहरी वगैरह महाल आजम खां की जागीर की लाला हरदे राम वांका दीवान सुं रदबदल अब ताईं तो अमरसिगपुरा को मुतसदो करै थो अब अमरसिघ खानांजाद नै साफ जवाब दीयो जु हरदेराम सुं रदबदल घणी ही करी पण आजम खां मानै नही कहै है, ईजारै न दूं, खाहमखाह अमल ही करूं सुं इतरा मै खानाजाद ने हुकम आयो जु ईजारे ले जो । तिसुं अब खानाजाद रुबरु<sup>3</sup> खानजहां बहादुर सुं ही रदबदल ईतरी करै है ।

सहजादा अयजुदी की जागीर  
उर का पेरोजपुर वगेहर मेवात  
का महाल होय सु दे ।  
आजम खां की जागीर खोहरी  
वगेरह मै है सुं दे ।

खानाजहा बहादर की जागीर  
पाटोधी वगैरह होय सु दे ।  
खानदौरा बहादर की जागीर ।  
जहां होय तहा ईजारे दे ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । खानजहां बहादुर नीम रजामंद सो हुवो है पण साहूकार मातबर पाणी पथयां की दूकान जामन मांगै है तिसुं श्री जी जामन मातबर भेज जै जूं यांसु<sup>4</sup> भी ठहरावां यांका मुतसदयां नै भी रजामन्द किया है नीम माहो<sup>5</sup> खर्च देनो कियो है जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । हामद खां बाहादर<sup>6</sup> गाजुदी खां<sup>7</sup> को छोटी भाई बाहादरसाह का अमल मै बीजापुर को सूबेदार होय गयो थो । फेर बागी हुवो थो । अब मुदत सुं हजूर मै है । ती खानांखाद नै बुलाय कही जुं दोनुं राजो की सुलह म्हारी मारफत करो, तो खानजहां बहादुर ने समझाय थांका मुकदमा सब

1. अभी ।
2. गोबिन्दराम पानीपथियां की दुकान की जमानत मांगते हैं ।
3. उपस्थिति में ।
4. इनसे भी ।
5. नीम माहो—अर्धमाहा ।
6. हमीद खां बहादुर ।
7. गाजीउद्दीन खां फ़ीरोज जंग ।

कमल करां अर बहोत अपनायत इखलास जाहर कीयो । तब खानाजाद कही ज हमारी बातो में अमीरल उमराव है । अब खानजहां बहादुर कुं हम बातो में डालै अर अमीरल उमराव मुदई होय तो खानजहां बहादुर सू कथा होयती, पर वां कही—मतलब होय मुं लिख दो मैं खानजहां बहादुर सुं कहंगा अमीरल उमराव मुदई होयगा जो कुवत रखो हो जू हम करैगे सुं होयगा तो बात मैं पड़ो नुं मतलब हजूर सू लिख्या आया था सो लिख दिया । या सिवाय ईजाफा माकूल होय श्री जी नै उज्जैण की सूवैदारी होय महाराजा नै गुजरात को सूवो होय नुं अब हामद खां खानजहां बहादुर नै मतलब दिखा सी जो कबूल करसी । तब खानाजाद लिखवत मैं रदबदल करसी जो पकी निसां कर देसी तो हजूर नै अरजदासत कर सुं । हजूर मैं श्री जी की खातर मुवारक मैं पसन्द आसी तो मुकदमां वांसू रजू करस्यां अर जो खानाजाद की ही खातर जमां न हुई तो वैसी ही अरजदासत कर सुं जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । राय घासीराम हीदायत केस खां वाका नीनार कुल को पेसदसती.....मोजपुर सरकार अरुवरावाद मैं ३,५५,००० दाम हैं । सो आगै तो किसनसिध नरुका कै ईजारै थो सी वैकी कबूलीयत की नकल हजूर भेजी है । सो नजर मुवारक गुजारसी अब खानाजाद सी म्हाने<sup>१</sup> सरकार मैं इजारे लियो है सो कसवा मजकूर मैं सरकार को अमल ही है । उमीदवार हु जु वैकी नीसां इनायत होय जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । गाजी को थानो सरकार मैं ईजारे लियो है । ये गोबन्दराम सराफ पाणीपथयां की जामनी मागै है सुं उमैदवार हु जु गोबन्दराय की जामनी इनायत होय जी जुं पट्टो लिखायलां जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । परवानो खानाजाद नवाजी को पांच सादान को लिखो मितो भादवा सुदी १० मैं इनायत हुवो । तमाम सरफराजी व खानाजाद नवाजी हुई जी तसलीमात बजाय लाय सीर चढ़ाय लिया जी । हुकम आयो जुं पूरा जात<sup>२</sup> की सनद अब तक तैयार कराय हजूर न भेजी सुं अब तैयार कर हजूर भेजो । सुं श्री महाराजा जी सलामत । पुरा जात का परवाना दफतर सूं नयार कराय पण राजा सभा चंद अटकाया है कहे हैं तुम सांभर सुं थाणो उठावोगे नव परवाना देगे सुं अब तो यांनूं सांभर का ईजारा की रदबदल डाली है जो या रदबदल ठहरो तो परवाना सीताव हजूर भेजु हूं जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । राह खानाजाद नवाजी कै हुंडी रुपया दोय इजारे की इनायत हुई थीं मुं पट्टेची । तमाम सरफराजी व खानाजादनवाजी हुई

1. सोन गाह जो जमा पर ।

2. पण्डित श्रीराधरी ।



जी । श्री महाराजा जी सलामत । या हुंडी इनायत हुई सुं सिर चढाय ली पण मिगसर का महीना मै खानाजादा का बेटा को व्याह छ सुं उमेदवार हु जु मसाअदो ईनायत होय अर दस हजार रुपीया खानाजाद का सरकार मै है सुं इनायत होय जूं श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भली भांत बेटा को व्याह करूजी ।

मी आसोज वद ४, सवत् १७६९ ॥

### श्री गोपालजी सहाय

श्री महाराजाधिराज सलामत । अरजदासत चलाय दरवार मे सुवार होय अमीरल उमराव को मुजरो कर राजा सभाचन्द के डेरे आयो । राजा सुं मिलता ही राजा कही एक कागज हमारे पास आया है सुं देखो, आप पास ले बठो कागद लपेटो ही मोहर दिखाई । कहो पढ़ो सु महाराजा अजीतसिंह जी की मोहर थी सुं आगली मोहर सुं भी बड़ी मोहर असुर थी तिमें लिख्यो थो “श्री हिगालाज साहय । छैतरपती महाराजाधिराज महाराजा श्री अजीतसिंहजी देव सरवोजइत सिंधारा” अर मोहर के कीनारे कूडालो खेच दस कूडाला आसपास ओर खेचा तीमे एक कूडाले मे तो श्री गणेशायनमः ओर नो कूडालां मे नव ग्रह लिखा है । खानांजाद पढ़तो गयो, राजा लिखतो गयो । राजा कही, “जी भांत फुरमान उपर सारा पातसाही की मोहर होय है जी भांत मोहर बनाई है, सुं क्या समझा है अब भी ईवांता सू वाज आवे अर सिताव हजूर आवे” । इतरा में नारायण दास नामे गुलाल चंद को पेसदसत हे सुं खानाजाद की साथ थो वैसु कही थे अजीतसिंघ को लिखाजे मोहकमसिंघ सु राजा ने खिलवत की, सुं हमने मोकमसिंघ को कद खिलवत मे बुलाया । वह तो हमेस खानजहां के रहे हे । हमारे कद आवे हे । तुम झुठ कु लिखा ? तव नारायण दास कही—मे न्ही लिखा । तव राजा कही—कद आवेगे ? तव ई कही—पहली भंडारी ने कोलपंजो भेज सो तव पहली भंडारी अठे आसी, भंडारी लीखसी तव राजा आसी । तव राजा बोल उठो—हम तो भंडारी को हरगज न लिखे । हमने दोनो सरकारा कु लिखना था सु लिखा; मनसब, खीताब, बतन देणा था सु दिया ओर मतलब होय सु करदे अर यह चाहो ज अमीरल उमराव भंडारी कुं लिखे सु हरगज न लिखे; वह महावत खां ही पाजी था सु इन पाजीयो कुं मोह लगावे था । अमीरल उमराव हरगज मोह न

मतलब राजी लगावेगा । मतलब राजों में है, उनके बेटे पोती की ठोड़ है । नवाब कहे है हम जो करेगे सो हम आप कू करेगे अर राजा चाहे जे मोहबत खां छोकरे कू फुसलाया ईस भात हमे फुसलावे मू कु कर वणे । अर नारायण दास ने उठा पाछे खानाजाद मू कही—तुम तो साभर की इजारे की रदबदल करो हो अर मोहर मे तो छतरपती लिखे है । तब खानाजाद कही—रीकाव मे तरबीयत हुवे न्ह अर ये किसी रजपूत को लिखा होयगा, रजपूत ने साहब पास भेजा है । तब सीरनामो पढ़ायो, चूडामण जाट को नाव थो अर मतलब तो पढ़ायो नही अर अमीरल उमराव ने मोहर पढ़ाय सो पातनाह जी पढ़ाची ।

॥ श्री महाराजा सलामत । नाहवेग व मिरजा कादरी लिख्यो है—भंडारी तैयार हुवो है मू म्हांकी साथ हजूर आवसी यांके हजूर आयां पाछे जो ठहरसी सु राजा कर सी । तीपर राजा कही, ईहा आय क्या करेगा मतलब थे कर दिए और होय मू कर दे, आवे हे तो आवो ।

॥ श्री महाराजा सलामत । अब के भंडारी जी आसी तो महीमण रस एक खिमयाही रहे । भंडारी जी जाने ज जी भात महाबत खां जी बुलायता ती भात ये करै मू हरगज नही, देखजै काई वनै । मिती भादवा वदी १३ को पहुंची ।

॥ श्री महाराजा सलामत । आज सोहरत हुई है ज सरवलंद खां चाटसु आयो । नूसन्तयार खां ने रणथंभोर मु बुलायो है सुं या तहकीक होय तो तो खबर-दारी फुरमायजो जी । समत् १७६६, आसीज वदी ५, भौम ।

श्री गोपालजी सत छै जी

श्री महाराजा जी सलामत । अरजदासत रवान कीया पाछै परवानो खाना-जाद नवाजी को मी० आसोज सुदी ६ को लिखो मीती आसोज सुदी १३ ईनायत हुयो । तमाम सरफराजी व खानाजाद नवाजी हुई जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । आगै परवानो हिंडोण को मुकदमां मै ईनायत हुयो थो सू नवाव अमीरल उमराव जी नै दीखायो । नवाव कह्यो जू हजरत नै रहनवाजस<sup>१</sup> कै मीरजाराजगी का खीताव ईनायत कीया । अर अब मोहर मै मीरजाराजगी का नांव दाखल कुं न<sup>२</sup> करते अर थैलीया व वन्द व लीफाफा रजाई का नाव की मोहर सू हाल मै ईनायत हुई, सु अर आगे व वाहन दी पर बहादर-साह पातसाह का नाव की मोहर की थैलीयां ईनायत हुई थीं सु हजूर भेजी है । उमेंदवार हु जु मीरजाराजगी का नाव की मोहर खुदाई है सु मीरजाराजगी की मोहर सू थैलीयां व वन्द व लीफाफा ईनायत होय जी । अर मोहर न खुदाई होय तो अब मीरजाराजगी का नाव की मोहर खुदाय ईनायत कराव जे जी । महाराजा अजीर्तसिध जी खत भेज्या था तीमें जहांदार साह की मोहर मै महाराजाई को खीताव दाखल थो जी । मी० आसोज सुदी १४, संवत् १७६६ ।

१. रजावाजस (मठ रङ्ग-ए-नवाजिस) = प्रतिष्ठित करने हेतु ।  
२. यो नती ।

श्री गोपालजी सहाय छै जी

श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री मीरजा राजा जै सिध जी

॥ सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानाजाद खाक पाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम वन्दगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला छै श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता प्रसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, धणी है, श्री परमेसुर जी की जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी का खानाजाद वंदा हां । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सु मेहरवान है । श्री महाराजा जी मुख पाव जो जी पान गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फुरमाव जो जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । हिंडोण अजमखां सु तगीर कराय खालसै कराई । अर गेसुखां सु फोजदारी तगीर कराई । तीकी पै दर पै अरजदासतां की है सु नजरमुवारक गुजरी होसी जी । अर राजा सभाचन्द कनां सु शाहवेग व मीरजा कादरी नै लिखाय भेजी है । सु वां श्री महाराजा जी सु अरज पहोचाई होसी जी । दौसा सु ठाकुर स्यामसिधजी व साह श्री चन्दजी को आदमी आयो थो तीकी साथ वानै ये समाचार लिख भेजा है जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । आजमखां पातमाह जी सु अरजी की जु गेंसुखां नै हिंडोण मै खुव अमल कीया । दोय हजार रजपूतां का कवीना वन्द कीया । अर हजरत नै उमकुं तगीर कीया । हिंडोण खालसै करी ईम बात मै मेरी खीफत<sup>1</sup> होनी है । तीस सू हिंडोण दस्तुर सावक वहाल होय नही तो

1 खीफत = वदनामी, रुमिदगी ।

खानाजाद मनसब का ईसतीफा कीया । सु हजरत कुछ जुवाब न दीयो अर अरजी ईमतयाज महल<sup>1</sup> नै सोपी । ईमतयाज महल नवाब अमीरल उमराव जी नै दे भेजी । खानाजाद या बात सुणी जद नवाब अमीरल उमराव जी पास गयो । अर हज़ुर सू हिडोण का मुकदमां मै परवानों सादर हुवो थो सु सलाहदोलत जाण राजा सभा चन्द की मारफत नवाब अमीरल उमराव जी नै दीयो । नवाब परवानो पढो अर आप कनै राख्यो । कह्यो जु मै यह परवानां आजमखां की अरजी हजरत कु दीखावंगा । श्री महाराजा जी सलामत । ईमतीयाज महल वेगम दरमीयान है अर नवाब अमीरल उमरावजी भी दोनु सरकारां का मतालब सरंजाम करवा नै जीव सुंपा है । सु श्री महाराजा जी खातर मुवारक जमा राखँ ओर बात होण की नहीं जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । जी की मारफत खानाजाद ईमतीयाज महल वेगम सुं गेसुखा का तगीर करावा की कारसाजी करी थी सु वै ही की मारफत या ठहराई छै । जु जद भंडारीजी व दीवान भीखारी दास जी अठै आवै तब ईमतीयाज महल वेगम नवाब अमीरल उमराव जी नै कह भेजै जु राजों के मुतसदीयों कु हमारी मुलाजमत करावो जु मतालब राजों के होय सु हम तुम पातसाहजी मुं अरज कर भली भांत सरंजाम करावै जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । जीकी मारफत खानाजाद गेसुखां का तगीर करावा वासतै ईमतीयाज महल सु कारसाजी की थी सु वो खानाजाद सु मोहम-साजी का रुपया दस हजार मुकररकीया था । त्यां कै वासतै ताकीद करै है उमेदवार हुं जु वैका रुपया सीताव ईनायत होय जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । ईमतीयाज महल वेगम रथ व चीता व हरनां कै वासतै फुरमायस की थी । तीकी हकीकत आगै अरजदासत की है सु नजर मुवारक गुजरी होसी जी । उमेदवार हुं जु वाकी फरमायस माफक दोय रथ घोड़ा का व दोय रथ गुजराती बैलां का व नागोरी बैला का अवल पातसाहां की नजर गुजरावालायक व चीता आछवासा व हरन डेलीया व लड़ाचा का सीताव भेज जे जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । आसोज सुदी २ सांझ की वीरया खानजहां बहादर चान्द की मुवारकी के वासतै श्री पातसाह जी का मुजरा नै जाय था । सु राह मै बरसूरया<sup>1</sup> बंदुकां छोड़ता था ईतरा मै बंदुक को गोलो खानजहां बहादर की पालकी कनै खीदमतगार चलयो जाय थो तीकै आय लागी सु वो मर गयो । खानजहां बहादर या बात श्री पातसाह जी सु अरज पहोचाई जु राजेखां

1. सातकूँवर ।

2. बरसूरया = छैनिक ।

तोबखाने के दारोगे नै बन्दुक छुड़ाई होयगी नहीं बकसरये को मजाल क्या है जु वह छोडे । सु नवाब अमीरल उमराव जी भी श्री पातसाह जी की हजुर था या अरज की । सु हजरत सलामत । बकसरये की मजाल क्या जु ईस तरह बंदुक छोडे बंदुक तीरबन्द<sup>1</sup> होयगी उन नै भोलै छोडी है ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । आसोज सुदी १२ सु श्री पातसाहजी साल-गीरे है को जसन मुकरर हुवो छै । आसोज सुदी १३ नवाब आसफदोलाजी नै सरोपाव डेरे दे भेजो सु नवाब सरोपाव पहर पालकी मै सुवार होय बार आया । श्री पातसाह जी बहोत मेहरबानी फरमाई दसतुर पातसाहजादां के तखत कै दसत रास बैठाया । श्री महाराजा जी सलामत । आगै फतै हुवा पाछै अमीरल उमराव जी नै तोग तुमन ईनायत हुई थी अब खानजहां बहादर नै तोग तुमन हाथी की ईनायत हुई । मीती आसोज सूदी १४, सबत १७६६ ।

---

1. तीरबन्द=भरी हुई ।

॥ : ॥ श्री गोपालजी सहाय छै जी

॥ श्री महाराजाधिराज महाराजाजी मीरजा राजा जैसिधजी

॥ : ॥ सिध श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानां-जाद खाकपाय पचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला छै । श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । महाराजा जी माईत है, घणी है, श्री परमेस्वरजी की जायगा है म्हें श्री महाराजा जी का खानजाद वंदा हं । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं मेहरवान हैं । श्री महाराजा जी सूख पावजो जी पांन गंगाजल आरोगत्रा का घणा जतन फरमाव जो जी ।

॥ श्री महाराजाजी सलामत आजम खां सुं हिंडोण की फोजदारी तगीर हुई । अर हिंडोण खालसै हुई । तिको स्याहो नवाव अमीरल उमराव जी की मोहर को आजम खां कनै भेज दीयो । आजम खां मनसब को व सूवैदारी अकबरावाद की को व फोजदारी मथुरा की को असतीफा दीयो थो । सु पातसाहजी ईमत-याज महल नै कह्यो । अर ईमतयाज महल आपका आदमी कै हाथ वो ईसतीफो नवाव अमीरल उमराव जी कनै भेज दीयो । वैही वीरयां परवानो खानां-जाद नै ईनायत हुवो थो । सु या खबर सुण नवाव अमीरल उमराव जी नै राजा सभाचंद की मारफत गुजरान्यो । सु नवाव वै ईसतीफा की साथही वो परवानो लगाय राह्यो जु यां दोन्यां की साथ ही अरज करांला । सु या हकीकत तो आर्ग अरजदासत की छै नु अरज पहोची होसी जी । सैर दीवान जठे खानजहां बहादर व आजम खां भी हाजर था तव अमीरल उमरावजी ईसतीफो व परवानो पातसाहजी नै गुजरान्यो अर अर(ज) की जु हजार दिलासा व



दीलवरी सू महाराजा अजीतसिघजी व मीरजाराजा जैसिघजी नै बंदगी मैलाऊं छूं। अर ओर बंदा चाहै छै जु मुलक मै फीसाद राखजे जो हजरत नै अमनीयत राखणी छै तो खालसे कीयो सु राखजे। ईतरा मै आजम खां अरज करी जु उन राजों में कुछ नहीं जो अजमेर की सूबेदारी, अकबराबाद की सुबेदारी कै जमी मै मैरै नाम होय तो मै उनकुं तंबीह करूं। तद पातसाह जी नवाब अमीरल उमराव जी नै फुरमायो जु तुमनै खालसै कीया सू रहणे दो। अर आजमखां की अरज मनजुर न करी।

अर आसोज सुदी १४ च्यार घड़ी दिन रहयां साह नैनसुखजी को कागद आयो वा रुपया दस हजार मोहमसाजी गीसुखां का तगीर कराबा की मधे रुपया पांच हजार की हुंडी भेजी थी सु पहीची। अर लिखयो थो जु हीडोण खालसै करबा को परवानो चलो छै तो भलां छै नही तो अब चलाजो। सु खानाजाद राजा सभाचंद कनै गयो अर कहो जु हिडोण खालसै करी छै तो परवानो भेजो। तद राजा कह्यो परवानां अकबराबाद का दीवान कै नांव तयार होय है, दफतर मै खबर लो। सु दफतर मै सु परवानां की नकल ले हजुर भेजी है। सू नजर मुबारक गुजरसी जी। अर परवानो भी चलै है। अर गैसुखां की तगीरी को स्याहो आजम खां नै पहीचयायो।

श्री महाराजा जी सलामत। उठा की फोजदारी आजमखां कै नाव छै अर गेसूखां नायब छै। आजमखां की तगीरी हुवौ तो नायब कठा सू रह्यो। अर राजा सभाचंद कह्यो, जु फोजदारी तगीरी को स्याहो आजमखां नै भेज्यो अर अकबराबाद का दीवान नै खालसै करबा को परवानो चलै है। ईस सीवाय भी न माने तो जीस भांत उठै तीस भांत उठावो<sup>1</sup>। तद खानाजाद कही जु वैसे म्हे घणो ही समझस्यां पण या बात नवाब कनां सुं कहावो तद राजा सभाचंद खानाजाद नै नवाब कनै ले गयो न वा भी या ही फूरमाई जी।

श्री महाराजा जी सलामत। मी० काती बदी सादूदी खां तहवर खां को बेटो ती खानाजाद नै बुलाय कही—जू म्हारो बाप साहजादा अकबर कै समै थांका सबब कर पातसाह औरंगजेब अजमेर मै वैनै मरोतीं सबब कर आजम खां जाणै है जु यांके अर वांके ईखलास है अर हुं पण श्री महाराजा जी सुं जालोर मै मीत्यो थो सु मैसुं श्री महाराजा अजीतसिघजी वहोत प्यार करै है। अर श्री महाराजा जी की हजुर का लोग सारा मैसुं<sup>2</sup> वाकफ छै। म्हारी आजमखां कै वहोत आमदरफत<sup>3</sup> है। आजम खां कनै हूं वैठो थो सु हिडोण की लड़ाई को मजकुर चलो,

1. तो जीस भांत उठै तीस भांत उठावो—जिस तरह वह निकले उस तरह उसे निकालो।

2. मुझसे।

3. आमदरफत (आमद-थो-रफत)—आना-जाना।

तद हूं बोल्यो जु नवाव राजा का कांमा मैं आवो अर फेसल करो तो बड़ी जस है मेरै अर राजों के ईखलास है फूरमावो तो राजों के वकील कुं बुलाय मोकलुं । तद कह्यो बहोत खूब, बुलावो; तीस सू तुम चलो । तद खानाजाद बैकी साथ रातिनै खीलवत मैं गयो । गुलाल चंद को भी गुमासतो साथ थो, नवाव की मुलाजमत करी पांच रुपया नजर कीया । नवाव मेहरवानगी कर नजदीक बैठायो, पूछ्यो जु दोनूं राजा कहां है ? खानजादा कही—जु सांभर मैं है । नवाव कह्यो, जु क्या ईरादा रखते है ? तव खानाजाद कही, जु ईरादा बंदगी का है । तद नवाव कह्यो, जु साफ ईरादा सू बंदगी का ईरादा होय तो पातसाह साहजहां व औरंगजेव के अहद मैं बैकुंठवासी महाराजाजी व मीरजा राजा जी को मरातव थो वही मरातव पहोचाय दे अर भांत-भांत की नवाजसै होय अर सब मतालव सरंजाम पावैं । पण जिस भांत तूमारे बडे बंदगी करते थे वैसी बंदगी तुम मैं कहां है ? तव खानाजाद कही—जु हममैं तो वही बंदगी है पण पातसाह औरंगजेव जी व बहादरसाहजी नै जु हम सू करी सु सब आलम उपर जाहर है, अर हम कु मुफसद कहे है । तव आजम खां कही—हिंडोण तुमारी फोजदारी नहीं, जागीर नहीं, जिमीदारी नहीं, तुम मुझसै अवस कुं लड़ते हो । तव खानाजाद कही—हिंडोण मैं लड़ाई हो ता भली हुई जु नवाव नै हमकुं सात महीने पीछे बुलाय बुझा<sup>1</sup> जु थे काई करो छो, अव तकी ही बात पूछी नहीं, जु सांभर मैं की ईराद वैठा छो अर ईतरो मुलक पातसाही कुं खावो हो ? अव नवाव हमसूं मूतवजे हुवै हो तो श्री परमेसुरजी सब भली करैगे । हमनै बंदगी कबूल की, जहां पीछे कीसही की मजाल नहीं जु हिंदुसतान मैं सिर उठाय सकैं । तव नवाव कही—जु बंदगी कबूल करो तो सब भला होयगा मैं लोगों की तरह झूठ बोल जाणता नहीं, जो बंदगी कबूल करो तो सब मतालव मनमानते सरंजाम होवै । तद खानाजाद कह्यो, —बंदगी की तरह होय है ? तद नवाव कह्यो—जु हिरदैं सांच होय तो बंदगी होय । तद खानाजाद कही—जु नवाव सलामत—पहली म्हाका मतालवां सुं वाकफ होवो मुकदमो बड़ी छै जो सरजाम कर सको अर थांका मुदई की बात पेश न जाय तो यां वाता मैं आवो, ईसो न होय थांको मुदई था पर गालव अरवै । अर मुकदमो व रहम होय तो ई वात मैं म्हाको तो नुखसान कुछ नहीं जो कोई पातसाही को बंदवसत कीया चाहसी सु म्हाका मतालव सरंजाम कर देनी, अर जो नवाव सु सरंजाम न हुवा तो सारा आलम मैं कहण नै हो सी जु नवाव चाह्यो अर मतालव सरंजाम न हुवा । जद नवाव कह्यो जु अैसी होव तो हम हमारा भाई मनसब का व खीदमतो का ईसतीफ दे । पण जो राजा बंदगी कबूल करै तो मतालव सब सरंजाम होय । तद खानाजाद कह्यो—जु हजुर

आवा सीधाय जू कुछ नयाव कहो मु सब कबुल छै । अर जीभांत पातसाह औरंगजेव जी तखत बैठतां ही महाराजा श्री जसवंतसिधजी नै मुर्वदारी गुजरात की दी थी वही भांत महाराजा जी ने मुर्वदारी गुजरात की होय अर मीरजा राजा जी नै सुर्वदारी मानवा की होय, नंद रोज पाछे भनोत रद्द कर हजुर आवेला । अर खानाजाद कही—जू पानगाह रयाहजहां महाराजा जी नै व मीरजा राजा जी नै पातसाही का धम' जाण्य धा जो काम मीरजा राजा जी व महाराजा जी कीयो सो काम कही वर्त न हुयो । अर पातसाह तीमुर का अहद मु ले अवार तक कितना ही हफ्त हजारो हुवा पण कही एक भी काम उमदी न कीयो । राजा मानसिध अकबर पानगाह का अहद में तमाम मुनक पातसाहजी का तसरफ में लाया अर बैकुंठवासी बटा मीरजा राजा जी एक दिन में छपन कुंची दग्ण का कीलां की ली अर सेवा' सरीसा' मूफसदां नै बांध कर भेज दिया । अर राजा रामसिध जी आसाम नै की भांत तसरफ में लाया । अर रावलपंठी में महाराजा जसवंतसिध जी हजुर आया तब अरज हुई जू महाराजा का जीव में वसवास है तद पातसाह औरंगजेव जी कह्यो—जू कोई मुजायको' छै, घास आम का सरा पड़वा डाल दो, अर कहो, जू सब लोगों सू आवै । अर पातसाही अहतमाम' सारो मोकुफ होय महाराजा पधारा तद पातसाहजी नीमकद' उठ बगलगीरी करी, सारो जवाहर पहराया, मु महाराजा जी नै पहरायो तीमूं अवार या मसलहत छै । जू कोई दीन हजुर को आवणो मोकुफ होय; तद नवाव कह्यो थे जायगा कुं भटकता फीरो छो ऐक नै वसीली करी । तद खानाजाद कही जू हजरत नै तखत बैठे सात महीना हुवा कधी म्हे नवाव कै डैर आया । आज नवाव मेहरवानी कर याद कीया छै तो आण हाजर हुवा । नवाव कह्यो—जू थे भावै' जठे जावो काम जठी सु होणो छ उठी सू ही होसी । खानाजाद कही—म्हानै तो काम सू काम छै जो नवाव खानखांना की व महावत खां की मीसाल तबजे फरमावै तो कोई मजायको छै ओर कठे ही न जांवा ।

श्री महाराजा जी सलामत । खानाजाद आजम खां नै कह्यो—जू नवाव सलामत हीडोण खालसै हुई अर फोजदारी गेसुखां सुं तगीर हुई अर दीवान आला तगीरी फोजदारी का स्याहो नवाव नै पहोच्यो अर अब ताई भी गेसुखां

1. स्थम्भ ।
2. शिवाजी ।
3. जैसे ।
4. मुजायको=हरज, ऐतराज ।
5. अहतमाम=दरवारी कामकाज ।
6. नीमकद=भ्राधा उठा हुया ।
7. अच्छा लगे ।

हीडोण सु न गयो, नवाव उस कुं लिखै जु उठ जाय अवसे कुं मार्या जाय है, -अैसे सीपाह कुं कोई और काम फूरमाव जे जु करै, अव वीस हजार सूवार रजपूत आपको बैर लेवा गया दोय तीन दिन मै वैका मार्यो की खबर आवैली फेर म्हारै पर एतराज न होवजो, जु खबर कुं न करी, जरूर जाण खबर करी छै । तीसू गेसूखां नै लीखो जु उठां सु उठ जाय, वैका मार्या पाछै सुलह की रदवदल नवाव की मारफत छै । सु कुंकर रहसी । नवाव कह्यो—जो कुछ होय सु होवो यह वात हरगीज न लिखुं वो सीपाही छै, मरमीट सी । फेर खानांजाद कही— मै ईस वासतै ही अरज करता हुं जु वह सिपाही अछा है अवस कु मारा जाय । वीस हजार सूवार रजपूत गये हैं सु राजों नै कहा है जु गेसूखां नै मारो या मरो । नवाव वीचारै जु अबै गेसूखां कुंकर जीवतो रहसी । नवाव कह्यो—जु एक दोय हजार आदमी मार्या गया तो सलतनत की कुछ कमी न छै, वैका मार्या जावा कै वासतै सुवैदारी को जबत खोवु वोपड़ो मारो जावो । खानाजाद कही— जु नवाव सलामत, अजव ईनसाफ छै जु म्हे खानाजाद कदीम छां अर म्हानै मुफसद करार दीया छै । अर जाट खेती का करवा वाला अर चोरजां नै खानाजाद जाणो छो, भागै पातसाह औरंगजेव का अहद मै वेदारवखत साहजादो व खानजहां वहादर जाटां की तबीह कै वासतै बीदा हुवा था, वांवतै कुछ न हुवो । अर राजा विसनसि जी सारां ने नेसनावुद कीया था सु या भी अरज करूं छूं जु गेसूखां नै हुकम होय जु राजा का गुमासतां का ईतफाक सुं जाटां नै नेसतनावुद करै तो भली भांत करसी । अर गेसूखां नै हीडोण मै अवस कुं मारजै । अर अव हिडोण खालसै हुई असहक खां, अकवरावाद का दीवान, नै खालसै करवा को हुकम गयो अव भी गेसूखां उठै रहसी तो वेफुरमानी पातसाहजी की छै । उठ जाय तो कुछ मुजायको नही, जो फोजदारी वहाल रहती अर उठी जातो तो वेजा छी । अव ईसा सीपाही नै अवस कुं मराजे । नवाव कह्यो—जु थे ई रदवदल की दोनु राजा नै अरजदासत करो अर जुवाव मंगाय दो जो म्हाकी मारफत सुलह करसी तो गेसूखां का मारां की बलाय जाणै । अर म्हारी मारफत सुलाह न ठहरसी तो गेसूखा का मारां पछै हु जासूं, म्हारा मारां पाछै खानजहां वहादर जासी पण थाणो अवार उठा वुं नही ।

श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद ईमतीयाज महल का मुसाहब सू रदवदन ठहराय राखी छै अर मी० काती वदी १ परवानां खानांजाद नवाजी का ईनायत हुवा तसलीमात वजाय लाय सिर चढ़ाय लीया जी । तमाम सरफराजी व खानांजाद नवाजी हुई जी । ईमतीयाज महल की फरमायस का मुकदमां मै प्रवानो सादर हुवो धो । सुं ईमतीयाज महल नै गुजरान्यो, वहीत खूस्याल हुवा । अर कह्यो—जु वाजवलअरज लावो, तव खानांजाद वाजवलअरज वानै दी । ईमतीयाज महल पछ कहाय भेजो जु अब ही ये मतालव अरज मत करो, पहली

हिंडोण का थाणा कायम कर चुकोगे तब मै अरज करूंगी । जु खानजहां नै आजम खां नै कहा मान्या नही तीसका यह हंगामा हुवा । अब दोनुं राजो के मतालब मै अरज करूं हुं सु कर दीजै उन कुं वंदगी मै मै लाऊंगी ।

॥ श्री महाराजाजी सलामत । हिंडोण ऊपर अमीरल उमराव कै अर खानजहां बहादर कै तो खुलकर गुफतगो होण लागी, सरै कचहरी राजा सभाचंद खानजहां बहादर की मारफत का लोगां सू वद जुवानी वोलण लागो वै यां का लोगां सु वोलण लागी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । अमीरल उमराव का घर की तो या सूरत है । आप घर मै बैठो रहै कोई आवण जाण पावै नही । ऐक राजा<sup>1</sup> दरबार कर बैठे सु तूंदत वै कोई कुं कह सकै नही अर खानजहां कै अंधेर आही तूंदत वै पातसाही की वात परमेसुर आधीन है जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । साहवेग व मीरजा कादरी लीखो जु राजां नै वकीलां लिख्यो जो राजा सभाचंद केहे है जु मूतसदी न आवै ती पर राजा कादरी नै लिख्यो है—जु वकीलां झूठ लिख्यो है, म्हान कह्यो अर खानाजाद सू कही थे क्युं लिखी । तद खानाजाद कही हूं ई वात सू वाकफ नही तब गुलालचंद कै गुमासतै कही मै दस बार अरज की थी साहिव न मानी तब मै लिख भेज्यो तब खड़ बड़ाय बैठ रह्यो जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । आजम खां गेसुखां नै लिख्यो है—थाणो कायम राखजे थारी मदद नै सुबेदार अकबरावाद को व फोजदार बीदाराबाड़ी को व मथुरा को आसी ओर भी नीगाहदासत करजे ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । अमीरल उमराव तो काम मै ही है । ईमतीयाज महल नै भी वातां मै लायो हु, खानजहां बहादर कै अब आजम खां ई काम नै चाहै है । पलो बांध्यां कहै है जु हर कहीं के दरवाजै जावो कुछ होण को नही, म्हां सु रजु होस्यो तब ही काम होसी । खानाजाद तीनुं राहयां की सलतनत का आपकै हाथ राख्या जाय है । अब भंडारी जीवदासजी आवै है जी की मारफत जाण जे तीकी मारफत काम कीजे जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । जो खातर मुबारक मै आवै तो आजम खां का मुकदमा का जुवाब मै खत भेजजे जी । काम सुं काम छै । खानाजाद राति दिन नवाब अमीरल उमराव जी कनै व राजा सभाचंद कनै हजार रहै छै । अर ईमतीयाज महल का मुसाहब मुं मिलतो रहै छै जी । अर आजम खां सु करार कीयो छै जु जब तक म्हाका मतालब सरंजाम न होय तब तक म्हाको आवणो कही पर जाहर न होय ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । गेसुखां हिडोण सुं वीजैसिघजी का हरन व चीता व वाज जुररा वगैरहै सीकार का जीनावर आजमखां कनै भेज्या छै जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । बाल किसन महाजन मौजै धील परगने मनोहरपुर को वासी कितना ऐक दिनां सु मीजे राजसर तालकै आवेर को तठै जाय रह्यो छ । सु ठाकुर निरभैसिघ राजावत आंतीला व पीरागपुरा को थाणा-दार महाजन मजकुर नै दोसा मै कैद कर राखो है । सु ईको भाई राजेखां तोव-खांना को दारोगो को चाकर छै । अर राजा सभाचंद कह्यो है जु ऐ राजेखां के चाकर है तूम श्री महाराजा जी कुं अरजदासत करो जु निरभैसिघ कुं लिखै जु ईनकै भाई कुं छोड़ दे । सु ई मुकदमां की आगै अरजदासत की है सू नजर मुवारक गुजरी होसी जी । उमेदवार हुं जु निरभैसिघ नै हुकम होय जु महाजन मजकुर नै छोड़ दे जी ।

मीती काती वदि ४ संवत १७६६ रा ।

श्री गोपाल जी सहाय छै जी

श्री महाराजाधिराज महाराजाजी

श्री मीरजा राजा जैसिघजी

सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजाजी श्री जी चरण कमलानु खानाजाद खाकपाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम वन्दगी अवधारजो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला छै । श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा माईत है, धणी है, श्री परमेसुरजी की जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी का खानाजाद बन्दा हां । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सू मेहरवान हैं । श्री महाराजा जी सुख पाव जो जी । पान गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमाव जो जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । सारा समाचार दरबार का आगै अरजदासत कीया है । सू नजर मुबारक गुजरा होसी जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । मी० काती बद ८ साह श्री चन्द को कागद आयो तीमै लिख्या थो जू गेसुखां कै अर सरकार की फोज कै मुकाबलो थो सू काती बदी ५ नै लडाई हुई सू श्री महाराजा जी का तेज परताप कर सरकार की फौज फते हुई । अर गेसुखां की फोज भागी । अर गेसूखां की खबर नहीं जु मारो गयो न जाणा जे भाग गयो । अर वे ही दीन दौय पहरां साह नैनसुख जी को कागद आयो तीमै लिखो थो जु सरकार की फोज फते हुई । अर खबर है जु गेसुखां मारो गयो सु खानाजाद श्री चन्द को खत को तरजमो कर अरजी राजा सभाचन्द नै दी अर साह नैनसुख जी को खत बजनस राजा नै दीखायो । राजा कह्यो, जु खुव कीया खातर जमा राखो, कुछ वसवास मत करो । वैही बीरया

राजा या हकीकत नवाब अमीर उमराव जी नै जैयंती का महला पातसाह जी सीकार नै पधारया तठे लिख भेजी जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । साह नैनसुख जी का खत की हकीकत ईमतीयाज महल वेगम का मुसाहव नै लिख दी जु गुजरानै ईमतीयाज महल वेगम श्री पातसाह जी की साथ है । सु आज उठै जाय गुजरानै लो जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । आजम खां अजमेर का सुवा को तलास करै है । अर खानांजाद साकर खां जी नै कह्यो जु थे अकबरावाद की सुबैदारी को नलास करो सु साकर खां अकबरावाद का सुवा का तलास मै लागो है । देख जे काई चुकै, जु चुकसी सू पाछां सु अरजदासत कर सू जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । राजा सभाचन्द नवाब अमीरल उमराव जी की तरफ सु शाहवेग व मीरजा कादरी नै लिख्यो जु गेसुखां के मारणे का जु हुवानु भला हुवा । अब मीरजा राजा जी व महाराजा जी के मुतसदीया कुं लेकर सीताव आवो अर खानांजाद के तसली दीलासा की जु हुवा सु भला हुवा । खातर जमा राखो, कुछ बसवास मत करो ।

नु श्री महाराजा जी सलामत । खानाजाद तो राजा सभाचन्द पास है । अर श्री पातसाह जी जैयती का महला सीकार नै पधारया छ। सु परवाहरा खूवाज कुतवन्दी की दरगाह पधारया छै । सु नवाब अमीरल उमराव जी श्री पातसाह जी की साथ छै । सू दीन आठ सात नै आवैला । खानजाद नै जो कुछ जवाब गूवाल नवाब जी सू करणो होय छै सु राजा लिख भेजै छै । अर जुवाव मंगाय दे छै । अर खानांजाद का भाई वन्द आस नाव जो कोई पातसाह जी कना सु आया त्यां कही जु खानाजहां वहादर व आजम खां, गेसुखां का मारां की सुण श्री पातसाहजी कनै सोर बहोत करै है । कहै छै, जु खाहमखाह अजमेर को गूवो पावा जु म्हे जोधपुर आवैर मै जाय वैठा । सब रजपूता नै इखराज करदां के म्हानै बरतरफ करो । म्हे फकीर होय वैठ रहस्या ई सीवाय जो जो वाका नन मै तरंग उपजै है सु सब कहै है । तीसु भंडारी जीवदास जी नै हुकम होवै जु दीन दस बीस हजुर आवामे डील कर राह मै मुकाम कर रहे । ईतरा मै खानजहां वहादर को व आजम खां को रंग देखली जे । जु ऐकाई कर चुकै अर नवाब अमीरल उमराव जी काई करै । पछै जु खातर मुवारक मै आवै सु फूर-नाव जे जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । गेसुखां का तगीर करावाकी मोहमसाजी का रुपया दस हजार बार दौय कर एनायत हुवा था । मु हजार रुपया खानाजाद नै साह नैनसुख जी का लिख्या माफ रोजगार मै लीया । अर नौ हजार रुपया उठै भग अर कह्यो जूं एक हजार रुपया म्हे दहकीका रा गाय्या मु वा बह्यो जूं



दहकनदां म्हा का वाकी रुपया भर दो । सु वै वाकी रुपया कै वासतै ताकीद करै है । उमेदवार हुं जु वाकी का रुपया ऐक हजार सीताव इनायत होय जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । नवाब साकर खां जी खत आयो थो । तीका जुवाव मै साकरखां जी श्री महाराजाजी नै खत लिख्यो है । सू श्री महाराजा जी हजुर मोकलो है सु नजर मुवारक गुजरसी जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । साकरखां जी की बेटी को व्याह है । अर बड़ा आकलखां जी का बेटा को भी व्याह है । सु आगै वैकुठवासी राज वीसन-सिध जी बडो सुकरला खां नारनोल को फौजदार तीकै बेटा को या बेटी को व्याह थो सु तो खानाजाद नै याद नही । सु मुथरा सु मेघराज खानाजाद को छोटे भाई थो तीकै हाथ नोतो<sup>1</sup> दीवाय भेजो थो । सु श्री महाराजा जी के अर यांकै घराणे कदीम व्योहर छै । सु जु कुछ खातर मुवारक मै आवै तो या कनै नोतो भेजजे जी । खानाजाद नै अरज लिखणी जरुर थी पछै जु खातर मुवारक मै आवै सु फरमाव जे जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । ईसरदास खानाजाद को भाई दौय वरस सू हजुर मै साह नैनसुख जी की साथ है । सु उमेदवार हु जे साह नैनसुख जी नै हुकम होय जु वै नै सरकार मै चाकर राखै जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । साकर खां जी कै ऐक हाथी मकनो छै । सु ये तो वैको मोल तीस हजार रुपया कहै है पण रुपया पचीस हजार नै चुको बतावै छै । सु जो खातर मुवारक मै आवै जु सरकार मै मोल लीजे, तो दीवान भीखारीदास जी अठै आवै है सू वानै हुकम आवै अर महावत आवै जु आछो देख पसंद आवै अर लेणो होय तो ये बेचेहै लीजे । न लेणो होय तो महाराजा श्री अजीतसिधजी नै मोल लेणो होय तो पुछ देख जे जी ।

मी० काती बदी ११, बुधवार संवत, १७६६ ।

श्री गोपाल जी सहाय छं जी

श्री महाराजाधिराज महाराजाजी श्री भीरजा राजा जैसिघजी

॥ सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानांजाद खाकपाय पंचोली जग जीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला छै । श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, घणी है, श्री परमेसुर जी की जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी का खानांजाद वन्दा हं । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सू मेहरवान हं । श्री महाराजा जी सुख पावजो जी पान गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमाव जो जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । वाल कीसन महाजन मोर्ज धोलो परगनै मनोहरपुर को वासी कीतना ऐक दीना सू मीजे राजसर तालकै आंवैर को वासीय रह्यो छो । सु नीरभैसिघ आंतीला व पीरागपुर को थाणेदार महाजन मजकूर नै उठा सु पकड़ ले जाय कैद कीयो । सु वैका छुड़ावा कै वासतै राजा सभाचन्द आगे खाना-जाद ने कह्यो थो जु श्री महाराजा जी ने अरजदासत करो जु निरभैसिघ नै लिखै जु महाजन मजकुर नै छोड़ दे । सु ई मुकदमां की आगे अरज लिखी है सु नजर मुवारक गुजरी होसी जी । अबै महाजन मजकुर को भाई कहै छै जु सरकार का मुतसदीयां वैपर<sup>१</sup> आठ हजार रुपया ठहराया छै । सु ई कै वासतै राजा सभाचन्द भी खानांजाद नै कह्यो छै, जु श्री महाराजा जी कुं अरजदासत करो जु उसके बाब रीयायत करै अर छोड़ दे । सु उमेदवार हं जु वैकै वाव रीयायत फूरमाव जै अर खलास कीजे जी । भी० काती वदी १४, संवत् १७६६ ।

1. उत ५२ ।

॥ श्री गोपालजी सहाय छै जी

श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री मीरजा राजा जैसिध जी

॥ सिध श्री महाराजाधिराज महाराजाजी श्री चरण कमलानु खानांजाद खाकपाय पंचोली जग जीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधार जो जी । अठै का ममाचार श्री महाराजाजी का तेज प्रताप कर भला छै । श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, धणी है, श्री परमेश्वरजी की जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी का खानाजाद वन्दा हां श्री पातसाहजी श्री महाराजा जी मूं मेहरवान है श्री महाराजा जी मुखपावजो जी पान गंगाजल आरोगवा की घणा जतन फरमाव जो जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । सारा समाचार दरवार का आगे तफसील-वार पै दरपै अरजदासत कीया है मूं नजर मुवारक होसी जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । साह नैणसुख जी को खत मीती काती सुदी ३ को लिखयो काती सुदी ७ नै आयो, लिखयो थो जु थे सारा समाचार की नवाव अमीरल उमराव जी सूं ठीक पाड़ सीताव व्योरो लिखजो । सू श्री महाराजा जी सलामत । खानाजाद सूं व नवाव अमीरल उमराव जी सूं रदबदल हुई तिका समाचार तो पै दरपै अरजदासत किया है मूं नजर मुवारक गुजरा होसी जी । नवाव जी भांत भांत खातर, हरभांत जमा राखो, म्हे श्री पातशाहजी मूं पूछ आपकी खातर भांत भांत निसा करी है, ...कुं बुलाओ जूं आण कर अपने मतलब सरजाम करै सुं तुम सिताव राजों के मुतसदीयों कु बुलावो अर आजम खां अकबरावाद के सूवे के वन्दवसत कु जाता है ओर जो कुछ ओर इरादा रखता होय तो खजाना कहां जूं सिपाह रखै और सिवाय इसके जो कोई इसके साथ

जायेगा तिसको जागीर देनी तो हमारे अखतीयार हूँ कीसही कुं एकदम जागीर न दें । तुम हरभांत खातर अपनी जमा रखो । सूं श्री महाराजा जी सलामत । नवावजी व राजा सभाचंद खानाजाद की तरह तरह कर खांतर जमां करी और खानाजाद हिरदराम आजम खां का दिया म्हाने फोडो सूं वो कहै छै हूं वैनै समझाऊं छूं जी.....।

श्री महाराजा जी सलामत । नवाव जी हरभांत खातर निसा करी ओर नवावजी का खत मीरजा कादरी नै लिखाय भेजा छै: जूं महाराजा जी व मिरजा राजा जी के मुतसदीयों कुं सिताव हजूर ले आवो और राजा सभाचंद को खत श्री महाराजा जी हजूर भेजो हे सूं नजर मुवारक गुजरसी जी ओर राजा सभाचंद का खत राय रघुनाथजी<sup>1</sup> ने व दीवान भिखारीदास जी ने भिजवाया छै: जू खातिर जमा नूं हजूर आवो सू खत पहुंचा हुसी अरवे चाला हुसी जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । ईमतीयाज महल ब्रेगम की हकीकत खानां-जाद आगै अरजदासत की है अर साकर खांजी को खत आगै श्री महाराजाजी हजूर भेजो छै तीसूं अरज पहोची होसी जी अब भी भांत भांत नीसां खानांजाद की करी छै जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । श्री पातसाह जी मी० काती सुदी ६ नै तीसरा पहर का खीजरावाद की तरफ सिकार नै पधारा छै नवाव अमीरल उमराव जी साथ पधारा छै और राजा सभाचंद अठै ही रहियो छै जी । मी० काति सुदी ७ सनीवार संवत् १७६६ ।

श्री जी सलामत । अमीरल उमराव तो भांत भांत निसां करी अर वोहत सुख पायो अवताई तो इतनी सी की है सो अब दीवान भिखारीदासजी आसी सूं वाकफ होय अरजदासत कर सी जी । ललोपतो करे था अब जीणो जू म्हे कहो सूं करी नोमूं मन की गांठ खुल गई अब ताई तो खानाजाद मूं ऊपर के दिलमिलो थो अब दिल खोल मिलन लागो अर राजा भी दिल खोल मिलन लागो सूं अब दिन दो चार मे आये सू देख अरजदासत करसी जी । आजम खां तो सोर सरावो करवा ठहरो । पातसाह जी ने इमतयाज महल समझायो अमीरल उमराव समझायो ती पर समझ कर बैठ रहा अर खानजहां बहादुर व आजम खां भी छाती तोड़ बैठ रहा पण खबरदारी राखणी । श्री जी सलामत । अमीरल उमराव तो साफ जवाब दीयो जैसे झखमारो म्हे चाह मुं करसां थे खातर जमा राखो ।

1. भग्दारी रघुनाथ—जोधपुर राज्य का देस दीवान । देन्द्रिये, जी० डी० गर्मा, राजपूत पॉलिटी, पृ० 202

क्रम संख्या ६६,

वकील रिपोर्ट संख्या १६२

कार्तिक सुदी ११, संवत् १७६६

श्री राम जी

श्री महाराजाधिराज सलामती

॥ मित्ती काती सुदी ६ सोमवार खानाजाद का व भंडारी राई रुघनाथ दास का डेरा खोजा वसंत खां की सराई हुवो अर मिरजा कादरि जो आगै गयां था सो नवाव साहीब सी रदवदल करि । नवाव व्होत महेरवानगि फुरुमाई अर आवणै सौ व्होत रजां वंद हुवां । तब मिरजा कादरि मीती काती सुदी ११ बुधवार नवाव का जमायत दारवै पाडे विके कां पोता सुवार सै, तिन सौ आगु लेवा आये । अर राई गजस्यंघ को नवाव फुरमाई जो राजों के मुतसदी आवै है तुम उनको आगु जाय ले आवी । अर मिरजा कादरि आय ताकीद करि जो नवाव कि ताकीद व्होत है तुम अवारू कूच करो । सो वावरदारी ऊट वागौ० सारी चरवा गई थी अर जोतीगो<sup>१</sup> कहां, जो आजि कूच करणां मनासव नहि । मित्ती काति सुदी १२ विसपतीवार घड़ी आठ दिन चढ्या आछ्या मुहरत है वै साईत तुम कुच करी नवाव कि जाई मुलाजमती करो । सो मीती सदर मुलाजमती नवाव की करि । व्होत महेरवानगि फुरमाई, सिरोपाव ईनाइत किया । अर भाति भाति खात्री जंमा करि । अर पहैलि तो फुरमाई थि जो राजा सभाचंद का बेटा आगु लेणै को जाय, फेरि अरज पहुचि जो राजा मजकुर का बेटा गंगाजी न्हावा गया है । तब राई गजस्यंघ को भेज्यां सो राई गजस्यंघ वा मिरजा कादरी स्हांमा<sup>२</sup> लेवा गयां सो काजिकि साराई सो कोस येक परैताई जाय मीले । सो उठै राई गजस्यंघ भंडारी रुघनाथ सौ वा वंदा सौ मील्या । अर राई गजस्यंघ कही जो मुनै राजा सोभाचंद

1. ज्योतिष लोगों ने ।

2. सामने ।

फुरमाई है जो तुम राजों के मुतसद्यों को सीताव ले आवो । मेरै ताई नवाव नै गंगजी को रुखसद कीया है । तव राई गजस्यंघ को विदां किया अर कही जो ग्हां का थावा कि हकिकती राजा सभाचंद सौ जाय मालुम करो ।

दोय पहर का अमल मै राजा सभाचंद सौ सब साथ सौं मिले । राजा सभाचंद मसनंद सौ उठि खड़े रहे अर सब ठाकुरों सौ मिल्या अर खानाजाद को वा भंडारी को मसनंद पासी लेवैड्यां अर वहीत भाति ज्यौ वड़े आदम्यौ सौ वतलावै है तीस भाती वतलायां । अर हर भांति खात्रि निसा करि अर या कहि जौं<sup>1</sup> दोन्यों राजां हिदुसतान का सिन्हन है । अर हमारा वड़ा भाग है जो हम सौ कोई भांति चाकरि वणि आवै, अर डेरो कै वासतै राज सभाचंद फुरमाई जो तुम्हांरा स्यौध होय अर आछि जायगा जाणों जिठे हि करो । तव भंडारी जी अरज करि जो नवाव का हुकम होय तो जसवंत पुरै डेरा करै । तव राजा सभाचंद मिरजा कादरि को फुरमाया जो तुम ईनका डेरा जसवंतपुरै डेरा करावो । अर राजा सभाचंद फुरमाई जो तुम्हांरै वासतै मुलाजमति कै वेठै है, मै जाय अरज करता हुं तुम सीताव आवो । तव राजा सभाचंद तो नवाव की हजुरि गये अर अरज कराई जो राजों के मुतसदि आवै है । तव नवाव अनंदर खाणा खाते थे सो हुकम आया जो राजों के मुतसद्यों को व राजपुत लोगो को, जो बैल्यावै तीनको<sup>2</sup> दीवान खाने वासे वेठावो । तव राई गजस्यंघ वा मिरजा कादरि सबको दीवान खाने वेठाये जी । अर घड़ि येक पाछै अंदर सौ नवाव निकस्या अर दिवान खाने मै मसनंद उपरी आय बैठे । तव भंडारी राई सघनाथ व वंदे नजरि गुजरानी सौ जुदि फरद सौं अरज पहुंचलि जी । तव नवाव वहीत भाति दिलासा करि अर फुरमाया जो तुम हर भांति जंमां खात्री राखो, दोन्यों राजों के मुतालिव सब सरंजाम देहगे । फेरि नवाव साहिव फुरमाई जो वड़ो नवाव पासी आगै कुण आया था । तव मया राम उकिल महाराणां जी कैवा वंदे अरज करि जो हम आयां था तव नवाव फुरमाई जो तुम सौ नवाव साहीव राजी होय तुम्हांरि तारिफ वहीत लिखि थी । सो हम भि तुम सौ वहीत रजावंद है । तव नवाव मिरजा कादरि सौ फुरमाया जो तोसाखाने<sup>3</sup> के दारोगा को बुलाई राजों के मुतसदि वागो० को सिरोपाव दिलावो । तव मिरजा कादरि सब को ले अर वाग जो नवाव की हवैली के मुतसलि है तीस जायगा ले जाय सब को सिरोपाव पहैराया सो तपसीलवार दुसरी फरद सौ मालुम होय ली जी । फेरी सीरोपाव पहैरि नवाव सौ तसलिमात करी, तव अपणै हाथ सौ खान बकसी अर विदा किया जी । फेरी राजा सभाचंद कहांय भेज्या ली तुम सौ

1. यह कही है ।

2. उनको ।

3. तोसाखाना (तोसाखाना)—बहुमूल्य वस्तुओं का भण्डार ।

कुछ मुनै रदबदल करणि है । तुम येक जाईगै बैठो । तब भंडारी वा बंदा नवाब के दूसरे चौक मै जाय खड़े रहे । अर पाछैहि राजा सभाचंद जी भि आया सो पेहली तो बहोत भांति तसलै अपणी त्रफ वा नवाब कि त्रफ सौ करी अर कही जो पात-साहजी वीसपतीवार कै रोज मीरन जो मुरतजा वांका कीताब पायां है तीसमै पधार्या छै । सो सुक्रवार कै रोज उठैहि रहैसी । अर सनिसरवार खिदराबाद जाहिगे । अर दीतवार उहा रहैगे । सो सोमवार को तथा मंगलवार को कोट दाखिल होहिगे । सो तब ताई कहो तो गंगाजी सनान करि आउ । नही त्र हमारै ताई तो राजो का काम करणा हजार सनान बरोबर छै । तब भंडारि जी वा वंदै कहि जो आप सनान करणै पधारै आप आवैगे तब सारि रदुबदल करैगे । तब राजा सभाचंद कहा जो मै एकादसी कुं गंगा जी जातुं था सो तुम्हारै ही वासतै रह्या हुं राह मै मैड़ाक सुवार व कहाए राखे है । सो मै सीताब ही आउगां । तब या रदबदल करि राजा सभाचंद गंगाजी को नवाब सौ रुखसद होणै गया । अर भंडारि रुघनाथ, दास वां बंदा सब साथ सौ जसवंतपुरै आय डेरा कियां । अर खानजिहा बहादर वा आजम खां का लोग पुरा मै थे सो सब जाई रेति मै डेरा किया जी । अर पुरा खाली होतां जाय है जि सौ हकीकती अरज पहुंचै जी । श्री महाराजाधिराज सलामती । जाफर खां दीवान की हवैली खानजीहा बहादर को वकसी है सो जसवंतपुरा कै नीपट मुतसली है । अर आजम खां भी उस ही हवेली मै रहै है सो उनोनै चोकि पहैरां वा राहवाट कि बहोत खबरदारी कराई है । सो हकीकती अरज पहुंचै जी । मीती काति सुदि १३, वार सुक्रवार प्रभाती चलाई, सवत १७६९ ।

वकील रिपोर्ट संख्या १६४

मार्गशीर्ष वदी ५, संवत् १७६६

श्री रामजी

श्री महाराजाधिराज सलामती

अरजदासती करार मीती काती सुदी १३ कि लीखि उमीरल उमराव सो मुलाजमती कीवा की आगै हजुरी भेजी छै तीसो सारि हकीकती अरज पहुची होयली जी । श्री महाराजाधिराज सलामती । राजा सोभा चन्द जी गंगाजी न्हावा गयो थो सो मीती मगसर वदी ३ मंगवलवार दोपहरा आयो । आवता ही राम राम कहाय भेजी । मीती मगसर वदी ४ बुधवार भंडारी वा वन्दा कै मैह-मानि भेजी सो हम तो वहतेरा चाहां जो फेरि भेजै पणी भंडारी वा वन्दै सलाह करी रखाई है जी । अर महैमानी ले आया था आनै दोन्या सरकारां सो रुपया ५० पचास दीया जी अर अब तांई तो राजा सोभाचन्दजी असा रवैया ईकलास का कोया है सो अरज पहुचावा मै आवै नहीं जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । मगसर वदी ४ विसपत्तिवार सवाराही भंडारी जी नै गुलालचंद व गोकलदास को वां सरकार की त्रफ सो पंचोली जग-जीवनदास व नीत्यानन्द राजा सभाचन्द जी के भेज्या वा दोन्या सरकारा की त्रफ मिजमानी भेजी सो मिजमानी कि फरद अलाहदी भेजी छै सो नजरी गुजरै ली जी । घट्टि दोय दिन चढ़्या राजा सभाचन्द जी कहाव भेज्या जो नवाव साहीव फुरमावते है जो अरजी साईतखुब<sup>१</sup> है सो मुनसदि राजां के आवै हम अरजी पात-साह जी की मुलाजमती करावैगे तव भंडारी रुघनाथ वा वन्दा नवाव के डेरै गये अर राजा सोभाचन्द जी को खबरी करी, तव नवाव फुरमाया जो मीताव बुला-

1. साईतखुब (नापत-ए-पुब)—जूम घट्टी ।



वल्योह तब जाई मुजररा नबाव सौ कीया । नबाव बैठने का हुकम कियां अर फुरमाया—जो तुम अरजी पातसाहजी कि मुलाजमती करो तब अरज करी जो हुकम करैगे सो करैगे । तब नबाव सुवार होय भंडारी जी को वा बन्दा को फुरमाया जो तुम हमारे दिवान खानै बैठो बै पातसाही सो अरज करि, अटकी प्रवांनगी आवनै की भेजै<sup>1</sup> तब सीताब आज्यौ । सौ नबाव हजुरि पातसाह जी की जाय प्रवांनगी ले भेजी । पातसाही दीवान आव<sup>2</sup> किया था तब भंडारी वा बन्दा सुवार हुवा अर जेता ठाकुर लोगा उमिरल उमराव के सीरोपाव पाया था तिन को साथि ले गये । अर हमारे पहुचते पहैली पातसाह जी दीवांन आव सौ उठि खड़े रहे । तब राजा सोभाचन्द जी कही जो तुम गुसल खाने की धौठि चली बैठो<sup>3</sup>, पातसाहजी दीवांन खास करैगे । तब माफिक कहे राजा के गुसलखाने की धौठि की कोटड्यौ मैं जाय बैठे । तब पातसाहजी हाजरी खांव गुसलखाना कीया तब राजा सभाचन्द जी नै भंडारी कि वा बन्दा की वा ठाकुर लोगों कि मुलाजमति कराई । पातसाह जी सिरोपाव इनायत करबा वेई हुकम कियो । सो सिरोपाव सारा पेरी<sup>4</sup> तसलीमात करी । तब भंडारी जी अरजदासती महाराजा अजीतस्यंघ जी कि ले आये थे सो हाथ परीले खड़े हुए । तब पातसाहजी फुरमायो जो आगे बुलावो, तब भंडारी जी नजदीक आगै आय अरजदासति ले खड़े हुये । तब राजा सोभाचन्द जी अरजदासती ले नबाव अमीरल उमराव को दीई । नबाव पातसाहजी सौ अरज पहुंचाई अर बन्दै पासितो हजुरी सूं अरजदासती कोई आई नही जो पातसाहजी की नजरी गुजरांनता जी अर थैली भी खास अरजदासत त्यार लाई क खास महोर सौ के ई इनायत हुई नही त्या ही<sup>5</sup> में लिखी गुजरांनतो । अर वा जै थैली खास मुहर सौ आई थी सो अरजदासत त्यालावकं न थी जी । अर इम्तयाज महैल को महाराज अजीतस्यंघ जी की अरजदासती आई अर बन्दा पासि कोई आई नही । तब भंडारी जी कही जो अरजदासती जरूरी गुजरांनी चाहिजे सो जौ थैली हजुरी सौ खास मुहोर सौ आई है त्प्रा में लिखी गुजरांनूगाजी । बन्दा उमेदवार है, जो अरजदासती वार थैलि खास मुहोर सौ सिताब इनायत होय जी । फेरी पातसाहजी भंडारी जी को पद कनाहर का चहरा को वा बन्दा को घुकघुकी इनायत करी अर डेरे को रुखसद किया । तब भंडारी जी वा बन्दा नबाव के डेरै जाय वेठे । तब नबाव दरबार सौ आये तब नबाव को तसलीमात करी । तब नबाव वहोत तसलैह करी अर फुरमाया जो तुम अपने मतालिव लिख त्यावो सो अवै

1. दरवार में उपस्थित होने का आदेश भेजने पर ।
2. दीवान-ए-ग्राम ।
3. गुमलखाने की ड्योढ़ी पर चलकर बैठो ।
4. पहनकर ।
5. उभी में ।

सारां मतालिव लिखी राजा सोभाचन्द जी की मारफती गुजराना ला जी । सो रदबदल होयली सो पाछा छै अरज पहुचाईलो जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । कोलार सब अंकठे होय वन्दै पासी आवै सो रदबदल तो बहोत हुई या बात ठहरि जो तुम नवाव सो अरज करो जो नवाव फुरमावेगे सो कीजेगा । सो इनका तकादा बहोत सकत है सो उम्मेदवार हूं जो इसका जवाब सिताव इनाईत होयजी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । पातसाहजी के अकबरवाद जावै की बहोत ताकीद है अर हुकम हुवा है जो तारीख १६ सावाल पेशखानो चलै ता० २५ सहर मजकूर को आय कूच करे । सो पेसखानो चाल्या की खवरी आय अरज लिखूं लो जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । भंडारी वन्दे सो कहाव भेज्या जो मिरजा कादरी वेग की रुराईत कीई चाहिजै वा का कहा माफिक रुपया १०० सो व दोन्यूं नरकारा सू दिया जी वांका वेटा की सादी<sup>1</sup> के वासते दिया जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । रांमानन्द वा प्रेमराज कार्दथ हिंडीनी की राडी मै सरकार मै कैदी आया कहैजे छै । तिनके वासते राजा सभाचन्द नै कहाव भेज्या जो वे हमारे कायथों के सगै है सो तुम इनके वास्ते श्री जी की खिदमती में अरजदासती करी छुड़ाई मंगावो । तव वन्दै जवाब दिया जो हिंडोण की कैद मै आया होयला तो मै हजुरी को अरज दासती करी छुड़ाय मंगाई दयौंहागा । उम्मीदवार हूं जो मुतसदो को हुकम होय जो कायथ कैद मै होय तो खलास करि जीहानावाद पहुचावैजी अर कदाचि कैद मै न आया होय तो प्रवाना फारसी वंदा के नाव सादर होयजो वे कायथ कैद मै कोई आया नही, अरज करवा वाले खिलाफ करी छै, जो परवाना वजनस्य राजा सभाचन्द ने दिखाउं जी । अर छवील राम कि खवरी अबताई पातसाहजी मै मिल्या की आई नहीं जी । अर केहै वति पाछै जो कोई तो कहै छै जो मिल्या अर कोई कहै छै मिली करी उठि गया, सो करार वाकी खवरी आवै ली सो पाछा थे अरज पहुचाउलो जी । मिति मिंगसर वदी ५, शुक्रवार, समत् १७६६ ।

1. गाडी ।

श्री गोपालजी सहाय छै जी

श्री महाराजाधिराज महाराजाजी श्री मिरजा राजा जैसिघजी

सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जो श्री चरण कमलानू खानांजाद खाक पाय पंचोली जगजीवन दास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला छै । श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत छै, धणी छै, श्री परमेसुर जी री जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी का खानांजाद बन्दा हां । श्री पातसाहजी श्री महाराजाजी सु मेहरबान है । श्री महाराजाजी सुख पाव जो जी । पान गंगाजल आरोगबा का घणां जतन फरमाव जो जी ।

॥ श्री महाराजाजी सलामत । सारा समाचार दरबार का तफसील वार आगै अरजदासत कीया है सु नजर मुबारक गुजरा होसी जी ।

॥ श्री महाराजा जी सलामत । हजुर सुं वाजबल अरज राय रुघनाथ जी कै व दासजी कै हवालै हुई थी, ती माफक मतालब नवाब अमीरल उमराव जी नै लिख दीया छै । सु श्री परमेसुर जी की कृपा सुं व श्री महाराजा जी का तेज परताप कर कितनाक मतालब सरंजाम हुवा और मतालब बाकी रदबदल दरमीयान छै । जु कुछ चुकसी सु पाछा सूं अरजदासत करसुं जी । ओर समाचार सारा तफसील-वार दीवान भीखारी दासजी की अरजदासत सुं अरज पहोचसीजी ।

॥ श्री महाराजाजी सलामत । मी० मागसर बदि ५ सुकरवार आधी रात नै पेसखानों अकबराबाद की तरफ चालो ओर पांचवी जी का दिन कुच मुकरर हुवो छै जी । मी० मगसर बदि ६, समीवार, सबत् १७६६ ।

श्री महाराजाधिराज सलामती

राव घासीराम पेसदसत कुत्री वाका नीगारका की जागीर प्रगना मोजपुर में है तिनके वास्तै आगे अरजरासती पंचोली जगजीवनदास श्री जिकी खिदमती में पहुँचाई है सो अरज पहुँची होवेगी जी । वन्दा उम्मेदवार है जो प्रगना सरकार में इजारै लेणा होय तो मुतसदी को हुकम होयजो तीमाहा का पईसा की सबील करी भेजैजी । अर सरकार में न राखना होय तो घासीराम का मुतसद्या को अमल कराये देहजी । श्री महाराधिराज सलामती । काईथ द्योय हिंडोणी को कैद में आये है तिनके वासतै राव गजस्यंघ राजा सभाचन्द सौ कहै अर कहाई जो वै म्हारे सगे है तुम हमारै भाई छुड़ाई मंगाई द्योह । सो राजा सभाचन्द वंदे को कहा जो हम तुम्हार ताई आगे भी कहा था अवै भी कहतै है जो वै काईथ सिताव अठै आवै सो वन्दा उमेदवार है जो राव गजस्यंघ तिनका दीवान है अर उनसो हमेस सरकार का काम जाय पडै है अर वे काइथ इनके सगे हैं सो मुतसदी हजूरी का ने हुकम होय जो वा कायथानै हिंडोणी सो सीताव अठै भिजावावै जी । श्री महाराजाधिराज सलामती । त्रपीया १०,००० खरची का दीवाया थां सो तो खरची होय गया अवै उमेदवार हूं जो खरची सीताव इनायत होयजी । श्री महाराजाधिराज सलामती । पेसखानी पातसाही मित्ती मिगसर वदी ६ सनीसरवार चाल्या सो वारा पुलडा खड़ा हुवा जी । अर खवरी है जो पातसा जी अकवरावाद ने सिताव कूच करै सो ठीक पडैलो, सो पाछा थे अरज लिखूं लो जी । मित्ती मिगसर वदी, समवत १७६६ ।

### श्रीरामजी

अरजदासती आगे करारे मित्ती मगसर वदी ५ शुक्रवार प्रभाति की लिखी हजुरी हरसाल करी है तीह सौ सारि हकीकत अरज पहुची होयली जी । श्री महाराजाधिराज सलामती । : मीती : सदा राजा सभाचंदजी नै सवाही बुलाव भेज्या सो भंडारी वा वन्दा उनके डेरे गए तब राजा सभाचंद खिलवती करी मतालिव सरकार के माठे जो तुम क्या क्या मतलिव कहेते हो । तब जो मुतालिव हजुरी सौं लिखी लाया थे तीन कि सब की रदबदल भली भांति करी । तब राजा सोभाचंद कही जो मुसौ वनी आवेगी सो मै मुताली व सरकार के सब सराजाम दिलायेगा । सो मेरे बड़े भाग्य हैं जो हिन्दुसतान के राजों के मौसों काम होव आवे पण वे बड़े काम हैं बिना बड़ी मोहमसाजी काम पेश न जाहीगे । तब हमों यह जवाव दिया जो जिस बात में नवाब साहब राजामन्द होंगे और म्हे मेरवानगी करी फरमावेंगे । अर हम सूं होय आवेगा सो वह जालावेगे । तब इताही में राजा सोभाचंदजी को नवाब साहब सेलवति करी बुलाय भेजा । तब राजा कही जो तुम हमारे डेरे बैठे रहो, म्हे नवाब की हजुरी जाता हूं जे तुमको याद करेगें तो बुलाई भेजूंगा अर जे डेरा को रूखस्द देगे तो मै कहाव भेजूंगा, तुम डेरे जावो । तब भंडारी व वन्दा राजा सभाचंद के दीवान खाने में बैठे । राजा सभाचंद नवाब की हजुरी गए । नवाब सूं जाय रदुबदल करी । तब नवाब फुरमाया जो इनको बुलाय लाओ । तब नवाब की हजुरी गए । नवाब बोहत मेहरवानगी करी अर फुरमाया जो हम तुम्हारे सब मुतालिव सरंजाम देंगे—तुम अपनी खातरी हर भांति जमा राखो; तब तसलीमात वजाई लावै अरज करी जो दोनू राजो नवाब साहब के हुकम सूं हमारे तांही हजुरी भेजेहै इसमें नवाब साहिब खूब जाने सो करे । तब नवाब फुरमाया मै पातसाहजी सूं अरज करी तुमको जवाब दे दूंगा अर फुरमाया तुम

अपने मतलिख सरेजाम दिलावने हो त्यो कुछ हमारा भी काम करो जिसमे हमारी आवरु हो तब हमा अरज करी जो इह हाथ तो हुकम सब नवाव साहब का है। तब फुरमाया जो दोनों राजा हजुरी आवे तथा साहीजादा जी के तईनात होव, पुरेकशेर<sup>1</sup> को तवीहक है। तब भंडारी व बन्दे आपस में सलाह करी, अरज करी जो राजों को नावा करी ही करणी है पातसाहजी की हजुरी ने आवेगे तो मुनसब कीस भांति खांहीगे। सू हमारे राजों के तो ये चाकरी ही करी इरादा है पर येक वार जब ताही राजों के हाथ सू खूब चाकरी न होय आवे न वे हजुरी आवणे का क्या फायदा है तिसां हम ही उम्मीदवार है जो राजों को सूवे दीजे और चाकरी करवाईये। तब चाकरी करी मुजरा करी दिखावेंगे तब नवाव फुरमावगे सो ही करेंगे। फेरी नवाव फुरमाया जो मैं दरम्यान हूं तुम अपनी जमा खातरी राखि राजों को हजुरी बुलावो अर जे वे हजुरी नहीं आवेगे तो तुम फौज अच्छी लाया ई अर पातसाह जादे सू जाय सामिल होय अर फल्क-शेर को तवी करो। तब फेरी भंडारी सो सलाह पूछी, अरज करी जो दोनू राजों को गुजरात उजैन का सूवा दीजै। फेरजो नवाव साहब फुरमावेगे तिस माफिक जाय चाकरी वजालोवेगे जी। तब नवाव फेर फरमाया—जो पातसाहजी आगरे जाते है तुम हजार सवारों की फौज नवाव आसफदोला कर्नै दिल्ली में राखो अर बड़ी फौज ले तुम दोनों मुतसदी साहीजादे की हजुरी जावो तब अरज करी जो जो नवाव हमारे मंतालीख सारे सरंजाम करी देह अर जो नवाव खिदमती फुरमावेगे सो वजाय आवेंगे तब नवाव पान दे बीदा कीए। अर फरमावजो तुम राजा सभाचंद कै डेरे जावे तुम सो कुछ रदबदल करावणी है। तब राजा सभाचंद को भी विदा की वायते ही अंगुर वाठो मेवालायी तराद कासमीर सो आयो ये सो नवाव की नजर गुजरी तब फुरमायो जा राजों के मुतसदों को बुलावो फेरि हजुरी भंडारी वा बन्दा गए तब फुरमावेजा हमारे आजी काशमीर सो मेवा आवे है सो तुम दोनों राजों को पहुचाई दोह। तब तसलिमात वजाई ले आवे मेवा के पिटारे हमारे हवाले हुवे सो हजुरी ईसाल की कीवे है सो सूकरगुजारी का खत नवाव साहब को सिताव इनायत होयगा जी।

श्री महाराजाधिराज सलामती। डेरे आया राजा सोभाचंद कहा जो नवाव को वा हम को मुहमसाजी क्या क्या देते हो? तब आपस में सलाह करि पहली

1. फरंगसियर—बादशाह बहादुरशाह के पुत्र शाहजादा अजिमुद्दौलान का द्वितीय पुत्र। फरंगसियर अपने पिता के नायब के रूप में बंगाल सूबा में कार्यरत था। मार्च 15, 1712 में बहादुरशाह की मृत्यु की सूचना मिलने पर उसे अजिमुद्दौलान को पटना में रहते हुए बादशाह घोषित किया। नवम्बर 1712 तक उसने सैयद बन्धुओं का सहयोग प्राप्त कर लिया था।

तो या अरज करी जो हमारे राजो के घर में है सो सब नवाब का है रुपये लाख दोगे नवाब के पेशकस करेंगे । तब राजा समाचंद ने कहाओ वो कहै हम दावा दला सु वापरी नवाब सर बोलद खां तीन लाख रुपया दे गया है तुम असी बात करो कहैते हो तुम्हारे तो बोहोत मतालीब है सो रदबदल पे रहे कै तांही वोहूत हुई । तब फेरी भंडारी रदबदल करी । तब बन्दे भंडारी सो कहा जो रदबदल करो सो समझी कीजो मेरे दोइ लाख रुपया सो अधिक का देना का हुक्म नही । तब भंडारी बन्दे सूं कहि जो मैं दोन्यूं राजों सो रदबदल करी आया हूं, तुम इस बात का कुछ मन में इस सवाल ल्योवा मती मै ठहराई हूं सो ही तुम कबूल करो । सो म्हुंमसाजी की फरद अहलादी भेजी है सो तिसौं हकीकती अरज पहुचेली जी । बन्दा उम्मेदवार है जो नवाब का परवाना सिताब ईनायत होय ज्यै । बन्दा जमा खातरी सूं सारा काम सरकार सरजाम दहेजी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । मिति मिगसर वदी ६ वार सनीवार सवाही नवाब साहब का चोवदार आया जो तुम्हारे तांही यादो करते हैं । तब भंडारी व बन्दा राजा सोभाचन्द के डेरे गए । तब राजा सोमाचन्द खिलवति में कहा जो तुम्हारे सब मुतालिब सरेजाम हुवे । तब राजा मजूकर नवाब की हजूरी गए अर भंडारी व बन्दा को हजूरी बुलाया, नवाब साहब फुरमायो जो तुम्हारे मुतालिब सारे मंजूर हुवे । सूवा गुजरात का महाराजा अजीतसिंघ जी को वा उज्जैनी का सूवा श्री जी के ताही मुकरर हुवा तुम पातसाहजी सूं सूवा का फुरमान तैयार करवाय सिताब रुखस्त होव ; राजों पे जावो अर साहीजादे की तैनाती की फौज ले सिताब आवो अर जीहानाबाद फौज जिहानाबाद भेजो सो मालम होयता है जो बन्दा को सिताब विदा करेंगे । फेरौ खरची के वास्ते अडवड़ाहट होवेगा सो उम्मेदवार हूं जो रुपया लाख ड्याढ़ तथा दोई सिताब में रहेमती होयजी जो बन्दा का निकास होयजी । मिति मिगसर वदी ७, अदीतवार व भांति चाली सम्बत् १७६६ ।

वकील रिपोर्ट संख्या १६८

मार्गशीर्ष वदी ११, संवत् १७६६

श्री रामजी

श्री महाराजाधिराज सलामती

अरज दासती करार मीती माग्रश्च वदी १० बुधवार कि लिखी हजुरी ईरसाल करी है। तीसो सारी हकीकती अरज पहुंची होय ली जी। श्री महाराजाधिराज सलामती। प्रगना वहात्र<sup>१</sup> कै वासतै नवाव सौं अरज करी तव नवाव फुरमाया जो किरोड़ी दामों में तनखा है। तव वंदे अरज करी जो अस्सी लाख दामों में तनखाह है। तव नवाव नै फुरमायां जो तुम ईन बातों परी क्यो अटको हो तुमको तखफीफ सब ही माफ है, हम असी लाख दामों में ही लीखि देहगे, सो असीलाख दामों में लीखाया है जी।

श्री महाराजाधिराज सलामती। भंडारी व वंदे दवाव खरच कै वासतै अरज नवाव सौं करी, सो हुकम हुवो जो येक वरस माफ करो सो फरद परी दसफत होय आयो है जी।

श्री महाराजाधिराज सलामती। श्री जी को मनसब आठ हजारी सात हजार सुवार का ठाहरया<sup>२</sup>। तव वंदे भंडारी सौं कही जो आठ हजारी आठ हजार सुवार सौं मनसब कमी करावण मुनासिब नही। तव भंडारी कही जो थे ई बात परी अवो बोली मती। तव वंदा बोल्या होय वैठी रह्यु जी। सो जै हजुरी सौं भंडारी व वंदा व जगजीवन दास कै नाव प्रवानां सादर होय तो आगैपाछै भी हजारों सुवारो का ईजाफा होय जी। अर महाराजा अजीतसिंघजी व श्री जी का खत नवाव नै वा राजा सभाचन्द नै आवे तो अलवतै सुवारो का ईजाफा

1. बहादुरी परगना।

2. 8000/7000 संसब।



होयगा जी । सो खात्र मुबारक मै पसंद आवै तो खत दोन्यौ व प्रवाना भंडारी व बंदा को नाव सादर होय जी, अर भंडारी का प्रवाना बंदे कि थैली म आवैजी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । मीती माग्रश्रवदी १० बुधवार नवाव भंडारी व बंदा को बुलाई फुरमाई जो तुम वदी ११ वीसपतिवार पातसाह सी विदा हौं अर सुकरवार नै कुच करो, अर तुम्हारे कामों मै जो वाकी रहैगे सो उकिल करावैगे । तव बंदो अरज वरी जो माफीक हुकम जो नवाव फुरमावैगे सो करैगे ईस वासतै जो राह मै भी खत व प्रवाना पहुँचला तो जगजीवन दास पासी बंदा पहुंचाय देहला जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । भंडारी बंदे सो कहां जो तुम मेरी चाकरी कि हकिकती श्री महाराजा जी नै लिखी दयोह सो अरज दासती करार मीती माग्रश्रवदी १० कि लिखी भंडारी को सोपी है सो हजुरी पहुँचे ली जी । बंदा उम्मेदवार है जो प्रवाना दीलासा का भंडारी को ईनायत होय जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । अब ताई डोल<sup>1</sup> जागीर का की हकीकती मालुम नही हुई कुण मंजुर हुवा कुण नामंजुर हुवा, पातसाह जी कीयां सो जगजीवन दास को ईस काम परी मुकियद किहौजी जो सीताव तौजी<sup>2</sup> की नकल ले आवै सो सीताव ही तपसीलवार हकिकती अरज पहुंचाउलो जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती—हीड़ोणी व खोहरी, मालपुरा वागी० प्रगना की बंदे आगे अरज पहुंचाई है सो अरज पहुंची होयली जी । उम्मेदवार हुं जो जवाब सीताव ईनाईत होयजी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । जो सनदी हुई है सो सगली राजा सभाचंद अटकी है, सो हुंडी रुपया लाख दोय कि आवैली तो सनदी हाथी आवैली जी न ही त्र सनदी कोई हाथी आवै नही जी । आजी ईहा सब अखतीयार राजा सभाचंद का है जी अर भंडारी वा बंदा को विदा करैगे तो रहैणा मालुम है जी, गुरजवरदार सुकरवार को कूच करावैगे जी सो भंडारी भी अरज लिखी होयली जी । बंदा उम्मेदवार है जो जवाब सीताव ईनाईत होयजी जी माफीक बंदा अमल करै जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । भंडारी बंदे सों कहाय भेज्या जो थे अरज-दासती सीताव हजुरी नै करो जो जीह भाती म्हांका रुपया आवै तीही भांति थाका भी रुपये आवै । तव बंदे जवाब दीया जो मै तो आगै ही अरज दासती करी है जो

1. डोल—मूल्यांकन, क्षेत्र विशेष के राजस्व के मूल्यांकन से सम्बन्धित परिपत्र ।
2. तौजी—दीवान कार्यालय में सुरक्षित वह रजिस्टर अथवा परिपत्र जिसमें राजस्व ईकाइयों का जमा, राजस्व देने वाले का नाम, भुगतान की माँग तथा बकाया दर्ज होता था ।

रुपये भेजणे की ढील न हो । तदी भंडारी कही जो म्हाकै जोधपुर सां रूपया दिन छ में आवैला अर थे लिखो जो तीसरै दिन आवै सो साड्या म्हाकौ अर थाकै सीताव ऊटा परी रुपया लै आवै, सो अरज पहुंचे जी । सीती माप्रथ्र वदी ११, वीसपतीवार प्रभाती चलाई, सवत् १७६६ ।

क्रम संख्या १०२

वकील रिपोर्ट संख्या १६३

मार्गशीर्ष सुदी १, संवत् १७६६

श्रीरामजी

श्री महाराजाधीराज सलामती

भंडारी नै अबकै चालती वार नवाब अमीरल उमरावजी वा राजा सांभा-  
चन्द जी वा सारा ही मुतसदयौ सौ असा रस राख्या जो सब मुतसदी बहोत  
रजाबन्द रहे । नवाब साहीब नै चालती वार भंडारी व बन्दे को फुरमाया जो  
तुम दोन्यो मुतसदी फोज ले सीताब अकबरावाद सीताब आवों फोज ले अकबरा-  
चाद आवोगे तब तुम्हारा सारा मुतालीब तुम्हारे कहे माफीक सरंजाम देहगे । तब  
भंडारी अरज करी, जो मुझै श्री महाराजा जी सीख देहगे तो मै नवाब साहीब  
की हजुरी फोज ले सीताब आउगा जी, नही मे मैरा भाई भतीजा नवाब साहीब  
की रकाव मै असा भेजुगा तीसौ नवाब बहोत रजाबंद होयगे अर भीखारीदास  
के चाकरी के दीन नही, दीनो बड़ा हुआ है अब कै महाराजा जी नवाब साहीब  
की हजुरी जोरावरी भेजे थे ईनका भी भाई भतीजा ईनसौ ज्यादा ल्याउगा जी ।  
तब नवाब साहीब फुरमाया जो हम तुम दोन्यो सो बहोत रजाबंद है जेते तुम  
सीताब आवोगे जेता ही हम भला मानैगे । तब नवाब पान दे बींदा कीयां, तब  
सवार हुये राजा सभाचन्द कै डेरै आये तब सरै दरबारी उठी खड़ा रह्या अर  
गदी परी ले बैठां अर बहोत महानंरी करि । कही, जो मेरे बड़े भाग है जो दोन्यो  
हिन्दुस्तान का राजा की सरकार का काम मुसौ वणी आये अर भांती भांती कि  
बडाई डी की, मनहारी करी, सो लीखबा मै न आवै जी, सो बन्दा तपसीलवार  
अरज पहुचावैला जी ।

श्री महाराजाधीराज सलामती । भंडारी का सलुक सौ बन्दा बहोत रजा-  
बन्द रह्या जो अब कै इन्होंने बहोत भला सुलक राख्या । नवाब साहीब के सारे  
मुतसदी असे रजाबन्द राखे जो जीह काम वैई जाय कहे सो करी दीये जी । अर

खत दोन्यो महाराजा नै राजा सभाचन्द लीखी बन्दो को सोपे है अर रुखसद होय डेरे आयै तब घोड़ा २ महाराजा अजीतस्यंघ जी वा श्री.....जी की नजरी नै भेजे जी । अर बहोत ईकलास जीताया जी अर घड़ी घड़ी मैं याही कहैवा कहाय भेजे जो मेरे बड़े भाग है जो मैं राजों की चाकरी मैं पहुची आउ हु अर तुम अब हजुरी को जाते हो अब दोन्यो राजों का उकील मैं हूं । अब जगजीवनदास व गुलाल चन्द जो काम बई मुसों कहेगै सो मे सरजाम धोहगानु म ईहाकी त्रफ हर भाती खात्री जमा राखीयो । फेरी राजा सभाचन्द कही जो नीत्यानन्द तुम्हारा वसे है सो तुम इनको कोई दीन फोज आवता ताई राखी जावो । जो कुच मुझै लीखावण पढावणा होयगा सो ई पासी तुमको लीखाउगा । तुम उसका जवाब लीख्या कीज्यो । तब बन्दे कही जो मैं अब ताई इनको सलाहदा कीया नही है सो अवार तो रुखसद करै पाछे आवैरी सो श्री जी भेजेगै तो फेरी आवैगे । तब फेरि कही जो तुम मेरा कहा माफीक करो—सो माफीक कहै राजा सभाचन्द कँवीजी नीत्यानन्द को राखी आया हू जी ।

श्री महाराजाधीराज सलामती । रुपया १४०० खरच करी गुलाल चन्द हाथी महाराजा अजीतस्यंघ को ले आया सो हाथी कै ठोर ठोर जेहैरे फुटी नकस्यो है । तब पचोली जगजीवनदास बंदे सो कही जो हाथी तीन ओर काढ़े है सो हाथी दोय तो नीपट छोटे है अर हाथी येक अवली सो अवली है । तीस के खरच के रुपया २५०० लागे है । तब बन्दे उस ही घड़ी पचोली जगजीवनदास व गज-स्यंघ खगारोत व रावत स्योस्यंघ व डुगरसी वोदली ने साथी दे रान्यो, राती पचोली जगजीवनदास ने चालायो जो तुम हाथी रात्यो राती ले आवो हमारा ईस ही काम के वासतै मुकाम है । अर ग्यारासै रुपिया लाग्या, हाथी आछया आवे तो क्या मुजाईका है रुपिया ओरठे लागै छै सो वाकी पवे जतो सरकार मैं आछा माल आवे है ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । रुको वजनस्यंघ पचोली जगजीवनदास को बन्दे के नाव आया था सो हजुरी भेज्या है तिसो अरज पहुचैली जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । बन्दा कनै तो खरची मामुर<sup>1</sup> हुई थी सो बन्दो आगे अरज पहुंचाई थी जी जरूरी जाणी भंडारी की मारफती साहूकारा का रुपिया २५०० करज ले जगजीवनदास पासी हाथी का खरच ले भैज्या है । जी भरवा करार किया है, जो खरची सरकार की जोसी स्येभुराम हाथी आवै है तिसमें पहलो कटि देहगे जी । सो मित्ती मिगसर सुदी २ बुधवार ने डेरा नुरमपुर होवेगे जी अर तीज बीसपतिवार ने डेरा रेवाडी होवेगे जी ।

श्री महाराजा सलामती । चालती वर मथुरा की फौजदारी के वास्ते राजा

1. खरची मामुर—घर के लिए सोपा हुआ धन ।

सभाचंद से रदबदल करी । तब राजा सभाचंद कही जो तुम आगरे फौज ले सिताब आवै मै मथुरा जी की फौजदारी महाराजकुमार कानी कै नाम कराई दोहगा । उम्मीदवार हूं जी भंडारी रुघनाथ के नाम व पंचोली जगजीवनदास के नाम परवाना सिताब करे है । मती होय जी, पंचोली जगजीवनदास भला चाकर है सो हमेशा चाकरी में है सरगम रहै है जी सो हजुरी पहुचा सारी अरज पहुंचाई जो जी । मिति मिगसर सुद १ संवत १७६९ सरे असवारी अरजदासती हजुरी चलाई छै जी, जै कोई गौर जावे से लिख्ये होय तो कर सी माहीं ।

श्रीरामजी

श्री महाराजाधिराज सलामती

महाराजा अजीतस्यंघ जी का लसकर सी बाजे जायगा । कागद आये तिनमै लिखा था आप जो किसु के लिखे सो श्री जी सो अरज पहुची जो भंडारी नवाव की हजुरी कही जो राजा जयस्यंघ जी महाराजा अजीतस्यंघ जी के साथी जो इदरस्यंघजी व राजस्यंघजी है तिस भांति ये भी है । सो ईस बात सी खांतरी मुवारक मै गीरा आई । अर महाराजा अजीतस्यंघजी सौ कहाय भेजी जो महाराजा का भुतसदी इस भांत दरवारो मै जाहरी करै सो मुनासब नहीं । ती परी महाराजा अजीतस्यंघ जी भंडारी सो बहुत दुःख पायो ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । बन्दा तो ऐसा चाकर नहीं जो भंडारी इस भांती नवाव को हजुरी अरज करै अर बन्दा चुपका होय वै ठीन है, ज्या बात कहेगे मै आई होय तो मुने श्री महाराजा जी का कदमां की सौगन्द है जी इस बात का तो कही मजकूर ही नहीं जीठै रदवदल हुई जीठै दोनों महाराजा जी की हुई जी जीने यह अरज लिखी है, सो बड़ा हरामखोर सरकार का है ऐसा मुतसदयी को वेमुनासब बदनाम करै तो या बात बहोत हरामखोरी है जी । भंडारी बहोत भला मुतसदी है जी ।

श्री महाराजाधिराज सलामती । बन्दा अर भंडारी ऐता<sup>१</sup> दिन सामील रहेवा नवाव की हजुरी व राजा सभाचन्द के डेरै रहै सो या बात ईनकी जीभ सौ कदै सुणी नहीं जी । बन्दा उमेदवार है जो इनकी तसलै का प्रवानां महाराजा

1. इतने ।

अजीतस्यंघजी व श्री जी का सीताब क रहैमती होय जी, अर खात्री मुबारक मैय सनद आवै तो बन्दा की अरजदासती माहाराजा अजीतस्यंघजी की नजरी गुजरा नै जी जीन इस भांती अरज लीखी है तीनै खीलाई सनदा लीखी है जी ।  
मीती मगसर सुदी २, संवत १७६९ ।

क्रम संख्या १०४

वकील रिपोर्ट संख्या १७०

पोष वदी ८, संवत् १७६६

श्री गोपालजी सहाय छै जी

श्री महाराजाधिराज महाराजा जी

श्री मीरजा राजा जैसिघजी

सिद्धि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानांजाद खाक पाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम वन्दगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला छै । श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, धणी है, श्री परभेसुरजी की जायगा है, म्हे श्री महाराजा जी का खानाजाद वन्दा हां, श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सूं महरवान हैं, श्री महाराजा जी सुख पाव जो जी, पान गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमाव जो जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । सारा समाचार दरवार का आगँ अरजदासत कीया छै सु नजर मुवारक गुजरा होसी जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । रुपया चालीस हजार की हुंडी मोहमसाजी की ईनायत हुई सु पहोची । साहुकार सहर मै रह्या था सु खानांजाद व दुलीचन्द हुडीया सकरावा<sup>1</sup> वासतै दोय दिन सहर मै रह्या अर परवानो खानांजाद नवाजी को हिदवी जमयत हजुर भेजवाने तयार हुई, तीको ईनायत हुवो सु वजनस राजा पास भेज दीयो । राजा नवाव नै दिखायो वैही दीन गुलालचन्द लसकर नै चलो थो सु जोसी सिंभुराम नै गुलालचन्द की साथ भेजो सु गुलालचन्द व जोसी राजा पास गया था, सु राजा कह्यो जु तुमार पास हजुर सूं

---

1. भुनाने ।



रुपया आया सु लावो जमयत सीताब बुलावो, अर नवाब पास ले गयो, नवाब जमयत भीजवाबा की ताकीद वासतै फुरमाई तीकी हकीकति जोसी आगै श्री महाराजा जी हजुर अरजदासत करी है सू नजर मुबारक गुजरी होसी जी । मी० पोस बदि ६ मंगलवार खानाजाद हुंडीया सकराय लसकर मै आयो अर राजा सुं मिलो, राजा कही जु जमयत चलो का परवानां श्री महाराजा जी हजुर सुं ओर भी आया है तो पातसाह हैं ईन के तो जमयत बहोत जमां होयगी, पण जमयत न आई तो नवाब कुं लोग पातसाह जी हजुर नाव धरैगे, तुम सुं नवाब ने खुब करी है तीस सू तुम श्री महाराजा जी हजुर कुं अरजदासत करो जु जमयत सीताब भेजै, यह वकत काम का है इस वकत जमयत आवै तो बड़ा मुजरा है । अर श्री पातसाह जी हजुर नवाब का बोलबाला होय है । तब खानांजाद कही जू नवाब नै सब मतलब कबुल कीये जोसी कुं कोल दीया, तब हम नै श्री महाराजा जी कुं अरजदासत करी जु मतालब सब मनजुर कीया, जी घड़ी जमयत चला की खबर आवै वैही घड़ी सनदं लां तीस उपर जमयत रखसत करी सु परवानां बजनस भेज दिया था, अब सनदं दीजे जु जमयत खुस वकत होय हम जला कर आवै । तब राजा कही—तुम कुं तो नवाब कोल दे चुके मतलब कबुल कीये पण कही जमयत भी है, जीस घड़ी जमयत आवै उस घड़ी सब सनदं लो । भांत भांति का कोल करै है अर कादरीयां ने लिख भेजी, जु लाख रुपया वकील पास पहेच्या थे लीजो । सु रुपया की ताकीद हदसुजादा है ।

सु श्री महाराजा जी सलामत—मतालब तो सब कबुल कीया अर गरजमन्द है जो कहस्या सु करसी, पण जमयत सीतावी आवै तो यांसु सांचा उतरां, जद जमयत चल चुकसी अर दोय तीन मजल आयां की खबर आसी तद सब सनदां कराय लेस्या, अर गरजमन्द थका कर देसी ती सु जमयत सीताब भिजवाय जो जी, ढील न होय जी ।

श्री महाराजा जी सलामत । महाराजा जी श्री अजीत सिघ जी का रुपया की नीसां दाम दाम की होय चुकी अर म्हे अब तक टाला टोली कर आधो काढो, पण ज्यां की नजर रुपयां पर छै त्यांनै पातसाही काम की तथा आपणा काम की पीड़<sup>1</sup> नही, तीसु हजुर सु हुकम आयो थो जु गुलालचन्द का ईतफाक सू दोनुं सरकारां का काम सरंजाम कीजो सु गुलालचन्द की सलाह माफक कर लो, अर पाछा सु अरजदासत कर लो जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । हुकम आयो थो जु विजैसिघ जी को मनसब फराजो अर म्हा का तईनात करा जो ।

सु श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद पास श्री महाराजा जी की मोहर

खास की थैलीयां न छै तीसु मोहर खास की थैलीयां ईनायत होय जुई मुकदमा को खत लिख गुजरा नु जीया हजुर सू ही ई मुकदमा को खत ईनायत होय जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । नुसरतयार खां कै नाव अदम मुजाहमत को परवानो भेजो छै सु नजर मुवारक गुजरसी जी और समाचार जोसी सिभुराम की अरजदासत सुं अरज पहोचसी जी । मी० पीस वदि ८, बुधवार, सवत १७६६ ।

क्रम संख्या १०५

वकील रिपोर्ट संख्या १७१

पोष वदी ११, सं० १७६६

श्री गौपालजी सहाय छै जी

श्री महाराजाधिराज महाराजा जी

श्री मीरजा राजा जैसिघ जी

सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानांजाद खाक पाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम बन्दगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज प्रताप कर भला छै । श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, धणी है, श्री परमेसुर जी की जायगा है, म्हे श्री महाराजा जी का खानांजाद बन्दा हां । श्री पातसाहजी श्री महाराजा जी सू महरबान है । श्री महाराजा जी सुख पाव जो जी, पांन गंगाजल अरोगबा का घणा जतन फुरमाव जो जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । सारा समाचार दरबार का आगै अरजदासत कीया छै सु नजर मुबारक गुजर्या होसी जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत—खानांजाद मी० पोस बदि ६ राजा सभाचन्द पास गयो । राजा कही, जु जमयत कहां ? तब खानांजाद कही जु जमय(त) रुखसत हुई दिन पांच सात मै हजुर आसी । फेर खानांजाद व गुलालचन्द व जोसी सिभुराम नवाब अमीरल उमरावजी पास गया । नवाब सलाम करता ही फरमाई जु तुम नै श्री महाराजा जी का परवानां हिन्दवी जमयत तयार करणे का तुम कुं आंया था सु तुम तो नै दिखाया पण तुम श्री महाराजा जी कुं अरजदासत करो जु जमयत रुखसत करी होय तो वहतर, नहीं तो अव सीताव रुखसत करै, ईस वकत मै जमयत आय पहोचै तो वडा मुजरा है, श्री पातसाह जी हजुर हमारा बोल वाला होय ।

सु श्री महाराजा जी सलामत । यांकै भी जमयत चला का समाचार साहवेग लिख्या पण यांकै जमयत की ईनतजारी घणी छै । जमयत आयां खातर जमां होसी । सु नवाव व राजा सीवाय जमयत मंगावा कै और वात न करै छै । मथुरा जी पहोचता तक जमयत आय पहोचै तो यांकी भांत भांत खातर जमां होय जी । तीसूं उमेदवार छूं जू जमयत चली त्यानै घणी ताकीद सूं हुकम जाय जुं सीताव हजुर आय पहोचै । जमयत आयां पाछै यांकी हर भांत खातर जमां होसी जी । याकै तो लगन जमयत की लग रही छै तीसूं सीताव जमयत आवै जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । महाराजा श्री अजीतसिध जी का मोहमनाजी का रुपया राज<sup>1</sup> का व और मुतसदीयां का दाम पहोच चुका अर सरकार को कही नै दाम ऐक न पहोच्यो अर हुकम ई भात सादर हुवो जु सरकार का मतालव सरंजाम हुवा रुपया दीजो । सु सरकार का मतालव को तो राजा नवाव पास सु कोल दीवायो अर अवै रुपया मांगै अर नवाव जमयत आयां दसखत करसी सो अब तक तो सहलीयत सुं आधो काढो छै जी । मी० पोस वदि १० बीसपतवार नै राजा कै डेरै गया । सु राजा आपके घर खीलवत म ले जाय कही जु नवाव पास सुं तुमारी नीसां तो सब कराई, जमयत आवै तव सनदें लो, अर महाराजा अजीतसिध जी का जु देणा कीया था सु तो हम कुं पहोच्या अर तुम वातों ही मे आधा काढते हो सु नवाव का व हमारा तुम कुं अंतवार होय तो हमारे रुपयों की निसां करो अर हमसूं कावू देखते हो तो हम सुं कुछ कही मत, हम तुम सुं कुछ मांगते न है जिसमें अपणो फायदा जाणो सु करो । सु पातसाही को तो काम तमाम ईसु अर यो मतलवी सु दरवार की तो या सुरत छै । रुपया पहली लीयां विना राजा वात सुणे नहीं तीसूं उमेदवार छू जु सीताव हुकम आवै जुं रुपया दे राजा की रजामंदी हासल करां अर नवाव जू कोल दीया छै त्या कै वासतै वजद होवां जी, जो जुवाव आवा म डील हुई तो अब तक तो आधो काढो छै पण डील हुवां म जोरहतो दीसै नही जी अर ईसी मालूम होय छै जु ईतना रुपया सीवाय भी भंडारीजी रजामंदी करी छै अर महाराजा जी का खत तो आवै ही छै पण आप ही खत लिख जुवाव मंगावै छै । सु अठै तो सारी वात दीयां की छै अर सरकार की तरफ सुं कुछ पोहचो नही सु यांसुं की भांत दवाय कर कहजे जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । खानांजाद नै तो हुकम आयो जु वाकी मतालव रह्या हें सु सरंजाम दे तव सनदां ले रुपया दीजो । सु खानांजाद तो चाहै जु वाकी मतालव सरंजाम हुवा सनद कराय पहली सनदां लू पछे रुपया दुं ।

1. राश सभाचंद ।

अर राजा चाहै जु महाराजा श्री अजीतसिंघ जी का रुपया पहोच्या, अर यांकै टका आया सु यां दाब राखा सु रुपया पहली लूं, जमयत आया काम कर देस्या सुं ई झगड़ा मै खानाजाद ससद रहै जो श्री महाराजा जी की खातर मुबारक मै आवै जु लाख रुपया राजा नै पहली ही दीजे रस<sup>1</sup> राखजे, आपणो कर लीजे जमयत भेजी ही छै मतलब छै कोल माफक कर देसी तो सीताब हुकम आवै जु रुपया दा रस राखां अर राजा तो बिना टका आखा तोता कीसी फेर गयो<sup>2</sup>, जमयत को मतलब नवाब कै छै ईकै तो टका की लग रही छै । सु श्री महाराजा जी सलामत । अबार तो नवाब नै घणा ही टका देणा छै राजा नै तो दे चुकजे अर सब मतलब कीया नवाब नै देस्या जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । हुकम आयो जु जु काम करो सु गुलाल चंद का ईतफाक सुं कीजो सु ओर ईतफाक ऐक ही छै पण दरबार मै यां टका दीया सु हमगीरी जादा अर म्हे आधो ही कांढां छां सु दरबार की बात तो टकां की छै ओर ईतफाक ऐक ही छै जी । मी० पोस बदी ११, सबत १७६६ ।

### श्री रामजी

श्री जी सलामत । अरजदासत खाम चुका था ईतरा मै जोडी श्री महाराजा अजीतसिंघजी की आई तीमै लिखो छै जु जमयत रुकसत करी तीमै सवा सै ठाकुर तो ईसा रुखसत किया छै तांकी महाराजा आय ताजीम करे सु यांकी जमयत की तो खबर आई चुकी छै, अर श्री जी भी जमयत रुखसत करी ही होसी जी, कदाच ढील करी छै तो अब श्री जी सीताब जमयत रुखसत कीजो जी, ईसो न होय जु यांकी जमयत सीताब आण पोहचे पेहली ही आपको मनसब लीयो पहीसा पहली भरा अर जमयत भी आण पोहचे तो भला नहीं तीसु जमयत सीताब भेज जो जी । अर वीजैसिंघजी का मनसब कै वासतै लीखो थो सु थैली मोहर की खानाजाद कनै नहीं तीसु नवाब नै खत जी भांत खातर मुबारक मै आवै ती भांति हजूर सु ही लीख भेजी जे, अर थैली चार-पांच और भेज जे जरूरीयात होसी तो खानाजाद मतलब लीख गुजरान सी जी ।

1. रस—प्रेम भाव ।

2. तोते की तरह घांछें फेर गया ।

श्री गोपालजी सहाय छै जी

श्री महाराजाधिराज महाराजा जी

श्री भीरजा राजा जैसिंघजी

सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानाजाद खाक पाय पंचोली जगजीवनदास लिखत तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला छै श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद राख जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, धणी है, श्री परमेसुर जी की जायगा है, म्हे श्री महाराजा जी का खानाजाद बंदा हां, श्री पातसाहजी श्री महाराजा जी सं महरवान है, श्री महाराजा जी सुख पाव जो जी पान व गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमाव जो जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । सारा समाचार दरवार का आगै अरजदासत कीया छै सु नजर भुवारक गुजरा होसी जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । मी० पोस सुदि ११ परवांना खानाजाद नवाजी का ईनायत हुवा तमाम सरफराजी व खानाजाद नवाजी हुई जी । तसलीमात वजाय लाय सिर चढाय लीयो जी । मजमुन सुं भली भांत वाकफ हुवो जी । हुकम आयो जू सरकार का मतालव राजा सुं वजद होय सरंजाम कराय लीजो ।

सु श्री महाराजा जी सलामत । नवाव तो यो कोल दीयो छै जू जमयत आया मतालवा की सनदां देस्वा सु जमयत तो अब तक न आई वर यांके तो जमयत मंगावा सीवाय कुछ बात नही तीसुं राजा सभाचंद नै नवाव कही तीका व खानाजाद सु व राजा सुं रदबदल हुई तीका समाचार तो आगै दीवान नैनसुखजी का

खत मे लिख्या छा सु अरज पहोच्या होसी जी सुं ती वार तो खानांजाद यां नै कह्यो जु जमयत कै साम्हा आदमी मेल सीताव बुलाय हजुर ले आवां छां जै आवा की ढील होयली तो ही जु खातर मै आदै सु कीजी । सुं वै वार तो जु वणी जु नकस<sup>1</sup> आगरे आया अर नजर ईसी आई वैही विरयां सागं निकसै ।

सु श्री महाराजा जी सलामत । अठा की हकीकत तो पै दर पै अरजदासत करी छै सु अरज पहोची होसी जी । अर अब हुकम सादर हुवो जु उठै ही जमयत राख लीजो, सुं ईतना दीन तो जमयत की उमेद पर आधो काढो अब माफक हुकम कै तलास कीजै छै सु सवार मेला होसी तो भला ही छै पण श्री महाराजाजी नै थोडी बात कै वासतै यां सु रस राखणो मसलहत थो पछै जो बिचारी होसी मु भली ही बिचारी होसी जी । चाकर को काम अरज लिखवा को, अखतीयार खांवद को छै । ओजुं भी कुछ न गयो छै जो ताकीद फरमाय जमयत सीताव भिजवावजे तो भली छै ।

श्री जी महाराजा जी सलामत । चुडामण जाट खानजहां वहादर की तरफ थो सु सात हजार सुवार सु महलो दीयो, तीन लाख रुपया खरच का ईनै दीया, अर खानजहां वहादर को मुजरो हुवो अर आपणी जमयत न आय पहोची तीसु नवाब को बोल खाम आयो जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । गुलालचंद नै परवानो व दीवान नैनसुख जी को खत आयो थो सु दियो, अर खानांजाद नै परवानो सादर हुवो सु दिखायो तीपर गुलालचंद कही जु मनै महाराजा जी को कुछ हुकम आयो नही सु जमयत राख जो अर महलो दी जो अर थानै तो श्री महाराजा जी को हुकम आयौ छै सु माफक हुकम कै जमयत राखो थे जमयत राख सो तो भली बात छै । दोनु साहबां की तरफ सुं सधसी सु मुकंदराम बाकावत नै व अनोपसिघ नै दीवान नैनसुख जी का खत जमयत भिजवाबा कै वासतै आया था सु भेजा अर हिंदुसिघ जी नै दीवान नैनसुख जी की तरफ सुं ईही मुकदमा मै खत लिख भेजो, अर खानांजाद आपकी तरफ सुं भी लिख भेज्या जु सीताव जमयत भेजै अर माफक हुकम कै अठै भी नीगाहदासत करै छै सु जमयत जमा होसी तब ले जाय महलो दे मतालब सरंजाम कराय ले सुंजी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । दुसरो परवानो सादर हुवो तीमै हुकम आयौ जु खीलवत में पछै सु माफक हुकम कै पढ़ खाम कर राखो छै जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । जमना जी पार का साहदरा मै फरखसेर<sup>1</sup> का लोग आय बैठा जी ।

मी० पोस सुदी ११, संवत १७६९ ।

1. निकल ।

2. फरखसियर ।

श्री गोपालजी सहाय छै जी

श्री महाराजाधिराज महाराजा जी

श्री भीरजा राजा जैतिघ जी

सिद्धि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानांजाद खाक पाय पंचोली जग जीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधार जो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला छै श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, धणी है, श्री परमेशुर जी की जायगा है, म्हे श्री महाराजा जी का खानांजाद बंदा हं । श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सू महरवान है । श्री महाराजा जी मुख पाव जो जी पान गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमाव जो जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । मी० पोस सुदी १५ अरजदासत हजूर भेजी है नु नजर मुवारक गुजरी होसी जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । पोस सुदी १५ तीसरा पहर पछे मेह खूल गयो<sup>१</sup> । धूप नीकसी तव फरुखमेर जी सुवार हुवा तद हरकारै मौजदीन<sup>२</sup> नै खवर दी जु फरुखसेर जी सुवार हुवा तद भोजदीन भी सुवार हुवा । दोनु तरफ सु मुकादलो हुवो अर तोबखानां की लड़ाई हुवा लागी ईतरा मै फरुखसेरजी की फोजां दसतरास दसतचप<sup>३</sup> सुं कोता हथयारां फोज मै पैठ गया, अर मौजदीन की फोज

१. बरमात के बादल हट गये ।

२. बादशाह जहांगीरशाह की पराजय (दिसम्बर ३१, १७१२) के पश्चात लिखे गये पत्रों में जहांगीरशाह को मुईजुद्दीन के नाम से सम्बोधित किया गया है ।

३. दसतरास दसतचप (दसत-ए-रास्न दस्त-ए-चप)—दावे एवं धार्ये हाथ की शोर ।



भागी, मोजदीन न मार लीयो अर ऐजुदी<sup>1</sup> नै पकड़ लीयो । लाल कुंवर की व अमीरल उमराव की व खानजहां वहादर की खबर छै जु मारा गया, अर कोई कहै छै जु पकड़ लीया । अर फरुखसेरजी की फते हुई सु मुबारकवादी की अरजदासत व नजर सीताव भेज जे जी ओर समाचार पाछा सु अरजदासत कर सू जी । मी० पोस सुदी 55 सवत् १७६६ ।

। श्री महाराजा जी सलामत । महाराजा श्री अजीतसिघ जी की तरफ सू तो वां लाख रुपया भर दीया अर खानांजाद सरकार का लाख रुपया न भरा अर सरकार की कीफायत की, सु मालूम होयजी ।

### श्री रामजी

। श्री महाराजा जी सलामत । फरुखसेरजी की फते हुई अर सांझा की वीरया छै सु या खबर नही जु मोजदीन भागो या कठै ही छीप रहयो या मारो गयो सु सवार<sup>2</sup> तहकीक होसी सु अरजदासत कर सू जी ।

1. महज्जद मज्जदीन ।

2. सवह ।

श्री गोपाल जी सहाय छै जी

श्री महाराजधिराज महाराजा जी श्री मीरजा राजा  
जै सिधजी

सिधि श्री महाराजाधिराज महाराजा जी श्री चरण कमलानु खानाजाद खाक पाय पंचोली जगजीवनदास लिखतं तसलीम वंदगी अवधारजो जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी का तेज परताप कर भला छै श्री महाराजा जी का सीख समाचार सासता परसाद कराव जो जी । श्री महाराजा जी माईत है, घणी है, श्री परमेसुर की जायगा है, म्है श्री महाराजा जी का खानाजाद बन्दा हां, श्री पातसाह जी श्री महाराजा जी सुं महरवान है श्री महाराजा जी सुख पाव जो जी पान गंगाजल आरोगवा का घणा जतन फरमाव जो जी ।

। श्री महाराजा जी सलामत । माह वद २ खवार साझने अरजदासत चलाई सु नजर मुबारक गुजरी होसी जी । अर जुल्फकारखां का केद कीया का समाचार मालुम हुवा होसी ।

। श्री जी सलामत—माह वद २ पहर रात गया जुल्फकार खां नै तोड़ मारो<sup>१</sup> अर नगर खाना के आगे धड़ जुदो पड़ो है सीर जुदो पड़ो है जी ।

। श्री जी सलामत । मअजुदी<sup>२</sup> ने जहानावाद सु हाथी का खुला होदा उपर केद कर ले आया गला मे तोक, हाथां मे हथकड़ी, पावां में वेड़ी, ई भांत सहर मे सु लीयां आया । हजुर मे ले आया तव गुसलखांना में जीवह कीयो सु नगर

1. दो टुकड़े कर दिये ।

2. जहाँदारगाह ।

खाना आगे हाथी उपर मअजुदी की लोथ<sup>1</sup> पड़ी है, पातिसाहजी मअजुदी ने जीबह कर हुकम हुवो नौबत बजावो सु नोबत बाजै है जी । देखजे अब असफदोला को कांई करै अयजूदी ने कांई करे सो अरजदासत कर सू जी ।

। श्री जी सलामत—आज्मसाही बाजखां चेलो पातिसाहजी के मसालखाना को दारोगो कीयो है, तीने हुकम हुवो मअयजूदी ने व अमीरल उमराव नै जीबह करै सु हुकम मवाफक वे दोनू वानै जीबह कीया जी ।

सं० १७६६ माह बदि २ आधी रात गया बीदा कैया ।

ठाकुर सामसिघजी हसन अली खां ने साझनै मीला बहोत दीलासा करी रदबदल हुई नही वै दरबार सुवार होय गया मअजुदी ने जुल्फकार खां ने मारण के वासतै तीसू ठाकुरा ने रुकसत कर दीया अब सवार रदबदल होय सी सु अरजदासत कर सू जी ।

## Annotations

No. 1 (Vakil Report No. 2)

*Magha Vadi 13, 1748*

January 6, 1692

*Arzdasht* from Vakil Pancholi Megharaj to Maharaja Bishan Singh. After compliments, the writer records the displeasure of the Emperor (Aurangzeb) with the Maharaja on account of his rehabilitating the Jats (in the area controlled by the Maharaja). The Emperor had ordered a reduction of 500 *zat* (unconditional) and 500 *sawars* (conditional) from Maharaja's *mansab* and also that of 65 lakhs *dams* of the *inam*. The *parganas* of Toda Bhim and Chaisu were resumed and subsequently granted to other Mughal *mansabdars* (names given). The Vakil, further, records that the explanation given by the Maharaja about the issue (of rehabilitation of the Jats) has caused more annoyance to the Emperor who has ordered a further reduction in the rank by 500 *sawars*. However, an explanation submitted by the Vakil on the Maharaja's behalf helped in seeking the Emperor's pleasure who has ordered the restoration of the former rank as well as the *inam* on the Maharaja. The Vakil, further, records the favour shown by the Emperor to the Maharaja by granting him *khidmat* (service of *faujdari*) of Mathura and Bayana. Mention is also made of the rebellion raised by Prince Kambakhsh.

No. 2 (Vakil Report No. 3)

*Vaishakha Sudi 8, 1750*

May 3, 1693

*Arzdasht* from Pancholi Meghraj to Maharaja Bishan Singh. It informs that his (the Maharaja's) victory over Baroda fort (Mewat) has been received favourably by the Emperor and that

the Emperor has come to form a good opinion of the Maharaja. On a recommendation made by Muhammad Khan, the Emperor has granted an additional *mansab* to the Maharaja. The writer is hopeful of the grant of the entire region of Mewat and its *faujdari* to the Maharaja.

No. 3 (Vakil Report No. 4)

*Ashadha Vadi 8, 1750*  
June 16, 1693

*Arzdasht* from Vakil Meghraj to Maharaja Bishan Singh. Acknowledging the receipt of the Maharaja's *parwana*, the writer informs him of the restoration of Bayana and 500 *zat* and 500 *sawar* in his rank. Referring to the dispatch of the *parganas* of Hindaun, Toda, Udai, etc., has also been made to the Maharaja and that the order of the assignment of these *jagirs* may reach the Maharaja soon. The writer, further, informs that regarding the grant of the *faujdari* of Mathura and Agra, the Amirul Umara had asked the writer to keep the news a secret. The writer requests the Maharaja to meet the Amirul Umara in order to clarify the misunderstanding and also to secure the grant of a *mansab* for the prince. The writer also furnishes information on the movements of the army of Amber in Hindaun and Bayana and the arrival of Nausheri Khan, the son of Bahadur Khan, at the court and his enrolment in the Mughal service.

No. 4 (Vakil Report No. 5)

*Magha Vadi 4, 1750*  
January 5, 1694

*Arzdasht* from Pancholi Meghraj to Maharaja Bishan Singh. Acknowledging the receipt of two of the Maharaja's *parwanas*, the writer informs about the Emperor's reaction on the question of the assignment of Chatsu to the Maharaja in *jagir*. Reporting his discussion with Shukrullah Khan, the writer mentions his assurance of winning the favour of the Emperor for the Maharaja.

No. 5 (Vakil Report No. 6)

*Jyeshtha Vadi 5, 1753*  
May 11, 1696

*Arzdasht* from Vakil Pancholi Meghraj to Maharaja Bishan

Singh. Acknowledging the receipt of the *parwanas* along with a letter of the Maharaja addressed to the Nawab, the writer notes down the enquiries made by the Nawab regarding the arrival of the Maharaja and the prince (Jai Singh) to the court. The writer requests the Maharaja to attend the court of the Emperor before the onset of the monsoon as it may help the Maharaja to gain favours from the Emperor.

No. 6 (Vakil Report No. 7)

*Bhadrapada Sudi 6, 1753*  
August 23, 1696

*Arzdasht* from Vakil Meghraj to Maharaja Bishan Singh. The writer records his conversation with Nawab Aqil Khan on the question of the Maharaja's march to the Deccan from Mathura. The writer mentions that the Nawab has advised him to convey to the Maharaja the necessity of evacuating Mathura (fort) and of proceeding to the Deccan to attend upon the Emperor.

No. 7 (Vakil Report No. 8)

*Phalguna Vadi 7, 1761*  
February 5, 1705

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. The writer records his surprise at Maharaja's lack-lustre attitude in getting the *naubat* (kettle-drum) from the Emperor. He offers his services in securing the *saranjam* (*jagir*) for the Maharaja. He, further, records his sincerity in seeking favour for the Maharaja. To establish his loyalty and sincerity he mentions that he declined the *mansab* offered to him by the Emperor. Mention is also made to the influence enjoyed by Khoja Muhammad Khan, Hafiz Ambar and Masood over the Emperor.

No. 8 (Vakil Report No. 9)

*Phalguna Vadi 9, 1761*  
February 7, 1705

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Recording the favourable attitude of Mirza Yar Ali Beg towards the problems of the Maharaja, the writer requests the Maharaja to write a letter to him. He, further, informs the Maharaja about the power wielded by Mahram Khan, Hafiz Ambar, and

Miyan Masood at the Emperor's court and that for this reason the writer attends them regularly. He also furnishes information on the nature of conflicts between the Mughal army and the Marathas, etc.

No. 9 (Vakil Report No. 10)

*Shravana Vadi 5, 1762*  
June 30, 1705

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Revealing the misdeeds of Vakil Keshodas, who was appointed Vakil by the Maharaja four years ago, and the inability of his son to secure any favour for the Maharaja from the Mughal court, the writer reports that the *diwan* and the *bakhshi* have been reduced to an insignificant position and the actual power at the court is now wielded by Khoja Khidmatgar. Further, recording the examples of the power and influence enjoyed by Khoja, the writer highlights his close association with him and assures the Maharaja of the court's favour. The writer requests the Maharaja to give him a chance to prove his ability and appoint him his Vakil at the court if he finds his work satisfactory.

No. 10 (Vakil Report No. 11)

*Margashirsha Sudi 7, 1763*  
December 1, 1706

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Acknowledging the receipt of the *parwana*, dated *Kartik Sudi 4*, and expressing his gratitude to the Maharaja for appointing him the Vakil, the writer assures him of his devotion to Maharaja's cause at the Mughal court, etc. Regarding the affairs of the court, the writer informs about the receipt of Maharaja's letters for Mirza Sarfuddin and Mirza Yar Ali Beg and requests the Maharaja to put his seal on such letters in future. Further, he informs about the arrival of the Marathas in Gujarat and the dispatch of the imperial army. The writer also states that *pargana Chatsu* has been assigned to the Maharaja. Regarding the request of the Maharaja for the *pal-baqi* of Ajmer, the writer informs the Maharaja about the confirmation of its grants, though a conditional one.

No. 11 (Vakil Report No. 12)

*Phalguna Sudi 1, 1763*  
February 20, 1707

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Informing about the death of the Emperor (Aurangzeb) on Friday, *Phalguna Sudi 1*, and the activities at the Mughal camp, the writer requests the Maharaja to send him more money. He acknowledges the receipt of a *hundi* sent to him by the Maharaja.

No. 12 (Vakil Report No. 13)

*Vaishakha Sudi 10, 1764*  
April 11, 1707

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Mirza Raja Jai Singh. Mentioning the dispatch of his earlier *arzdasht* in which his meeting with Nursrat Jung was recorded, the writer congratulates the Maharaja on the grant of the title of *Mirza Raja* and the *mansab* of seven thousand *zat* and *sawar* which was procured through the Amirul Umara on the promise of paying him Rs. 50,000. Regarding the request for the grant of *watan*, the writer says that the same would be done within two days. Expressing the problem in securing credits, the writer requests the Maharaja to send money. Stating that an *arzdasht* containing detailed account would be sent later, the writer records the grant of five thousand *zat* and *sawar* to the son of Maharaja Ajit Singh. The title of Maharaja along with the rank of seven thousand *zat* and *sawar* has been granted to Ajit Singh after giving an assurance of paying one lakh of rupees to the Amirul Umara.

No. 13 (Vakil Report No. 15)

*Chaitra Sudi 1, 1767*  
March 20, 1710.

*Arzdasht* from Bhandari Khivsi, the Vakil of Maharaja Ajit Singh, to Maharaja Jai Singh. Referring to the dispatch of the two *nishans* written in Persian—one to Maharaja Jai Singh and another to Maharaja Ajit Singh, the writer informs that the Emperor desires that the Maharajas should reach the court to attend upon him.



He informs that the letter of Nawab Mahabat Khan and the *arzdast* of Mahammad Yar Khan have been sent to the Maharaja and that Bijay Singh with his *harem* was invited at Diwan Dayaram's palace for a meeting. The writer records the details of the presents given to Dayaram by Bijay Singh. Further, he records the writing of an agreement of Rs. 5000 to Rai Bhagwant in order to meet the expense of the *biradari*, writing of a letter to Nawab Mahabat Khan for Rs. 75,000, the writer's demand of an *hundi* amounting to Rs. 25,000, the issuing of the Padshah's *hasbulhukm* and the departure of the messengers to the rulers of hilly regions in order to capture the Guru (Banda Bahadur) and the reply of the Rajas in this regard, etc.

No. 19 (Vakil Report No. 22)

*Magha Sudi 7, 1767*

January 15, 1711

*Arzdasht* from Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. The writer informs that the Badashah's two *hasbulhukms* relating to Mulpura and Sarwad have been issued to Maharaja Jai Singh and Maharaja Ajit Singh through Hakim Saleemji and that prince Azimush Shan has also informed the writer and Bhandari about them. The *mutasaddis* have been asked to act according to the order of the Prince. He informs the Maharaja of his (writer's) duty to present the letter of agreement of the *mutasaddis* of Raja Raj Singh to the Prince.

No. 20 (Vakil Report No. 35)

*Magha Suci 7, 1767*

January 15, 1711

*Arzdasht* from Bhandari Khivsi to Maharaja Jai Singh. Referring to his earlier *arzdast* informing about their meeting with the Khan-i-Khanan and Mahabat Khan, the writer records about their (Bhikharidas and the writer) meeting with Prince Azimush Shan through Nawab Mahabat Khan and the submission to him (the Prince) the *arzdast* (on behalf of their Rajas) with the request of confirming the obedience of their Rajas to the Emperor. Further, the writer informs the Maharaja of the enquiries made by Azimush Shan and Mahabat Khan about

the arrival of the Rajas at the court if the assignment of Kabul is kept in abeyance. In response to this the writer mentions about the assurance given to the Prince by them for the arrival of the Rajas at their earliest. The writer submits that the Maharaja should not be worried at this end as they are doing their best to safeguard the interest of the Maharaja.

No. 21 (Vakil Report No. 36)

*Magha Sudi 11, 1767*  
January 19, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Acknowledging with gratitude the receipt of the *parwanas* sent by the Maharaja and referring to the orders therein, the writer informs that he is doing his best to appease Rai Bhagwant and that he shall pay him (Rai Bhagwant) the same amount as it is paid by Maharaja Ajit Singh. He also reports that he will get a letter of Rs. 75,000 from *vyapari* Tamsukh in favour of a person as desired by Nawab Mahabat Khan. Mention is also made of the matter relating to the employment of a relative of Rai Bhagwant in the service of the Maharaja, the request to send Rs. 25,000 of Mahabat Khan, the problems pertaining to the appointment of the Maharaja at Kabul and Maharaja's instructions about the dispatch of the *arzdasht* written in Persian and Hindvi.

No. 22 (Vakil Report No. 23)

*Magha Sudi 11, 1767*  
January 19, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Referring to the dispatch of his earlier *arzdasht* dated *Magha Sudi 3* (January 10), the writer records the affairs of the departure of the family of Bijai Singh to Hindaun and the trouble caused to the entourage of the Maharaja due to incessant rains. Regarding the affairs of the Guru (Banda), the writer states that he has left the territory of the Raja of Nahan and has gone to the territory of other Rajas, and that on the pleading made by the mother of the Raja of Nahan the followers of the Raja of Nahan and the Raja Saraja went in his pursuit who was staying at *guru-ke-khohal* where a battle was fought and as the background area was surrounded by the snow-hills the Guru

would not be able to escape. There were rumours of his capture though others contradict the news. Further, mention is made of the position of Rustam Dil Khan at the court, the matters relating to Raja Raj Singh of Roopnagar and the issues of Mahaja Jai Singh and Ajit Singh in relation to *nishans* and *hasbul hukms* issued from the court, the affairs of the *pargana* of Mauzabad, the appointment of Nawab Khan-i-Jahan Bahadur as *subedar* of Bengal, etc.

No. 23 (Vakil Report No. 24)

*Magha Sudi 15, 1767*

January 23, 1711

*Arzdasht* from Bhandari Khivsi, the Vakil of Maharaja Ajit Singh, to Maharaja Jai Singh. Recording his meeting with the Emperor, the writer informs the Maharaja of the queries made by the Emperor about the arrival of the Maharajas at the camp and requests him (Jai Singh) to reach the court immediately. Further, referring to his (Maharaja Jai Singh's) letter written to the Nawab Khan-i-Khanan, the writer submits that the Maharaja should have written about his arrival only and should not have implicated Maharaja Ajit Singh in explaining his delay in appearing at the court.

No. 24 (Vakil Report No. 25)

*Phalgura Vadi 4, 1767*

January 27, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Referring to the *arzdasht* of *Magha Sudi 11*, the writer records the nature of destruction caused to the Maharaja's entourage due to rains. Regarding his visit along with Bhandri Khivsi to the Nawab Khan-i-Khanan, the writer mentions their meeting with Khawas Khan (Miyan Maroof) who showed his unhappiness by passing the remark that their rulers have gone away from the path of their respective fathers & grand-fathers. Further, he adds that on *Magha Sudi 14*, the Emperor was informed that the mother of the Raja of Nahan accompanied by the Guru was stationed at a distance of 12 *kos* from the imperial camp & that the Emperor has asked Mahabat Khan to bring the Guru to the court. Regarding the issue of *sanads* to Maharaja Ajit

Singh and Maharaja Jai Singh, the writer mentions the efforts of Bhandari and that he himself had reported that it was promised to pay Rs. 75,000 in the name of the expenses of the office, Rs. 25,000 to the Nawab and the outstanding dues of Bhagwant Rao to secure the *sanads* of the *biradari*. Without this the *sanads* would not be issued. The writer requests that since no *vohra* is ready to lend money, the Maharaja should send money through *hundi*. Further, mention is made of the affairs of *pargana* Mauzabad and the order of the Emperor to make an ornament worth rupees one lakh for the mother of the Raja of Nahan.

No. 25 (Vakil Report No. 26)

*Phalguna Vadi 4, 1767*  
January 27, 1711

In continuation of the earlier report, Bhikharidas records the account of the presents made to Nawab Khan-i-Khanan and Mahabat Khan by Bhandari and the writer. Further, he gives a detailed account of the activities of Bhandari, the Vakil of Ajit Singh, at the court for protecting the interests of the Maharajas including the grant of the *subas* of Malwa and Gujarat to them, and the issuing of the *sanadas* as well as the arrangement of Rs. one Lakh for the Nawab.

No. 26 (Vakil Report No. 27)

*Phalguna Vadi 13, 1767*  
February 4, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Referring the dispatch of his earlier *arzdasht* of *Phalguna Vadi 4*, the writer records the progress of the Emperor's movement the appointment of Shah Nawaz Khan as *bakhshi*, the suspension of the court of Nawab Khan-i-Khanan and Mahabat Khan for last three days due to ill-health, the demand of the money by Nawab Mahabat Khan and Rai Bhagwant & the affairs of the *ijara* of Mauzabad. Further, the writer informs that his request for the *kotwali* of Pura Shahjahanabad has been accepted. Mentioning about his illness, the writer informs that as per the *arzdasht* of the mother of the ruler of Nahan, the Guru was yet to be imprisoned and that he has been surrounded by the army of Nahan but nothing could be done due to snow-fall. It

is said that he (the Guru) is well equipped and therefore his capture is out of question. It is also being said that he has already escaped and his followers are making false pretention. The writer adds that nothing is definite about the direction of the Emperor's campaign as his movements are uncertain. Further, mention is made of the writer's association with Bhandari in the court activities, the request of the writer to issue *sanad* for the writer's garden in Amber, the movement of the Emperor, etc.

No. 27 (Vakil Report No. 29)

*Phalguna Sudi 2, 1767*  
February 8, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Recording the dispatch of an *arzdasht* dated *Phalguna Vadi 13*, containing the details of the political affairs, the *diwan* informs about the departure of prince Jahandar Shah for hunting, the rumour about the possibility of Jahandar Shah's visit to Panipat, the *jagir* of Kokaltash, the march of the Emperor on *Phalguna Vadi 14*, the illness of Nawab Khan-i-Khanan, the grant of *siropao* and a horse to Chudaman Jat who was called through Bijai Singh, the recommendation made by Chudaman Jat about Kisan Singh Naruka, the acquisition of *pargana* Khohri on *ijara* by Bijai Singh and Rustam Dil Khan jointly and the adjoining *pargana* of Agra on *ijara* by Chudaman Jat, etc. It is added that the affairs of the Jats have been managed so badly which can hardly be described. Regarding the news about the Guru at the court, it is informed that he has escaped to the hills of Bhunttar after giving a fight to the followers of the Raja of Nahan and the Emperor is also moving in the same direction. Also records the visit of prince Azimush Shan to the camp of the Khan-i-Khanan and the visit of Bhandari and his own to the Khan-i-Khanan.

No. 28 (Vakil Report No. 28)

*Phalguna Sudi 2, 1767*  
February 8, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Informs that Bhandari and other Rathors had told that they, of their own, would take over by force Gujarat and Malwa for

Maharaja Ajit Singh and Maharaja Jai Singh respectively, and that they had called the writer (Diwan Bhikharidas) and wanted his consent. The writer after recording the details of his conversation with Bhandari Khivsi, mentions that although Bhandari has stopped talking in that kind of language yet the Rathors keep on talking about their strength and weaknesses of the Emperor. The writer requests the Maharaja to inform him about the movements of Maharaja Ajit Singh. Mention is also made of the grant of *mansab* to Mohkam Singh, the conversation that took place between Mirza Rustam and Rao Sakat Singh of Manoharpur, reminds the Maharaja about the money to be paid to Mahabat Khan and Rai Bhagwant, etc.

No. 29 (Vakil Report No. 37)

*Phalguna Sudi 2, 1767*

February 8, 1711

*Arzdasht* from Vakil Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Informing about the delivery of the Maharaja's letter to Amirul Umara through Diwan Bhikharidas, the writer requests the Maharaja to attend the court without any further delay as the Nawab Khan-i-Khanan was very insistent about it. States that the health of the Nawab Khan-i-Khan is better and that no definite news is available of the where,abouts of the Guru. A *pinjra* (an iron cage) has been made to keep the Guru in it. The writer, further, requests the Maharaja to reach the court immediately & if there is delay in the arrival of Ajit Singh he should come alone. The writer requests the Maharaja to send him money as he is facing financial problems due to the non-receipt of his salary for the last eight months.

No. 30 (Vakil Report No. 38)

*Phalguna Sudi 3, 1767*

February 9, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Informs the Maharaja about the visit of Bhandari and of his own to Nawab Khan-i-Khanan and their meeting with Nawab Mahabat Khan. The latter had made an enquiry from Bhandari

about the progress of Maharaja Ajit Singh's march towards the Mughal court. On hearing the reply of Bhandari that his Maharaja shall reach soon, the Nawab got angry (as such assurances are quite common) and went to meet the Khan-i-Khanan (Munim Khan). Later, both Bhandari and the writer went to see Hakim Salim who asked them to see him the next day to receive the *nishans*. The writer records their meeting with the Prince (Azimush Shan) about the withdrawal of the order of the appointment of the Rajas to Kabul and informs that the Prince has agreed to do so, a *nishan* to that effect would be sent to the Maharaja as soon as it is issued. The writer also informs about the appointment of Rustam Dil Khan as the *daroga* of the Deccan and the grant of Sambhar and Merta to him as *jagir*, and also the efforts made by the writer in cancelling the orders issued in favour of Rustam Dil Khan.

No. 31 (Vakil Report No. 30)

*Phalguna Sudi 4, 1767*  
February 10, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Informs about the visit of Bhandari and his own to the camp of Nawab Mahabat Khan and the deliberations that took place with Shah Qudratullah Khan and Nawab Mahabat Khan about the possibility of the arrival of the Rajas at the court. Recording the demand made by Rai Bhagwant about the money, the Diwan requests the Maharaja to arrange an early dispatch of *hundi* and also mentions the suggestions of the Nawab that the writer should get the money from the traders after pawning the ornaments for which the writer needs the permission of the Maharaja.

No. 32 (Vakil Report No. 39)

*Phalguna Sudi 5, 1767*  
February 11, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Referring to his earlier *arzdashts* and acknowledging the receipt of the four *parwanas* in Persian, reached him on *Phalguna Sudi 3*, he records in details the actions taken as per orders in each *parwana* on payment of money to *khahawats*, request for the dispatch of *hundis* for the money which is to be paid to the

Nawab and Bhagwant Rai as the Nawab is persistently demanding the money. Further, reports that when the *parwanas* were showed to him he said that such *parwanas* had no meaning and his money has to be paid before the *sanad* to the *biradari* is issued, the false reporting made by the messenger to Mahabat Khan, and the payment of Rs. 60 to Muhammad Saleh as instructed by Shah Qudaratullah. The writer mentions the departure of the Prince Rafiul Qadar for hunting, his visit to Nawab Khan-i-Khanan, the visit of Bhandari and the writer to Mahabat Khan, where they got the rews about the recent orders issued to Mahabat Khan by the Emperor to attend upon Munim Khan, the state of health of the Nawab Munim Khan.

No. 33 (Vakil Report No. 40)

*Phalguna Sudi 12, 1767*  
February 19, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to the Maharaja. After expressing his gratitude to the Maharaja, the writer records the state of Khan-i-Khanan's health and the appointment of Mahabat Khan to look after Khan-i-Khanan. Records the grant of Didwana and Sambhar to Rustam Dil Khan, the summon to Bhandari and Diwan Bhikharidas by Mahabat Khan, warning them about the consequences if the Rajas fail to attend the court; reports that for this Mahabat Khan had taken *muchalka* (bond) from Bhandari and Diwan Bhikharidas. Further, informing the Maharaja about the dispatch of the *nishan* of Azimush Shan and a letter of the Nawab, requests the Maharaja to reach the court without further delay reminding him that Ajit Singh on account of his strength can afford to ignore the call for personal attendance in the court, but the same is not applicable to the Maharaja (Jai Singh). Recordings are made of the grant of *pargana* Idar to Rathor Durgadas, the reduction of 500 *zat* (in the *mansab*) of Indra Singh and an increase of 500 *zat* and 500 *sawars* (in the *mansab*) of Kunwar Mohkam Singh, the restrictions imposed upon the Hindus, the state of affairs of *pargana* Mauzabad which is to be acquired on *ijara* etc. Further, explaining his pitiable financial condition, the writer requests the Maharaja to send money due against his services performed at Lahore and Peshawar.



No. 34 (Vakil Report No. 32)

*Chaitra Vadi 8, 1767*

March 1, 1711

*Arzdasht* from Vakil Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Acknowledging the receipt of the Maharaja's *parwana*, the Vakil records that he (the Vakil) would dispatch the *hasbul hukm* and a letter from the Amirul Umara to Daud Khan about handing over the possession of the *pura* of Aurangabad (to the agents of the Maharaja) as per the *parwana* issued to Diwan Bhikharidas. Mention is also made of the meeting with Azimush Shan. The writer informs that the *farman* is under preparation and its details would be given in the letters of Diwan Bhikharidas and requests the Maharaja to send letters of congratulations to Hidayatullah Khan and his father Inayatullah Khan. Furnishing details of the two groups of the princes favouring their own candidates for the post of *wazir*, the writer informs that there is little possibility of appointment to this office in near future. The Vakil reminds the Maharaja for the payment due to the Mughal state and requests him to give a kind consideration to the same.

No. 35 (Vakil Report No. 34)

*Chaitra Vadi 13, 1767*

March 6, 1711

*Arzdasht* from Vakil Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Acknowledging with gratitude the receipt of Maharaja's *parwana* according to which Panapur is to be taken on *ijara*. the Vakil informs that the contents of the *parwana* were read before Nawab Mahabat Khan who said that it was an inopportune time for such request and the same could be made to the Emperor when the Rajas reach close to the imperial court. Further, the reporting is made about the instructions issued by Hidayatullah to the *mutasaddis* of *dawwab* on *Chaitra Vadi 11* and informs the Maharaja about the effects of such instructions if they are carried out without making any consideration to the traditions and the reactions of the vakils of the *mansabdars*, etc.

No. 36 (Vakil Report No. 41)

*Chaitra Sudi 5, 1768*  
March 13, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Informing that the Emperor had ordered Mahabat Khan on *Chaitra Sudi 5* to present *siropao* to the *mutasaddis* of the Rajas and asked them to call their Rajas immediately. He adds that they have assured the Emperor about the arrival of the Rajas. Recordings are made of the Emperor's march towards Lahore after hearing the news of the rebellion of the Sikhs, advises the Maharaja to reach the court at this opportune time, communicates the feeling of the nobles that the Rajas should not delay their arrival at the court, etc. The complaint of Mahabat Khan is recorded about the delay in the payment by the Rajas with the request to send money immediately so that the purpose of the *biradari* is served and grant of villages in *pargana* Naraina to Bhagwant Singh Khangarot, etc. is also mentioned.

No. 37 (Vakil Report No. 45)

*Chaitra Sudi 9, 1768*  
March 17, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Informs that the Emperor has asked prince Rafush Shan to inform Prince Jahandar Shah of getting himself ready to march towards Lahore to destroy the Guru. The final decision has yet to be taken on this subject. The writer records the Emperor's decision to keep Bhauvpati, the Raja of Nahan, in the iron cage prepared for the Guru. Mention is also made of the uncertainty about the programme of the Emperor's movements, problems relating to the Maharaja's letter to Mahabat Khan, the affairs of Merta, etc.

No. 38 (Vakil Report No. 43)

*Chaitra Sudi 15, 1768*  
March 23, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Referring to the dispatch of an *arzdasht* of *Chaitra Sudi 12*, the writer informs about the departure of the Emperor to Lahore taking the route of Sirhind on *Chaitra Sudi 14*. Further, he informs about the dispatch of the Emperor's *farman* to the

Maharaja, the problems relating to Shujat Khan, the details of the conversation that took place between Mahabat Khan and the writer on the submission of the Maharaja's demands before the Emperor. Mentioning the Emperor's order about the departure of the Raja of Nahan to Delhi, the writer submits that the Maharaja's should take the advantage of the situation caused by the Guru and reach the Mughal court immediately.

No. 39 (Vakil Report No. 49)

*Vaishakha Vadi 11, 1768*

April 2, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Acknowledging the receipt of four *parwanas*—three in Persian and one in *Hindvi*, the writer informs about the following up actions taken by him as per orders given in the *parwanas* relating to the payment of *dawwab*, dispatch of the *nishan* and *hasbul amar*, possibility of Maharaja Ajit Singh's arrival at the court and the problems of taking *pargana* Mauzabad on *ijara* by providing the security of the *sahukar*. He mentions about the receipt of two *parwanas* written in Persian, and records progress of his work in respect of the orders contained in the two *parwanas* concerning the departure of Maharaja Ajit Singh and Jai Singh towards the imperial court. Information is also given regarding the movements of the Emperor, grant of *siropao* to the writer by the Emperor, etc.

No. 40 (Vakil Report No. 48)

*Vaishakha Sudi 1, 1768*

April 7, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Stating that he has not received the Maharaja's *parwana* for sometime, the writer informs the Maharaja that Inayatullah Khan, the *Khan-i-saman*, and his son Hidyatullah Khan, the *Diwan-i-Khalisa-o-Jagir*, enjoy the position next to the Khan-i-Khanan at the Emperor's presence, and that they had called the writer and convinced him that their Rajas could depend on them to seek favour from the Emperor instead of Mahabat Khan who has proved himself undependable by betraying the Raja of Nahan. Giving a detailed description of the conversation with them, the writer informs that no positive change would be

made in their association at the court till they receive the order from the Maharaja. Further, he records the recommendation made by the Amirul Umara regarding the *puras* of Aurangabad and the objection raised by the vakils of all the *umara* jointly regarding the imposition of *dawwab* and the action taken by Hidayatullah Khan, etc.

No. 41 (Vakil Report No. 51)

*Vaishakha Sudi 11, 1768*  
April 18, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Informing about the dispatch of his *arzdasht* dated *Vaishakha Vadi 13*, and the receipt of the two *parwanas* of the office of *diwan*, the writer records that as per order given in the first *parwana* the amount of *dawwab* was to be deducted from the revenue of *pargana* Bahatri and Mauzabad. He informs the Maharaja about the reactions at the court and as a result of this order the situation faced by the vakils of the *umara*. Regarding the order given in the second *parwana* about the grant of *pargana* Bahatri as six monthly *jagir*, the writer reports that he had represented his case before Mahabat Khan requesting him that *pargana* Bahatri be given as four monthly *jagir* as it was done in case of Merta of Ajit Singh and he confirms that Merta has also been granted as six monthly *jagir*. Recordings are also made of the arrival of the Raja of Nahan at Delhi, the receipt of a *hundi* amounting Rs. 950, the rumours about the appointment of *wazir*, activities of Bijay Singhji, movement of the Emperor, the prominence gained by Hidayatullah Khan at the court, request to arrange the payment to Nawab Mahabat Khan, departure of Raja Chhatrasal against the Marathas, the enquiries made at the court about the arrival of the Rajas, the assurance by the Emperor to award them (Rajas) high honours if they appear at the court, problems relating to the settlement of *dawwab*, etc.

No. 42 (Vakil Report No. 52)

*Jyeshtha Vadi 5, 1768*  
April 26, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Informs about the departure of the Emperor towards the river Sut-

laj. Mention is made of the event caused due to the madness of Amin Khan's elephant in which Amin Khan was injured, the favour shown by the Emperor to Mahabat Khan, the establishment of a *chhawani* (military camp) named Jahangirpur which was of strategic importance as it was close to Shahjahanbad and from there movements of the Guru could be checked effectively who was active in the regions of Lahore, the arrangement to be made for the payment of the *dawwab*. The writer requests the Maharaja to entertain the receipt of *jama-khurch*. It is also stated that Bhandari and the writer visited Nawab Bahadur Khan and submitted the request of Ajit Singh about the withdrawal of the *nishan* relating to Kabul and that with the help of Bahadur Khan the *nishan* and *hasbul amar* have been prepared and handed over to Bhandari. The writer makes a request that the Maharajas should present themselves at the court as this was a right time to get favour from the Emperor and to establish their reputation at the court.

No. 43 (Vakil Report No. 59)

*Ashadha Vadi 8, 1768*  
May 28, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Recording the dispatch of his earlier *arzdasht* dated *Jyeshtha Sudi 11*, the writer gives on account of the encounter of Hamid Khan Bahadur with the Guru and reaction of the Emperor to the defeat of Hamid Khan, the Emperor's march against the Guru, and the Emperor's order to grant the *tika* to Maharana Sangram Singh as per tradition. He, further, states the affairs relating to *pargana* Mauzabad, the problems relating to the settlement with *raiyyat* at the garden of Peshawar, the problems of recovering the articles of Nawab Mahabat Khan taken away by some one at Mauza Dhegaria of *pargana* Dausa, problems of *dawwab*, etc.

No. 44 (Vakil Report No. 66)

*Shravana Vadi 5, 1768*  
June 24, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Referring to the receipt of the *parwana* and the instructions contained therein about the dispatch of *arzdashts* only

in *Hindvi*, the writer expresses his compliance to the order. Further mention is made about the willingness of Hidayatullah Khan to liaison work for the Maharaja. The writer reports that Hidayatullah and his father play very important role in the decision making at the court, he (the Vakil) has started attending upon them regularly and that he also discusses with Bhandari and Diwan Bhikharidas such matters. Further, recordings are made about the settlement of *dawwab*—which is also looked after by Hidayatullah Khan, the events leading to the degradation of Mahabat Khan, the disturbance raised by the people employed in the artillery of *Karabakshashia* due to the non-payment of their salary, the increment made in the *mansab* of Hidayatullah Khan, the assignment of Sambhar, Bairath and Singhana in *jagir* to the Khan-i-Khanan, the departure of Raja Udat Singh to his *desh*, the grant of *faujdar* of Busawar, Hindaun and Toda Bhim to Firozmand Khan, the brother of Firoz Khan Mewati, the grant of seventy lakh *dams* from *Pargana* Lalsot formerly held by Dildar Khan, etc. made in favour of the *biradari* of Abdullah Khan. The writer requests the Maharaja to wait for a few days at Kurukshetra on his way to the court which would help him to get *jagir* for the *biradari*.

No. 45 (Vakil Report No. 63)

*Shravana Sudi 3, 1768*

July 7, 1711

*Arzdasht* from Vakil Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Recording the details of crossing the river Vyas by the Emperor's army as well as the contingents of the princes, the writer informs that the Emperor has desired that the Rajas could move slowly due to rain. The writer explains the motives of the Emperor in issuing this order. Further, the information is provided about the activities of the Marathas in Malwa, the problems faced by Raja Udat Singh, the affairs of the grant of *jagir* to Cheemaji with a request that sufficient money may be provided to meet the expenses of the court, the movement of the Guru, etc.

No. 46 (Vakil Report No. 69)

*Shravana Sudi 13, 1768*

July 16, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. States that Diwan Bhikharidas and he himself had a meeting with the Nawab on *Shravana Vadi 11*, the proceedings of which would be conveyed by the former. Mention is made of his (the writer's) meeting with Hidayatullah Khan who showed his willingness to favour the Maharajas, the reservations of Bhandari and Bhikharidas about following the advise of Hidayatullah Khan till they receive orders from the Rajas, the suggestion of the writer to the Maharaja to establish contacts and cultivate relations with Hidayatullah as he wielded tremendous influence in the imperial court and that he has been given the office of *diwan*, the personal financial problems the writer is facing at present with the request that the Maharaja would be kind enough to do the needful.

No. 47 (Vakil Report No. 77)

*Bhadrapada Vadi 5, 1768*

July 23, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Acknowledging the receipt of the *parwana* delivered through Gaj Singh Khangarot and Sindhi Manohardas regarding the procurement of *parganas* on *ijara*, he informs that the progress made in this respect would be conveyed to you by them. Mention is made of the conversation that took place between Bhandari Khivsi and Nawab Bahadur Khan, the problems regarding the meeting with Hidayatullah, the matter relating *sanad* issued for the *mansab* of the *biradari* which have already been prepared in case of Maharaja Ajit Singh. The writer requests to clear his dues of Rs. 2000 which was to be paid from the revenue of the *puras* of Lahore and Peshawar.

No. 48 (Vakil Report No. 72)

*Bhadrapada Vadi 11, 1768*

July 29, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Acknowledging three *hundis* amounting to Rupees 450, the writer informs about the situation which led the Emperor to

the Rajas to proceed to Sadhaura stka directly instead of appearing before the Emperor. The writer shows his satisfaction about the Emperor's order as they (the Rajas), particularly abaraja Ajit Singh, were not willing to appear in person before the Emperor. Further, requesting the Maharaja to reach Sadhaura, he records the departure of Raja Udat Singh to his *desh*, the *jagirs* of Cheemaji & Bharat Singh of Shahpura, the problems faced by the Rajas's officials at the court due to non-payment of money to the court officials—which may have caused great damage to the interests of the Raja, the affairs of *pargana* Chatsu and Jai Singhpura of Delhi, etc.

No. 47 (Vakil Report No. 83)

*Bhadrapada Vadi 13, 1768*  
August 1, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwanads informing about their meeting along with Shah Qudratullah with prince Azimush Shan who was requested to ask the Rajas to proceed towards the Deccan. Giving details about the conversation with the Prince, the writer suggests that their demand would be considered favourably only after they reach Dabar.

No. 50 (Vakil Report No. 80)

*Bhadrapada Sudi 9, 1768*  
August 11, 1711

*Ardasht* from Pancholi Jagjiwandas to Mabaraja Jai Singh informing that Ghazi Khan Bahadur entitled Rustam Dil Khan Bahadur, who was imprisoned and kept at Lahore Fort on *Bhadrapada Sudi 8*. Earlier he was ordered by the Emperor to proceed against the Guru along with ten thousand *sawars*. Muhammad Amin Khan, many *faujdar*s and *zamindar*s were also instructed to get ready for the action against the Guru. Recording the escape of the Guru towards Dabar & the failure on the part of Amin Khan and the defeat and imprisonment of Ghazi Khan, the writer informs that Amin Khan is in pursuit of the Guru. He suggests that if the Maharaja wishes he could capture the Guru and if he does so at this juncture he will get high reward. Further, mention is made of the deliberations that took place at Hidayatullah's camp, the affairs of Lahore, the application made by Gaj Singh and Shah Manohardaz for procurement of *parganas* on *ijara*.



No 51 (Vakil Report No. 81)

*Bhadrapada Sudi 11, 1768*

August 13, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Reporting their meetings with Nawab Bahadur Khan and the Prince and their deliberations, the writer informs that nothing could be achieved unless the Rajas reach Dabar from Jahanabad and that only after reaching there they could win the favour of the Emperor and get *izafa*, *jagir* and other profitable favours. The writer hopes the *faujdari* of the frontier region from Delhi to Lahore may also be granted to the Maharaja. Mention is also made of the affairs of Ghazi Khan, the outcome of the application for the procurement of the *parganas* of Gazi-kathana, Tejpur and Lalsot on *ijara*, the tradition of payment to the *chobdar* working at the court and its importance to the Maharaja, etc.

No. 52 (Vakil Report No. 90)

*Ashwina Vadi 8, 1765*

September 24, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh, stating about the dispatch of a *nishan* of Prince Azimush Shan informing that they (the Rajas) could directly proceed (to the Deccan) from Sadhaura without attending the court. In this light the writer advises that they should reach Sadhaura. Mention is also made of the grant of Chatsu, Dausa and that the *taqfif* would be considered only after the Rajas proceed from Narela, the reporting about the confiscation of the *jagir* from Cheeraji as a result of the report received from *vaqta-navis* and the grant of *pargana* Toda Bhim, etc. to others in *jagir*, the affairs of reading the Emperor's *khutbo* at Lahore, etc.

No 53 (Vakil Report No. 92)

*Ashwira Vadi 11, 1765*

September 27, 1711

Pandit by Bahadur Khan and Prince Azimush Shan, the dispatch of *Hindvi nishan* to Raja Shiv through him and his programme to go back to the Deccan and an account of the financial problems of the writer himself.

No. 54 (Vakil Report No. 94)

*Ashwina Vadi 14, 1768*  
September 30, 1711

*Arzdasht* from Bhandari Khivsi to Maharaja Jai Singh stating that *pargana* Roshanpur is held by Al'ahband Khan in his *jagir* and since it fell under the *taluqa* of Khangarot Bhagwan Singh, he was unable to get its revenue and that he had made a complaint about it to the Prince who had issued a *hasbul hukm* and *hasbul amar* to this effect which would reach the Maharaja soon. The writer requests an early compliance of the order.

No. 55 (Vakil Report No. 100)

*Kartika Vadi 9, 1768*  
October 24, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh, informing about Mahabat Khan's meeting with the Emperor regarding the appointment of the Rajas, details of the deliberations and the order of the Emperor, the objection of the Amirul Umara in granting *subedari* of Barar to Ajit Singh, the ensuing discussion between Prince Azimush Shan and the Emperor on the appointment of the Rajas which led to the differences between the two. Further, he informs about the insistence of Bhandari Khivsi for getting particular *subas* granted and the approaches made to Mahabat Khan and others with the same object which would be presented before the Emperor.

No. 56 (Vakil Report No. 102)

*Kartika Vadi 14, 1768*  
October 29, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh informing about the receipt of *parwana* by Diwan Bhikharidas which records that Shaikh Sadullah would plead the case of the Maharaja, states that the said Shakih has started from Jahana-bad but his arrival at the imperial camp is awaited and the writer will attend upon him as soon as he comes to the camp.

Informes that the report on the discussion between Mahabat Khan and Shah Qudratullah on matters relating to *dawwab*, has already been conveyed by the *arzdasht* dated *Kartika Vadi 12*. It further notes responses and reactions on Bhandari's persistent demand to get *subedaris* of the particular *subas* (names given) for Maharaja Ajit Singh and Jai Singh. Mention is also made of the undertaking given by Bhandari to Shah Qudratullah Khan who presented them (Bhandari and Jagjiwandas) to Prince Azimush Shan who deleted some of the demands of the Rajput Rajas. The writer expresses his opinion on the deal made by Bhandari Khivsi with Shah Qudratullah Khan in term of benefits and disadvantages of a distant posting.

No. 57 (Vakil Report No. 103)

*Kartika Sudi 1, 1768*  
October 31, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh, informing about the presentation of an application and an agreement (endorsed by the representatives of the Rajas) before the Emperor on *Kartika Vadi 15*, and his orders on the following matters:

- (a) Maharaja Ajit Singh has been granted the *faujdaris* of Saurath.
- (b) The Maharaja (Jai Singh) has been granted the *faujdaris* of Ahmedahad Khora.
- (c) The orders regarding the *ijafa* of the Maharajas and their sons are awaited.
- (d) Regarding the *talab* of the *biradari*, Hidayatullah was ordered to request for the same.
- (e) Regarding *dawwab*, *pargana* Parbastar and *pargana* Mauzabad held by Maharaja Ajit Singh and Jai Singh respectively are marked for *dawwab*.
- (f) Recommendation regarding the grant of *mansab* to Rao Gopal Singh and Sukh Singh etc., has been accepted.

It is informed that the copy of the *tarzal* has been dispatched. Mention is also made of the amount of *peskash* to be paid to the Emperor, the prices of the grain, etc.

No. 58 (Vakil Report No. 106)

*Kartika Sudi 6, 1768*  
November 4, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh, informing about their meeting with Shah Qudratullah who ordered that the Rajas should help Amin Khan against the Guru, and that a fresh settlement has been made with the Shah for the payment of the *peshkash* to the Emperor and the Prince. Mention is also made of the acquisition of *pargana* Khohri on *ijara* and the problem of furnishing *zamini* (surety) of *pargana* Jaitpur, settlement of *dawwab* and writer's personal problems, etc.

No. 59 (Vakil Report No. 108)

*Kartika Sudi 12, 1768*  
November 10, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Stating the need for getting Maharaja's *parwana* regularly, the writer reports about the fresh representation of the Rajas to the Emperor including those which were accepted by him, account of the reporting made by Nawab Mahabat Khan, the affairs of *pargana* Khohri, the financial problems of the Vakil himself, etc.

No. 60 (Vakil Report No. 109)

*Kartika Sudi 14, 1768*  
November 13, 1711

*Arzdasht* from Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh, stating that the *farman* and *parwanas* for the appointment of the Maharaja as the *faujdar* of Ahmedabad Khora and Kantak are under preparation in the office of the *diwan*, the *sanad* of the *sawar* for the *biradari* is also under preparation. Mention is also made of the affairs of the *dawwab*, additional grant of *faujdari* of Halar to Maharaja Ajit Singh and problems of *izafa* unconditional. Further, he adds the *farads* (documents) of the payment of Rs. two lakhs have been given—one and half lakh to the Emperor and fifty thousand to the Prince, the affairs of *pargana* Khohri, etc.

No. 61 (Vakil Report No. 112)

*Margashirsha Sudi 6, 1768*  
December 4, 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Acknowledging with gratitude the receipt of *parwanas* and noting their contents, he informs about the state of affairs of the claim of *jagir* against the salary of the *biradari*, Mahabat Khan's demand about the payment of his dues, the order of Prince Azimush Shan to present *biradari's* horses for the *dagh*, affairs of *pargana* Bahatri, *pargana* Toda Bhim, Malarna, etc., the fixation of *har-sala* and obtaining security, dispatch of the *farman* and *siropao* to the Maharaja, the report of Harchain—the *mutasaddi* of Mathura for the Maharaja, appointment of Rustam Dil Khan as a *qiledar* of Kangra, presentation of the title of *Bahadur Zafar Jang Vafadar Padshahi* on Mahabat Khan by the Emperor, etc.

No. 62 (Vakil Report No. 115)

*Pausha Vadi 1, 1768*  
December 15, 1711

*Arzdasht* from Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Informs about the problems relating to the payment in *shahjahani* (coins) and the opinion of Bhandari about it, discussion that took place with Hidayatullah Khan about the arrangement of the *jagirs* to both the Maharajas and the adjustment of *paibaqi* of the *biradari*, the nature of approach made to Kriparaj who was *peshdast* of the Nawab and *subanavis* of Ajmer, Akbarbad and Prayag about the payment of money. Further, he informs about the problems of Mir Abdullah's *faujdari* and *amini* of Bairath, the deduction made on account of conversion of the *shahjahani* coins, etc.

No. 63 (Vakil Report No. 118)

*Pausha Vadi 1768*  
December , 1711

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. States in detail the circumstances which led to the annoyance of Shah Qudratullah, the order of Prince Azimush Shan to Bhandari to bring Shah Qudratullah, the attempts made by Mahabat Khan and Bhandari to bring him back to the Prince's

court, the appreciation by the Prince for Bhandari's success in getting Shah Qudratullah Khan back to the court, etc.

No. 64 (Vakil Report No. 116)

*Pausha Sudi 3, 1768*  
December 31, 1711

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh, informing that the *daul* of the *jagir* has been written, the details of which were sent earlier and that attempts are made to get *izafa* and the *jagir* against it in *suba* Prayag. Further, recordings are made about the appeasement of Shah Qudratullah by Mahabat Khan and his presence with Bhandari at the court of Azimush Shan, the problem of getting surety for the *pargana* of Kholri, information about the dispatch of the statement of income and expenditure with the expectation that the money taken from the *sahukars* be paid, the importance of seeking favour of the *mutasaddis* and therefore request is made to send money for them, etc.

No. 65 (Vakil Report No. 120)

*Pausha Sudi 9, 1768*  
January 6, 1712

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Stating about the agreement on the *ijara* of Dewati Sanchaur, the writer requests that the surety may be arranged from a *sahukar* who should not be like Syam Ram's representative who was given the surety of *pargana* Toda but failed to fulfill his commitment.

Reporting about the receipt of money for *darbar-kharch* and the dispatch of its *jama-kharch* to the Maharaja, the writer requests the Maharaja to send more money for the *darbar-kharch*. Further, he refers to the demand of Kalol and the affairs of *dawwab*.

No. 66 (Vakil Report No. 121)

*Pausha Sudi 10, 1768*  
January 7, 1712

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Acknowledging with gratitude the *parwana* of the Maharaja, he states that he would soon apply for getting exemption from

No. 71 (Vakil Report No. 127)

*Magha Sudi 1, 1768*  
January 27, 1712

*Arzdash* from Diwan Bhikaridas to Maharaja Jai Singh. Informing the developments at the court after the receipt of the news of the murder of Hatim Beg, the writer records that this accident has caused great damage to the reputation of both the *sarkars* (Amber and Jodhpur) and advises that the Maharaja should leave Amber immediately so that he could make an excuse of his absence from Amber. Regarding the affairs of the *biradari*, he records that the *yaddash* has yet to come from Amirul Umara. He adds that Bhandari is unhappy as he has not received any response to his letters written to the Maharaja and Sha'h Nainsukh.

No. 72 (Vakil Report No. 128)

*Magha Sudi 9, 1768*  
February 5, 1712

the three princes, the activities of Prince Azimush Shan have been given in detail.

Information is also given about the service of Khangarot Bhagwan Singh with the request that he may be helped in establishing his control over *pargana* Pohkaran so that other *umara* get confidence.

No. 74 (Vakil Report No. 136)

*Phalguna Sudi 10, 1768*  
March 7, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh, informing in detail the happenings at the court after the death of Bahadur Shah, the combined attack of Jahandar Shah, Jahan Shah and Rafus's Shah on Azimush Shan who finally faced defeat, the fate of the followers of Prince Azimush Shan and the proclamation of victory by Jahandar Shah. Informs that the writer would meet Amirul Umara in the morning, mentions about the dispatch of documents to the Maharaja whose instructions would be awaited, reminds to send money, etc.

No. 75 (Vakil Report No. 137)

*Phalguna Sudi 11, 1768*  
March 8, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh informing about the battle that took place between Azimush Shan and his three brothers, the defeat and death of Azimush Shan and the celebration of victory by Jahandar Shah.

He adds that Jahandar Shah has exhibited his power and the future would tell about what arrangements are made among the three princes. The Maharaja has been advised to send the *arzdasht* of congratulations to Jahandar Shah and a letter to the Amirul Umara

Mention is made of the fate of various *umara* who supported Azimush Shan, the financial problems faced by the writer as the *vohas* refused to advance money on credit due to uncertain political situation, etc.



No. 76 (Vakil Report No. 139)

Chaitra Vadi 9, 1768

March 20, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh, informing about his visit to the Amirul Umara and presentation of *wajibul arz*, the copy of which was sent to the Maharaja. Later the writer waited upon the Emperor on *Chaitra Vadi 3*, through the Amirul Umara. The Emperor showed favour to the Maharaja and granted the following requests :

Granted the title of Mirza Raja, the *mansab* of seven thousand *zat* and seven thousand *sawar* along with the *dastur* to which the late Mirza Raja (Jai Singh) was entitled. Further, the writer records that the Emperor had ordered to deliver the *farman* to the writer which has been sent to the Maharaja along with the *arz Jash*t. The writer extends his congratulations to the Maharaja for the favour he has received from the Emperor, informs about the accession of Jahandar Shah.

Further, mention is made of the battle that took place on *Chaitra Vadi 6*, between Jahandar Shah along with Rafiush Shah and prince Jahan Shah in which the latter was killed along with one of his sons, the attempt to make division of Empire between Jahandar Shah and Rafiush Shah for which the latter refused on the ground that the kingship could not be given as charity and a battle be fought for the right of kingship, the account of the battle between Jahandar Shah and Rafiush Shah on *Chaitra Vadi 7*, in which the latter was killed along with his son Ibrahim. The writer requests for the money for *darbar kharch* and provides information pertaining to the award of *mansab* to Maharaja Ajit Singh, etc.

No. 77 (Vakil Report No. 141)

Chaitra Sudi 6, 1769

April 1, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Referring to his earlier *arzdusht* in which detailed reporting was made, it is recorded that the request was made to the Amirul Umara to get another *farman* issued from the Emperor regarding the title and *mansab* of the Maharaja as he has duly as-

sumed the kingship after the murder of Rafiush Shah, and the Emperor has kindly agreed to order the issue of another *farman*. The Maharaja has been requested to acknowledge the receipt of the *farman* and send the *arzdasht* congratulating the Emperor on his accession.

Further, the writer informs that he had submitted the papers for retaining the traditional *jagir* with the Maharaja which was duly accepted and requests the Maharaja to send the money so that the *parwanas* could be issued.

No. 78 (Vakil Report No. 143)

*Chaitra Sudi 13, 1769*

April 8, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Referring to the dispatch of his earlier two *arzdashts* and the contents recorded in them, the writer records his visit to the Amirul Umara on *Chaitra Sudi 13*, the enquiry of the Amirul Umara about the *arzdasht* of the Maharaja and his reply that it may reach any time. The writer also records that the Amirul Umara has also agreed to issue another *farman* which would reach the Maharaja soon.

Further, he requests the Maharaja to send the *arzdasht* conveying his thanks, congratulations and the *nazra* for the Emperor on his accession to the throne and also to send letters to the Amirul Umara and Raja Sabha Chand. Informs that the *parwanas* relating to the *mansab* and *jagir* are not being issued for want of money for expenses and thus requests for more money.

Mention is made of the complaint of Muhammad Quli, the Vakil of the *zamindar* of Mahammadabad to Ikhlas Khan, the *tan-diwan* (*diwan-i-tan*) about the interference by the Maharaja in his *jagir* and requests the Maharaja to clear the account of the same. Mention is also made of the affairs of Lalsot, Toda Bhini, Devati Sanchaur, the order issued to Sarbarah Khan—the *daroga diwan-i-kacheri*, the orders issued to Ajit Singh, Rao Budh Singh, etc.

Extending the information to the original letter, the writer speaks about the increment, bestowal of the *siropao* and a horse on him (the writer), the appointment of Ghanram as the vakil of the Cheema Saheb (Bijai Singh), nature of the work done by the writer for the Maharaja and his expectation of being suitably rewarded, the state of affairs of the *hundi* amounting Rs. 5000 sent by the Maharaja, etc.

No. 79 (Vakil Report No. 144)

*Vaishakha Vadi 13, 1769*

April 22, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh, submitting that the latter should consider an increment in the salary of the Vakil (the writer) and expresses the wish to get the same (salary) as was received by the Vakil of late Mirza Raja. Further, the writer pleads for getting more honour as Maharaja Jai Singh has been granted the title of Mirza Raja.

Regarding the receipt of a *hundi* of Rs. 2000 in favour of the shop of Dhansukh Gujarati, the Vakil writes that the said firm does not have its branch but an *arhat* at the *sarrafa* which has been removed and therefore the Maharaja should send the *hundi* in the name of another *sahukar*. The writer adds that Fakhruddin Khan has got for himself the *diwani* of the *suba* of Ajmer and *faujdari* of Sambhar, replacing Muhammad Muqim and Nusarat Yar Khan respectively, after paying Rs. 70 000 to Sabha Chand. The writer requests the Maharaja to send Rs. 5,000 which were collected from Prince Azimush Shan by Diwan Bhikharidas.

No. 80 (Vakil Report No. 145)

*Vaishakha Sudi 8, 1769*

May 3, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Acknowledging with gratitude the receipt of the *parwana* of the Maharaja, he informs him (the Maharaja) that he is attending upon the Nawab and Raja Sabha Chand regularly as ordered in the *parwana*. Informing about the deliberation that took place at the court in the presence of the Emperor who spoke highly about the Maharaja, the writer complains that the Maharaja

has not yet responded to the *farman*, nor has he sent letter of congratulations and money for various expenses of the court, which have caused concern among the officials of the court and thus requests the Maharaja to do so immediately.

Further, mention is made of the departure of Prince Azzuddin against Farrukh Siyar and progress of the march of the Emperor towards Shahjahanabad, the affairs relating to the *hundi* of Rs. 10,000 drawn upon Diwan Bhikharidas and the complaint of the *jagirdars* of Lalsot and Toda Bhim, etc.

No. 81 (Vakil Report No. 146)

*Jyeshtha Vadi 1, 1769*

May 10, 1712

*Azdash* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Informing about the receipt of the *azdash* and *nazr* to the Emperor and letters to the Nawab Amirul Umara, Khan-i-Jahan Bahadur, Raja Sabha Chand, etc., the writer adds the contents of Shah Nainsukh's letter about the settlement of *muhamasazi* with Nawab Asifuddaula regarding the *faujdar* of Mathura to Cheema Saheb and records that as per his discussion with Sabha Chand nothing could be achieved without settling the *muhamasazi* with the Nawab Amirul Umara for which he cites examples. For the compliance of the Maharaja's request, the writer informs that additional amount of the *muhamasazi* has to be made available. He requests the Maharaja to quote the amount which would be paid as *muhamasazi* against each *pargana*. Mention is made of the money due to Bhikharidas, the affairs of the *pargana* of Lalsot and Toda Bhim. The writer repeats his request for money, etc.

No. 82 (Vakil Report No 148)

*Ashadha Sudi 5, 1769*

June 28, 1712

*Azdash* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Acknowledging with gratitude the *parwana* of the Maharaja, note is made of the dispatch of the *parwana* of the grant of former *jagirs* to the Maharaja and Cheema Saheb, the grant of the former *puras* of Lahore for which the *parwanas* would be dispatched soon, the affairs of *muhamasazi* for issuing the letter

regarding the bestowal of the rank of seven thousand *zat* and seven thousand *sawar* and also the affairs of Maharaja Ajit Singh at the court.

Informes that the *farmans* for Maharaja Jai Singh, Maharaja Ajit Singh and Rathor Durgadas are almost ready which would be dispatched in four or five days. The Maharaja has been requested to respond to the kindness of the Emperor favourably and attend upon him without further delay.

Mention is also made of the Maharaja's activities in the *jagirs* of Ikkhalas Khan in Ajmer, The *jagirs* of Muhammad Saiyed in Mauzabad and their reaction at the court with the request that the *hasil* collected from those areas may be returned to the respective *jagirdars*. the progress of the Emperor's march towards Shahjahanabad, the problems of the collection of cash against the *hundi* and the payments due to the *sahukars*, etc.

No. 83 (Vakil Report No. 149)

*Ashadha Sudi 11, 1769*

July 3, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwanddas to Maharaja Jai Singh, informing the dispatch of the copies of the *parwas* relating to the grant of former *jagirs* to Prince Cheemaji and the *puras* of Lahore. Writing about the celebrations on 4th *Jamadi-us-sani* and arrangements at the *darbar*, he identifies the seat occupied by Begam Imtiaz Mahal and the Emperor who adorned the *takht-i-taus* of Shahjahan.

Further, mention is made of the rumours of the Emperor's order for looting Jaisinghpura, information of the conversation between the writer and Raja Sabha Chand, recommendation sent to the Maharaja for the employment of Mohandas Natwo, the receipt of the letters of Maharaja Ajit Singh and Bhandari to the Amirul Umara with the note that a copy of Bhandari's letter has been dispatched to the Maharaja, etc.

No. 84 (Vakil Report No. 150)

*Shravana Vadi 2, 1769*  
July 9, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Jai Singh, informing about the displeasure of Raja Sabha Chand because of the delay in complying with the order of the Mughal court by him (Jai Singh). The writer records the attitude of Raja Sabha Chand towards Raja Jai Singh and also the threats made out if further delay is made in abolition of the *thanu* of Sambhar, if *javirdars* are not allowed to take possession over their *jagirs*, and if he does not present himself before the Emperor, etc. The writer further adds that hearty welcome should be accorded to the Amirul Umara at Amber. The writer informs Maharaja Jai Singh that he is taking an initiative in the issue of the *parwana* to Maharaja Ajit Singh as per request made to him by Shah Nain Sukh but this could be done only if an amount of more than Rs. 5000 is sent by the latter to him in order to meet the expenses. The writer also requests the Maharaja to send him his salary.

No. 85 (Vakil Report No. 151)

*Shravana Vadi 10, 1769*  
July 17, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh, informing that Maya Ram, the Vakil of Mewar attended upon Nawab Asifuddaula through Raja Sabha Chand and offered him the presents on behalf of the Rana in order to reclaim Rana's control over the *parganas* of Pur and Mandal. Further, the writer records the issues relating to the grant of *izafa* and *sanads* to Maharaja Jai Singh and Maharaja Ajit Singh respectively, and other issues showing the involvement of these Rajas in the activities detrimental to the interests of the Mughal Empire.

No. 86 (Vakil Report No. 152)

*Shravana Sudi 15, 1769*  
August 5, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Sawai Jai Singh, advising the disbandment of the *thanas* of Sambhar and Maharaja Ajit Singh should also follow the same and that

their *arzdashts* be sent through Shah Beg in order to present them before the Nawab. The writer informs the Maharaja that the *pargana* Gazi-ka-Thana, *pargana* Tonk, etc., and Jaitpur have been granted in *ijara* to the Maharaja who should send the surety of the *sahukars* immediately. Further, he states that the problems pertaining to the villages of *hawali pargana* Ajmer and *pargana* Nagina of *sarkar* Tijara of *suba* Shahjahanabad be settled by Ajit Singh and Jai Singh and the letters of agreement be sent along with their seals (to the *diwan*). The writer requests the Maharaja to send him money which is due to meet his personal and family expenditure as no *sahukar* was ready to give him money on credit over there, etc.

No. 87 (Vakil Report No. 153)

*Bhadrapada Vadi* 7, 1769

August 12, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Mirza Raja (Sawai) Jai Singh, informing that Shujat Khan, *daroga-i topkhana*, had approached the writer for letting out his *jagir* of Mauzabad, etc., on *ijara* to the Maharaja as the six monthly *jagir*. The writer had informed Shujat Khan that Mauzabad was held as four monthly and other *parganas* as three monthly *jagirs* and not as six monthly *jagir* as stated by him and recommends that the Maharaja should accept it on four and three monthly basis. Further, Pancholi records the affairs of *paragana* Nagina of *sarkar* Tijara and of Mahammadabad. The writer further informs that the Maharaja should keep an eye on Narnol as Aitqad Khan, the nephew of the Amirul Umara, has been taking charge as *faujdar* of Narnol. The Maharaja is requested to comply with the request of the writer for payment of his dues and salary which are due for the last seven months and also because he has fixed the marriage of his son in the month of *Margashirsha*. The writer informs that Sarbuland Khan has been advised not to follow the route via Amber as per the Maharaja's instructions, etc.

No. 88 (Vakil Report No. 154)

*Ashwina Vadi* 4, 1769

September 8, 1721

*Arzadasht* from Pancholi Jagjiwandas to Mirza Raja (Sawai) Jai

Singh. Acknowledging the receipt of *parwana* sent to the Nawab and the letter written by Shah Nainsukh, the writer informs that the *patta* of the *ijara* of the *jagirs* of Shahzada Azzuddin, Khan-i-Jahan, etc., could not be acquired due to the absence of surety particularly that of the shop of Panipathia situated in *sarrafa*. Further, the writer states the progress made by him regarding the grant of the *subedari* of Malwa and Gujarat to Maharaja Jai Singh and Ajit Singh respectively. He adds that the surety from Govind Ram Sarraf Panipathia will be required for getting the *ijara* of the *jagir* territories and the Emperor will issue the *parwana* of conferring the total *zai* rank only after the evacuation of Sambhar by the Maharaja's army.

In the end the writer acknowledges the receipt of a *hundi* of Rs. 2000 from the Maharaja and requests the Maharaja to send him Rs. 10,000 in view of the marriage of his son.

No. 89 (Vakil Report No 155)

*Ashwina Vadi 5, 1769*  
September 9, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh informing the letter about his meeting with the Raja (Sabha Chand) who had showed him a letter written by Maharaja Ajit Singh. The letter of Ajit Singh carried the seal similar to the one used by the Emperor which had annoyed Sabha Chand who wanted Ajit Singh to present himself immediately. The writer adds other causes also which were responsible for Raja Sabha Chand's annoyance.

No. 90 (Vakil Report No. 156)

*Ashwina Sudi 14, 1769*  
October 2, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Sawai Jai Singh. Acknowledging the receipt of the *parwana* dated *Ashwina Sudi 9*, he records that the grant of Hindaun to the Maharaja has been brought to the notice of the Nawab Amirul Umara. He adds that since the Maharaja has been honoured with the title of Mirza Raja, and the right of striking the seal of Mirza Raja, he should strike this title on his seal. The writer



adds that in a letter sent to Ajit Singh, the title of the Maharaja figured in the seal similar to Jahandar Shah.

No. 91 (Vakil Report No. 157)

*Ashwina Sudi 14, 1769*

October 2, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Mirza Raja Jai Singh. The writer informs that he has already sent the information about his efforts regarding the resumption of Hindaun which was in the *jagir* of Azam Khan to the *khalisa* and the termination of the *faujdari* of the said place from Gaisu Khan. The writer adds the details about the representation and objection made by Azam Khan before the Emperor and the intervention of queen Imtiaz Mahal and states that the (chance of the) grant of *paragana* to the Maharaja is now very bright. Further, he states that for the transfer of Gaisu Khan and deal with Imtiaz Mahal Rs. 10,000 was fixed; thus the said amount and other demands made by Imtiaz Mahal be complied with immediately. Further, recording the death of a servant of Bahadur Khan by the gun of a *baksre* (gunmen who originally belonged to Baksar) and the blame put on the Maharaja, the writer informs that the birth-day celebration of the Emperor was fixed on *Ashwina Sudi 12*.

No. 92 (Vakil Report No. 158)

*Kartika Vadi 4, 1769*

October 7, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Informing the Maharaja about the submission of resignation by Azam Khan, the writer records the proceedings at the court following his resignation. The case of Azam Khan and the request of the Maharaja for the grant of Hindaun was presented before the Emperor by the Amirul Umara. The writer informs that the request of Azam Khan was turned down by the Emperor.

Further, the writer acknowledges the receipt of Rs. 1,000 and an *hundi* of Rs. 5,000 for expediting the work at the court. Regarding the order of the resumption of *paragana* Hindaun in *khalisa* and the dealings at the court in this matter, a detailed report has been sent separately.

The writer, further, submits the details of his meeting along with the representative of Maharaja Ajit Singh with Nawab Amirul Umara through Sadruddin Khan, son of Tahwar Khan and records the advice of the Nawab to the Rajas regarding their conduct and submission to the Emperor. The writer states that he submitted to the Nawab that except for the physical presence of the Maharaja, all the conditions are acceptable and that the *subedari* of Malwa and Gujarat be granted to Maharaja Jai Singh and Ajit Singh without attending the court as it was done in case of Maharaja Jaswant Singh by Padshah Aurangzeb. The writer also records detailed discussion with the Nawab Amirul Umara on establishment of Amber's control over Hindaun and the favour shown by Imtiaz Mahal towards the Maharaja. Further, mention is also made of the affairs of Hindaun and the involvement of Maharaja Jai Singh in it and the happening of *mauzi* Dhol of *paragana* Amber.

No. 93 (Vakil Report No. 159)

*Kartika Vadi 11, 1769*

October 15, 1769

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh, mentioning the dispatch of his earlier report, he expresses his happiness over the Maharaja's victory over Gaisu Khan and informs him that he (the writer) had reported this news to Raja Sabha Chand & Imtiaz Mahal and that the former showed his happiness on this event. Further, the writer reports that Azam Khan is trying for the *subedari* of Ajmer and Shakur Khan for Akbarabad and that Raja Sabha Chand has written to Shah Beg and Mirza Qadar Khan on behalf of the Nawab Amirul Umara showing his satisfaction on the defeat of Gaisu Khan and that they should bring Mirza Raja and Maharaja (Ajit Singh) to the court immediately along with their *mutasaddis*. The writer adds that Azam Khan and Khan Jahan Bahadur are making great hew and cry before the Emperor on the death of Gaisu Khan; in such circumstances the writer requests that the Maharaja should delay his presence at the court for 10-20 days to watch the situation. Further, he requests the Maharaja to send the money and presents for the marriage of the daughters of Shakur Khan and Akar Khan.

No. 94 (Vakil Report No. 160)

*Kartika Vadi 14, 1769*

October 18, 1712.

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwands to Maharaja Jai Singh, informing that Nirbhe Singh, the *thanedar* of Antela and Piragpur of *pargana* Manoharpur had arrested Balkisan Mahajan and that Raja Sabha Chand has asked the writer to secure the release of that Mahajan and therefore he requests the Maharaja to ask the *thanedar* to release the said Mahajan.

No. 95 (Vakil Report No. 161)

*Kartika Sudi 7, 1769*

October 25, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Mirza Raja Jai Singh. Referring to his earlier despatch and the letter of Shah Nainsukh, the writer informs the Maharaja about the reminders of Khan-i-Jahan and Raja Sabha Chand for the presence of the Maharaja at the court. The writer requests the Maharaja to reach the court along with Maharaja Ajit Singh and their *mutsaddis*. Further, he reports about the favourable attitudes of the Emperor, Khan-i-Jahan and Raja Sabha Chand towards the Maharaja which has been achieved through the help of Imtiaz Mahal (Lal Kunwar).

No. 96 (Vakil Report No. 162)

*Kartika Sudi 13, 1769*

October 31, 1712.

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Informs that after the receipt of the news of the arrival of the *mutsaddis* of the Rajas (Ajit Singh and Jai Singh) the Nawab Amirul Umara sent Rai Gaj Singh to receive Bhandari Rai Raghunath and others at Qazi-ki-Sarai. Rai Raghunath met them at the distance of one *kos* from the *sarai* and conveyed the message of Sabha Chand to Bhandari to meet him immediately. The writer, further, records that all the persons met Raja Sabha Chand on the same day who welcomed them warmly and instructed Mirza Qadir to arrange their camp at Jaswantpura as desired by Bhandari. When Raja Sabha Chand informed the Nawab (Zulfiqar Khan) about the arrival of the officials of the Rajput Rajas, he immediately called them for the meeting at

the *diwan khana*. The writer records that the Nawab Amirul Umara welcomed their arrival and assured them about the royal favour. The *siropaos* were bestowed on the *mutsaddis*. Raja Sabha Chand asked Bhandari Raghunath and the writer to wait for few days for an audience with the Emperor.

No. 97 (Vakil Report No. 164)

*Margashirsha Vadi 5, 1769*  
November 7, 1712

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Mirza Raja Sawai Jai Singh. Mentioning the dispatch of his *arzdasht* dated *Kartika Sudi 13*, the writer records the arrival of Raja Sabha Chand after taking bath at the Gangaji, his invitation to the *mutsaddis* of Rajas and later on meeting with the Amirul Umara. The Amirul Umara asks them to submit their *arzis* to the Emperor. The writer records their audience with the Emperor at *gusalkhana* which was arranged by the Amirul Umara & that Rai Bhandari & the writer along with other officials offered their services to the Emperor who granted them the *siropaos*. Further, the writer records the proceedings of their audience with the Emperor mentioning the submission of Ajit Singh's *arzdasht* by Bhandari through the Amirul Umara and that since the writer did not receive any such *arzdasht* from the Maharaja (Jai Singh) nor any special *muhar* to be presented to the Emperor, he could not present *arzdasht* and requests the Maharaja to send the same along with the 12 bags of *khas muhar*. Further, mentioning the Emperor's movements, the writer requests the Maharaja to release Ramanand and Permanand Kayasth who were imprisoned in the battle of Hindaun as it is recommended by Raja Sabha Chand for their being *Kayasth* (Kaistha).

No. 98 (Vakil Report No. 165)

*Margashirsha Vadi 6, 1769*  
November 8, 1712

*Arzdasht* from Pancholi Jagjiwandas to Maharaja Jai Singh. Mentioning the dispatch of his earlier *arzdasht*, the writer briefly records the deliberations that took place between the Amirul Umara and Rai Raghunath and states that other information would be conveyed to him through Diwan Bhikharidas's *arzdasht*.

No. 99 (Vakil Report No. 166)

*Margashirsha Vadi* , 1769  
November , 1712

*Arzdasht* from Bhikharidas to Maharaja Jai Singh. Informs that Pancholi Jagjiwandas had already written about the affairs of the *jagir* of Malpura held by *vaqia-nigar* Rao Ghasiram, and requests that if the Maharaja desires to acquire that *pargana* on *ijara* he should send the money amounting to (the *jama* of) three months. The writer adds that Raja Sabha Chand had asked him to request the Maharaja to release two Kayasthas who were imprisoned at Hindaun.

No. 100 (Vakil Report No. 167)

*Margashirsha Vadi* 7, 1769  
November 7, 1712

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Mirza Raja Jai Singh. Referring to the dispatch of *Margshirsha Vadi* 5, the writer informs Raja Jai Singh that Bhandari and he himself went to see Raja Sabha Chand on his invitation who asked them to present their demands. He has promised to do his best to get these demands fulfilled from the Emperor. Later they were called in the presence of the Nawab Amirul Umara who promised to plead their case before the Emperor but demanded the presence of the Rajas against Farrukh Siyar. The writer records the content of their representation to the Nawab pleading that the Rajas be granted *subedari* of Malwa and Gujarat and assuring that they would sincerely serve the cause of the Emperor, instruction of the Nawab asking them to proceed to Delhi with a large contingent and keep one thousand *sawar* under Nawab Asifuddaulla and to submit their demand over there and the vakils of the Rajas to attend Raja Sabha Chand for an exchange of views. The writer, further, records that the discussion with Raja Sabha Chand revolved on the question of fixing the amount to be paid to the Nawab for his favour and that the information regarding the amount has been dispatched separately and its reply is awaited. The writer adds that Bhandari and he himself were called by Raja Sabha Chand and later the Nawab Amirul Umara informed them that their demands were accepted by the Emperor and that the *farmans* would be issued for the same.

No. 101 (Vakil Report No. 168) *Margashirsha Vadi 11, 1769*  
November 13, 1712

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Mirza Raja Jai Singh. Referring to the dispatch of the [report dated *Margashirsha Vadi 10*, the writer reports that the Nawab (Zulfiqar Khan) has agreed to his request to grant *pargana* Bahatri against the salary amounting to 80 lakh *dam* and that Bhandari has accorded his consent to the award of the *mansab* of 8000/7000 to the Maharaja. The writer requests the Maharaja that an increment of one thousand *sawar* may be made to the *mansab* of the writer, Bhandari and Jagjiwandas for which their letters (that is of Mirza Raja Jai Singh and Maharaja Ajit Singh) may kindly be sent to the Nawab (Amirul Umara). He informs that no information has so far been received about the details of the *jagirs* granted to the Maharaja and that whatever *sanads* have been issued are lying with Raja Sabha Chand which would be available after the receipt of the *hundi* of Rupees two lakh from the Maharaja and that Bhandari had already requested Maharaja Ajit Singh to send him money. He, further, adds that they shall leave the court on Friday and thus the amount be sent before that.

No. 102 (Vakil Report No. 163) *Margashirsha Sudi 1, 1769*  
November, 18, 1712

*Arzdasht* from Diwan Bhikharidas to Mirza Raja Jai Singh. In continuation of information recorded in the *arzdasht* dated above, the writer adds that the Nawab had asked Bhandari and the writer to come to Akbarabad where their demands would be considered favourably and that after the departure of the Nawab (Zulfiqar Khan) they went to Raja Sabha Chand who expressed his appreciation for their arrival. Appreciating the role of Bhandari in advancing the cause of the Rajas, the writer records that Raja Sabha Chand was happy at the presence of the Vakils of the Rajas in the court which would help him in pleading their case strongly. The writer reminds about the presents to be offered and for that he requests for the arrangement of money informing that at present he has arranged an amount of Rs. 2500 from *sahukars*. Further, he adds

to Farrukh Siyar for his victory and records that it is not certain whether Azzudin is hiding or killed or taken to flight, and that information about him would be conveyed later.

No. 108 (Vakil Report No. 174)

*Magha Vadi 2, 1769*  
January 2, 1713

*Arzdasht* from Jagjiwandas to Mirza Raja Jai Singh, informing that Zulfiqar Khan has been killed on *Magha Vadi 2* and his severed body and head were lying near *naqarkhana* and that Azzuddin (prince) was captured from Jahanabad and was killed. What happened to Asifuddaulla is to be seen. Further, Thakur Syam Singh had a meeting with Husain Ali Khan but no conclusive discussion took place between the two.

क्रम संख्या ४७

वकील रिपोर्ट संख्या ७७

भाद्रपद वदी ५, संवत् १७६८

श्री गोपालजी सहाय

श्री महाराजाधिराज महाराजा

श्री जैसिध जी

स्वस्ति श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री.....चरण कमलां नु खानांजाद खाकपाय पां० जगजीवनदास लिखतं तसलीम बंदगी अवधारजी जी । अठा का समाचार श्री महाराजा जी रा तेज प्रताप थे भला छै श्री महाराजा जी रा सींग समाचार सासता प्रसाद कराव जी जी । श्री महाराजा माईत है धणी है श्री परमेशुर जी री जायगा है । म्हे श्री महाराजा जी रा खानाजाद बंदा हों । श्री पातिसाह जी श्री महाराजा जी सु महरवान है । श्री महाराजा जी गुण पाव जाँ जी । पांन गंगाजल आरोगण रा जतन फुरमाव जी जी ।

अप्रच खानांजाद नवाजी रा परवानां आयां बोहत दीन हुवा मु बंद नवाजी रा परवाना सासता पै दर पै ईनायत होय जी । अरजदामना पै दर पै भेजी है त्हां सु समाचार मालुम हुवा होसी जी ।

गजसिध खंगारोत व मिधी मनोहरदाम की माव परवानो परगनां ईजाग लेण वेई ईनायत हुवो सु ईजारां री रदबदल हूई मु वाकी अरजदामन मालुम होमी जी ।

भादवा वदि ३ सोम भंडारी खीबमी महायत छा श्री मु बहो म्हाया मतलब होय तो जहानावाद मु उरै आनां तब नवाब कत्री—जब आंम उरन आबोंग तब अरज करीगे अर घर वेटे ही मतलब चोहो मु अद अरज कौई करे नही । रदबदल दोहन हूई पण नवाब जवाब दीयो नही ।

खानाजाद तो चार महीना मु नीडायतुया न्हा का मीयत के अरजदामना



केरी अर अठे भंडारी जी नै व दीवान जी सुं कही हजुर सुं तो ई बात को जवाब ही आयो नही अर दीवान जी वोहतेरो कहो पण भंडारी जी कहै महाराजा अजीत सिध जी का हुकम वीना नही मीलां । आखर साहजादै जी ही कहो तुम हीदाय-तुला खां सु मीलो, शाह कुदरतुला जी ने फुरमायो थे जाय मीलावो । सु अब कुदरतुला जी हीदायतुला खां जी सु कही ज अमर हुवो है ज राजां का मुतसदीय, राणाजी का व छत्रसाल बुंदेला का मीलावो, तव सुण कही—भला । ये समाचार महावत खां जी सु कहा सु दीज मे तो दुख पायो, जाहर कही—भलां । फेर कुदरतुला जी सु कही मे ईनायतुला खां हीदायतुला खां की मीज्मानी करूंगां । तव ईहांही सब मुतसदी उनसुं मीलाय देगे । सु ये समाचार तो पै दर पै हजुर को लिखे हे । अब भादवा वद ३ वेर कुदरतुला जी नवाब सुं कही—मुझे ताकीद है सब के मुतसदी हीदायतुलाखां सुं मीलावो । तव नवाब कही—अब दीन दौय तीन मे मीज्मानी करता हुं सु अब मीज्मानी करसी तव मीलासी । हीदाय-तुला जी सरपाव तयार कीया है अर खानाजाद सुं कहे था—हम कहे थे तव न आये अब आवेगे, पण खानाजाद रोज हाजर रहौ । श्री जी को ईखलास सदा जाहर करतो रहो हुं जी । सु अब सब मीलसी जो रदवदल होसी सु अरजदासत करसुं जी ।

जैसिध पुरो जहानावाद को तीकी जमीन को शाह आजमशां जी का लोग मुजाहम<sup>1</sup> था तीको हसबल अमर से फेरवां खानसामां की मोहर सु तयार कराय दीवानजी के हवाले कीयो । नकल हजुर भेजी है ।

जैतसिधजी व भट प्रभाकरजी का नाव की दसतग मगाई थी सु अब हीदाय-तुला खां जी सु दीन दौय चार मे दीवानजी मील चुकै अर वा दसतक कराय भेजु हुं जी ।

श्री जी सलांमत । वीरादरी का मनसबदारां की याददासतां अब ताई तो मौकुफ थी ज हजूर आयां पछै कर देसां । अब साढोरा की तईनाती हुई । महाराजा अजीत सिधजी कै वीरादरी के लोगा की सनद करावे है जो दफतर को खरच ईनायत होय तो खानाजाद भी श्री जी की वीरादरी की सनद कराउं जी ।

दौय तीन महीना तो पातिसाह अठै है फेर देखजे कहां चले । अर अजमेर का महलां की सुफेदी करावा को हुकम हुवो है ।

खानाजाद हमेस अरजदासत पै दर पै महाराजा अजीत सिधजी की जोडी को साथ व सरकार की जोडी दीवान जी चलावै है तीके साथ चलावा हां पण जवाब ईनायत कदही-कदही होय है सु उमेदवार हुं खानाजाद नवाजी का पर-वाना पै दर पै ईनायत होयजी ।

1. मुजाहम (मुजाहिम)=रक्षावट ।